







# हिन्दू जाति का उत्थान

## और पतन

9920

लेखक

ज्योतिषाचार्य, विद्यानिधि,

श्री रजनीकान्त शास्त्री, वी० ए०, वी० ए०

साहित्य-सरस्वती, ज्योतिर्भूषण

~~प्रकाशन~~

177.50954

Raj

किताब महाल

इलाहाबाद



प्रथम संस्करण, १९४७<sup>०</sup>  
द्वितीय संस्करण, १९४८

CENTRAL ARCHAEOLOGICAL  
LIBRARY NEW DELHI.

Acc. No. .... 9920

Date. .... 14. 10. 1958

Call No. .... 177.50 954 / Ray

सर्वाधिकार सुरक्षित

230

30. 4. 1951

934 / Sch.

प्रकाशक—किताब महल, ५६-ए, जीरो रोड, इलाहाबाद

मुद्रक—इलाहाबाद प्रेस, त्रिवेनी रोड, इलाहाबाद

## भूमिका

इस पुस्तक के लिखने का ध्येय हिन्दू जाति को उसके वास्तविक रूप का, एक मालिन्यमुक्त आइने की तरह, केवल दर्शन करा देना है ताकि वह अब से भी अपना होश सँभाले। अब तक यह जाति आत्मशलाघा एवं परनिन्दा जैसे हेय दुर्गुणों के नशे में सदा चूर रहकर अपनी तथाकथित प्राचीनतम सम्यता और संस्कृति की दींग हाँकती, तथा अपने को आर्य, पर संसार की अन्य जातियों को म्लेच्छ, बर्बर आदि धृणा-व्यंजक शब्दों से याद करती हुई चली आई। इस जाति का सदा यह दावा रहा है कि वह जगदगुरु है। जिस काल में संसार की अन्य जातियाँ वर्वरता के अर्थाह अन्धरूप में पड़ी हुई थीं, उस काल में ही वह सम्यता के उच्चतम शिखर पर आरूढ़ थी और उसने अपनी सम्यता का प्रकाश अन्य जातियों तक पहुँचाया था। इस पुस्तक में हिन्दुओं के इस दावे पर निष्पक्ष होकर विचार किया गया है ताकि जनता को मालूम हो जाए कि उनका यह दावा मान लेने के योग्य है या नहीं। यदि इस पुस्तक को इस प्रकार के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष विचारों का भरडार कहा जाए तो कोई भी अत्युक्ति नहीं।

सर्वप्रथम पाठकों को जान लेना चाहिए कि 'हिन्दू' शब्द किसी भी मारतीय भाषा का शब्द नहीं है। प्राचीन पारस-वासी सिन्धु-नदी के समीपवर्ती भूभाग को 'हिन्द' और इसी सम्बन्ध से वहाँ के निवासियों को 'हिन्दू' कहा करते थे और भारत-निवासियों ने, अपने वहाँ किसी ऐसे राष्ट्रीय नाम के अभाव के कारण जिसके द्वारा उनका सामूहिक रूप से बोध हो सके, इसे चिरकाल से अपना लिया है। इस देश

में किसी भी राष्ट्रीय नाम के आभाव का कारण यह था कि भारत-निवासी अनेक जातियों तथा उपजातियों में विभक्त थे, जो अपने डेढ़ चावल की स्विचड़ी अलग-अलग पकाया करती थीं, जिससे उनमें राष्ट्रीय-भावना अंकुरित होने नहीं पाई और जो अन्त में जाते-जाते उनके वर्तमान अधिकारितन का कारण बना ।

हिन्दू जाति की यह चिरबद्ध-मूल धारणा है कि वह उन प्राचीन आर्यों की शुद्ध सन्तान है जिन्हें ऋग्वेद के मंत्रों का प्रस्फुरण हुआ था । पर उनकी यह धारणा विल्कुल निर्मल है । सच पूछिये तो वर्तमान हिन्दू जाति एक भानमर्ती का पिंटारा है जिसमें न मालूम कितने प्रकार के रक्तों का सम्मिश्रण हो गया है, यहाँ तक कि बड़े-बड़े प्राचीन राजवंशों तथा ब्राह्मण-गोत्र-प्रवर्त्तक महर्षियों का रक्त भी अल्पतरक से अल्पत नहीं रह सका है । पहले तो धर्म-शास्त्रों ने ही स्वयं असवर्ण विवाह को प्रोत्साहितकर हिन्दू जाति का रक्त मिथ्रित कर दिया । पर पीछे तो नियोग जैसी धृषित प्रथा एवं इसी की देखा-देखी वैध किम्बा अवैध, सवर्ण किम्बा असवर्ण, सभी प्रकार के यौन-सम्बन्धों का बाजार इतना गरम हुआ कि वह ब्राह्मण से लेकर चारडाल तक सभी जातियों को से हुबोया । पर प्रत्येक क्रिया की उतनी ही जबर्दस्त प्रतिक्रिया भी होती है, जिसके फल-स्वरूप आगे चलकर जाति-मेद-पोषक ऐसे कड़े-कड़े नियमों की सुषिठ हुई कि प्रत्येक जाति एक बायु-बद्ध कोठरी (Air-tight compartment) में बन्द हो गई और उसके लिए दूसरी जाति का अन्न-जल भी हराम हो गया और 'तीन कल्पजिये तेरह चूल्हे' वाली कहावत का तमाशा प्रत्यक्ष देख पड़ने लगा । इस प्रसंग में कतिपय द्विजमन्य जातियों के वर्ण-विषयक दावे पर सप्रमाण आलौचनात्मक विचार किया गया है जिसका अभिप्राय कोई और न होकर केवल इस प्रगति-रील युग में भी वर्ण-व्यवस्था जैसी हानि-कारक तथा

दकियानूसी प्रथा को, जिसने उन जातियों को लिए-दिए समूची हिन्दू जाति को अधःपतन के गहरे गर्त में ढकेल दिया है, कायम रखने की मूर्खता तथा व्यवेता दिखानी है,। जिससे यह प्राचीन जाति अब भी चेत जाए और अपने यहाँ से उसके जीवन-रक्त को अहर्निश चुपने वाले जाति-मेद का भूत सदा के लिए भगाकर अपना उद्धार और सुधार करती हुई संसार की अन्य उच्चत जातियों की समकक्ष बन जाए। मुझे तो उन कठिपय जातियों की बुद्धि पर तरस आता है जो वर्ण-व्यवस्था के ठेकेदारी द्वारा शूद्र, वर्ण-संकर वा अन्त्यज आदि करार दी जाने पर भी इस कुत्सित प्रथा की कट्टर समर्थक बनी हुई है और 'मान न मान, मैं तेरा मेहमान' वाली लोकोक्ति को चरितार्थ करती हुई जनेऊ धारणकर द्विज बनने चली है। क्या आत्म-गौरव-हीनता इससे भी अधिक हो सकती है ? उन्हें तो भारत को गारत में मिलाने वाली इस पाखंड-पूर्ण व्यवस्था के विरुद्ध गौतम बुद्ध की तरह, जेहाद को धोषणा कर देनी चाहिए। जाति-मेद की यह विभीषिका इतनी प्रबल है कि धर्मान्तर में चले जाने पर भी वह पिरेड नहीं छोड़ती। इसाई वा इस्लाम-धर्म में दीक्षित किसी चमार से उसकी मूल जाति पूछने पर वह इस प्रश्न से अपना पहा यह कह कर छुड़ाता है कि उसे मालूम नहीं; उसके खानदान को इसाई वा मुसलमान हुए कई पुश्त बीत गये; अथवा वह किसी तथाकथित ऊँची जाति का नाम बतला देता है ताकि लोग उससे घृणा न करें।

अब जरा इस हिन्दू जाति का 'अपने मुँह मिथामिट्ठू' बनना देखिए। जिस जाति के मनु, याज्ञवल्क्य प्रभृति समाजशास्त्रीगण शूद्र संज्ञाधारी, पर भारत माता के नाते अपने ही सहोदर भाइयों के विद्या-धनोपार्जन-सम्बन्धी सारे जन्म-सिद्ध अधिकारों को हड्पकर उन्हें सदा मूर्ख और दरिद्र बनाए रखने का कुत्सित प्रयत्न करते रहे, उस जाति का 'जगद्गुरु' होने का दावा करना एक ऐसी निर्लज्जता

है जिसे देखकर स्वयं निर्लंबता भी लजा जाती है । आज भारत में प्रायः १० करोड़ ऐसे मानव प्राणी हैं जिन्हें हम उच्च-मन्य हिन्दू अछूत कहा करते हैं । इन अभागों के पास हमारे गुरु-दिवाकर की शिक्षा-रश्मि आज तक नहीं पहुँची । ये सर्वदा सूकर-श्वान का जीवन विताते चले आए । इन अछूतों के अतिरिक्त भारत में कई लास्त कोल, भील प्रभृति बनचर हैं जो गिरिन्काननों में नग्न-प्राय रहकर पशु-जीवन जी रहे हैं । इनके उद्धारार्थ हमने आज तक कौन-सा उपाय किया जो हम 'जगद्गुरु' बनने चले हैं ? वास्तविक 'जगद्गुरु' तो उन विदेशी इसाई मिशनरियों को कहना चाहिए, जो इन अभागों को पढ़ा-लिखा तथा बख्ख पहनना सिखाकर पशु से आदर्मी बना रहे हैं । यह देखकर यह कैसे माना जा सकता है कि जो जाति अपने ही सहोदरों को अज्ञान के महाअन्धकृप में रखकर बराबर अपना उल्लू सीधा करती आई, उसने कभी भी विदेशियों को, जिन्हें वह 'म्लेच्छ' कहा करती है, कुछ सिखलाई होगी । कहावत मशहूर है कि 'पहले अपने घर में ही चिराग जलाकर मसजिद में चिराग जलाया जाता है' । हमारे घर को रौशन करें दूसरे लोग और 'जगद्गुरु' बनने का दावा करें हम ! क्या हमारे द्वाव मरने के लिए पृथ्वी-तल पर चुल्लू भर भी पानी नहीं है ?

हिन्दुओं का यह अभिमान भी कि उनकी सम्यता संसार में ग्राचीनतम है, इसी प्रकार बिना नीव की दीवार है जो समालोचना के एक हल्के धक्के से भी चकना-चूर होकर धराशायी हो सकती है । इस भूमण्डल में कितनी ऐसी भी जातियाँ हैं जिनकी सम्यता हिन्दू-सम्यता से कम ग्राचीन नहीं है । क्या मिश्रवालों के स्त्रियों और पिरेमिड, बाबूल वालों के आकाश में लटकते हुए बाग तथा चीनियों की विशाल दीवार उनकी ग्राचीन सम्यता के स्मारक नहीं हैं ? क्या उनके ये कीर्ति-स्तम्भ उनके अद्वितीय कला-कौशल के परिचायक

( ७ )

नहीं है ? क्या हिन्दू भी अपनी सम्यता के इससे भी प्राचीन होनी का कोई ठोस प्रमाण दे सकते हैं ? कभी नहीं ।

हिन्दू जाति में, जैसा कि अभी पूर्व में कह आया है, आत्म-इलाधा तथा परनिन्दा की प्रवृत्ति इतनी कृट-कृटकर भरी हुई है कि वह अपने को तो 'आर्य' ( श्रेष्ठ ), पर विदेशियों को 'म्लेच्छ' कहा करती है । बौद्धायन ने गोमांस-भक्षण तथा सर्वाचार-विहीनता ही म्लेच्छों के मुख्य लक्षण कहे हैं । यदि ऐसी वात है तो क्या हिन्दुओं ने अपने प्राचीन पूर्वजों के भी खान-पान पर कभी कुछ विचार किया है ? क्या उन्हें मालूम है कि उनके पूर्वजों में सभी प्रकार के भक्षण पशु-पक्षियों के मांस की तरह ही गोमांस का भी भक्षण तथा मध्यसेवन, द्विज किम्बा अद्विज, सभी वर्णों में कूटकर प्रचलित थे ? क्या उन्हें मालूम है कि राजाओं तथा श्रोत्रिय ब्राह्मणों का आतिथ्य मधुपक्क में गोमांस अथवा छाग-मांस मिलाकर ही किया जाता था ? क्या वे जानते हैं कि गोमेष यश में गोपशु का बधकर और उसके विविध अंगों को काट-काटकर यश कराने वाले प्रस्तोता, प्रतिहर्ता, उद्गाता आदि विविध पुरोहितों में उनका विभाग किया जाता था, जिसका प्रमाण गो-पथ-ब्राह्मण के 'अथातः सवनीयस्य पशोर्विभागं व्याख्यास्यामः' ( ३।१८ ) आदि वचन है ? क्या वे जानते हैं कि राजा रनिदेव जैसे महाधर्मिष्ठ कहे जाने वाले राजा की पाकशाला में अतिथि-सेवा के लिए प्रतिदिन दो सहस्र गोर्हे कटती थीं ? यदि नहीं, तो वे अपनी श्रुति-स्मृतियों तथा महाभारत आदि इतिहास ग्रन्थों के पन्ने उलटे और अपने हृदय पर हाथ रखकर अपनी आत्मा से निष्पक्ष होकर पूछें कि उनके पूर्वज आर्य ये वा म्लेच्छ ? यह बात दूसरी है कि आधुनिक हिन्दुओं ने गोपशु की उपयोगिता तथा भारत की जलवायु में उसका मांस-भक्षण हानिकारक समझकर उसका

शास्त्र पृष्ठ अष्ट वृष्टि की जलवायु  
यादि वर्षों का है ।

सर्वथा परित्याग कर दिया है; पर उनके मद्य-मांसादि अन्य स्वान-पान ज्यों के त्यों हैं ।

प्राचीन हिन्दुओं की वर्वरता गोमेघ तक ही सीमित न थी; बल्कि वह नर-मेघ तक जा पहुँचा थी, जिसमें देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नर-बलि हुआ करती थी । इसका प्रमाण ऋग्वेद के शुनःशेफ वाला सूक्त ( १२४ ) है; 'जिसमें हरिश्चन्द्र जैसे अद्वितीय धर्मांत्मा कहे जाने वाले राजा ने वरुण देव को प्रसन्न करने के लिए अपने पुत्र के बदले में ऋषि अजीगर्च के पुत्र शुनःशेफ को खरीद-कर उसे बलि चढ़ा देने की आयोजना की थी कि वह बेचारा किसी प्रकार अपनी जान बचाकर भागा और विश्वामित्र की शरण में चला गया ।

इस प्रसंग में अश्वमेघ नामक यज्ञ पर भी कुछ विचार करना अनुचित न होगा । जिस साम्राज्यवाद को आज निःशेष सभ्य-जगत् एक स्वर से कोस रहा है उसको अश्वमेघ यज्ञ द्वारा अपने पशु-बल से कायम रखना वा ऐसे भी स्वर्ग-प्राप्ति के लिए उस यज्ञ का अनुष्ठान करना प्रत्येक द्वित्रिय-नरेश का जन्म-सिद्ध अधिकार तथा एक अति ही धार्मिक कृत्य समझा जाता था । इस यज्ञ में मुख्य राज-महिषी अपने हाथ से यज्ञीय अश्व ( धोड़ ) का वध करती थी और यज्ञ-सम्पादनार्थ नियुक्त विविध पुरोधा-गण उस धोड़ के सभी अंगों-प्रत्यंगों को काट-काटकर हवन-कुरुक्षेत्र में उनकी आहुति देते थे । इसके अनेक स्पष्ट तथा अखंडनीय प्रमाण हिन्दुओं के धर्म ग्रन्थों में भरे पड़े हैं ।

पर इधर कुछ काल से एक ऐसे दल का प्रादुर्भाव हो गया है जो गोमेघ, अश्वमेघ नरमेघ आदि शब्दों तथा तत्सम्बन्धी विवरणों का अर्थ बदलकर प्राचीन हिन्दुओं की पूर्वोक्ति काली

करतूतों पर पदां डालने का व्यर्थ प्रयत्न करता है। व्यर्थ इसलिए कहा कि उसके नवीन अर्थों का समर्थन, उनके अप्रासंगिक तथा कपोल-कल्पित होने के कारण, अधिकारी एवं निष्पक्ष विद्वानों के द्वारा नहीं होता और जहाँ उसकी अर्थ बदलने वाली युक्ति फेल करती है वहाँ वह वाममार्गियों की प्रचेप-लीला कहकर स्पष्ट प्रमाणों को भी अमान्य कह देने में तनिक भी नहीं हिचकता। जैसे जब राजा दशरथ और युधिष्ठिर के अश्वमेव में वास्तविक अश्व-पशु का बध किया जाना एवं रामचन्द्र और जानकी जैसे आदर्श नर-नारियों का मद्य-मास-सेवन प्रमाणित करने के लिए उसके सामने वाल्मीकीय रामायण तथा महाभारत पेश किए गए तो वह मठ उक्त ग्रन्थों के सम्बन्धित अंशों को यह कहकर प्रमाण मानने से इन्कार कर गया कि वे तो वाम-मार्गियों के प्रक्षिप्त अंश हैं तथा उन्होंने हमारे सभी पवित्र ग्रन्थों में अपने मतलब के प्रचेप भरकर उन्हें दूषित कर दिये हैं; अतः उन्हें प्रमाण-कोटि में कभी नहीं खेलना चाहिए। यदि ऐसी बात है तो वे वाम-मार्गी संस्कृत के प्रकारड विद्वान् अवश्य होंगे तथा सभी प्रमाण-ग्रन्थ उन्हीं के घर चले गए होंगे; कारण कि यदि दूसरे लोगों के पास वैसा एक भी ग्रन्थ रहता तो उसका शुद्ध तथा प्रचेप-रहित संस्करण हमें आज अवश्य उपलब्ध होता। ऐसे शुद्ध ग्रन्थ के अभाव से हम इसी परिणाम पर हठात् पहुँचते हैं कि एक समय था जब कि श्रुति-स्मृतियों से लेकर साधारण तंत्र ग्रन्थों तक हमारे सभी धर्म किम्बा अधर्म ग्रन्थों के अधिकारी वाम-मार्गी थे; उनकी संख्या कम न थी; और वे कोई विदेशी 'म्लेच्छ' न होकर हमारे ही पूर्वजों में से थे, जिससे उनके काले कारनामे हमें अपने ही पूर्वजों के काले कारनामे मानने पड़ेंगे। यदि वाम-मार्गी-संज्ञा-धारी हमारे इन पूर्वजों की आचार-भ्रष्टता देखनी हो तो रुद्र-यामल आदि तंत्र ग्रन्थ पढ़िए।

चाहे किसी भी पहलू से इस विषय पर विचार किया जाए, हिन्दुओं की आर्यमन्यता निराधार सिद्ध होती है। इस दल की कठ-दलीलों का मुँहतोड़ उत्तर पुस्तक में ही पढ़िए जहाँ इसका सुविस्तृत खंडन किया गया है।

अच्छा अब प्राचीन काल को छोड़कर अर्वाचीन काल में आइए और हिन्दू जाति की सम्यता (?) की बानगी लीजिए। अभी कल तक हम अपनी अनाथ विधवाओं को, उनका धन निगल जाने के लिए, उनके मृतक पतियों के धधकते हुये चितानल में जबर्दस्ती भोक देते थे; अपने दुधमुहें बच्चों को नक भवादि कराल जल-जन्मुओं के जबड़ों में गङ्गा सागर ले जाकर किसी मूर्खतापूर्ण मनौती की पूर्ति में फेंक आते थे; अपनी सदोजात कन्याओं को भविष्य में केवल साला-ससुर कहलाने की लाज से प्रशृतिका-एह में ही, उनका गला घोटकर वा किसी अन्य कूर उपाय से मार डालते थे; काशी करवट, हरियोल, चरक पूजा आदि अनेक वर्वरता-पूर्ण प्रथाओं को धर्म के नाम पर चलाकर हम अपने न मालूम कितने अभागे स्वदेश भाइयों की जान के साथ उनका माल भोलूट लिया करते थे। पर कृतज्ञतावश हमें धन्यवाद देना चाहिए इस ब्रिटिश सरकार को जिसने कानून के द्वारा उक्त पैशाचिक कृत्यों को बन्द किया नहीं तो न मालूम हम अब तक अद्योगति के किस निम्नतम स्तर पर जा गिरे रहते। लानत है हमारी सम्यमन्यता पर जिसका सुधार एक विदेशी सरकार करे !

पर हमारी ऐसी एक गिरी जाति भी स्वराज्य प्राप्ति के लिए आकाश-पाताल के कुलावे एक कर रही है। मैं मानता हूँ कि स्वतंत्रता मनुष्य-मात्र का जन्म-सिद्ध अधिकार है। पर इस जाति ने क्या कभी भी इस बात पर विचार करने का कुछ भी कष्ट उठाया है कि इसे दासता के दुर्घेव शिकंजे में किसने जकड़ा तथा उससे नजात पाने का कौनसा ठीक उपाय है ? कभी नहीं ! उसे जान लेना

चाहिए कि उसे दास बनाने वाले कोई दूसरे नहीं; चलिक तथा-कथित प्रभु की बाणी ( ? ) वेद भगवान् हैं, जिन्होंने 'ब्राह्मणोऽस्य मुख्यमासीत्' आदि जैसे राष्ट्रीयता-ध्यानसक मंत्रों का प्रचारकर हिन्दू जाति में वर्ण-व्यवस्था जैसे फूट का वह बीज बो दिया जिससे वह सदा के लिए निकम्भी हो गई। वर्ण-भेद तथा उसका अवश्यम्भावी परिणाम जाति भेद ने हिन्दू जाति का कमर इस प्रकार तोड़ दिया कि वह विदेशियों का संगठित-रूप से सुकाबला न कर सकी और पहले ही मुठ-भेड़ में अंटाचित्त हो गई। जिस कारण से हम दूसरों के गुलाम बने, उसके रहते हुए हम कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकते। जब तक कारण विद्यमान है तब तक कार्य का विद्यमान रहना अनिवार्य है। अतः यदि हमें अपनी दासता दूर करनी हो तो स्वतंत्रता-प्राप्ति के प्रयत्न के पूर्व अपनी दासता का कारण वर्ण-व्यवस्था को मार भगाना होगा। रोग के कीटाणुओं के रहते निरोग शरीर की आशा करना बन्ध्या-पुत्र, अथवा शशक-शुद्धि, अथवा आकाश-पुष्प को आशा की तरह चिल्कुल फ़जूल है।

अब यहाँ पर एक विचारणीय प्रश्न उठता है। वह यह है कि जाति-भेद के रहते हुए भी विदेशियों के आने के पूर्व भारत स्वतंत्र कैसे था ? इस प्रश्न का उत्तर उस प्रश्न में ही मिल जाता है कि, चूँकि विदेशी भारत में नहीं आये थे, इसीलिए वह स्वतंत्र था। उनके आते ही वह गुलाम बन गया। गुलामी की मशीन सभी पुजों के साथ पहले से ही बनाकर रखी हुई थी; केवल उसे चला देना था। वा स्पष्ट भाषा में यो समझिये कि भारत की तथा-कथित स्वतंत्रता एक भ्रम-मात्र थी; वह असली स्वतंत्रता न होकर उसका केवल आभास-मात्र था, जो वस्तुतः प्रकृति की देन थी। चारों ओर पर्वत-समुद्रादि प्राकृतिक दुर्गों से घिरे रहने के कारण भारत विदेशियों के लिए अगम्य था। पर ज्यों ही वे मार्ग ढूँढ़कर यहाँ आ पहुँचे, त्यों ही

हमारी नकली स्वतंत्रता का पोल खुल गया और हम दास बन गये। वर्ण-व्यवस्था ने ब्राह्मणों, वैश्यों और शूद्रों को, अथवा यो कहिये कि हिन्दू जनता के कम से कम तीन-चौथाई हिस्से को सैनिक-शिक्षा से बिल्कुल कोरा रखा। केवल द्वात्रियों से, जिनमें भी परस्पर नीचोच का भाव बने रहने के कारण संगठन का अभाव था, इस देश की रक्षा न हो सकी और विदेशियों के पहले ही धक्के में उन्हें मुँह की खानी पड़ी। अतः जब तक वर्ण-व्यवस्था के प्रवर्त्तक हमारे सभी तथा-कथित धर्म-ग्रन्थों को बाँधकर उन्हें किसी अजायब-घर की आलमारियों में सदा के लिए नहीं रख दिया जाता; जब तक ब्राह्मण द्वात्रिय, वैश्यादि जाति-नामों से परचव देना क्लानून से दण्डनीय नहीं करार दिया जाता; तथा जब तक हम अपने गिरे हुए भाइयों में शिक्षा का प्रकाश फैलाकर एवं उनकी दयनीय आर्थिक स्थिति सुधारकर उन्हें योग्य नागरिक नहीं बना देते, तब तक स्वतंत्रता देवी के दिव्य-दर्शन इमें नसीब नहीं होंगे।

अन्त में मैं अपने पाठकों की सेवा में यह नम्भ-निवेदन कर देना चाहता हूँ कि मैंने इस पुस्तक में जो कुछ लिखा है उसे मैंने अपने मन से गढ़कर नहीं लिखा है; बल्कि उसकी प्रमाणिकता सिद्ध करने के लिए प्रमाणय ग्रन्थों से प्रमाण भी उद्भुत कर दिये और उनके पते भी बता दिये हैं। जो चाहें वे उन्हें मूल ग्रन्थों को लेकर स्वयं भी देख सकते हैं। अतः पाठकगण इस पुस्तक को शान्त-चित्त तथा निष्पक्ष होकर पढ़ने तथा मनन करने की कृपा करें। इति किमधिकं तुदिमद्येयं ।

वक्त्वर ( शाहाबाद )  
विजया दशमी, संवत् २००१  
( बुधवार )  
तारीख २७-६-१९४४ (इ० सन्)

विनीत  
श्री रजनीकान्त शास्त्री  
ग्रन्थकार

# विस्तृत विषयानुक्रमणिका

विषय	पृष्ठांक	विषय	पृष्ठांक
		खंडेलवाल	३४
प्रथम परिच्छेद		वियाहूत-वंश	३४
हिन्दू शब्द की उत्पत्ति		माहेश्वरी	३५
पहला मत	१ (१)	शद्र	३६
दूसरा मत	२	विवादअस्त वर्ण की जातियाँ	३८
तीसरा मत	३	भूमिहार	३९
‘हिन्दू’ शब्द की संस्कृत व्युत्पत्ति	८	कायस्थ	६५
‘हिन्दू’ संज्ञा किसकी है	९	चित्रगुप्तवंशीय कायस्थ	६६
द्वितीय परिच्छेद		‘चित्रगुप्त’ शब्द के विविध अर्थ	७०
हिन्दू जाति की उत्पत्ति		चान्द्रसेनीय कायस्थ	७४
आर्य और अनार्य	११ (क)	कायस्थ का दावा	६४
रक्त सम्मिश्रण	१२ (स)	ब्राह्मणत्व का दावा	६६
(क) ब्राह्मण	१२	खत्री	१०३
सवा लाखे ब्राह्मण	१६		तृतीय परिच्छेद
(स) ज्ञत्रिय	२०		रक्त -सम्मिश्रण के कारण
ग्राचीन ज्ञत्रिय	२० (१)		१०७
(१) चन्द्र वंश	२१ (२)	अवैधयौन सम्बन्ध	११०
(२) सूर्य वंश	२४ (३)	असवर्ण विवाह	११४
आधुनिक ज्ञत्रिय राजपूत	२७	नियोग	११४
(ग) वैश्य	३२	द्वादशविधि पुत्र	१२४
ओसवाल	३३	पुत्रिका-पुत्र	१२६
अग्रवाल	३३ (४)	विदेशियों का हिन्दूकरण	१३४

विषय	पृष्ठांक	विषय	पृष्ठांक
राजपूत	१३५	वेदार्थ करने की शैली	१३६
शाकद्विपीय ब्राह्मण	१३७	स्वामी दयानन्द और अन्ध-	
(५) जात्यन्तर-ग्रहण	१४०	विश्वास	२१८
सबालासे आदि ब्राह्मण	१४०	स्वामी दयानन्द और नियोग	२१९
यादव चत्रिय से अहीर	१४१	स्वामी दयानन्द और वेद	२२०
भट्टी राजपूत से नाई आदि	१४१	स्वामी दयानन्द और वेदों में	
ब्राह्मणिए बड़ई आदि	१४२	इतिहास	२२१
वैद्य	१४६	वेद पौरुषेय है या अपौरु-	
<b>चतुर्थ परिच्छेद</b>		<b>वेद</b>	
प्राचीन हिन्दुओं का खान-पान	१४८	पञ्चम परिच्छेद	
भद्र मांस	१४८	सामर्थ्य और दोष	२२४
आद में ग्राह्य मांस	१५३	विष्णु	२३०
अभद्र मांस	१५५	शिव	२३६
गोमांस	१५६	ब्रह्मा	२३८
सौधातकि-भारडायन संवाद	१६०	बृहस्पति	२४०
यहाँ महोक्तादि श्रीष्ठि		इन्द्र	२४२
विशेष नहीं	१६३	चन्द्र	२४६
देव-पूजादि में मांस व्यवहार		सूर्य	२४७
के उदाहरण	१६६	श्रीकृष्ण	२५०
मद्य-मांस के अवैध व्यवहार		बलराम	२६६
के उदाहरण	१६६	पराशर	२७३
वाममार्गियों पर कलंक		विश्वामित्र	२७५
लगाना व्यथ है	१७६	भरद्वाज	२७६
गोमेघ	१८१	गौतम-पुत्र शरद्वान्	२७७
नरमेघ	१८०	विभारङ्क	२७८

विषय	पृष्ठांक	विषय	पृष्ठांक
मित्रावस्थण	२८०	सिद्ध श्रेष्ठता	३३२
(१) अहल्या	२८३	मनुस्मृति वस्तुतः भूगुस्मृति है	३३५
(२) द्रौपदी	२८५	वर्ण-व्यवस्था कर्म तथा जन्म	
(क) माताकुन्ता के आदेश	२८५	दोनों से असिद्ध है	३३८
(ख) ऋषिकन्योपास्थान	२८६	जन्मगत वर्ण-व्यवस्था के कु-	
(ग) पञ्चेन्द्रोपास्थान	२९०	परिणाम	३४२
युधिष्ठिर का जूता खेलना	२९५	(१) ब्राह्मण ज्ञात्रियों की	
(१) तारा	३०६	स्वार्थ-पूर्ण उन्नति	३४२
(४) कुन्ती	३०८	(२) वैश्य-शूद्रों की अन्याय-	
(५) मंदोदरी	३०८	पूर्ण अधोगति	३४३
पठन परिच्छेद		(३) ब्राह्मण-ज्ञात्रियों का वैश्य-	
वर्ण-व्यवस्था तथा जाति-भेद		शूद्रों पर निरंकुश शासन	३४५
वर्ण-व्यवस्था को वैदिक		(४) वैश्य-शूद्रों का अधःपतन	३४६
उत्पत्ति	३१३	(५) वैश्य-शूद्रों की उन्नति में	
पुरुषसूक्ष्मंत्र की यथार्थ		बाधा	३५०
व्याख्या	३१५	(६) शूद्रों के प्रति विशेष	
वैदिक काल में वर्ण-व्यवस्था		अत्याचारों का सविस्तर	
का स्वरूप	३१७	वर्णन	३५५
सप्ताविंश दासयोनि	३१८	(७) वैश्य-शूद्रों की मानसिक	
समाज का कर्मानुसार चार		दासता	३६४
दलों में विभाग	३२०	वैश्य-शूद्रों ने कान्ति क्यों	
जाति और वर्ण में भेद	३२६	नहीं की ?	३६८
जाति का लक्षण	३२८	जाति-पाँति से हानियाँ	३७१
जन्मानुसार वर्ण	३३०	जाति-पाँति के विकद हिन्दू	
ब्राह्मणों की तथाकथितजन्म-		नेताओं की सम्मतियाँ	३७५

विषय	पृष्ठांक	विषय	पृष्ठांक	
जाति-मेद के समर्थकों की दलीलों का खंडन	३७६	हिन्दू जाति का जगद्‌गुरुत्व ब्राह्मण-क्षत्रिय गुट का अन्यो-	विविध विषय; उपसहार खंडन	४०४
न्य प्रशंसा-गान वौद्धकाल तथा जैनकाल	३८५	हिन्दू सम्यता का प्राचीन-	४०५	
भारत की तथाकथित स्वतंत्रता भारत की पराधीनता	३८६	तमता-खंडन धर्म	४०७	
मुख्य कारण वर्ण व्यवस्था है भारत को पराधीनता का कारण	३८८	हरिजन-समुदाय हिन्दूओं में प्रचलित कतिपय वौद्ध धर्म का अहिंसावाद	४१३	
न था दूसरे की कीर्ति छीनना	३८५	हिन्दूओं के पतन का कारण	४१४	
इसके उदाहरण	३८८	उनका धर्म है	४२२	
मिथ्या आत्म श्लाघा का खंडन	३९६	स्वराज्य-चर्चा	४२३	
विदेशियों की सम्मतियों का खंडन	४००	जाति-मेद मिटाने के उपाय	४२७	
१८८८ परिच्छेद	४०२	वैश्य-शास्त्रों के अच्छे दिन कब	४३६	
		आए	४३७	
		वर्णानुक्रमणिका	४४३।	

# हिन्दू जाति का उत्थान और पतन

—::ँ::—

अथ प्रथम परिच्छेद

## ‘हिन्दू’ शब्द की उत्पत्ति

**पहला मत—** हिन्दू जाति के उत्थान और पतन पर कुछ लिखने के पूर्व इस विषय पर एक विवेचनापूर्ण प्रकाश डालना परमावश्यक जान पड़ता है कि भारत के किस जन-समुदाय की संज्ञा हिन्दू है तथा हिन्दू शब्द का निकास किस भाषा से हुआ है; कारण कि ये दोनों बातें, इस शब्द के किसी भी प्राचीन संस्कृत व असंस्कृत (जैसे पाली, प्राकृत आदि) भारतीय ग्रन्थ में नहीं मिलने के कारण विवादग्रस्त हैं। कलिपय विद्वानों का मत है कि हिन्दू शब्द जो विदेशियों और विशेषतः पारस्वालों के द्वारा इस देश का नाम रखा गया है, सिन्धु शब्द से, जो पंजाब की एक नदी का नाम है, निकला है; फिर इसी हिन्दू शब्द से हिन्दू और हिन्दी इन दोनों शब्दों का निकास हुआ है। हिन्दू शब्द से पारस्वालों का अभिप्राय सिन्धु नदी के पारवर्ती देश से, हिन्दू शब्द से हिन्द के निवासियों से और हिन्दी शब्द से हिन्द सासियों की भाषा से वा हिन्द-सम्बन्धी से या। पारस निवासी, जहाँ हम ‘स’ बोलते हैं, वहाँ प्रायः ‘ह’ का उच्चारण करते हैं; जैसे—सप्त ( हप्त ), असुर ( अहुर ), सरस्वती ( हरहवती ), सप्त सिन्धु ( हप्त हिन्दू ) इत्यादि। इस तर्क शैली का अनुसरण करते

हुए हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि सिन्धु से हिन्दु हुआ और हिन्द से हिन्दू और हिन्दी ये दो शब्द उत्पन्न हुए। और चूँकि अपने प्राचीन ग्रन्थों में, देश में एकता-विरोधी वर्णांश्रम धर्म का प्रचार रहने के कारण अपना कोई जातीय नाम (national name) न था, हम भारतवासियों ने अपनी जाति के लिए हिन्दू तथा अपनी भाषा के लिए हिन्दी नाम अपना लिया।

**दूसरा मत**—यह तो हुआ हिन्दू शब्द की उत्पत्ति-विषयक एक मत। दूसरा मत यह है कि कुछ पारसपालों ने हमें सिन्धु से हिन्दू नहीं बनाया; बल्कि हमीं अपने को शुद्ध संस्कृत में सिन्धु कहते-कहते प्राकृत भाषा में हिन्दू कहने लगे; क्योंकि संस्कृत का 'स' प्राकृत में 'ह' ही जाता है। पर यह चिल्कुल शलत है। संस्कृत का 'स' प्राकृत में 'ह' कभी भी नहीं होता। यह दोनों का त्यों बना रहता है; ऐसे—  
 सप्तः ( सप्तो ), सप्तम् ( सत्तं ), सत्त्वेण ( सूत्तेण ), सत्यम् ( सत्त्वं ), समीपे ( समीपे ), सुखम् ( सुहं ) इत्यादि। बरबचि, हेमचन्द्र, चरदादि प्राकृत भाषा के व्याकरण-कार हैं। उनके अनुसार केवल 'स, ष, य, घ' और 'भ' के ही स्थान में 'ह' होता है; 'स' अथवा किसी शब्दन्य अन्तर के स्थान में नहीं। सब यह है—'ख ष घ भां हः', यथा—सुखम् ( मुहं ), मेसला ( मेहला ), मेषः ( मेहो ), जघनः ( जहणो ), गाथा ( गाहा ), शपथः ( सवहो ), राधा ( राहा ), वधिरः ( वहिरो ), समा ( संहा ), रासभः ( रासहो ) इत्यादि। अतः यह कहना कि संस्कृत का सिन्धु शब्द विगड़ कर प्राकृत में हिन्दू बन गया, प्राकृत भाषा के व्याकरण से अपना पूरा कोरापन प्रकट करता है। यथार्थ बात तो यह है कि जिस प्रकार प्राचीन यूनानी ( Greeks ) सिन्धु नदी को Indus ( इंडस् ), सिन्धु के पारवती देश को India ( इंडिया ) और वहाँ के रहने वालों को Indians ( इंडियन्स ) कहते थे और हमने भी इन नामों

को उनके संसर्ग में आकर अपना लिया था और आज भी हम यूरोपियनों के साथ बातचीत करते हुए अपना परिचय Indian कह कर ही देते हैं; ठीक उसी प्रकार हमने पारस्वालों के हिन्द, हिन्दू और हिन्दी शब्दों को उनके साथ प्राचीन काल में अपनी घनिष्ठता के कारण अपना लिया था और तब से आज तक अपने सम्बन्ध में उनका प्रयोग बराबर करते चले आए। हिन्दू शब्द को अपनाने का एक और भी कारण मालूम पड़ता है कि भारतवर्ष में आच्यु, अनाच्यु, द्रविड़ आदि कई प्रकार की जातियाँ रहती थीं और उनको एकता के सूच में बांधनेवाला हमारे साहित्य में कोई समान (common) जातीय नाम न था।

**तीसरा मत—कुछ लोगों का तीसरा मत भी है कि फ़ारसी ( न कि पारसी ) भाषा में हिन्दू शब्द का अर्थ काला, चोर, ठग, डाकू, गुलाम आदि है और मुसलमानों ने धुरणा-वश हमारा यह नाम रख दिया और अपने पक्ष की पुष्टि में इस मत के माननेवाले ग्रामासुल्लोग्रात का निम्नलिखित उद्धरण पेश करते हैं—**

“हिन्दू दर महाविरे फ़ारसियां बमानी दुःख व रहजान मी आयद।” । अर्थ—फ़ारसी भाषा के मुहाविरे में हिन्दू शब्द चोर और डाकू के अर्थ में आता है। आज से कोई ४५० वर्ष हुए कि हाँफ़त शीराजी नाम के एक प्रसिद्ध कवि फ़ारस में हो गए हैं। उन्होंने अपने निम्नोद्धृत शेर में हिन्दू शब्द को काला अर्थ में प्रयुक्त किया है—

“अगर आँ तुर्क शीराजी बदस्त आरद दिले मारा।

बखाले हिन्दुवश बखशम समरकन्दो दुखारारा ॥”

अर्थ—अगर शीराजी का रहनेवाला मेरा माशूक मेरे दिल को आपने हाथों में कर ले तो मैं उसके काले तिल पर समरकन्द और बुखारा के बादशाहत भी न्वौछावर कर दूँ।

उच्चारण-साहश्य के कारण एक से दीखनेवाले शब्दों का भिन्न-भिन्न भाषाओं में भिन्न-भिन्न अर्थ रखना कोई असम्भव तथा आश्चर्यजनक वस्तु नहीं है पर इससे वह कभी न मान लेना चाहिये कि इन एक से दीखने वाले शब्दों में वस्तुतः कोई मौलिक एकता है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित शब्दों पर ध्यापात कीजिए।

देव ( संस्कृत )=देवता; देव ( फ्रारसी )=दानव, दैत्य आदि। ये दोनों अर्थ पूर्णतः एक दूसरे के उल्टे हैं। दस्त ( फ्रारसी )=हाथ; दस्त ( हिन्दुस्तानी )=मल, पाखाना। मार ( संस्कृत )=कामदेव; मार ( फ्रारसी )=साँप। राम ( संस्कृत )=हिन्दुओं के भगवान् रामचन्द्र; राम ( फ्रारसी )=तावेदार गुलाम। कुली ( संस्कृत ) उत्तम कुल का; कुली ( तुर्की )=मज़दूर। साम ( संस्कृत )=नीति-विशेष, एक वेद का नाम; साम ( अरबी )=विषेला इत्यादि। योगने पर और भी कितने ऐसे शब्द मिलेंगे जो भिन्न-भिन्न भाषाओं में भिन्न-भिन्न अर्थ रखते हैं। इससे स्पष्ट है कि फ्रारसी भाषा के हिन्दू शब्द के साथ, जिसके अर्थ काला, चोर डाकू आदि हैं, हमारे जातीय नाम हिन्दू शब्द का कुछ भी मौलिक सम्बन्ध नहीं है। दोनों में उच्चारण-साहश्य चाहे भले ही हो; पर है वे एक दूसरे से पूर्णतः स्वतन्त्र तथा मूलतः भिन्न।

यह दिखा कर कि फ्रारसी भाषा के हिन्दू शब्द के साथ हमारे जातीय नाम हिन्दू शब्द को कुछ भी छुआ-छूत नहीं है, अब यह दिखाना है कि हमारा यह जातीय नाम मुसल्मानों का रखा हुआ कभी भी नहीं है। इस्लाम-धर्म के प्रवर्चक हज़रत मुहम्मद साहब ने इसकी सातवीं शताब्दी में अपने इस नवीन धर्म का प्रचार किया था, जिससे सिद्ध है कि मुसल्मानों का प्रादुर्भाव-काल आज इस बीसवीं शताब्दी में केवल १३०० वर्षों के ही निकट है। इन १३०० वर्षों के पहले मुसल्मानों का भूमंडल में कहीं भी अस्तित्व न था।

अतः यदि हमारा हिन्दू नाम मुसल्मानों का वृणा-वेश दिया हुआ होता और हम उनके अत्याचारों के कारण इसे ग्रहण किए होते तो उनके प्रादुर्भाव से हजारों वर्ष पहले की लिखी हुई पारसियों की शातीर नामक धर्म-पुस्तक में हमारे देश को हिन्द और हमें हिन्दी कह कर कैसे पुकारा गया होता ? उक्त शातीर नामक अन्य में लिखा है :—

“अकनू विरहमने व्यास नाम अज्ञ हिन्द आमद वस दाना कि अकल चुना नस्त ।” अर्थ—व्यास नामक एक ब्राह्मण हिन्द (भारत) से आया, जिसके बराबर कोई दूसरा अकलमन्द न था । अवश्य ही ये व्यास महाभारत तथा अड्डारह पुराणों के रचयिता महर्षि कृष्णद्वै-पायन वेदव्यास ही होगे; क्योंकि तभी तो उनकी बुद्धिमत्ता को अद्वितीय कहा गया है । इसी पुस्तक शातीर में आगे चल कर हिन्दी शब्द का प्रयोग हिन्द वाले के अर्थ में हुआ है—

“चूं व्यास हिन्दी बलख आमद, गश्ताशप जरदश्त राव ख्वान्द ।” अर्थ—जब हिन्दवाला व्यास बलख में आया तो ईरान के बादशाह गश्ताशप ने जरदश्त को बुलाया । यह जरदश्त वा ज़रशुश्त पारसी धर्म का प्रवर्तक था । संभव है कि गश्ताशप ने इसे व्यास के साथ शास्त्रार्थ करने के लिये बुलाया हो । शातीर में आगे लिखा है—“मन मरदे अम हिन्द निजाद” अर्थात् मैं हिन्द में पैदा हुआ एक पुरुष हूँ । पुनर्शब्द—“व हिन्द वाज गश्त” अर्थात् फिर वह हिन्द को लौट गया ।

शातीर के उक्त उद्दरणों से सिद्ध है कि हिन्द, हिन्दी आदि शब्द मुसल्मानों की उत्पत्ति से हजारों वर्ष पूर्व ही इस देश तथा इसके निवासियों के लिए पारस में प्रचलित थे; अतः ये शब्द मुसल्मानों के नहीं हुए नहीं हैं ।

हिन्दू शब्द हिन्द (भारत) के मुसल्मानों के लिए भी प्रयुक्त हुआ

है। मौलाना रम अपनी मसनवी में लिखते हैं—“चार हिन्दू दर इके मसजिद शुदन्द, बहिरे ता अत एके ओ मसजिद शुदन्द”। अर्थ— चार हिन्दू एक मसजिद में गए और इतायत के लिए सिवाका करने लगे। यहाँ पर यह शंका होती है कि हिन्दू मसजिद में क्यों गए? इस पर मसनवी के टीका-कार मौलवी बहवल्ला साहब ने स्पष्ट लिखा है कि यहाँ हिन्दू से मतलब हिन्द के मुसलमानों से है।

एक और भी कारण है जिससे हम इस मत को कदापि नहीं मान सकते कि हमारा यह हिन्दू नाम मुसलमानों ने रखा है और हमने उनके अत्याचारों के कारण इसे मान लिया है। भारत में मुस्लिम-राज्य की नीव डालनेवाला शाहबुद्दीन मुहम्मद गोरी था। पर अभी मुसलमानों के अत्याचार तो दूर थे; उनके पैर भी अभी तक भारत-भूमि पर नहीं जमने पाए थे; स्वयं गोरी भी पृथ्वीराज की मार से कराह रहा था, तभी पृथ्वीराज के दरबार का सुप्रसिद्ध कवि चन्द्रबरदाई तथा उसके पिता वेनने अपनी-अपनी कविताओं में इस जाति को हिन्दु और इस देश को हिन्दव-अस्थान (हिन्दुस्तान) कह कर पुकारा है; वेनने पृथ्वीराज के पिता को, जो अजमेर का राजा था, सम्बोधन करके लिखा है—

अटल ठाट महिपाट, अटल तारागढ़ थानं ।

अटल नम अजमेर, अटल हिन्दव अस्थानं ॥

चन्द्रबरदाई ने भी अपने काव्य ‘पृथ्वीराज रासो’ में हिन्दू, हिन्दवान और हिन्द शब्दों का वारबार प्रयोग किया है—

(क) किए सलाम तिनबार जाहु अपने सूथानई ।

मति हिन्दू पर साहि सविज आवौ स्वस्थानह ॥

(ख) आज भाग चहुआन चमू, आज भाग हिन्द वान ।

इन जीवित दिल्लीश्वर, गंज न सकके आन ॥

(ग) निलंकज म्लोच्छ लाजै नहीं, सम हिन्दू लाजवान ।

अतः यह कव मानने की बात है अपने देश तथा अपनी जाति की आन पर मर मिटनेवाली राजपूत जैकी वीर और शानदार जाति के आभित कविगण तथा इस विशाल देश की विपुल जनता ने उन मुसल्मानों के धृष्णा-वश दिए हुए हिन्दू नाम को, जिनके साथ हिन्दुओं की कहर शत्रुता चल रही थी और जिनका देश में अभी कुछ भी प्रभाव न था, यिन ची-चपड़ किए ही कबूल कर लिया । तत्कालीन महात्मा समर्थदास जी ने भी एक कविता में अपनी भविष्यवाणी कहते हुए हिन्दता और हिन्दुस्थान शब्दों का प्रयोग किया है—

( क ) स्वप्नी जे देखिलें राती, ते ने तौ सेंचि होत से ।

हिन्दता फिरता गेलो, आनन्द बन भूवनी ॥

( ख ) बडाले सर्व ही पापी, हिन्दुस्थान बला बले ।

अभक्तों च द्यो भाला, आनन्द बन भूवनी ॥

शिवाजी मुसल्मानों के और विशेष कर मुगल सम्राट् और रंगजेव के जानी दुश्मन थे । पर उनके आभित भूपण कवि ने भी अपने स्वामी का यशोगान करते हुए अपनी कविता में हिन्दुवानी, हिन्दुवान आदि शब्दों का व्यवहार किया है—

“रात्सी हिन्दुवानी हिन्दुवान के तिजक राख्यो,  
स्मृति पुराण राख्यो वेद विधि सुनी मैं ।

रात्सी रजपूती राजधानी रात्सी राजनकी,  
धरा में धरम राख्यो राख्यो गुण गुनी मैं ।

भूषण सुकवि जीति हइ मरहद्धन की,  
देस देस कीरति यखानि तब सुनी मैं ।

साहि के सपूत सिवराज समसेर तेरी,  
दिल्ली दल दाविके दिवाल रात्सी डुनी मैं ।

सुजानसिंह, जो बुन्देलखंड का एक शक्तिशाली राजा हो गया है, अपने मित्र छुत्रसाल से कहता है—

पातसाह लागे करन, हिन्दू धर्म की नामु।

मुखिकरि चंपतराय की, लई बुन्देला साँस ॥

अतः इन सब सुदृढ़ प्रमाणों से क्या यह सिद्ध नहीं होता कि हमारा यह हिन्दू नाम मुसल्मानों का रखा हुआ नहीं है ? वहिक उनकी उत्पत्ति से हजारों वर्ष पूर्व से ही यह व्यवहृत होता चला आ रहा है । यदि यह नाम मुसल्मानों का दिया हुआ रहता, तो जिस समय उनके साथ हमारा कट्टर विरोध चल रहा था और उनका हमारे देश में न कुछ अभी अत्याचार था और न कुछ प्रभाव ही था, उस समय हम अपना परिचय चोर, डाकू आदि जैसे घुणित अर्थ रखने वाले हिन्दू शब्द से देकर अपने दुश्मनों की बात शिरोधार्य कभी नहीं करते ।

**'हिन्दू'** शब्द की संस्कृत व्युत्पत्ति—ये तो हुए सिन्धु शब्द के पारसी ( न कि फारसी ) अपभ्रंश हिन्दू शब्द के विदेशी होने के प्रमाण । पर कितने ऐसे भी स्वजात्याभिमानी पर दुराग्रही हिन्दू विद्वान् हैं जिन्हें इस शब्द का विदेशी होना असम्भव है । वे संस्कृत व्याकरण के सूत्रों की खाल सीच कर इसे शुद्ध संस्कृत शब्द का बाना पहनाने का प्रयत्न करते हैं और अपने मत की पुष्टि में रामकोष, शब्द कल्पद्रुम, अद्भुत कोष, मेदिनी कोष आदि कोषग्रन्थों तथा मेदतंत्र, पारिजात इरण नाटक, कालिका पुराण, शार्ङ्गधरपद्धति आदि अन्य ग्रन्थों की दुहाई देते हैं । अब इन विद्वानों की की हुई हिन्दू शब्द की विविध व्युत्पत्तियों तथा अर्थों का अवलोकन कीजिये—

(१) हीनं (वर्णाभ्रम धर्मं रहितं) दूषयतीति हिन्दुः पृष्ठोदरादित्वात् साधुः । जाति-विशेषः । जो वर्णाभ्रमधर्मीहीन मनुष्यों को दोषवृक्ष बतावे वह हिन्दू है । यह शब्द पृष्ठोदरादिगणण में सिद्ध होता है और जाति-विशेष का नाम है । पृष्ठोदरादिगणण आकृतिगणण माना गया है ।

( २ ) हिंसा दबयतीति हिन्दुः अर्थात् जो हिंसा को दूर करे वह हिन्दू है ।

( ३ ) हिसन्ति धर्मान्तिः संयोगान्तलोपे सिद्धिः । अर्थ—जो धर्मों की हिंसा करें वे हिस हैं । और जो इन ( हिंसों ) को दूःख दे वा खंड खंड कर दे वह हिन्दू है ।

( ४ ) हिंडि (गत्यनादरयोः) । इस धातु से शौणादिक उ प्रत्य होकर पृष्ठोदरादित्वात् डकार का दकार और “इदितोनुम्” इस सून से नुमागम होने पर भी हिन्दू शब्द सिद्ध होता है ।

( ५ ) हिनस्ति दुष्टान्तिः हिन्दुः अर्थात् जो दुष्टों का हनन करे वह हिन्दू है ।

नोट—संस्कृत के सूत्रों द्वारा एक बचन में हस्त उकारान्त हिन्दुः और दीर्घ उकारान्त हिन्दुः ये दोनों शब्द सिद्ध होते हैं ।

यह सब कुछ तो ठीक है । अष्टाभ्यावी जैसे कामवेतु के बल पर हम अंगरेजी, फ्रांसी, अरबी आदि के शब्दों को भी शुद्ध संस्कृत रूप देकर आकाश और पाताल का कुलाचा एक कर सकते हैं । कहावत भी प्रसिद्ध है—उणादि से प्रत्यय आये डालिक, डीजा, ढोलना; मा धातु से सिद्ध किया मालिक, मीजा मोलना । पर यह केवल बातों का बनाना है । इससे केवल हमारी बुद्धि की तृशाश्रता तथा हमारे संस्कृत व्याकरण की कामवेतुता सिद्ध होती है । इसके सिवा और कुछ नहीं ! जिन-जिन संस्कृत ग्रन्थों में हिन्दू शब्द आया हो उन्हें अनार्य तथा आधुनिक समझना चाहिये । यदि यह शब्द संस्कृत रहता तो वेदों में न सही, पर कम से कम स्मृतियों, पुराणों, एवं रामायण तथा महाभारतादि आर्य ग्रन्थों तथा प्राचीन कोषों में अवश्य पाया जाता । और तो और; हमारा प्राचीन कोष-ग्रन्थ अमर कोष भी इस हिन्दू शब्द से पूर्णतः अनभिज्ञ है ।

**हिन्दू संज्ञा किसकी है—अब यहाँ पर यह विचार करना है**

कि आजकल इस राजनैतिक प्रतिद्वंद्विता के बीच में हिन्दू शब्द से किस जन-समुदाय का ग्रहण किया जाए; कारण कि वर्तमान काल में इस देश में किस्तान, सुसल्मान, पारसी, बौद्ध आदि अनेक जातियों और धर्मों के लोग रहते हैं। अतः आधुनिक विद्वानों ने समयानुकूल इस विषय में निम्नलिखित व्यवस्था दी है—

आसेन्तु सिन्धुपर्यन्ता, वस्य भारत भूमिका ।

पितृभूर्धर्मभूश्चैव, सर्वे हिन्दुरितिस्मृतः ॥

**अर्थ—**सिन्धु नदी से लेकर सिन्धु पर्यन्त यह भारत भूमि जिनके पूर्वजो और धर्म की भूमि अर्थात् उत्तरतिन्धान है उन्हीं को हिन्दू कहना चाहिये। कोई कोई 'धर्मभूः' की जगह 'पुराण भूः' पाठ पढ़ते हैं, जिसका अर्थ है जो भारत को अपनी पवित्र भूमि मानते हैं वे ही हिन्दू हैं। दोनों पाठों का एक ही अभिप्राय है।

हिन्दू शब्द की उक्त परिभाषा के अनुसार हिन्दू कहलाने के लिए दो शर्तों को पूरा करना चाहिये—( १ ) मारतवर्ष को अपने पूर्वजों को मातृभूमि मानना और ( २ ) किसी भी मारतीय धर्म का अनुयायी होना। इस दण्ड से भारत में बसने वाले सभी इसाई, सुसल्मान और पारसी चाहे वे मारतीय हों या अमारतीय, छैट गये; कारण कि भारत को वे अपनी धर्म-भूमि वा पुराण-भूमि नहीं मानते; और सनातनी हिन्दुओं के साथ-साथ आर्य-समाजी, बौद्ध, जैन, सिक्ख आदि विविध साम्प्रदायिक, एवं द्रविड़, संथाल, कोल, भील, गोड़ प्रभृति सभी आदि वासी जातियों भी, हिन्दू शब्द के दायरे के अन्दर आ गईं, ज्योकि ये उक्त दोनों शर्तों को पूरा करती हैं।

\*पर प्रसंग आने पर, जहाँ किसी अन्य जाति वा सम्प्रदाय की विवक्षा न हो, वहाँ हिन्दू शब्द से केवल ब्राह्मण धर्म के अनुयायियों का ग्रहण करना चाहिये।

## अथ द्वितीय परिच्छेद

# हिन्दू जाति की उत्पत्ति

**आर्य और अनार्य**—पूर्वोक्त हिन्दू जाति का उत्थान और पतन इस ग्रंथ का विषय है। पर इसके पहले हमें यह जान लेना ज़रूरी है कि वर्तमान हिन्दू जाति की उत्पत्ति कैसे हुई, और इस जाति का भारत के प्राचीन आद्यों तथा अनाद्यों के साथ कौन सा सम्बन्ध है। भारतीय आर्य भारत में कहाँ बाहर से आए, या वे यहाँ के रहने वाले थे, इसका विवेचन इस पुस्तक का ध्येय नहीं है; पर यहुमत उनके बाहर से आने के ही पक्ष में है और इतना तो निर्विवाद है कि आर्य किसी शीतप्रधान देश के रहने वाले थे जिससे उनका लम्बा कद, गौरवर्ण, नाक ही हड्डी पतली और ऊँची तथा आँखें और केश भूरे रंग के थे। इसके विपरीत भारत जैसे उष्णप्रधान देश में चिरकाल से रहने के कारण अनाद्यों का रंग श्याम, कर छोटा, नाक की हड्डों कुछ चौड़ी और नीची तथा आँखें और केश काले हुआ करते थे। इन दोनों जातियों में एक और भी भेद था ! आद्यों की खोपड़ी लम्बी और अनाद्यों की गोल होती थी। पर इतना आकृतिक भेद होने के कारण ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए कि ये दोनों जातियाँ सदा एक दूसरे से पृथक् रहीं। हमें अपने धर्म-ग्रन्थों तथा इतिहास से पता चलता है कि पहले वैदिक काल में इन दोनों जातियों के बीच घोर संघर्ष चला; पर धीरे-धीरे दोनों का मनोमालिन्य दूर होता गया और वे एक दूसरे के समीप आती गईं; यहाँ तक कि दोनों में वैध किवा अवैध सभी प्रकार से यौन-सम्बन्ध

भी जारी हो गये जो अब तक जारी हैं। इसका फल यह हुआ कि कुछ चंगली तथा असम्भव कहलाने वाली जातियों को छोड़ कर, ब्राह्मण से लेकर चारणाल पर्यन्त सभी जातियों रक्त-समिश्रण का रक्त मिथित हो गया और इनमें कोई भी जाति ऐसी नहीं रह गई जो अभिमान के साथ ताल ठोक कर इस चात का दावा कर सके कि वह प्राचीन आर्य जाति की शुद्ध सन्तान है। जिन्हें अपनी जाति की शुद्धता तथा उच्चता का अभिमान हो वे कृपा कर वज्रसूखुपनिषद् के निम्नलिखित जातिमान-मर्हन उद्धरण की ओर अपनी आँखें केरें। जिजासु (क) ब्राह्मण शिष्य अपने गुरु ऋषि से पूछता है—‘कि जात्या ब्राह्मणः ?’ क्या जाति से ब्राह्मण होता है ? इस पर ऋषिवर ने हमारे पूज्य विशिष्ठादि ऋषिपुज्ञवों की जाति की पील खोलते हुए, जो उत्तर दिया है वह देखने और मनन करने योग्य है :—

‘जाति ब्रह्मण इति चेत् तदि अन्य जाती समुद्रवा वहयो महर्षयः सन्ति । ऋष्यशृंगो मृग्यां जातः कौशिकः कुशस्तंवात् गौतमः, शशपृष्ठे वाल्मीकिः वल्मीक्यां व्यासः कैवर्त्ते कन्यायां पराशर-इचारणालीगभौत्पन्नः वशिष्ठो वेश्यायां विश्वामित्रः क्षत्रियायां अगस्त्यः कलसाक्षातः मांडव्यो माहुकि गर्भोत्पन्नः मातंगो मातंगीपुष्टः; अनुचरो हस्तिनी गर्भोत्पन्नः भरद्वाजः शश्वीगर्भोत्पन्नः नारदो दासीपुष्टः; इति श्रूयते पुराणे । तेषां जातिं विनापि सम्यग् ज्ञानविशेषाद् ब्राह्म-मत्यन्यं स्वीकियते; तस्मात् जात्या ब्राह्मणो न भवत्येव ।’

अर्थ—यदि जाति से ब्राह्मण होता है तो बहुत से महर्षि दूसरी दूसरी जातियों में उत्पन्न हुए हैं। ऋष्यशृंग जिन्होंने राजा दशरथ से पुन्रेष्टि यज्ञ कराया था हरिणी से, कौशिक कुश के गुच्छे से, गौतम शशक की पीठ से, वाल्मीकि दीमकों की मिट्टी की देर से, व्यास

केवट (मल्लाह) की कन्या से, पराशर चाँडाली से, वशिष्ठ वेश्या से, विश्वामित्र द्विया से, अगस्त्य घड़े से, मोढ़व्य मोढ़की से, मातंग मातंगी से, अनुचर हथिनी से, भरद्वाज शूद्री से, तथा नारद दासी से, उत्पन्न हुए हैं। ऐसा पुराणों में सुना जाता है। इन महिंयों का ब्राह्मणत्व, जाति के बिना भी, उत्तम ज्ञानविशेष के कारण अच्छी तरह स्तीकृत हो गया है। अतः जाति से ब्राह्मण नहीं होता।

वज्रमूर्ची का उक्त अंश केवल वशिष्ठादि ऋषियों की जाति सिद्ध करने के उद्देश्य से ही उद्भूत किया गया है; नाकि इस बात को निर्णय करने के लिये कि वर्ण जन्मानुसार मानना चाहिए या कम्मानुसार। यह विषय ही दूसरा है।

उक्त उद्धरण में इरिणी, हस्तिनी आदि शब्दों से तज्जामधारिणी अनार्य तथा असम्य जाति की लियाँ अभिप्रेत हैं, न कि उक्त नामधारी पशुविशेष; क्योंकि पशुओं से मनुष्य की उत्पत्ति नहीं होती। आजकल भी ऐसी जाति की लियों में पशु-पक्षी की तरह बिलैया, सुगिया, कबूतरी आदि नाम पाए जाते हैं। और शशक-पृष्ठ और कुशस्तव आदि शब्दों से यह अनुमान करना चाहिए कि इनसे उत्पन्न कहे जाने वाले ऋषियों के माता-पिता ने इन्हें जन्माकर अपना कुकर्म छिपाने के लिए इन्हें किसी जंगल में शशक के मौदि में या कुश की काढ़ी में फेंक दिया था। तथा घड़े से सो आज भी बच्चे उत्पन्न होते हैं। हम प्रायः सुना करते हैं कि अमुक लोगों ने अवैध जन्माकर अपना पाप-कर्म छिपाने के लिए उसे हाँझी या घड़े में बन्द कर अमुक रेलवे लाइन के पास वा अमुक तालाब वा नदी के किनारे फेंक दिया था और बाद में उस पर मुकदमा चला और वह सजा पा गई। उक्त ऋषियों के उत्पत्ति की विषय में यही समझ लेना चाहिए। यह कभी न मानना चाहिए कि किसी प्राणी की उत्पत्ति प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध हो सकती है।

जब ऐसे-ऐसे महर्षियों का ही यह हाल है तो अपने को ऋषि सन्तान कहने और मानने वाले हिन्दुओं की कौन सी गति होगी ! उक्त ऋषियों में वशिष्ठ, पराशर, विश्वामित्र, कौशिक, भरद्वाज, गौतम आदिकों के नाम विशेष महत्व रखते हैं, कारण कि ये ऋषिगण बड़े-बड़े ब्राह्मण-वंशों के प्रवर्त्तक थे और इनके नाम के गोत्र ब्राह्मणों में अभी तक प्रचलित हैं जो आज भी सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं तथा गर्गादि अन्य गोत्रीय ब्राह्मण भी इनसे खान-पान विवाहादि सम्बन्ध स्थापित करने में अपना परम गौरव समझते हैं।

जिनमें ब्राह्मण-गोत्र-प्रवर्त्तक महर्षि ही गए हैं उनमें महर्षि वशिष्ठ एक विशेष स्थान रखते हैं। ये सूर्यवंशीय ऋत्विक् नरेशों के परमपूज्य कुलगुरु थे जिनके पुनीत चरण-रज को शिरोधार्य कर स्वर्य श्रीरामचन्द्र जी भी अपने को परम भाग्यवान् और पुरुषवान् मानते थे। इन महर्षि वशिष्ठ का अब गोत्रोच्चार सुनिए। जैसा कि कपर कह आए हैं, वशिष्ठ स्वर्य-वेश्या-पुत्र थे। इन्होंने अक्षमाला नामक एक नीच जाति की छोटी को अपनी अर्द्धाङ्गनी बना लिया। मनुसृति बतलाती है—

अक्षमाला वशिष्ठेन संयुक्ताधम योनिजा ।

सारङ्गी मन्दपालेन जगामाभ्यहेणीयताम् ॥ मनु ० ६२३॥

**आर्थ**—नीच जाति में उत्पन्न अक्षमाला ने वशिष्ठ के साथ तथा सारङ्गी ने मन्दपाल के साथ संयुक्त ही जाने से पूज्यता प्राप्त कर ली। सम्भवतः यही अक्षमाला बाद में अखण्डती नाम से प्रख्यात हुई; क्योंकि महर्षि वशिष्ठ की दो छियों का उल्लेख कही भी नहीं मिलता। इसी अक्षमाला के गर्भ से वशिष्ठ के पुत्र शक्ति हुए। ऋषि शक्ति ने किसी शवपाकी ( कुत्ते का मास रौंधकर भक्षण करने वाली चांडाली ) के गर्भ से महर्षि पराशर को पैदा किया। फिर इन्हीं पराशर जी ने धीवर ( केवट ) कन्या सत्यवती से बेटी के विभाग

करने वाले जगद्विख्यात महार्थि व्यास जी को उत्पन्न कर अपना जीवन सार्थक किया । महाभारत के निम्नलिखित श्लोकों पर ध्यान दीजिए, और ब्राह्मसूची के पूर्वोक्त उद्धरण से इनका अर्थक्रम देखिए—

( क ) गणिकगर्भसंभूतो नशिष्ठश्च महामुनिः ।

तपसा ब्राह्मणो जातः संस्कारस्तत्र कारणम् ॥

( ख ) जातो व्यासस्तु कैवल्याः श्वपाकयास्तु पराशरः ।

वह्वोऽन्येऽपि विप्रत्वं प्राप्ताये पूर्वमद्विजाः ॥

अर्थ—( क ) महामुनि वशिष्ठ वेष्या के गर्भ से उत्पन्न हुए थे; पर वे तपस्या के कारण ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुए । वहाँ पर संस्कार ही कारण था । ( ख ) व्यास कैवल्य ( केवट-कन्या ) से और पराशर चांडाली से उत्पन्न हुए थे । इनको तरह वहुत से दूसरे भी, जो पहले अब्राह्मण थे, अपने शुभ कर्मों के द्वारा ही ब्राह्मणत्व को पा गए ।

व्यासदेव आद्यात ब्रह्मचारी थे । इन्होंने किसी छों का शास्त्रोत्तरीति से कभी पाणिग्रहण नहीं किया । पर इन्होंने भी कुनूमायुध काम-देव के फेर में पङ्ककर शुकी नाम की किसी अनार्थ जाति की छों से राजा परीक्षित को सप्ताह भागवत मुनाने वाले ब्रह्मशानी जगद्वन्द्व भी शुकदेव जी को जन्म देकर अपने पुत्र का अभाव पूरा किया । और अधिक क्या लिखें ! पाठकगण इतने से ही रमझ लें कि इस जगद्विसिद्ध विशिष्ठ-वंश में किन-किन रक्तों का संमिश्रण हुआ है ।

कोई-कोई यह कठ दलील करते हैं कि नीच जाति में उत्पन्न वशिष्ठ आदि ऋषियों ने अपने उग्र तपोबल के प्रभाव से अपने शरीर से ब्राह्मणों तर जातियों के रक्ताणुओं को निकाल कर उनके स्थान पर ब्राह्मण जाति के रक्ताणुओं को उपत्सु कर लिया था, जिससे वे जाति से भी शुद्ध ब्राह्मण हो गए थे । यहाँ दो बातों पर विचार करना नितांत आवश्यक है—पहली बात तो यह है कि ऐसे लोगों का तप करने का अधिकार ही क्या था जिसके बल पर इन लोगों ने तप

किया ? तप करने के कारण इन्हें तत्कालीन राजा के द्वारा वही दंड मिलना चाहिए था जो राजा रामचन्द्र के हाथ से शम्बुक शद्र को मिला था । दूसरी बात यह है कि यदि किसी प्रकार ये दण्ड से बच गए, तो इसका प्रमाण कहाँ है कि तपोबल से इनके रक्ताशुद्धों में परिवर्त्तन हो गया था । महर्षि व्यास जन्म के काले ये और उनके शरीर से दुर्गन्ध निकला करती थी । उनसे बढ़कर कठोर तपस्वी कोई दूसरा न था, न है और न होगा । पर उनकी सारी कठोर तपस्याएँ उनके काले रंग तथा उनकी दुर्गन्ध को दूर कर उनके स्थान पर ब्राह्मणोंचित् गौरवपूर्ण और सुगन्धित शरीर कर देने में कारगर न हो सकी । महाभारत, आदिपर्व पढ़िए । सत्यवती भीष्म से कहती है—

यो व्यस्य वेदांश्चतुर-स्तपसा भगवानुषिः ।

लोके व्यासत्व मापेदे कार्यात् कृष्णत्व मेवच ॥१०५॥१४॥

अर्थ—वे भगवान् ऋषि तप के प्रभाव से चारों वेदों का व्यास अर्थात् विभाग करके व्यास नाम से, और काले होने से कृष्ण नाम से भी प्रसिद्ध हुए हैं । पुनश्च स्वयं व्यास सत्यवती से कहते हैं—

यदि पुत्रः प्रदातव्यो मया भ्रातुरकालिकः ।

विष्णुपतां मे सहतां तयो रेतत् परंत्रतम् ॥१०५॥४१॥

यदि मे सहते गन्धं हृपं वेशं तथा वपुः ।

अद्यैव गर्भं कौशल्या विशिष्टं प्रतिपद्यताम् ॥१०५॥४२॥

अर्थ—सत्यवती ने व्यास को अपनी विधवा पुत्रवधू अस्त्रियों का और अस्त्रियों का भ्रातुरकालिका में नियोग-रीति से पुत्रोत्पादन के लिए बुलाया था । व्यास ने कहा कि दोनों विधवाएँ एक वर्ष तक ब्रत करें तो वे पवित्र होगी । पर सत्यवती चाहती थी कि उन्हें पुत्र शीघ्र उत्पन्न हो, उस पर व्यास ने कहा—यदि विज्ञान करके अकाल में ही भाई विनिन्न-वीर्य के लिये मुझे पुत्र देना है, तो रानियाँ मेरे कुत्सित रूप को सहें; यही उनका परम ब्रत होगा । यदि कौशल्या ( अस्त्रियों ) मेरी गंध,

रूप, वेश और शरीर को सह सके, तो आज ही वह गर्भ धारण कर ले। फिर आगे चलकर लिखा है—

ऋदु काले ततो ज्येष्ठां वधुं तस्मैन्ययोजयत् ।  
 सातु रूपंच मन्वंच महिंः प्रविचिन्त्य तम् ॥ १०६॥२३॥  
 नाकरोद्दचनं देव्या भयात्सुरसुतोपमा ।  
 ततः स्वैर्भूषणैर्दासीं भूषयित्वाप्सरोपमाम् ॥ १०६॥२४॥  
 प्रेषयामास कृष्णाय ततः काशिपतेः सुता ।  
 सातं ऋषि मनु प्रातं प्रत्युद्गम्याभिवादच ॥ १०६॥२५॥  
 संविवेशाभ्यनुशाता सत्कृत्योपच्चार ह ।  
 कामोपभोगेन रहस्तस्या तुष्टिमगाद्यिः ॥ १०६॥२६॥

अर्थ—फिर सत्यवती ने व्यास को ऋदुस्नाता वही वहू (अभिवका) के लिये दुबारा नियुक्त किया। परन्तु उसने महिं के शरीर की दुर्गन्ध और कुरुपता का स्मरण कर भय से देवी (सत्यवती) का कहना नहीं माना और देव कन्या के समान उस काशिराज पुत्री ने अप्सरा-समान एक दासी को अपने भूषणी से अलंकृत कर कृष्ण द्वैपायन के पास भेज दिया। ऋषि के आने पर दासी ने उठकर उनको नमस्कार किया और उनकी आज्ञा पाकर शयनागार में एक साथ प्रवेश किया। दासी ने ऋषि का आदर-सत्कार किया और वे उस दासी के साथ एकान्त में कामोपभोग करके प्रसन्न हुए।

क्या इन प्रमाणों से यह नहीं सिद्ध होता कि व्यास कालेन्कलूटे और एक दम कुरुप थे और उनके शरीर से दुर्गन्ध निकला करती थी। इन दोषों को दूर करने में उनकी सारी तपस्या विफल सिद्ध हुई? तब यह कहना कि यह वशिष्ठादि ऋषि अपनी उग्र तपस्या के प्रभाव से अपने शरीर के कलुषित रक्ताग्नुओं को निकाल कर जाति से भी शुद्ध बाह्यण बन गए थे, केवल भोली भाली तथा अशिक्षित जनता की आँखों में धूल झोकना नहीं है तो क्या है?

यह तो हुआ उन ब्राह्मणों का हाल जो नीच जाति में उत्पन्न वशिष्ठादि गोव-प्रवर्तक ऋषियों के बंशधर हैं। अब उन ब्राह्मणों की कथा सुनिए जो पितृपद्म के तथा कथित ब्राह्मण होते हुए भी ज्ञात्रियादि अन्य जातियों की माताओं में उत्पन्न हुए हैं। जमदग्नि की खी रेणुका, च्यवन की खी सुकन्या और ऋष्यशृंग की खी शान्ता ज्ञात्रिय राजकन्याएँ थीं। पुराणों में ऐसे ऐसे कितने उदाहरण पड़े हैं (जिनका उल्लेख आगे होगा), जिनसे यह पता चलेगा कि ब्राह्मणों ने ज्ञात्रिय जाति की कन्याओं का पाणिप्रहरण किया था। और तो और स्वयं शिव और पार्वती का विवाह भी ऐसे ही ब्राह्मण-ज्ञात्रियों के अन्तर्जातीय विवाह का एक ज्वलन्त नमूना था। महाकवि कालिदासकृत कुमारसंभव महाकाव्य, सप्तमसर्ग, श्लोक ७वाँ और उस पर मल्लीनाथ की टीका पड़े—

सा गौरसिद्धार्थं निवेशवद्वि दूर्वां-प्रवालैः प्रतिभिन्नं शोभम् ।  
निर्नाभिकौशेयमुपाच्चवाण-मभ्यङ्ग्नेपद्यमलंचकार ॥

**अर्थ—**उस गिरिनन्दिनी उमा ने, जिसने (अपने बाएँ हाथ के ऊपर) श्वेद सरसों के दानों से युक्त दूर्व के अंकुरों को धारण किया था, और जो नाभि के ऊपर रेशमी साड़ी पहने थी और (अपने दाहने हाथ में) बाण लिये थी, न केवल स्वयं ही अलंकृत हुई बल्कि अपने आभूतणों को भी, जिन्हें वह अपने अंगों में पहने हुई थी, अलंकृत कर दिया।

मल्लीनाथ जी 'उपाच्चवाणम्' शब्द की व्याख्या करते हुए लिखते हैं—“उपाच्चवाणं ग्रहीतशरम् । ‘शरः ज्ञात्रियया ग्रह्यः’ इति मनुस्मरणत्”; अर्थात् मनुस्मृति में लिखा है कि वर्ण में अपने से ऊँचे वर के साथ विवाह होने ने ज्ञात्रिया वर को पकड़े। मनुस्मृति का पूरा श्लोक यह है--

शरः चत्रिया ग्राहः प्रतोदो वैश्य कन्यया ।

वसनस्य दशा ग्राहा शद्रयोत्कृष्ट्येदने ॥ मनु ३। ४४ ॥

अर्थ—अपने से ऊंचे वर्ण वाले वर के साथ विवाह होने में चत्रिय-कन्या वाण को, वैश्य कन्या चाढ़ुक को और शद्र कन्या कपड़े की बत्ती को पकड़े ।

इससे सिद्ध है कि शिव को ब्राह्मण और पार्वती को चत्रिया माना गया है; क्योंकि तभी तो पार्वती को वाण पकड़ना पड़ा था ।

यह तो हुआ उन ब्राह्मणों का हाल जो अति ही प्राचीन काल से विशिष्ठ आदि गोत्र-प्रवर्तक ऋषियों की सन्तान माने जाते हैं और जिन्हें हम खास ब्राह्मण (Brahmins Proper) कह सकते हैं । पर कुछ ऐसी भी जातियों के लोग हो गये हैं जो मूलतः

ब्राह्मण न होते हुए भी उन ब्राह्मण जाति में घुल-

सवालाखे मिल गए हैं । पाठकों ने सवालाखे ब्राह्मणों का

ब्राह्मण नाम मुना होगा । माधोगढ़ के राम नामक राजा ने जिन अनेक जातियों के सवालाख-संख्यक लोगों को

जनेऊ पहना कर अपने यज्ञ में ब्राह्मणों के साथ भोजन करा दिया, वे ही सवालाखे ब्राह्मण कहलाएं, ये कल्पजियों की एक शाखा है और इनका शारीर संबन्ध कल्पजियों के साथ होता है । ये लोग द्रव्य स्वर्चं करके सरथूपारीयों के यहाँ भी विवाह सम्बन्ध करने लगे हैं । इसी जाति के दूसरे लोग कहीं गंगापुत्र, कहीं गंगावाल कहे जाते हैं । प्रयागवाल भी इन्हीं के उपमेद हैं, जिन्हें इस जाति का विशेष विवरण देखना हो वे कृपा कर “ब्राह्मण-निर्णय” ग्रन्थ का पृष्ठ ५३४ पढ़ें ।

भोजपुर (शाहाबाद-विहार) में एक कहावत<sup>\*</sup> प्रसिद्ध है कि

\*पूरी कहावत यह है—‘अगर बेलीटी रामासौंद ये सब तो हर गहे अपार’ अर्थात् अगरीली, बेलीटी और रामासौंद, यहाँ के ब्राह्मण खूब हल्ल पकड़ते हैं (चलाते हैं) ।

“अगर, बेलौटी, रामासाँड़”, अर्थात् अगरीली ( बलिवा यू० पी० ) बेलौटी ( शाहावाद-विहार ) और रामासाँड़ ( शाहावाद-विहार ) नामक गाँवों में कुछ ऐसे भी ब्राह्मण बसते हैं जिनका निकास अहीरों से हुआ माना जाता है। “ब्राह्मणोत्पत्ति मार्चंरड” नामक वृहद्यन्य में कुछ ऐसे भी ब्राह्मणों की उत्पत्ति लिखी है जो मूलतः भील थे ( ब्राह्मणोत्पत्ति मार्चंरड प्र० ३४७ देखिए ) । ये लोग अभिल्ज व आभीर ब्राह्मण कहलाते हैं ।

ब्राह्मण जाति के विषय में और कुछ न लिखकर केवल यही लिखकर इस प्रसंग को समाप्त करता हूँ कि पूर्वोक्त नाना विधि अखंडनीय प्रमाणों के रहते हुए भी जिनकी यह धारणा है कि निःशेष ब्राह्मण जाति आर्यवंशीय है अथवा कम से कम उनकी नसों में जो मूलतः आर्यवंशीय थे, आर्य रक्त की धारा अज्ञुएण, अप्रतिहत तथा स्वच्छ रूप से विना किसी बाहरी मिलावट के अद्यावधि प्रवाहित हो रही है, उनके विषय में केवल इतना ही कह देना पर्याप्त है कि वे संस्कृत साहित्य तथा हिन्दू-समाज का यथार्थ ज्ञान न रखकर एक भीषण भ्रान्ति के अति अथाह अन्धकृप में जा गिरे हैं ।

ब्राह्मणों के बाद ज्ञातियों का नम्बर आता है । ज्ञाति में जितना रक्त संमिश्रण हुआ है उतना किसी अन्य जाति में शायद ही हुआ है । ज्ञातियों को हम दो श्रेणियों में विभक्त कर

(ख) ज्ञातिय सकते हैं—( १ ) प्राचीन ( Ancient or प्राचीन ज्ञातिय Classical ) ज्ञातिय और ( २ ) आधुनिक ( Modern ) ज्ञातिय जिन्हें हम ‘राजपूत’ कहते हैं । पहले प्राचीन ज्ञातियों का विवरण लिखकर बाद में मैं राजपूतों का विवरण लिखूँगा । प्राचीन काल में चन्द्रवंश और सूर्यवंश ये दो विश्वात ज्ञातिय कुल हो गए हैं ।

इन दोनों में चन्द्रवंश ही अधिक प्रतापी तथा तेजस्वी हुआ है। अतः उसका वर्णन पहले किया जाएगा। इस वंश के प्रवर्तक चन्द्र थे। यह ब्रह्मिं अजि के पुत्र होने के कारण जाति (१) चन्द्र वंश के ब्राह्मण थे। इन्होंने अपने गुरु वृहस्पति की पल्ली तारा के साथ जबर्दस्ती कुकर्म कर बुध नामक पुत्र को उत्पन्न किया। अब बुध का कौन-सा वर्ण हुआ, यह पाठक ही बतलावें। बुध ने इला के गर्भ में, जो सूर्यवंशीय राजकुमारी थी, पुरुरवा को पैदा किया। इस पुरुरवाकी उर्बंशी अप्सरा (देव जाति की एक वेश्या) से प्रेम हो गया, जिसके गर्भ से अयु आदि कई पुत्रों ने जन्म लिया। अयु के पीछे राजा ययाति हुए जिनकी दो रानियाँ थी—देवयानी (ब्राह्मणी) और शर्मिष्ठा (दानवी)। देवयानी के गर्भ से यदु हुए जिन्हें शास्त्र की दृष्टि से प्रति-लोमज सन्तान कहना चाहिए। उन्हीं यदु के कुल रत्न श्रीकृष्ण और बलराम हुए, जिन्हें सनातनी हिन्दू ईश्वरावतार मानते हैं। श्रीकृष्ण जी की आठ पटरानियों में से एक शृङ्ग (अनार्य कन्या) जास्तवती थी। श्रीकृष्ण के पोते अनिकद का विवाह असुर-कन्या ऊधा से हुआ। यह तो हुआ देवयानी के पुत्र यदु के वंश का संज्ञिप्त वर्णन। अब शर्मिष्ठा से उत्पन्न पुरुन्वंश का वर्णन सुनिए। राजा ययाति की शर्मिष्ठा नामक दूसरी रानी के गर्भ से पुरु उत्पन्न हुए जिनके वंशधर राजा शान्तनु हुए। राजा शान्तनु की दो खियाँ थी—गंगा और सत्यवती। गंगा के गर्भ से देववत हुए, जिन्हें भीष्म भी कहते हैं; और सत्यवती के गर्भ से वित्तागद और विचित्रवीर्य, ये दो पुत्र उत्पन्न हुए। पाठकों को यहाँ जान लेना चाहिए कि यह सत्यवती वही केवट कन्यारत्न थी, जिसने अपने कौमारावस्था में ही महर्षि पराशर के साथ ग्रसंग कर व्यास जी की जन्म-द्रात्री बनने का सौभाग्य प्राप्त किया था और तत्पश्चात् राजा शान्तनु ने उसके रूप लावण्य पर

मुख्य होकर उसे अपने रनिवास में लाकर रख लिया। इस जन्म-विवरण से स्पष्ट है कि भीष्म, व्यास, चित्रांगद और विचित्रवीर्य, ये चारों चाहे मातृ-पक्ष से हों या पितृ-पक्ष से, परस्पर भाई हुए और अपने-अपने जन्म के पौर्वापर्यानुसार भीष्म और व्यास दोनों ही चित्रांगद और विचित्रवीर्य से जेठे हुए। चित्रांगद गन्धर्व-राज के साथ लड़ते-लड़ते यद्ध में मारा गया। विचित्रवीर्य की अभिका और अम्बालिका, ये दो रानियाँ थीं जो काशिराज की पुत्रियाँ थीं। विचित्रवीर्य युवावस्था में ही निःसन्तान काल-कवलित हुआ जिससे सत्यवती को कुरुवंश के उच्छ्रेद का महाभय हुआ। उसने भीष्म को बुलाकर कहा कि तुम विचित्रवीर्य की विधवा रानियों को अपनी जियाँ बनाकर वंशवृद्धि करो; नहीं तो कुरु-वंश का अंत उपस्थित है। महाभारत आदि पर्व—

इमे महिष्यौ भ्रातुर्तते, काशिराजसुते शुमे ।

रूपयौवनसम्पन्ने, पुत्रकामे च भारत ॥ १०३ । ६ ॥

तयोरुत्पादयापत्यं सन्तानाय कुलस्य नः ।

मन्त्रियोगान्महावाहो धर्मं कुरु मिहार्हसि ॥ १३० । १० ॥

राज्ये चैवाभिषिञ्चस्व, मारताननुशाधि च ।

दारांश्च कुरु धर्मेण, मा निमज्जीः पिता महान् ॥ १०३ । ११ ॥

अर्थ—सत्यवती भीष्म से कहती है कि हे भारत ! तुम्हारे भाई की ये रानियाँ, जो सब लक्षणों से युक्त और रूप यौवन संपन्न काशि-राज की कन्याएँ हैं, पुत्र की कामना करती हैं। हे महावाहु ! इमारे वंश की वृद्धि के लिये मेरे कहने से इनसे पुत्र उत्पन्न करके धर्म की रक्षा करो। धर्मपूर्वक उन्हें अपनी जियाँ बनाकर अपना राज्याभिषेक करो और भारतराज्य पर शासन करो। अपने पितरों को न हवाओ। भाव यह कि यदि तुम पुत्रोत्पादन नहीं करते हो, तो तुम्हारे पितर छुप्तपिश्चोदक होकर असदगति को प्राप्त हो जाएँगे।

पाठकगण ! अब कुछ यहाँ पर विचार कीजिये। एक माता अपने बड़े पुत्र को अपने छोटे पुत्र को विवाहितों के साथ विवाह कर उनसे पुत्र उत्पन्न करने को कह रही है और दोनों ही इस कुत्सित कर्म को धर्म-सम्मत मान रहे हैं। आजकल, सर्वर्ण कही जाने वाली जातियाँ तो दूर रहें; चमार और भंगी भी अपने छोटे भाई की विवाह के साथ विवाह करने के लिये कहे जाने पर पाप-भय से कौप उठेंगे। वर्तमान काल में दोनों में स्पर्श तक का भी परहेज़ किया जाता है। पर महाभारत-काल में यह धृषित प्रथा ज्ञातियों में प्रचलित मालूम पड़ती है और इसे वे लोग धर्मानुकूल मानते थे।

पर भीम सत्यवती के पिता के सन्मुख पुत्रोत्पादन नहीं करने की प्रतिज्ञा कर लेने के कारण इस कार्य के लिये असमर्थ थे। अतः दोनों ने परस्पर सलाह कर व्यास को बुलाया। व्यास ने नियोग-रीति से अभिविका में धृतराष्ट्र को और अन्यालिका में पाण्डु को उत्पन्न किया। धृतराष्ट्र जन्मान्ध थे; अतः पाण्डु उमर में छोटे होने पर भी राजगद्दी पर बैठे। पाण्डु की दो रानियाँ थीं—कुन्ती और माद्री। पाण्डु मृग-रूपधारी ऋषि के शाप के कारण अपनी रानियों के साथ प्रसंग कर उनमें पुत्रोत्पादन करने से ढरते थे। अतः उन्होंने अपनी रानियों को नियोग द्वारा पुत्र उत्पन्न करने को कहा। यहाँ कुछ कुन्ती का हाल सुनिए। कुन्ती की कौमारावस्था में ही सूर्य देव ने उसके साथ प्रसंग कर उसमें कर्ण को उत्पन्न किया था और सत्यवती की तरह यह भी उस युग के आचारादर्श ( Moral Standard ) के अनुसार कुमारी की कुमारी ही बनी रही। तत्पश्चात् कुन्ती का विवाह पाण्डु से हुआ। पाण्डु की आज्ञा से कुन्ती ने धर्मराज को बुलाकर युधिष्ठिर को, वायु को बुलाकर भीम को और इन्द्र को बुलाकर अर्जुन-को नियोग-द्वारा उत्पन्न किया। इसी प्रकार माद्री ने अश्विनी कुमारों को बुलाकर नकुल और सहदेव को पैदा किया। कितने ही मन्दबुद्धि-

मोली-भाली हिन्दू जनता को वहकाने के लिये यह कहा करते हैं कि व्यासादिकों ने अभिका आदि नियुक्ता लियों के साथ कुछ साधारण मनुष्यों की तरह प्रसंग कर नहीं, बल्कि केवल अपने आशीर्वाद से ही उन्हें पुत्र-प्रदान किया था, जो सरासर झूठ है। मैं आगे चलकर नियोग-विषय पर लिखते हुए यह निर्विवाद-लूप से सिद्ध कर दूँगा कि इन लियों के साथ प्रसंग किया गया था। चन्द्रवंशीय लियों के विषय में इतना ही लिखना पर्याप्त है। इतने से ही पाठकों को भली भाँति मालूम हो गया होगा कि इनमें कितने प्रकार के रक्तों का घोर संमिश्रण हुआ है।

अब सूर्य-वंश का इल सुनिए। यद्यपि यह वंश चन्द्रवंश की अपेक्षा कहीं अधिक झुट है; तिस पर भी इससे यह नहीं समझ लेना

(२) सूर्य वंश बचा रहा। इस वंश के प्रवर्तक विवस्वान् ये जिन्हें सूर्य भी कहते हैं। सूर्य के पुत्र आद्देव मनु हुए जिनके पुत्र दिष्ट के कुल में एक राजा तृणविन्दु हुए। तृणविन्दु को अलम्बुया नामक एक देव जाति की वेश्या से प्रेम हो गया जिसके गर्भ से उन्हें विशाल नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इसी विशाल ने वैशाली नामक जगत्परिस्त्र नगरी बसाई। सभी इतिहासवेच्छाओं को विदित है कि यह वैशाली चिरकाल तक विविध बीदकालीन ऐतिहासिक घटनाओं की रज्जू-भूमि बनी रही। पाठकों ने दुर्वासा-ऋषि के मान मर्दन करने वाले राजा अम्बरीष के विषय में सुना होगा। ये आद्देव के पुत्र नमग के कुल में हुए थे। अम्बरीष के प्रपीत्र रथीतर हुए, जिनकी खो से अंगिरा ऋषि ने कहे पुत्र उत्पन्न किए, जो अन्य वंश वाले लियों से अेष्ट माने गए। आद्देव के सब पुत्रों में इच्छाकु अधिक प्रसिद्ध हो गए हैं। इन्हीं इच्छाकु के कुल में सनातनी हिन्दू विश्वासानुसार ईश्वरावतार रामचन्द्र हुए हैं। इच्छाकु की बीसवीं

पीढ़ी में राजा पुरुषकुल्स हुए, जिन्होने नाग कन्या नर्मदा से विवाह कर अपना वंश चलाया। पुनः इसी इच्छाकुल कुल की भृत्य वीं पीढ़ी में राजा सौदास हुए, जिनकी स्त्री मदयन्ती से महर्षि वशिष्ठ ने अश्मक नामक पुत्र पैदा किया। इसी अश्मक से १२ वीं पीढ़ी में रामचन्द्र हुए। रामचन्द्र के पिता राजा दशरथ की तीन रानियाँ थीं—कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। कौशल्या और कैकेयी तो द्वितीय कुमारियाँ थीं; पर मेरे कितने पाठक यह सुनकर चौंक उठेंगे और उनको लहसा विश्वास न होगा कि लक्ष्मण की माता सुमित्रा वर्ण-संकरी थीं और वे दशरथ की विवाहिता स्त्री न होकर केवल उनकी एक उपपत्नी और कौशल्या और कैकेयी की परिचारिका-मात्र थीं। जिन्हें इस विषय में किसी प्रकार की शंका हो वे कृपा कर भड़ि काव्य, प्रथम सर्ग श्लोक १३ तथा उसकी जयमङ्गला टीका पढ़ें—

निष्ठांगते दविमसभ्यतोये, विहितिभे कर्मसिंह राजपत्न्यः ।  
प्राशुहुंतोच्छ्रिष्ट सुदारवंशया-स्तिसः प्रसोतुं चतुरः सुपुत्रान् ॥

अर्थ—जब राजा दशरथ का पुत्रेण्ठि यज्ञ विधिपूर्वक समाप्त हुआ और उन्होंने सब लोगों को दान-दक्षिणा देकर सन्तुष्ट किया तो उनकी तीनों ब्रियों ने, जो उच्चकुल में उत्सन्न हुई थीं, चार मुन्दर पुत्रों को उत्पन्न करने के लिये यज्ञ के बचे हुए चरु का भज्ञण किया।

इस श्लोक में 'उदार वंशया' शब्द की व्याख्या करते हुए भड़ि-काव्य के सुप्रसिद्ध टीकाकार श्री जयमङ्गल जी अपनी जयमङ्गला टीका में लिखते हैं।

“उदारवंशया महावंशोद्भवा । शेषेयत् । कौसल्या कैकेयी च  
द्वितीये । सुमित्रा तु वर्णसंकरजा । किमर्थं प्राशुः । प्रसोतुं सुपुत्रान्  
विनीतान् प्रसविद्म् । तत्र कौसल्या कैकेयी चैकैकं प्रिण्डं प्राशितवत्यौ ।

ताम्यां चावयोः परिचारिकेति पिरडभाग द्वयं दन्तं सुमित्रा प्राशितवतो  
ततश्च पुत्रद्वयं जनयिध्यति”।

**अर्थ—**उदारवंश्या का अर्थ है उच्चकुल में उत्पन्न। यहाँ पर  
शैषिक यत् प्रत्यय किया गया है। कौशल्या और कैकेही चत्रिय  
कुमारियाँ थीं किन्तु सुमित्रा वर्णसंकरी थी। किसलिये भक्षण किया ?  
विनीत पुत्र उत्पन्न करने के लिये। वहाँ कौशल्या और कैकेही ने एक-  
एक पिंड भक्षण किया। उन दोनों ने यह समझ कर कि सुमित्रा हम  
लोगों की परिचारिका ( दासी ) है, पिरड के दो दुकड़े उसको दिये,  
जिन्हें वह खा गईं। इसलिये वह दो पुत्रों को उत्पन्न करेगी।

महाकाव्य रघुवंश, दशम सर्ग, श्लोक ५५ पढ़िये—

अच्छिर्या तस्य कौशल्या प्रिया केकयवंशजा ।

अतः संभावितां ताम्या सुमित्रामैच्छीश्वरः

**अर्थ—**कौशल्या राजा दशरथ की पूजिता थी अर्थात् वे उन्हें  
सम्मान की दृष्टि से देखा करते थे और कैकेयी उनकी प्रियतमा थी  
इसलिये उनकी यह इच्छा हुई ये ही दोनों सुमित्रा को सम्मानित करें।  
अभिप्राय यह कि राजा दशरथ को साहस न हुआ कि पिंड-विभाग  
करते समय वे सुमित्रा के लिये भी एक भाग स्वयं कर दें; क्योंकि  
वह जानते थे कि सुमित्रा उनकी उपपत्नी तथा कौशल्या और  
कैकेयी की परिचारिका होने के कारण पिंड की अधिकारिशी नहीं  
है; अतः उन्होंने उस पर कृपा करने का भार उक्त दोनों रानियों  
पर ही छोड़ा।

अतः इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि लक्ष्मण की माता सुमित्रा  
चत्रिया न होकर वर्णसंकरी थी, तिसपर भी लक्ष्मण का विवाह चत्रिय-  
भेष्ठ मिथिलेश के परिवार में ही हुआ।

प्राचीन चत्रिय जाति पर अब इससे अधिक न लिखकर केवल

इतना ही कहकर इस विषय को समाप्त कर देना चाहता हूँ कि ब्राह्मण महाबीर परशुराम ने पृथ्वी को इक्कीस बार निःक्षत्रिय कर क्षत्रिय जाति का मूलोच्छेद कर दिया था। केवल उनकी विधवाएँ बच गई थीं। इन क्षत्रिय विधवाओं ने ब्राह्मणों के साथ नियोग कर फिर से क्षत्रिय-कुल को उत्पन्न किया था। महाभारत, आदि पर्व, अध्याय १०४ देखिये—

एवं निःक्षत्रिये लोके कृते तेन महात्मना ।  
 उत्तरादितान्यनन्त्यानि ब्राह्मणैवेदपाररौः ॥५॥  
 पाणिग्राहस्त्यतनय इति वेदेषु निश्चितम् ।  
 धर्मं मनसि संस्थाप्य ब्राह्मणस्ताः समभ्युः ॥६॥  
 लोके प्याचरितो दृष्टः क्षत्रियाणां पुनर्भवः ।  
 ततः पुनः समुदितं क्षत्रं समभवत्तदा ॥७॥

अर्थ—उन महात्मा परशुराम के इस प्रकार पृथ्वी को निःक्षत्रिय कर देने पर वेदज्ञाता ब्राह्मणों ने फिर से क्षत्रिय बच्चों को उत्पन्न किया (५) वेदों में यह निश्चित है कि जो मनुष्य पाणिग्रहण करता है उसके द्वेष में उत्पन्न हुई सन्तान उसीकी होती है। क्षत्रिय विधवाओं ने इस धर्म को मन में स्थिर कर ब्राह्मणों से संसर्ग किया (६)। लोक में क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई और क्षत्रिय-कुल चल निकला।

प्राचीन क्षत्रियों का विषय समाप्त कर अब राजपूत-संजाधारी आधुनिक क्षत्रियों का हाल देखिये। प्राचीन ग्रन्थों में राजपूत नामक किसी क्षत्रिय जाति का नाम-निशान तक नहीं आधुनिक क्षत्रिय है। श्रुति, स्मृति रामायण तथा महाभारत में कहीं राजपूत भी इस जाति का पता नहीं है। हाँ, राजपुत्र शब्द अवश्य आया है पर किसी क्षत्रिय जाति विशेष के अर्थ में नहीं; बल्कि 'राजकुमार' के अर्थ में। प्राचीन कोष-कारों

ने भी ज्ञात्रिय शब्द के विविध पर्यायों में राजपुत्र शब्द को सम्मिलित नहीं किया। अमरकोष देखिए—

मूर्दाभिषिक्तो राजन्यो बाहुजो ज्ञत्रियो विराट् ।

राजा राट् पार्थिवदमा भृन्गपभूपमहीक्षितः ॥

**अर्थ—**मूर्दाभिषिक्त, राजन्य, बाहुज, ज्ञत्रिय, विराट्, राजा, राट्, पार्थिव, दमाभृत्, नृप, भूप और महीक्षित, ये ज्ञात्रिय शब्द के पर्याय हैं। इसमें कहीं भी 'राजपुत्र' शब्द वा तदर्थक कोई अन्य शब्द नहीं आया है।

जाति भास्कर ग्रन्थ के पृष्ठ १६७ में राजपूत जाति की उत्पत्ति निम्नलिखित प्रकार से लिखी है। मूलश्लोक तथा उसका हिन्दी अर्थ वहीं से उद्धृत करता हूँ। यह श्लोक ब्रह्मवैवर्त पुराण का है—

“ज्ञात्करणकन्याया राजपुत्रो वभूव ह ।

राजपुत्रान्तु करणादागरीति प्रकीर्तिः ॥

**अर्थ—**ज्ञात्रिय से करण-कन्या में राजपूत हुआ और राजपुत्री में करण से आगरी कहा गया ॥। स्कंदपुराण, सध्याद्रिसंड, अ० २६ में 'रजपूत' नामक एक जाति की उत्पत्ति इस प्रकार लिखी है—

शूद्रायां ज्ञत्रियादुग्रः कूरकर्मा प्रजायते ।

शूद्रविद्यामु कुशलः संग्राम कुशलो भवेत् ॥

तथा वृत्या सजीवेदः शूद्र धर्मा प्रजायते ।

रजपूत इति रुपातो युद्ध कर्म विशारदः ॥

**अर्थ—**ज्ञात्रिय से शूद्र जाति की लड़ी में रजपूत उत्पन्न होता है। यह भयानक, निर्दय, शूद्र विद्या और रण में चतुर तथा शूद्र धर्म वाला होता है और शूद्रवृत्ति से अपनी जीविका चलाता है।\*

\* 'रजपूत' और 'राजपूत' दोनों ही राजपुत्र शब्द के अपभ्रंश हैं।

यह तो हुआ पुराणों के अनुसार राजपूत जाति की उत्पत्ति-वर्णन। इसे छोड़ अब हम लोग अपने ऐतिहास की ओर चलें और देखें कि राजपूतों का निकास कहाँ से हुआ। इसमें कोई भी शक नहीं कि यह राजपूत जाति एक अति ही दुर्घट्य पराक्रमशालिनी तथा वीरप्रसू जाति ही गई है जो अपनी वीरता के कारण सर्वथा क्षत्रिय कहलाने वोग्य है। इस जाति ने प्राचीन भारतीय राजवंशों के पतन तथा भारत में मुसलमानों के उत्थान के मध्यवर्ती काल में, जिसे हम राजपूत-काल कहते हैं और जिसका मान लगभग ५०० वर्षों का है, अपने विजय-रूप-नाद से भारतवर्ष को एक छोर से दूसरे छोर तक मुखरित कर दिया था। इसी जाति की पवित्र गोद में दिल्लीश्वर पृष्ठीराज, राना संग्रामसिंह तथा वीरकेशरी राणाप्रताप सिंह पले थे, जिनके लोहे की चोट मुहम्मदगोरी आदि जैसे दुर्दान्त विदेशी आक-मण्डकारी भी सहने में असमर्थ थे। भारतीय तथा यूरोपीय विद्वानों ने इस ऐतिहासिक तथ्य का पूर्णतः पता लगा लिया है कि जिस काल में इस जाति का भारत के राजनैतिक क्षेत्र में पदार्पण हुआ था, उस काल में यह एक नवागन्तुक जाति समझी जाती थी। बंगाल के अद्वितीय विद्वान् स्वर्गीय श्री रमेशचन्द्र दत्त महोदय अपने Civilization in Ancient India नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ में लिखते हैं—

The Rajputs were scarcely reckoned among Aryan Hindus before the eighth century. We find no mention of their name in the literature of the country or in the records of foreign travellers, and no traces of their previous culture.....  
Dr. H. H. Wilson has held that they were

the descendants of the Sakas and other invaders who swarmed into India for centuries before the time of Vikramaditya. ( Vol. II, Page 164 )

अर्थ—अठवीं शताब्दी के पूर्व राजपूत जाति आर्य हिन्दू नहीं समझी जाती थी। देश के साहिल्य तथा विदेशी पर्यटकों के भ्रमण-वृत्तान्तों में उनके नाम का उल्लेख हम लोगों को नहीं मिलता और न उनकी किसी पूर्व संस्कृति के चिह्न देखने ही में आते हैं। डाक्टर एच० एच० विल्सन् ने यह निश्चय किया है कि ये (राजपूत) उन शक आदि विदेशीय आक्रमणकारियों के वंशधर हैं जो विक्रमादित्य से पहले, सदियों तक, भारत में झुंड के झुंड आए थे।

इतिहास-विशारद स्मिथ साहब अपने (a) Early History of India including Alexander's Campaigns, Second Edition, pp. 303 and 304 तथा (b) The Oxford Student's History of India, Eighth Edition, pp. 91 and 92 में लिखते हैं—

a) The foreigners..... rapidly became Hinduised. Clans or families which succeeded in winning chieftainship were admitted readily into the frame of Hindu policy as Kshatriyas..... There is no doubt that the Parihars and many other Rajput clans of the North were developed out of the barbarian hordes which poured into India during the fifth and sixth centuries..... Further to the South, various indigenous

or aboriginal tribes and clans underwent the same process of Hinduised social promotion, in virtue of which Gonds, Bhars and Kharwars and so forth emerged as Chandels, Rathors and Gaharwars and other well-known Rajput clans, duly equipped with pedigrees reaching back to the sun and moon.

**अर्थ—**(शक, हूण, गुर्जर आदि) विदेशी जातियाँ शीघ्र ही हिन्दू बन गईं। वे जातियाँ अथवा कुटुम्ब जो शासक-पद को प्राप्त करने में सफल हुए हिन्दुओं की राज्यशासन पदति में ज़त्रिय बनकर तुरन्त प्रवेश कर गए। इसमें कोई सन्देह नहीं कि उत्तर के परिहार तथा अनेक अन्य राजपूत जातियों का विकास उन बर्बर विदेशियों से हुआ है, जिनकी बाढ़ पाँचवीं तथा छठी शताब्दियों में मारत में आई थी। आगे दक्षिण की ओर बहुत-सी आदिम अनार्थ जातियों ने भी हिन्दू बनकर यही सामाजिक उच्चति प्राप्त कर ली, जिसके प्रभाव से सूर्य और चन्द्र के साथ सम्बन्ध जोड़नेवाली वंशावलियों से सुसज्जित होकर गोड़, भर, खरवार आदि क्रमशः चन्देल, राठौर, गहरवार तथा अन्य प्रसिद्ध राजपूत जातियाँ बनकर निकल पड़े।

(b) For instance, the famous Bais clan of Oudh is closely connected with and seems to be descended from the Bhars who are now represented by a numerous caste of very low rank.

**अर्थ—**उदाहरण के लिये अबध की प्रसिद्ध राजपूत जाति वैसों को लीजिए। ये भरों के समीपी सम्बन्धी अथवा इन्हों की ओलाद हैं।

आजकल इन भरों की प्रतिनिधि, अति ही नीची भेणी की एक बहुसंख्यक जाति है।

ज्ञानिय जाति का पूँछ्योक्त विवरण देखने से अब पाठकों को भली भाँति विदित हो गया होगा कि इस जाति की सुष्टि विविध आर्थ्य किम्बा अनार्थ्य रक्तों के समिक्षण से हुई है।

जब ब्राह्मण और ज्ञानिय कहीं जाने वाली जातियों की ही यह दशा है तो बेचारे वैश्य और शूद्र किस खेत की मूली है? इन्हें तो परम ज्ञानी तथा समदर्शी कहे जाने वाले

(ग) वैश्य सनातनी हिन्दुओं के परमात्मा श्रीकृष्ण ने अपनी ज्ञानमयी गीता में 'पाप-योनि' की उपाधि प्रदान कर सदा के लिए कृतार्थ कर दिया है, चाहे इनका रक्त शुद्ध हो वा अशुद्ध! भगवद्गीता, अध्याय ६, श्लोक ३२ पढ़िये—

मां हि पार्थ व्यपाभिल्य, येऽपिस्युः पापयोनयः।  
लियो वैश्या स्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परांगतिम्॥

अर्थ—हे अर्जुन! मेरी शरण में आकर स्त्री, वैश्य तथा शूद्र भी, जिनकी उत्पत्ति पाप से हुई है, परमगति को प्राप्त हो जाते हैं।

'पापयोनि' शब्द पर शङ्कर-भाष्य पढ़िए—'पापयोनयः पापानि योनिः येषां ते पापयोनयः पापजन्मानः' अर्थात् पाप से जिनका जन्म हुआ है। मिसेज. एनीबिसेंट ने 'पापयोनयः' शब्द का अंगरेजी अनुवाद 'of the womb of sin' किया है, जिसका हिन्दी अर्थ है—'पाप के गर्भ के!' आश्चर्य है कि श्रीकृष्ण की दृष्टि में निःशेष वैश्य और शूद्र 'पापयोनि' हैं, पर अर्जुन, जिसकी माता पृथा (कुन्ती) अपनी कौमारवस्था में ही कर्ण को उत्पन्नकर अपना सतील खो चुकी थी और स्वयं उसको ही अपने पति पाशुद्ध से न जन्माकर परपुरुष (इन्द्र) से जन्माया था और जिससे उक्त बात कही गई है, संभवतः 'पापयोनि'

न था ! क्योंकि यदि वे उसे पापयोनि मानते होते तो उसे अपनी वहन सुभद्रा की भगा ले जाने की नेक सलाह कदापि न देते !!

यहाँ पर प्रसंग-प्राप्त वैश्यों और फिर शूद्रों का भी विवरण देना उचित ही है—

**ओसवाल**—ओसवालों के विषय में, जो अपने को वैश्य मानते हैं विद्वानों की यह सम्मति है कि श्री रत्नप्रसु सुरि ने ओसिया नामक गाँव के, जो राजपुताना प्रान्तस्थ मारवाड़ राज्यान्तर्गत जोधपुर से १६ कोस की दूरी पर है, राजा उपलदे पंवार को उसकी प्रजा समेत जिन-जिन जातियों को, सम्बत् २२२ में, अपने जैन धर्म में दीक्षित किया था वे ही काल पाकर ओसवाल कहलाएँ। मूलतः ‘ओसवाल’ शब्द जैन धर्म के एक सम्प्रदाय का नाम था, जिसमें विविध जातियों के लोग सम्मिलित हुए थे, पर पीछे यह सम्प्रदाय एक पृथक् जाति ही बन गया। इस जाति में कुछ ऐसे कुल-नाम हैं—जैसे छाजिया ( छाज अर्थात् वृक्ष बनाने वाले ), चुरोलिया ( चोरी करने वाले ), सोनी ( सोने का काम करने वाले यानी सोनार ), कङ्करा ( कुत्ते पालने वाले ), सिल ( सिल बेचने वाले ), सिंगी ( सींग की चीज़ तैयार करने वाले ), तेलिया ( तेली ), चंडालिया ( चांडाल ), दास ( शूद्र ) आदि, जिनसे तत्सम्बन्धित कुलों की मूल जातियों का पता लगता है। यदि उक्त कुल नामों के किए हुए अर्थ ठीक हैं तो समझ में नहीं आता ओसवालों को किस वर्ण में रखा जाए; क्योंकि यह जाति अनेक जातियों के सम्मिश्रण से बनी मालूम होती है। “जातिभास्कर” और ‘जातिअन्वेषण’ ( प्रथम भाग ) पढ़िए।

**अग्रवाल**—अपने को वैश्य मानने वाली एक दूसरी जाति अग्रवाल है। यह जाति अपने को अग्रोहा के किसी अग्रसेन नामक राजा की सन्तान मानती है। इस जाति की आदि माता माधवी, जो अग्रसेन की खी थी, नागजाति की थी। इसी नाते अग्रवाल बनिए।

साँपों ( नामों ) को अभी तक 'मामा' कहते हैं। इससे सिद्ध है कि अग्रवालों में नाग-नक्ष भिला हुआ है। महाभारत मीमांसाकार<sup>०</sup> के मत से अग्नवेदोक्त 'दस्यु' वा 'दास' ही नाग होगे। कठिपय विद्वानों ने इनके वैश्यत्व में ही सन्देह किया है। एक प्रतिष्ठित अंगरेज विद्वान् ने चमारों को 'अग्रवालों से निकले' लिखा है; अतएव अग्रवालों और चमारों के बीच कोई भ्रातु-सम्बन्ध है या नहीं, इसका निश्चय होना चाहिए। विवाह के अवसर पर इस जाति में चमार और गधे की पूजा होती है और स्वमानु गोत्र में भी विवाह हो सकता है जो धर्मशास्त्र के नियमों से सर्वथा विरुद्ध है। 'जाति-भास्कर' 'जाति-अन्वेषण' ( प्रथम भाग ) पढ़िए। ये जैनी और सनातनी दोनों होते हैं, जिनमें परस्पर रोटी-बेटो का सम्बन्ध होता है जो भारी विडम्बना है।

**खंडेलवाल**—इस जाति का निकास जयपुर राज्यान्तर्गत खंडेला नगर से हुआ है। इसी से इन्हें खंडेलवाल कहते हैं। यहाँ का राजा खंडेलगिरि था जो चौहान राजपूत था। संवत् १ में जिन शैनाचार्य ने राजा समेत जिन ८२ कुलों के ज़ियाओं और २ गाँवों के सुनारों को आवक धर्म में दीक्षित किया था उन्हीं के संमिश्रण से इस जाति की सृष्टि हुई है। इसीलिए इस विरादरी में कुल मिलाकर ८२+२ = ८४ गोत्र हैं। "जाति-भास्कर" पढ़िए।

**वियाहुत वंश**—यह व्यापार तथा महाजनी करनेवाला एक वैश्य जाति है जो युक्तप्रान्त के बलिया और गोरखपुर तथा विहार के प्रायः सभी ज़िलों में पाई जाती है। व्यापार करते-करते इस जाति के कितने सदस्य वंगाल तथा आसाम तक फैल गए हैं।

<sup>०</sup>हिन्दी महाभारत मोमांसा ( हैंडियन प्रेस लिमिटेड ), पृ० १५१-१५२ में लिखित नागजाति-विषयक विवरण पढ़िए।

इस विरादरी में कितने अच्छे-अच्छे जमीदार भी हैं। यह जाति अपने को द्वारका-निवासी बलराम (बलभद्र), श्रीकृष्ण तथा अन्यान्य प्राचीन यदुवंशीय द्वारियों की सन्तान मानती है। इस जाति में विवाह के अवसर पर वर और कन्या दोनों के घर विवाह सम्पन्न होने के पूर्व, बलभद्र की पूजा होती है जिसे 'बलभद्र मनावन' कहते हैं। बलभद्र की मृणमयी प्रतिमा को दाल-भात आदि कच्ची रसोई का भोग लगाया जाता है। यह बलभद्र मनावन उस प्राचीन घटना का स्मारक बतलाया जाता है जब बलराम की इच्छा के विरुद्ध सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ हो जाने के कारण वे रुठ गये थे और श्रीकृष्ण को अनुनय-विनयकर उनका कोध शान्त करना पड़ा था। यदुवंश चन्द्रवंश की एक शास्त्रा थी, जिसके विषय में अधिक लिखा जा चुका है। इस जाति में ३६० कुल वा गोत्र हैं जो बान (बान) कहलाते हैं। शायद इतने गोत्र किसी भी वैश्य जाति में नहीं हैं। 'वियाहुत-वंश का इतिहास' पढ़िये।

**माहेश्वरी**—खंडेला नगर में चौहान जाति का खज्जलसेन नामक राजा राज्य करता था। उसके पुत्र सुजान कुंवर को १४ वर्ष की उमर में किसी जैनीने अपनी शिद्धा से शंकर मत के विरुद्ध कर दिया। वह ब्राह्मणों के यज विद्युत करते और उनके यज्ञोपवीत तोड़ते उत्तर दिशा में सूर्यकुंड पर पहुँचा। वहाँ पराशर, गौतम वृत्तियों ने उसके उपद्रवों को न सहकर उसको धोर शाप दिया जिसके फलस्वरूप वह तथा उसके साथी जड़बुद्धि पायाएँ हो गये। उनकी स्त्रियों ने शंकर को तपस्या करके प्रसन्न किया। शंकर ने उनका शाप-विमोचन करते हुए उन्हें ज्ञानियत्व से गिराकर वैश्य-पद का अधिकारी बनाया। इस जाति में ७२ खाँपें (कुल) होती हैं जिनके अध्ययन से पता चलता है कि इसका निकास चौहान, सोलकी, कछवाहा, पैवार, गहलोत, परिहार आदि राजपूत जातियों से हुआ है। परं राजपूतों

के विषय में सब कुछ लिख दिया गया है। जब मूल स्रोत का ही जल गम्भा है तो उससे निकले हुए इस नाले का जल क्यों कर शुद्ध हो सकता है? जो माहेश्वरी खड़ेला छोड़कर डीड़वाना आ गये वे ही डीड़ माहेश्वरी कहलाए। 'जातिभास्कर' पढ़िए।

**नोट :**—जब सुख्य-भुख्य वैश्य कही जाने वाली जातियों की तो वह दशा है, तो कस्तवानी, कसौधन, रीनियार, रस्तोगी, अप्रहरी, उमर, माहुरी, कमलापुरी, जैनपुरी आदि अप्रसिद्ध वर्गिक जातियों के पक्ष में कहना ही क्या है!

शूद्रसंज्ञाधारी जनसमुदाय किसी वंश-विशेष अथवा किसी जाति-

विशेष के सदस्यों का समुदाय न था। अपितु

(ब) शूद्र निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसी भी एक अवस्था को प्राप्त होने पर कोई भी हो, आर्य किम्बा अनार्य, वह दासयोनि ( शूद्र जाति ) में ढकेल दिया जाता था। मनुस्मृति कहती है—

ध्यजाह्वतो भक्त-दासो गृहजः क्रीत-दत्तिमौ ।

पैत्रिको दंड-दासश्च सर्वैते दासयोनयः ॥ मनु ८।४१५॥

**अर्थ—**(१) युद्ध में कैद किया हुआ, (२) उदरपूर्ति के निमित्त दासत्व स्वीकार करने वाला, (३) घर की दासी का पुत्र, (४) खरीदा हुआ मनुष्य, (५) दान में मिला हुआ, (६), जिसके पिता आदि भी दास हो और (७) राजदंड से बचने के लिये दास बना हुआ, ये सात प्रकार के मनुष्य दास ( शूद्र ) योनि हैं। यहाँ आर्य-अनार्य, द्विज-अद्विज, की कोई पावनी नहीं। सर्वसाधारण की चिरबद्धमूल यह धारणा कि विजयी आर्य जिन अनार्यों को युद्ध में पराजितकर बन्दी बनाते उन्हें ही शूद्र संज्ञा प्रदानकर उनसे दास कर्म करवाते थे, विलक्षण भ्रान्ति-मूलक है; क्योंकि यह कोई करुणी न था कि युद्ध केवल आर्यों-अनार्यों के

ही बीच हुआ करे ; वह तो आयों में भी परस्पर हुआ करता था, जैसा कि ऋग्वेद के निम्नलिखित मंत्र से मालूम होता है—

या नो दास आयों वा पुष्टुताऽदेव इन्द्र सुधिये चिकेतति ।

अस्मा भिष्टे सुपहाः सन्तु शत्रवस्त्वया वयं तान् बनुयाम संगमे ॥

ऋ० १०।३८३

अर्थ—हे बहुत लोगों की स्तुति के पात्र इन्द्र ! जो देव हीन मनुष्य, चाहे वे आर्य हों व दस्यु, हमारे साथ युद्ध करने की इच्छा रखते हैं, वे सब शत्रुगण हमारे सम्मुख अनायास ही पराजित हो जाएँ और आपकी कृपा से हम उन शत्रुओं को युद्ध में नाश कर दें ।

ऐसी दशा में युद्ध-पराजित आर्य दल का भी बन्दी होकर दास योनि में ढकेला जाना कोई असम्भव नहीं था ।

पूर्वोक्त दासत्व-विधायक सप्तविध अवस्थाओं के अतिरिक्त, एक आठवीं अवस्था भी है जिसको प्राप्त होने पर द्विज का द्विजत्व नष्ट हो जाता और वह शूद्रत्व को प्राप्त हो जाता है । वह है द्विजोचित संस्कारों का लोप हो जाना । मनुस्मृति में लिखा है—

शनकैस्तु क्रियालोपादिमाः क्षत्रियजातयः ।

वृग्लत्वं गता लोके ब्राह्मणादर्शनेन च ॥

पौश्रुका इच्छौद्रविङ्गाः काम्बोजा यवनाः शकाः ।

पारदाः पहचाश्चीनाः किरातादरदाः खशाः ॥मनु १०।४३

अर्थ—यज्ञ कराने, पढ़ाने, प्रायशिच्छत्तादि के कराने के निमित्त ब्राह्मणों का दर्शन न होने से पौश्रुक, चौड़, द्रविड़, काम्बोज, यवन, शक, पारद, पहच, चीन, किरात, दरद, और खश, ये क्षत्रिय जातियाँ धीरे-धीरे उपनयनादि संस्कारों से भ्रष्ट होकर शूद्रत्व को प्राप्त हो गईं ।

इन जातियों के विषय में केवल दो ही पञ्च उपस्थित हो सकते हैं—

(१) यदि ये मूलतः अनार्य थीं, तो इनका द्विजाति (क्षत्रिय) होना

कैसे लिखा गया ? और ( २ ) यदि ये मूलतः आर्य ( द्विजाति ) थीं तो ये शूद्र ( अनार्य ) कैसे हो गईं ? किसी भी पक्ष को भगण करने से यही फल निकलता है कि द्विजत्व को आर्यत्व से किम्बा शूद्रत्व का अनार्यत्व से कोई योनि ( जाति ) परक सम्बन्ध नहीं था । दशा विशेष को प्राप्त होने पर आर्य भी दात अथवा शूद्र हो सकते थे । शूद्र-समुदाय विषयक इन विवरणों से स्पष्ट विदित होता है कि इस समुदाय में विविध जातियाँ आकर सम्मिलित हो गईं थीं । वर्तमान काल में जिन अनेक जातियों को अधिकतर हिन्दू शूद्र समझते हैं उनकी उत्थान जाति-निर्णय-ग्रन्थों में प्रायः संकर लिखी गई है ।

यहाँ तक तो ब्राह्मण, द्वित्रिय, वैश्य, और शूद्र, इन चारों वर्णों पर सामूहिक रूप से विचारकर विविध प्रमाणों से यह दिखलाया गया कि सभी वर्णों में घोर रक्त-संमिश्रण हुआ है । विवादप्रस्त वर्ण पर अभी इस चीसवीं शताब्दी में भी कितनी ऐसी की जातियाँ भी जातियाँ हैं, जैसे भूमिहार, कायस्थ, खत्री आदि,

जिनका वर्ण-निश्चय हिन्दू समाज के मान लेने योग्य रूप में आज तक नहीं हुआ । इन जातियों के विषय में कुछ लिखने के पूर्व मैं तो इनसे यह निवेदन करूँगा कि जिस वर्ण व्यवस्था ने भारत को गारत कर दिया जैसा कि इस पुस्तक में आगे चलकर दिखाया जाएगा उस पास्तंडपूर्ण तथा हाँनकारक व्यवस्था को ब्राह्मण और द्वित्रिय बनकर जीवित रखने का प्रयत्न करना आप लोगों की सरासर भूल है । यदि आप लोग इस जातीयता-संहारिणी व्यवस्था की जड़ को सीच-धीर्चकर इसे जीवित रखने के बजाय इसका समूल उत्थान करते तो देश का उद्धार होने में देर न लगती । इसके अतिरिक्त मैं किसी द्वेष-भाव से नहीं; बल्कि एक सद्भावना से प्रेरित होकर यह भी कह देना चाहता हूँ कि आप लोग जिन प्रमाणों के बल

पर अपना-अपना इष्ट वर्ण सिद्ध किया चाहते हैं, वे इतने निःसार तथा निर्वल हैं कि तर्क बुद्धि के एक हल्के ठोकर से भी चकना-चूर हो सकते हैं।

सर्वप्रथम ब्राह्मण बनने के लिए आकाश-पाताल के कुताचे एक करनेवाली भूमिहार जाति पर विचार किया जाता है। अतः इस जाति

पर विचार करने के पूर्व इस बात का निर्णय हो।

**भूमिहार** जाना बहुत ही ज़रूरी है कि सर्वसाधारण, और विशेषतः सनातनी हिन्दू समाज, किस जाति को ब्राह्मण जनता और मानता है; अथवा यो कहिए कि उक्त समाज, गुण, कर्म और स्वभाव की दृष्टि से नहीं, वल्कि सामाजिक दृष्टि से, किन लोगों को ब्राह्मण स्वीकार करता है; क्योंकि यदि गुण, कर्म और स्वभाव की दृष्टि से ब्राह्मण-निर्णय किया जाए तो, “शूद्रो ब्राह्मणतामेति, ब्राह्मणो याति शूद्रताम्” के न्याय से शूद्र भी ब्राह्मण और ब्राह्मण भी शूद्र हो सकता है, जो यहाँ अभिप्रेत नहीं है; अतः यहाँ केवल सामाजिक दृष्टि से ही ब्राह्मण-निर्णय करना है। परम्परा से हिन्दू जनता उन्हीं लोगों को ब्राह्मण मानती चली आ रही है जो उसके यहाँ जन्म से मरण तक विवाहादि विविध गृह-कृत्यों को उसके पुरोहित बनकर कराते चले आ रहे हैं; तथा जिनके यहाँ वेदादि धर्म-ग्रन्थों के पठन-पाठन, वजन-पाजन आदि को प्रथा प्राचीन काल से लेकर आज तक बराबर चालू हैं; अथवा दूसरे शब्दों में यो कहिए कि हिन्दू जनता जिन लोगों से अपने यहाँ पौरोहित्य-कर्म विना किसी आपत्ति तथा संकोच के करा सकती है, केवल वे ही उसकी दृष्टि में ब्राह्मण हैं, दूसरे नहीं। सभी धर्मों में पुरोहितों का प्रभाव सम्बन्धित जनता पर कितना गहरा है, यह किसी से छिपा नहीं। जिस सम्मान की दृष्टि से मुस्लिम जगत् मुल्ला-मौलिवियों को, ईसाई जगत् पादरियों को और बौद्ध जगत् अपने भिन्नओं को देखता है, उससे कहीं अधिक

सम्मान की दृष्टि से हिन्दू जगत् ब्राह्मणों को देखता है। वह अपने ऐहिक तथा पारंत्रिक कल्याण के लिये ब्राह्मणों के विधान पर नाचा करता है। वह उनकी सेवा तन-मन-धन से करने में ही अपना जीवन समूल मानता है। ब्राह्मण उसके चिचार में मनुष्य नहीं, बल्कि देवता है। इससे स्पष्ट है कि हिन्दुओं के हृदय में जो स्थान ब्राह्मण जाति का है, वह भूमिहार जाति का नहीं है। सच पूछिये तो हिन्दू समाज का ब्राह्मण जाति के साथ एक धनिष्ठ धार्मिक सम्बन्ध है जो भूमिहार किंवा किसी अन्य जाति के साथ नहीं है।

ऊपर कहा आए है कि हिन्दुओं की दृष्टि में केवल वे ही ब्राह्मण हैं जिनसे वे अपने यहाँ पौरोहित्य-कर्म में विना किसी संकोच के करा सकते हैं। पौरोहित्य-कर्म में ही ब्राह्मणों को दान-दक्षिणा देना, ब्राह्मण-भोजन करना आदि कर्म सन्निहित हैं। यह बात दूसरी है कि कोई ब्राह्मण-परिवार-विशेष धन-धार्य से सम्बन्ध होने के कारण पुरोहिताई का परित्याग कर दे। पर यह निश्चय है कि यदि उक्त परिवार पुरोहिताई करने पर राजी हो जाए, तो हिन्दू जाति उक्त परिवार के सदस्यों के द्वारा अपने यहाँ पुरोहिताई कराने में तनिक भी आगा-पीछा न करेगी। ब्राह्मण-निर्णय सदा यजमान की दृष्टि से होना चाहिये; क्योंकि वही समाज का ग्रतीक तथा ग्रतिनिधि है। पुरोहित की दृष्टि से निर्णय करने में घोखे की संभावना है; क्योंकि ब्राह्मण बनने की उत्कट अभिलाषा-वश कतिपय ब्राह्मण जातियाँ भी काल के प्रभाव से पुरोहिताई करने के लिये लालायित हैं; पर हिन्दू समाज को उनकी पुरोहिताई अमान्य है। अतः इस कसौटी पर यदि मैं भूमिहार जाति के ब्राह्मणत्व को कसता हूँ तो वह आमा-हीन निकलता है; क्योंकि कोई भी हिन्दू भूमिहारों से अपने यहाँ पुरोहिताई कराने पर सहमत नहीं देख पड़ता। यदि भारत के किसी पिछड़े ग्रान्त में कुछ भूमिहार शहदों के घर पुरोहिताई करते भी हो तो वह किसी गणेना के

योग्य नहीं। मिथिला प्रान्त में तेलिया ब्राह्मण तथा सूँदिया ब्राह्मण होते हैं जो तेलियों तथा सूँदियों की पुरोहिताई करते हैं; पर उच्च हिन्दू समाज इन ब्राह्मणों को किस हेय दृष्टि से देखता है, इसकी चर्चा करना व्यर्थ है। यदि ऐसे ही हेय ब्राह्मणत्व से भूमिहार भाई सन्तोष कर लेना चाहते हों तो भले ही करें; मैं इस पर कुछ भी आपत्ति नहीं करता; पर उच्च हिन्दू समाज ऐसे ब्राह्मणत्व से सन्तुष्ट नहीं हो सकता। यह बात तो मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ कि कितने मूर्ख ब्राह्मण अपनी निरच्छरता के कारण पुरोहिताई न कर बाबुओं के घर भनसिये का कामकर आपना पेट पालते हैं; पर लूटी तो यह है कि ऐसे गिरे ब्राह्मण भी केवल अपनी जाति के कारण हिन्दू समाज की दृष्टि में उत्तम और पवित्र माने जाते हैं। इसी को कहते हैं जाति का महत्त्व ! याद रहे कि प्रस्तावित प्रश्न पर सामाजिक पहलू से विचार हो रहा है। यदि भूमिहार भाइयों के तरफ से यह दलील पेश की जाये कि पुरोहिताई एक निनित कर्म है; अतः उन्होंने इसे छोड़ दिया, तो मैं उनसे नम्रतापूर्वक पूछता हूँ कि कौन-सा ब्राह्मणोचित उत्तम कर्म उनकी विरादरी में परम्परा से होता चला आया, जिसके भरोसे वे ब्राह्मण बनने चले हैं। किसी ने भी आज तक न कही देखा, न तो कहीं सुना और न तो किसी ग्रन्थ में लिखा पाया कि भूमिहारों के यहाँ भी, प्रकृत ब्राह्मणों की तरह परम्परा से वेदादि धर्मग्रन्थों का अध्ययन तथा यज्ञादि वैदिक कर्मों का अनुष्ठान होता आया है। उनके यहाँ तो समरणातीत काल से मुख्यतः हलचालन, बीजवपन, शास्यन्धेदन आदि कृषि-सम्बन्धी कार्य होते चले आए, जैसा कि ‘भूमिहाल’ शब्द से, जिसका ही अपभ्रंश ‘भूमिहार’ शब्द है, स्पष्टतः बोधित होता है। ‘भूमिहाल’ शब्द की, व्युत्पत्ति तथा अर्थ देखिए— ‘भूमि पृथिवी लक्षणया लेत्रं हलति हलयं चेण कर्पति इति भूमिहालः, भूमि + हल् (कर्पण) + अण, कर्मस्यण शारा। इति पाणिनि-सूत्रस्य

प्रवृत्तिरूपपदसमाप्तः; , अर्थात् पृथ्वी को जो हल से जोते वह भूमिहाल (भूमिहार) है। कृषि इस जाति की मुख्य जीविका है जिससे शाखों के पठन-पाठन का कुछ भी सम्बन्ध नहीं। कितने भूमिहार भाइयों को मैंने गाड़ीवानी तथा रोज़दारी पर मज़दूरी एवं कुली का काम करते देखा है। क्या पौरोहित्य-कर्म उक्त कर्मों से भी निन्द्य है जो भूमिहार भाई उसे नहीं करना चाहते? असल बात तो यह है कि कोई भी हिन्दू भूमिहारों से पुरोहिताई कराना ही नहीं चाहता। अतः भूमिहारों की पौरोहित्य से विरक्ति केवल ढांग है जो “अंगूर खड़े हैं” की कहावत चरितार्थ करता है।

पर यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या सचमुच पौरोहित्य एक गर्हित कर्म है? शाखों के अध्ययन से इसका उच्चर नकार में मिलता है। वहाँ तो हम लोग बड़े-बड़े महर्षि कुंजरों को, जिन्हें हिन्दू जनता प्रातः स्मरणीय मानती तथा बड़े आदर की दृष्टि से देखती है, पुरोहिताई करते पाते हैं। महर्षि वशिष्ठ सूर्यवंशीय राजाओं का, महर्षि गौतम तथा उनके पुत्र शतानन्द मिथिलाधिपतियों का, महर्षि गर्ग यदुवंशियों का, महर्षि धीम्य दाष्ठदवों का, शुक्राचार्य दैत्यों का तथा वृहस्पति और विश्वरूप देवताओं की पुरोहिताई करने में तनिक भी नहीं हिचके। जब ऐसे-ऐसे महानुभावों ने पुरोहिताई का तिरस्कार नहीं किया, तो क्या कारण है कि हमारे भूमिहार भाइयों ने इसे छोड़ दिया। यदि यह कहा जाए कि जमींदारी और बंदुआई से मदान्ध होकर भूमिहारों ने पुरोहिताई पर लात मारी, तो यह हो नहीं सकता; कारण कि सभी भूमिहार राजा-बाबू न थे। इनमें कितने ही महादरिद्र भी होंगे, जैसा कि आजकल भी है। इन दरिद्रों ने पुरोहिताई क्यों छोड़ी? सच्ची बात तो यह है कि भूमिहारों को पुरोहिताई के कर्म के लिये किसी ने कभी पूछा तक नहीं। यह तो ठीक है कि शाखों में कहीं-कहीं पर पुरोहिताई की निन्दा की गई है; पर यह निन्दा विचार करने पर निर्मूल

मालूम होती है। इस निन्दा में कुछ भी वास्तविक तत्त्व नहीं देख पड़ता। महर्षि वशिष्ठ ने रामचरितमानस के उत्तरकाशड में कहा—“उपरोहिती कर्म अति मन्दा”; पुनः अध्यात्मरामायण, २१।२८, में भी उन्होंने ऐसा ही कहा है—“पौरोहित्यमहं जाने विग्रह्य जीवनम्”। पर यदि पौरोहित्य सचमुच एक विग्रहित कर्म है, तो उन्होंने सूर्यवंश तथा राजा निमि की पुरोहिताई क्यों की? सूर्यवंश की पुरोहिताई के पक्ष में यदि यह कहा जाए कि रामचन्द्र के गुरु होने के लोभ ने वशिष्ठ को पुरोहिताई कबूल करने के लिये बिबरण किया, तो वैसी बात तो निमि की पुरोहिताई के सम्बन्ध में न थी। निमि की पुरोहिताई उन्होंने क्यों स्वीकार की? और पुरोहिताई यदि सचमुच एक चुरी चीज़ थी तो वे इसी के कारण अपने यजमान निमि से लड़ क्यों गए? और यह कलह इतना बढ़ गया कि अन्त में दोनों ने शाप द्वारा एक दूसरे की जान तक ले ली। वशिष्ठ को तो यह समझकर सन्तोष कर लेना चाहता था कि निमि की पुरोहिताई छूटी तो अच्छा ही हुआ। वेश्या रूठी, धर्म बचा। पर उन्होंने वैसा न किया; अतः वशिष्ठ का उक्त बचन माननीय नहीं है। वशिष्ठ-निमि का वृत्तान्त, श्रीमद्भागवत, स्कन्ध ६, अध्याय १३ में लिखा है। इसी प्रकार जब देवताओं ने वृहस्पति के रुठ जाने पर विश्वरूप को अपनी पुरोहिताई करने को कहा तो विश्वरूप ने भी पुरोहिताई की निन्दा की, पर यह निन्दा भी केवल बनावटी थी; कारण कि उन्होंने निन्दा करके भी देवताओं का पौरोहित्य स्वीकारकर उनका कार्य किया। श्रीमद्भा-गवत, पृष्ठस्कन्ध, अध्याय ७ में लिखा है—

तेभ्य एवं प्रतिभृत्य विश्वरूपो महातपाः ।

पौरोहित्यं बृतश्चके परमेण समाधिना ॥ ३८ ॥

**अर्थ—**महातपस्वी विश्वरूप जी देवताओं से यो प्रतिज्ञा करके उनके पुरोहित हो गए, और परम सावधानी के साथ पुरोहिती करने लगे।

इससे स्पष्ट है कि पौरोहित्य कोई निनित कर्म नहीं है। यदि वह निनित कर्म होता तो वह ब्राह्मणों की शास्त्रानुमोदित जीविका कभी न होती। यदि ब्राह्मण जाति पुरोहिताई करना छोड़ दे तो सारे कर्मकारण का लोप हो जाय और प्रजा म्लेच्छमाव को प्राप्त हो जाए। यदि कहो कि ब्राह्मण पौरोहित्य-कर्म करना चाहे तो भले ही उसे करे; पर उसके लिए दक्षिणा न ले, और यदि ले भी तो उसे स्वार्थ में नहीं, बल्कि परोपकार में लगा दे। हाँ, ठीक है; यदि परोपकार में लगा दे तो अत्युच्चम; पर यदि परोपकार में न लगाकर स्वार्थ में ही लगा दे तो वह इसके लिए दोषी नहीं कहा जा सकता; क्योंकि वह तो उसके प्रतीने की कमाई है। यदि दुर्जन-तोष-न्याय से यह मान भी लिया जाए कि पुरोहित-ब्राह्मण अपुरोहित-ब्राह्मणों की ही तुलना में है; अन्य वर्गों की तुलना में नहीं। अन्य वर्गों की तुलना में वह तो सदा उत्तम है। अतः भूमिहार भाइयों को इस भ्रम में कभी नहीं पढ़ना चाहिए कि वे पुरोहिताई करने वाली प्रकृत ब्राह्मण जाति से उत्तम हैं; क्योंकि उनका अभी ब्राह्मणत्व ही सन्दर्भ है; उत्कृष्टता किम्बा अतुकृष्टता का प्रश्न तो पीछे है। भूमिहार-भूषण श्री सहजनन्द जी दशब्दी ने अपनी जाति के ब्राह्मणी करण के लिए काफी आत्मोलन मचा रखा है। आपने इस उद्देश्य से तीन पुस्तकें लिखी हैं, जिनके नाम हैं—( १ ) 'भूमिहार ब्राह्मण परिचय,' जिसका नाम बाद में बदलकर 'ब्रह्मणि-वंश-विस्तर' रखा गया; ( २ ) 'ब्राह्मण समाज की स्थिति' और ( ३ ) 'भूठा भय और मिथ्या-भिमान'। आपने पहले तो पुरोहिताई तथा पुरोहिताई करने वाले ब्राह्मणों की भरपेट निन्दा की; पर जब अन्त में आपको स्वजाति के ब्राह्मणीकरण के लिये कोई दूसरा उपाय न सूझा, तो आपने अपनी विरादरी वालों को पुरोहिताई का काम उठा लेने की नेक सलाह दे

दी। उक्त तीसरी पुस्तक तो आपने अपनी विरादरी में केवल पुरोहिताई के प्रचार के ही लिए लिखी है। एक ही मुँह से पुरोहिताई की घोर निनदा करना और पुनः उसी को ग्रहण करने के लिये आपनी विरादरी को ज्ञारदार शब्दों में उभाइना, ऐसे परस्पर-विरोधी वचन किसी विवेक-शील तथा सिद्धान्तनिष्ठ व्यक्ति के नहीं होते; क्योंकि यदि सचमुच भूमिहार जाति ने किसी सुदूर पूर्वकाल में पुरोहिताई से, उसे नीच कर्म समझकर मुँह मोड़ लिया तो पुनः उसे करने की सलाह देना मानो थूककर चाटना है। पर स्वजाति भाइयों को उक्त सलाह देते हुए आप यह बात विलकुल भूल जाते हैं कि किसी भी अन्य जाति का हिन्दू भूमिहारों से अपनी पुरोहिताई स्वप्र में भी नहीं करा सकता; चाहे भूमिहार भाई आपस में एक दूसरे की पुरोहिताई किम्बा गुरुआई भले ही कर-करा लें। यो तो आजकल बहुत से निम्न श्रेणी के लोग भी, जैसे नाई, बड़ई, लोहार आदि, शिखा-सन्त धारणकर एक दूसरे को 'पंडित जी', 'पंडित जी' कहने करते हुये नमस्कार करते, अपने नाम के अन्त में 'राम्मा' की उपाधि लगाते तथा ब्राह्मण बनने की धुन में परस्पर एक दूसरे की गुरुआई-पुरोहिताई भी करते देखे जाते हैं; पर क्या हिन्दू समाज उनकी इस अनधिकार चेष्टा को कभी भी स्वीकार करेगा? कभी भी नहीं। वस्तुतः किसी भी अब्राह्मण जाति के द्वारा स्वब्राह्मणत्व-प्रतिपादनार्थ जितना ही अधिक प्रयास किया जाएगा उतनी ही अधिक यह शंका होगी कि दाल में अवश्य कुछ काला है; अन्यथा इस महाप्रयास की आवश्यकता ही क्या थी? ऐसे प्रयास से तो यही मालूम होता है कि हिन्दू जनता के गले के नीचे एक ऐसी कड़वी तथा जी मचलाने वाली घृट उतारने का प्रयत्न हो रहा है जिसे वह अवश्य वर्मन कर देगी। इसके अतिरिक्त यह भी एक विचारने की बात है कि कनौजियों, सरथूपारियों आदि प्रकृत ब्राह्मणों का ब्राह्मणत्व स्वयं सिद्ध क्यों है? वह आपनी सिद्धि के लिए

किसी की वकालत की परवाह क्यों नहीं करता ? हिन्दू जनता विना किसी भी शंका के परंपरा से उन्हें ब्राह्मण क्यों मानती चली आई ? उसने उनके ब्राह्मणत्व में आज तक किसी प्रकार की शंका क्यों नहीं की ? इत्यादि । इन सभी प्रश्नों का एकमात्र यही उत्तर है कि उक्त प्रकृत ब्राह्मण न मालूम कब से उसके गुरु और पुरोहित हैं; उसके ऐहिक और पारलौकिक मंगल के विधाता हैं और उनके साथ उसका एक धनिष्ठ धार्मिक सम्बन्ध है ।

अब यहाँ प्रसंग-प्राप्त इस विषय पर विचार किया जाता है कि दण्डी सहजानन्दकी ने जो निःशेष ब्राह्मणों को 'याचक' और 'अयाचक' इन दो श्रेणियों में विभक्त किया है और जिसका उल्लेख आपने अपनो पृथ्वीक तीनों पुस्तकों में बार-बार किया है, कहाँ तक तर्कपूर्ण, युक्त-युक्त और शास्त्र-सम्मत है । आपके इस वर्गीकरण का आधार महाभारत, शान्तिपञ्चान्तर्गत मोक्ष-धर्मम्-पर्व, अध्याय १६६ का निम्नलिखित श्लोक है, जिसमें पिपलाद के पुत्र किसी कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने राजा इच्छाकु से कहा है—

द्विविधा ब्राह्मण राजन्, धर्मध्वं द्विविधः स्मृतः ।

प्रवृत्ताध्वनिवृत्ताश्च निवृत्तोऽहं प्रतिग्रहात् ॥ ३६ ॥

इसका अर्थ आप यों करते हैं—'हे राजन् ! प्रतिग्रह आदि लेने में प्रवृत्ति और उनसे निवृत्ति ये दो प्रकार के धर्म ब्राह्मणों के हैं; इसलिए ब्राह्मण भी तदनुसार ही दो प्रकार के होते हैं। एक प्रतिग्रहादि में प्रवृत्त और दूसरे उनसे निवृत्त । उनमें से मुझे प्रतिग्रहादि से निवृत्त जानिए' । 'ब्राह्मधिवंश-विस्तर', पृ० ८७; पुनः उसी पृष्ठ में आगे चलकर लिखते हैं—'इस सम्पूर्ण कथन का सारांश यह है कि अयाचक और याचक ये दो प्रकार के ब्राह्मण सर्वदा से होते चले आए हैं इत्यादि' । दूसरे उद्दरण से स्पष्ट है कि आप 'प्रतिग्रह-प्रवृत्त' का अर्थ 'याचक' और 'प्रतिग्रह-निवृत्त' का अर्थ 'अयाचक' लगाते

है, जो एकदम रालत और पुरोहिताई करने वाले ब्राह्मणों के प्रति आपकी शृणा का चोतक है, तथा जिसका समर्थन कोषों के द्वारा नहीं हो सकता। श्री आप्टे कृत संस्कृत-अंगरेजी कोष के अनुसार 'प्रवृत्त' का अर्थ—engaged in ; occupied with ; 'निवृत्त' का अर्थ refrained or abstained from ; desisted और 'प्रतिग्रह' का अर्थ the right of receiving gifts है; अतः 'प्रतिग्रह-प्रवृत्त' का अर्थ दान ग्रहण करने में लगा हुआ, अर्थात् दानग्राही, और 'प्रदिग्रह-निवृत्त' का अर्थ दान-ग्रहण करने से रुक गया हुआ, अर्थात् दानल्यागी है, न कि इन शब्दों के अर्थ क्रमशः 'याचक' और 'अयाचक' है, जैसा कि आपने किया है। मालूम होता है कि आपने जान-बृहकर ऐसा रालत अर्थ पुरोहित ब्राह्मणों के प्रति अपनी हार्दिक शृणा दिखलाने के लिए ही किया है; क्योंकि 'याचक' शब्द का अर्थ भीख माँगने वाला और 'अयाचक' शब्द का अर्थ भीख नहीं माँगने वाला है। शायद आपको मालूम नहीं कि दान (gift, present), दक्षिणा (fee remuneration) और भिन्ना (Alms), ये तीनों भिन्न-भिन्न तीन वस्तु हैं। जो हमारी अद्धा, मक्कि तथा प्रेम के पात्र हैं, उनको जो कुछ हम, बिना उनसे कुछ बदले में लिए हुए देते हैं, उसका नाम दान है; दूसरे से काम लेकर जो कुछ हम उसे पारिश्रमिक त्वरूप देते हैं, उसका नाम दक्षिणा है और असहायों की अथवा ऐसे लोगों की जो अपना भरण-पोषण स्वयं करने में असमर्थ हैं, जो कुछ हम सहायता करते हैं उसका नाम भिन्ना वा भीख है। पुरोहिताई भिन्नाकर्म नहीं है। भीख माँगने वाला ब्राह्मण तो शास्त्रीय विधानानुसार शूद्र तुल्य है। यदि आपके ही अर्थ को मान लिया जाए कि दानग्राही ब्राह्मण याचक हैं, तो इससे आपके पक्ष की कुछ भी पुष्टि नहीं होती, क्योंकि याचक ब्राह्मण तो आस्तिर ब्राह्मण ही है; परं भूमि-

हारो का तो ब्राह्मणत्व ही अभी साध्य कोटि में है। उनका याचक अथवा अयाचक होना तो बाद का प्रश्न है। उनके ब्राह्मणत्व का प्रश्न मुख्य; पर उनके अयाचकत्व का प्रश्न गौण है। भूमिहारों की देखा-देखी नाई, बढ़ै आदि जातियाँ भी, जिनसे कोई भी अपनी पुरोहिताई नहीं कराता, आपने को अयाचक ब्राह्मण कह सकते हैं। पर इस बात का मानेगा कौन?

उक्त दरडी जी ने पुरोहित-वर्ग को नीचा दिलजाने के लिये और भी कितनी उछलेकृद मचाई है। आपने मन्त्रादि धर्मशास्त्रकारों की दुहाई देकर प्रतिग्रह की निन्दा की है—

अतपास्त्वनधीयानः प्रतिग्रहचिद्दिनः ।

अभ्यस्यश्मप्लवेनैव सहतेनैव मज्जति ॥ मनु ५।६० ॥

अर्थ—जो ब्राह्मण वेदादि शास्त्रों का पढ़ने और तपस्या करने वाला नहीं है, वह यदि प्रतिग्रह करे तो प्रतिग्रह के साथ ही उसका नाश वैसे ही हो जाता है जैसे पत्थर की नाव आपने आरोही के साथ जल में डूब जाती है। पर भले ही ऐसा ब्राह्मण भाड़ में चला जाए; इससे भूमिहार-पक्ष की कुछ भी पुष्टि नहीं होती।

मनु के और भी कितने बचन प्रतिग्रह के चिरुद्ध हैं। इसी प्रकार याज्ञवल्क्य, अञ्जि आदिको ने भी प्रतिग्रह की निन्दा की है। इन धर्मशास्त्रों के मत से प्रतिग्रहजन्य दीप विना वेदाध्ययन, तपस्या, प्राणायामादि के नहीं छूटता। पर दरडी जी महाराज शृणियों के प्रतिग्रह-विरोधी बचनों का उद्दरण्य करते हुए मनु के उस बचन को भूल जाते हैं जिसके अनुसार संसार में जो कुछ पदार्थ हैं उन सब का स्वामी ब्राह्मण ही है, कोई अन्य वर्ण नहीं—

सर्व स्वं ब्राह्मणस्येदं यत्किञ्चित्जगती गतम् ।

श्रेष्ठये नाभिजनेनेदं सर्वं वै ब्राह्मणोऽर्हति ॥ मनु ३।१००॥

स्वमेव ब्राह्मणो भुक्ते स्वं वस्ते स्वं ददाति च ।

आनुशंस्याद् ब्राह्मणस्य भुजते हीतरे जनाः ॥ मनु १। १०१॥

**अर्थ—**—इस जगत् में जो कुछ सम्पत्ति है, वह ब्राह्मण की ही निजी सम्पत्ति है। अपने उत्तम जन्म के कास्य ब्राह्मण सभी सम्पत्ति का अधिकारी है। ब्राह्मण यदि पराया अन्न भोजन करता है, पराया वस्त्र पहनता है और पराया धन लेकर दूसरों को देता है तो वे सब उसी के अन्नादि हैं; क्योंकि अन्य सब लोग ब्राह्मण की ही दया से भोजनादि पाते हैं।

इस दराएँ हम जो कुछ ब्राह्मण को दान स्वरूप देते हैं वह सब तो वस्तुतः उसी का है।\* अपनी चीज़ लेने में वह कभी भी दोष का भागी नहीं हो सकता। 'अैष्येनाभिजनेन', इस वचन से दान ग्रहण करना ब्राह्मण का जन्म-सिद्ध अधिकार है; अतः मनु के प्रतिग्रह-विरोधी वचन व्यर्थ मालूम पड़ते हैं। मनु प्रायः परस्पर-विरोधी वचन भी कह देते हैं, जैसे यहाँ पर दान ग्रहण के प्रसंग में। पुनः मांस-भक्षण, मद्यपान, मैथुन, नियोगादि के प्रसंग में भी मनु ने इसी प्रकार की दो-तरफी चाहें कही है, जिससे सत्यासत्य का निर्णय करना कठिन हो जाता है और खैचातानी करके उनके परस्पर-विरोधी वचनों की संगति लगानी पड़ती है। और सौ बातों की एक बात तो यह है कि यदि भूमिहार भाइयों को दान रूपी मुक्त का माल मिलता रहता तो श्री सहजानन्दजी प्रतिग्रह के विरुद्ध इतना उबाल नहीं खाते और दानग्रहण यदि सचमुच एक महा नीच कर्म रहता तो आप अपनी विरादरी वालों को पौरोहित्य-कर्म में ढकेल देने के लिए ऐसा भगीरथ प्रयत्न ही क्यों करते? यदि आप कहें कि पुरोहिताई को मुधारने के

\*यहाँ पर 'त्वदीयं वस्तु गोविन्द! तुम्यमेव समर्प्यते" वाला न्याय समझना चाहिए।

लिये, तो याद रखिये कि विना हिन्दू समाज का आद्योपान्त जीर्णोद्धार किए आप इसमें कोई भी सुधार नहीं कर सकते और ऐसे जीर्णोद्धार का अर्थ है सभी जातियों को सर्वाङ्गीण उन्नति का तुल्य अधिकार देना, जिस दशा में स्वयं ब्राह्मण जाति का ही कुछ भी जातीय महत्व न रह जाएगा, भूमिहार आदि अन्य जातियाँ किस सेवा की मूली हैं ?

थोड़ी देर के लिए मान लिया जाय कि भूमिहार अवाचक ब्राह्मण हैं; पर मैं यह जानना चाहता हूँ कि उनमें अवाचक ब्राह्मण के कौन-से कर्म हैं। अवाचक होने से भूमिहार भाई याजन, अध्यापन और प्रतिम्रह से तो यो ही मुक्त हो गए;<sup>१</sup> रहगए शेर तोन कर्म—रजन, अध्ययन और दान। पर ये तो सत्रिय और वैश्य के भी कर्म हैं, अतः यहाँ पर यह देखना होगा कि शेर इन तोनों कर्मों में ब्राह्मण का कौन-सा खास कर्म है और वह भूमिहारों में है कि नहीं। मनुस्मृति कहती है—

वेदाभ्यासो ब्राह्मणस्य, त्रियस्य च रचणम् ।

वार्ताकिमैव वैश्यस्य विशिष्टानि स्वकर्मसु ॥ मनु १० । २० ॥

अर्थ—अपने कर्मों में ब्राह्मण के लिए वेदाभ्यास, त्रिय के लिए प्रजापालन और वैश्य के लिए वाणिज्य तथा पशुपालन विशेष धर्म है। ये उनके लिए अत्याज्य कर्म हैं जिन्हें छोड़ने पर वे ब्राह्मण आदि नहीं रह सकते।

भी सहजानन्दजी मनु के उक्त कथन को मानते हैं। देखिए 'ब्रह्मपिंचशविस्तार' पृ० १०। अतः स्पष्ट है कि भूमिहार यदि अवाचक

---

'क्योंकि ये तीनों ब्राह्मण की जीविकाएँ हैं जिन्हें करने के लिये शास्त्र उन्हें वाध्य नहीं कर सकता। इन्हें कोई भी ब्राह्मण छोड़ सकता है और छोड़ने पर भी वह ब्राह्मण कहला सकता है।

भी ब्राह्मण होते तो उनमें कम से कम वेदाभ्यास का प्रचार अवश्य पाया जाता; पर सेद के साथ मुझे कहना पड़ता है कि वहाँ तो अविद्या का अखंड साम्नाज्य है और वेदों की जगह फाल, कुदाल और हल का ही प्रचार है, जिसे आप भी मानते हैं और भूमिहारों की इस अविद्या का कारण आप उनका राजपाट, जमीदारी तथा बबुआई में फँसे रहना और पुरोहितों का स्वार्थ-सिद्धि के लिए उनको बहकाना बतलाते हैं। पर यदि राजपाट में फँसे रहना ही भूमिहारों की अविद्या का कारण है तो धर्मारण्य में राज्य करने वाले वाडव ब्राह्मण क्यों नहीं विद्या-विहीन हो गए हैं वे राज्य करते हुए भी वेदाभ्यास में क्यों तत्पर बने रहे? आप स्वयं अपनी उक्त पुस्तक के पृष्ठ १२६ में स्कन्दपुराण, ब्रह्मस्वरूप, धर्मारण्यमाहात्म्य-वर्णन, अध्याय ३५ के आधार पर लिखते हैं—

स्वस्थाने ब्राह्मणात्मत्र कानि कर्माणि चकिरे ।

इष्टापूर्त्तरताः शान्ताः प्रतिग्रह पराङ्मुखाः ॥३॥

राज्यं चक्रवर्णस्थात्य पुरोधा द्विजसत्तम् ।

उवाच रामपुरतत्तीर्थमाहात्म्यमुत्तमम् ॥४॥

**अर्थ—** नारद ने ब्रह्मा से पूछा कि धर्मारण्य में रहने वाले वाडव ब्राह्मण कौन काम करते थे? ब्रह्मा ने उत्तर दिया कि वे लोग यज्ञदानादि करने और वापी, कृप, तड़ाग आदि बनवाने में दत्तचित्त थे और प्रतिग्रह से निवृत्त और शान्त होकर उस बन का राज्य करते थे। इसके अनन्तर रामचन्द्र के पुरोहित वशिष्ठजी ने उस तीर्थ का उत्तम माहात्म्य कह सुनाया।

इसके अतिरिक्त उक्त पुस्तक के पृष्ठ ५१ में, उक्त प्रमाण के ही आधार पर, वाडव ब्राह्मणों को 'वेदपाठका' लिखा है। अतः आपके इस कथन में तनिक भी सार नहीं है कि राजपाट में फँसे रहने के कारण भूमिहार वेदाभ्यास से विहीन हो गए। पर जो इनमें राजा

वाचू नहीं हैं वे क्यों विद्या-विहीन हुए, इसका भी तो कोई कारण आपको बताना चाहिए था। कम से कम दरिद्र भूमिहारों को तो विद्योपास्जन करना चाहता था। पर ये भी संस्कृत 'विद्या' से विहीन होकर निरज्जर भट्टाचार्य रह गए। सच पूछिए तो भूमिहार विरादरी में 'अयाचक' किम्बा 'याचक' किसी भी ब्राह्मण के विशिष्ट चिह्न नहीं हैं।

किसी-किसी प्रान्त में भूमिहारों को 'बाभन' भी कहते हैं और इस 'बाभन' शब्द को शुद्ध संस्कृत शब्द 'ब्राह्मण' का अप्रभ्रंश बनाकर श्री सहजानन्दजी ने इसी शब्द-सादृश्य के बल पर भूमिहार जाति को ब्राह्मण सिद्ध करने की चेष्टा की है। ( देर्स्लेण, 'ब्र० व० विं०' पृष्ठ १४१—१४२ ) यह तो ठीक है कि शुद्ध 'ब्राह्मण' शब्द का उच्चारण करने की आकौङ्गा रखते हुए भी हम लोग प्रकृत ब्राह्मणों को भी सरलता तथा शीघ्रतावश 'बाभन' या 'बाभन' कह बैठते हैं; परन्तु जहाँ जाति-मेद-उम्बन्धी सूक्ष्म विचार करने का मौका आता है वहाँ 'काचः काचो मणिं मणिः' की तरह उक्त प्रान्त बाले भी वहाँ के प्रकृत ब्राह्मणों को 'ब्राह्मण'; पर भूमिहारों को 'बाभन' कहते हैं। अतः स्वभावतः यह प्रश्न उठता है कि उक्त प्रान्तों की जनता वहाँ के सरयूपारी आदि ब्राह्मणों को 'बाभन' क्यों नहीं कहती ! केवल भूमिहारों ने ही कौन-सा अपराध किया था कि वे उसके कारण 'ब्राह्मण' से 'बाभन' बनाये गये ? यदि दाल में कुछ काला नहीं है तो भूमिहारों के प्रति जनता का यह भेद-भाव क्यों है ? कुछ और भी ऐसी जाति-संज्ञाएँ हैं जो अपभ्रष्ट होकर जात्यन्तर की सूचिकाएँ हो गई हैं; जैसे 'राजपूत' ( ज्ञत्रिय ) और 'राजत' ( अहीर ); परिडत ( ब्राह्मण ) और पंडित ( उत्तर विहार के कुम्हार ) इत्यादि । अतः शब्द-सादृश्य के आधार पर सबसंता की इमारत उठाना निरापद नहीं है । वह विवेचन को आँच नहीं सह

सकती। यदि दो जातियों के नामों के बीच कुछ सादृश्य पाकर दोनों को सजाति वा कम से कम सवर्ण मान लेने का नियम ठीक हो तो भूमिहार (भूमिहार) और भूईया; स्वत्री और स्वाती; नौनियार और नोनिया, अम्बण्ठ और अम्बत्त; कुरुमार और कुरुवार; कोइरी और कोरी; कोल और कौल; स्वारवार और स्वारवाल; ग्वाला और गोला आदि जाति-युग्म परस्पर सजाति तथा सवर्ण हो जाएँगे जो स्वप्न में भी नहीं हो सकता; क्योंकि प्रत्येक युग्म के सदस्यों के बीच आकाश-पाताल का अन्तर है। कितने ऐसे भी जाति-युग्म हैं जिनमें दोनों जातियों के नाम तो एक ही हैं, पर वस्तुतः वे एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न हैं; जैसे—ग्रासिया (राजपुताने की एक लूट, खसोट, चोरी आदि जुलमी पेशा करने वालों जाति) और ग्रासिया (राजपुताने के ही पहाड़ों में रहने वाली एक आचार-भ्रष्ट राजपूत जाति); कोलटा (मध्य प्रदेश की एक खेतिहार जाति) और कोलटा (आसाम और छोटा नागपुर की एक विद्या-सम्पन्न जाति) इत्यादि। ('जाति-अन्वेषण' प्रथम भाग)।

भी सहजानन्द जी महाराज भूमिहार जाति के विषय में न किसी भारतीय विद्वान् की सम्मति मानते हैं; न किसी अभारतीय (विदेशी) विद्वान् की। विचाराधीन उक्त पुस्तक 'ब्रह्मर्णि-वंश-विस्तर' में आप आपनी असाक्षात् लेखनी से जो कुछ जी में आया, मनमाना लिखते गये हैं, और इस बात पर आपने तनिक भी ध्यान नहीं दिया है कि कहीं आपके बचन परस्पर विरोधी तो नहीं जा रहे हैं; कहीं आपने शैतान की दाढ़ी उखाड़ने के बदले अपनी ही दाढ़ी तो नहीं उखाड़ ली है; कहीं पर आपसे किसी सज्जन के प्रति अशिष्ट तथा असंयत भाषा का तो प्रयोग नहीं हो रहा है इत्यादि। आप स्वर्गीय भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र पर इस कारण आगबबूला हो गए कि उन्होंने निरंजन मुखोपाध्याय रचित 'भारतवर्षीय 'राजदर्पण' के

आधार पर भूमिहारों को, 'मुद्राराज्ञस' के अपने हिन्दी अनुवाद में उन नकली ब्राह्मणों की सन्तान बताया जिनको राजा जरासन्ध के यज में, असली ब्राह्मणों की इष्ट संस्था के अभाव में, उस राजा के कम्मचारियों ने निर्मितिकर भोजन करा दिया था। भारतेन्दु जी के इस लेख का एक शिष्ट मापा में वहीं पर संडन करने के बदले उन्हें आपने इन शब्दों में याद किया है—“यदि हम भी ‘शठे शाढ़ं कुर्यात्’ के अनुसार ऐसा ही करने लग जावें तो जीतों को कौन कहे मरे हुओं के भी कलेजे फट जावें, और हाहाकार मच जावें” ।<sup>१०</sup> ('ब० व० विस्तर', भूमिका—पृष्ठ १५) पाठकों का ध्यान 'शठे शाढ़ं कुर्यात्' इस वचन पर विशेष रूप से आकृष्ट करने के लिये उसे आपने मोटे अक्षरों में छपवाया है। भारतेन्दु जी जैसे विद्वान् के प्रति 'शठ' शब्द का प्रयोग करना कहीं तक उचित था, इसका विचार पाठक स्वयं कर सकते हैं। 'विशेन-वंश-वाटिका' के रचयिता पर आप इस कारण रुष्ट ही गये कि उन्होंने बगौछिया भूमिहारों को ब्राह्मण मयूर भट्ट की तीसरी छोटी हयकुमारी की ओलाद बताया जो एक चन्द्रवंशीय क्षत्रिय कन्या थी और एक व्यक्ति की इस धृष्टता पर, यदि सचमुच वह धृष्टता भी हो, आपने सारी विशेन-विरादरी को चन्द्रगुप्त मौर्य की सन्तान बताकर, जिसे 'मुद्राराज्ञस' में बराबर स्पष्ट शब्दों में 'वृषल' (शूद्र) लिखा है, अपने दिल की कसक निकाली। (ब० व० वि० पृष्ठ २८२) इसी तरह जान लीजिये कि जिस भारतीय विद्वान् ने भूमिहार जाति के विषय में आपकी

<sup>१०</sup>इसके पहले उसी पृष्ठ में बाकू हरिश्चन्द्र के विरुद्ध 'शक्तिमुद्रा' शब्द का भी प्रयोग किया गया है—“नहीं तो मला बताइये, मुद्राराज्ञस की टीका करने में.....राज्ञसीमुद्रा दिखलाने की क्या आवश्यकता थी” इत्यादि।

रुचि के खिलाफ कुछ लिखा कि वस उसके सिर पर शामत सवार हो गई।

और विदेशी विद्वानों के प्रति आपकी यह भारगा है—“धिक्कार है हम लोगों की आर्थिता-भारतीयता और हिन्दूपन को ! हम इस प्रकार दूसरों के पाँव चलने वाले हो गए कि अन्त में जाति-पाँति और धर्म के विषय में उन्हीं के ग्रन्थों का प्रमाण देते हुए लज्जा भी नहीं करते” इत्यादि (ब० वं० वि० भूमिका, पृष्ठ १६)। पुनश्च उसी पृष्ठ में—“परन्तु हम लोग तो इतने बह गये कि इस (आचारों तथा विचारों के) विषय में भी उन्हीं (विदेशियों) का उचित्पृष्ठ स्वीकार करने लग गए हैं।”

यही आपका विदेशियों के प्रति सिद्धान्त है। पर मैं देखता हूँ कि आप अपने इस सिद्धान्त पर टिक नहीं सके हैं; वरन् यदा कदा विदेशियों का उचित्पृष्ठ बड़े चाव के साथ ग्रहण करते रहे हैं। विचाराधीन उक्त पुस्तक में सुझे इसके कई उदाहरण मिले हैं। शुक्रप्रान्त के शिक्षा-विभाग के डाइरेक्टर ने इसी सन १९१२ में अपने अधीनस्थ स्कूलों के इन्सपेक्टरों के नाम यह आदेश निकाला कि उक्त विभाग के वार्षिक विवरणों में भूमिहारों को ब्राह्मणों की तरह दिखलाया जाय। (ब० वं० वि० पृष्ठ २३६)। ये डाइरेक्टर महोदय एक यूरोपीयन सज्जन थे। क्या मैं श्री सहजानन्दजी से नम्रतापूर्वक पूछ सकता हूँ कि उक्त साहब वहांतुर क्या कोई मन्त्र-द्रष्टा त्रूपि थे जिनकी उक्त व्यवस्था को आपने भूमिहारों का ब्राह्मणत्व सिद्ध करने के लिए एक सनद की तरह पेश कर दी ? ‘आइन अकबरी’ में जिसका रचयिता सम्राट् अकबर का दरबारी अबुलफज्ल था, इलाहाबाद के कतिपय परगनों के ब्राह्मण जमीदारों और उनकी जमीदारी आदि का विवरण दिया है। (ब० वं० वि० पृष्ठ २४६) इस ‘आइन अकबरी’ के आधार पर नेविल साहब द्वारा

तैयार कराए गए गाजीपुर के गजेटियर को वेदवाक्य मानकर मुहम्मदावाद, जमानियाँ आदि महालों के ब्राह्मण जमीदारों को आपने स्वसिद्धान्त-चिरुद्ध, क्योंकि नेविल साहब एक विदेशी सद्गत थे, निश्चत रूप से भूमिहार कैसे मान लिया ? (ब० वं० विं पृष्ठ २४७), इत्यादि ।

लाई कार्नवालिस ने ई० स० १७६१ में दौधारी बन्दोबस्त (स्थायी प्रबन्ध permanent Settlement) की एक रिपोर्ट तैयार कराई थी जिसमें तत्कालीन जमीदारों तथा उनकी जमीदारियों का विवरण दिया है । कुछ लोगों का कथन है कि उक्त रिपोर्ट में भूमिहार जाति के जमीदारों को अन्य ब्राह्मणों की तरह केवल 'ब्राह्मण' लिखा है, जिससे इस जाति का ब्राह्मण होना सिद्ध होता है । इस विवरण को 'आईन अकबरी' के विवरण-संदर्श समझना चाहिये । यहाँ पर कई बातें विचारणीय हैं—(१) लई कार्नवालिस एक विदेशी थे, अतः श्री सहजानन्द जी के सिद्धान्त-नुसार एक विदेशी के द्वारा तैयार कराया हुआ जातीय विवरण प्रामाणिक नहीं माना जा सकता । (२) जब तक अन्य स्वतंत्र प्रमाणों के द्वारा यह सिद्ध नहीं हो जाता कि उक्त तथाकथित भूमिहार जमीदार सचमुच भूमिहार ही थे जिन्हें केवल ब्राह्मण लिखा है तब तक हमें केवल 'ब्राह्मण' शब्द के दायरे के भीतर भूमिहारों को भी सम्मिलित कर लेने का कोई अधिकार नहीं है । (३) यदि कहो कि उक्त तथाकथित भूमिहार जमीदारों के वंशधर अब तक मौजूद हैं जिनके भूमिहार होने से उनके उक्त पूर्वजों का भूमिहार होना सिद्ध होता है तो यह सम्बन्ध-स्थापन बैसा ही अमान्य है जैसे राजपूतों का सूर्य वा चन्द्र के वंशज होना । सारांश यह कि उक्त रिपोर्ट में 'ब्राह्मण' शब्द से भूमिहार का अर्थ निकालना एक ऐसी बेसिर-पैर की बात है जिसे कोई भी विचारवान् मनुष्य नहीं

मान सकता। और शिद्धा-विभाग के दफतरों में सर्वत्र व्यापी कोई ऐसा नियम नहीं है कि भूमिहारों को ब्राह्मणों के अन्तर्गत लिखा जाए; क्योंकि विहार में भूमिहार छात्रों की संख्या को 'ब्राह्मण' शीर्षक वाले स्तम्भ में न दर्जकर 'राजपूत, भूमिहार, कायस्थ, और वैद्य' शीर्षक वाले स्तम्भ में दर्ज किया जाता है।

श्री सहजानन्द जी ने भूमिहारों के ब्राह्मणीकरण के प्रयास में अपने विचार से सबसे प्रबल प्रमाण वह पेश किया है कि उनका विवाह-सम्बन्ध मैथिलों, कान्त्यकुब्जों, सरयूपारियों और गौड़ों के साथ चराचर होता चला आया है। पर साथ-साथ उनकी यह भी धारणा है कि भूमिहार भी, सरयूपारी आदि अन्य ब्राह्मणों की ही तरह, उत्तम और कट्टर ब्राह्मण हैं। (ब० बं० वि० पृष्ठ ५१)। यदि ऐसी बात है तो भूमिहारों को भी विवाह-सम्बन्ध स्थापित करने में सरयूपारी आदि ब्राह्मणों की ही तरह अपनी कट्टरता भी दिखानी चाहिये। यह सभी को मालूम है कि ब्राह्मण जाति के सभी वर्गोंपर्वग्न एक दूसरे से भोजन और विवाह के मामले में पूर्णतः स्वतंत्र हैं; अर्थात् प्रत्येक वर्ग वा उपवर्ग अपने में ही भोजन और विवाह किया करता है; किसी दूसरे वर्ग वा उपवर्ग में नहीं। उदाहरणतः सरयूपारी सरयूपारी के यहाँ ही रोटी-बेटी का सम्बन्ध स्थापित करता है; किसी कन्नौजिए वा मैथिल के यहाँ नहीं, यहीं तक नहीं; बल्कि इस विषय में वे इतने कट्टर हैं कि एक सरयूपारी दूसरे सरयूपारी के हाथ की कच्ची रसोई तब तक नहीं ग्रहण करता, जब तक उसे यह नहीं मालूम हो जाता कि दोनों के, वा दोनों के किन्हीं सम्बन्धियों के बीच विवाह-सम्बन्ध स्थापित हो चुका है। ब्राह्मण जाति के कट्टर वर्गोंपर्वग्न में सर्वत्र यही नियम प्रचलित है। अतः भूमिहार जाति में भी यदि वह एक कट्टर ब्राह्मण जाति है, तो इस नियम का पालन होना चाहिये या; पर यदि वे सचमुच वर्गान्तरों में भी ब्याह-शादी

किया करते हैं तो उनकी ब्राह्मणोचित कट्टरता कहाँ रही ? उक्त दण्डी जी के ये परस्पर विरोधी वचन कि भूमिहार कट्टर ब्राह्मण भी है और वे सरयूपारी आदि के यहाँ व्याह-रादी भी करते हैं, समझ में नहीं आते; क्योंकि वे एक दूसरे की सत्यता का स्वयं उच्छेद कर देते हैं। इसके अतिरिक्त ब्राह्मण जाति वा किसी भी कट्टर हिन्दू जाति में ऐसे अन्तर्वर्गीय विवाह-सम्बन्ध वर और कन्या उभय-पक्ष के सम्बन्धित परिवारों की रक्त-शुद्धता में सन्देह उत्पन्न कर देते हैं।

पर दण्डी जी के उक्त परस्पर विरोधी वचनों की संगति लगाना भी तो ज़रूरी है। मैंने इस विषय में बहुत कुछ छान-बीन की है और भूमिहारों के उक्त अन्तर्वर्गीय विवाहों की सत्यता किम्बा असत्यता के विषय में पूछ-ताछ भी की है जिससे पता चला है कि जिन सरयूपारी आदि ब्राह्मणों के यहाँ भूमिहारों का विवाह-सम्बन्ध हुआ दरडा जो बतलाते हैं वे एक प्रकार के भूमिहार ही हैं। उनकी रहन-सहन विलकुल भूमिहार की-सी ही है; अन्यथा यह असंभव बात कैसे हो सकती है कि कोई कट्टर सरयूपारी, कन्नीजिया आदि ब्राह्मण किसी भूमिहार के यहाँ विवाह करे ? इस बात की पुष्टि, सीधी तरह से नहीं, बल्कि शुमा-फिराकर आपके इस कथन से होती है—“परन्तु जैसा कि हम प्रथम ही कह चुके हैं और आगे भी विदित होगा कि याचक दल में भी बहुत से अयाचक हैं और इन अयाचकों का साक्षात् सम्बन्ध उन्हीं से होता है। क्योंकि दरिद्रों के साथ लोग कब करने वाले हैं। और उन अयाचकों का भी अपने दल के अयाचकों के ही साथ होता है, इस प्रकार से तीन, चार या पाँच सम्बन्ध के बाद सम्भवतः याचक भी खुट जाते हैं।” (ब्र० वं० वि० पृष्ठ १६३)। इसी को कहते हैं ‘जादू वह जो सिर चढ़कर चोले।’ आपके इस कथन का निष्कर्ष यह है कि भूमिहारों का सम्बन्ध प्रथमतः सरयूपारी आदिकों में जो भूमिहारों सरीखे जीव हैं उन्हीं के साथ होता है

और सम्भवतः ये भूमिहार सरीखे जीव कुछ सम्बन्धों के बाद अपने दल के याचकों के साथ मिले रहते हैं। उक्त उद्दरण के 'सम्भवतः' शब्द से जान पड़ता है कि आपको इस बात का निश्चयात्मक ज्ञान नहीं है कि उक्त भूमिहार सरीखे जीव अपनी मूल जाति से मिले हुए हैं या उससे ब्राह्मण कर दिये गये हैं। अतः आपके इस कथन पर, कि भूमिहारों का विवाह-सम्बन्ध सरयूपारी आदिकों के साथ वरावर होता चला आया है, उसके सन्देहात्मक इने से, विश्वास करना कठिन है। अथवा यही क्यों नहीं मान लिया जाये कि ये भूमिहार सरीखे जीव वस्तुतः भूमिहार ही हैं जो श्री सहजानन्दजी के आदेशानुसार ( ब० वं० वि० पृष्ठ २५१ ) अपने को स्वस्वदेशानुसार सरयूपारी आदि कहा करते हैं ? अन्यथा क्या बात है कि कोई भी प्रकृत सरयूपारी आदि ब्राह्मण भूमिहारों के साथ विवाह-सम्बन्ध करना नहीं चाहता ? और यदि भूमिहार भी ब्राह्मणों का एक स्वतंत्र और कट्टर वर्ग है तो वह अन्तर्वर्गीय सम्बन्ध के लिए इतना लालायित क्यों है और परम्परया याचकों से मिलना अपना चरम लक्ष्य क्यों रखता है ? उक्त उद्दरण के अतिरिक्त पृष्ठ ८१ को ये पंक्तियाँ भी पढ़िये—“यद्यपि साज्जात् तो जो याचक दल में भी इस समय अव्याचक है.....” इत्यादि । अश्चर्य है कि जिसे हेय समझते हैं उसी में मिल जाना अपना अहोभाग्य मानते हैं !!

कुछ मनचले मैथिल ब्राह्मणों ने मिथिलाप्रान्त के भूमिहारों के साथ विवाह-सम्बन्ध अवश्य कर लिया था, जिस पर मैथिल महासभा ने अपने भागलपुर के अधिवेशन में, जो ई० सन् १२११ में हुआ था, आपत्ति प्रकट की और ऐसे विवाहों को तब से रोक देने का प्रबन्ध कर दिया । मैथिलों की विवाह-ग्रणाली विचित्र है । उनके यहीं बिना पंजीकारों की स्थिति अनुमति के विवाह-सम्बन्ध नहीं स्थापित किया जाता । पंजीकार मैथिल-समाजान्तर्गत उस

समुदाय-विशेष के सदस्य हैं जो मैथिल ब्राह्मण परिवारों की पंजियाँ यानी वंशावलियाँ विवाह-निर्णयार्थ तैयार किये रहते हैं; क्योंकि इन्हीं के द्वारा वह पता लगता है कि प्रस्तावित विवाह वर्दिजत पीढ़ियों के अन्तर्गत है वा वहिर्गत । यदि वह वर्दिजत पीढ़ियों के अन्तर्गत मालूम पड़ा, तो वह होने नहीं दिया जाता; और यदि वह उक्त पीढ़ियों के वहिर्गत देख पड़ा, तो उसे सम्पादन करने के लिए पंजीकार अपनी लिखित अनुमति दे देता है । यह प्रथा मिथिला में आभी तक जारी है । इसे मिथिला के राजा सिमरांव-वंशीय हरिसिंह देव ने मैथिल-ब्राह्मणों को रक्त-शुद्धता के रक्षणार्थ चलाई थी जब उनके किसी मंत्री ने भूल से अपना विवाह वर्दिजत पीढ़ियों के भीतर ही कर लिया था । पहला पंजीकार पंडित रघुदेव ज्ञा ये जिन्होंने उक्त राजा हरिसिंह देव की आज्ञानुसार शकाब्द १२१६ में 'पंजी प्रबन्ध' लिखा था (History of Tirhut by S. N. Singh, pp. 63, 159, 199 and 200) पढ़िये । जहाँ मैथिलों के यहाँ रक्त-शुद्धता के रक्षणार्थ ऐसे-ऐसे उपाय किए गए हैं और इतनी छान-बीन की जाती है वहाँ यह कदम मानने की बात है कि किसी भूमिहार ने अपना विवाह-सम्बन्ध किसी मैथिल के यहाँ कर लिया है ? यदि कहीं ऐसा नाजायज्ञ विवाह धोखे वा उद्घट्टता के बश हो भी गया हो तो मैथिल-समाज उसका अनुमोदन नहीं कर सकता । माना कि 'तिलकीआ विवाह' में धोखे की संभावना कम रहती है; पर क्या ऐसा विवाह भूमिहार और मैथिल (प्रकृत) के बीच कभी हुआ और मैथिल समाज ने मुक्तकंठ से उसको मान भी लिया ?

इस प्रसंग में मैं अपने पाठकों का ध्यान श्री सहजानन्द जी के एक और विलक्षण कथन की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ । आपने 'कान्यकुञ्ज वंशावली' नामक पुस्तक के आधार पर निःशेष कान्य-

कुब्जों तथा साथ-साथ सरयूपारियों का भी, उन्हीं की एक शाखा-मात्र होने के कारण, मदारपुर के भूमिहारों के ही वंशज होना लिख मारा है। ( ब० वं० वि० पृष्ठ ३७५ ) । पर यही दण्डी जी महाराज मुरादावाद निवासी स्वर्गीय पं० ज्वालाप्रसाद जी मिश ( विद्यावारिधि ) पर इस कारण रुष्ट होकर अपने जामे से बाहर हो गये कि उन्होंने 'वर्णविवेक-चन्द्रिका' के आधार पर भूमिहारों की उत्पत्ति ज्ञानिय पिता और ब्राह्मणी माता से हुई बताई है। इस पुस्तक का संबन्धित श्लोक तथा विद्यावारिधि जी का किया हुआ उसका हिन्दी अर्थ इस प्रकार है—“ज्ञानियस्य च वीर्येण, ब्राह्मणस्य योगिति । भूमिहार्य भवत्पुत्रो ब्रह्मज्ञत्रस्य वेष्यभृत्”। अर्थ—ज्ञानिय के वीर्य से ब्राह्मणी में भूमिहार ( भैंडार ) पुत्र ब्राह्मण-ज्ञानिय का वेष धारण करने वाला हुआ। ( विद्यावारिधि जी रचित 'जाति-निर्णय' पृष्ठ ८६ देखिये ) । इस पर आप इस प्रकार व्यंग्य करते हैं—“क्या 'वर्णविवेक-चन्द्रिका' भी कोई आर्य ग्रन्थ है जिससे वह भी स्वतंत्र प्रमाण मानी जावे ? तो यह कबीर साहब की साखी और दादूराम की बानो तथा गुलबकावली आदि को क्यों नहीं मानेंगे ?” इत्यादि। ( ब० वं० वि० भूमिका पृष्ठ ४ ) । यदि आपके इस व्यंग्य के उत्तर में कोई दूसरा यो व्यंग्य करे कि क्या 'कान्यकुब्ज-वंशावली' व्यासकृत महाभारत अथवा वाल्मीकि कृत रामायण है जो उसके सामने सिर सुका लिया जाए, तो आप इसका क्या उत्तर देंगे ? यदि आप 'वंशावली' को मानते हैं तो 'चन्द्रिका' को नहीं मानने का आपका अधिकार ही क्या है ? क्योंकि प्रामाणिकता किम्बा अप्रामाणिकता की दृष्टि से उक्त दोनों पुस्तकें एक-सी हैं।

यहाँ तक तो मैंने प्रकृत ब्राह्मणों के प्रति श्री सहजानन्द जी की मनोवृत्ति दिखाई। अब यहाँ से ज्ञानिय के प्रति आपकी मनोवृत्ति कैसी है, इसका भी थोड़ा दिम्दर्शन करा देना उचित जान पड़ता है। मैं

पहले लिख चुका हूँ कि आप 'विशेनवंश-वाटिका' के लेखक पर, यह लिख देने के कारण कि बगीछिया भूमिहार मयूर मट्ठ की ज्ञातिया खो से उत्पन्न हुए हैं, इतना विगड़ गए कि विशेनों का वृथल चन्द्रगुप्त मौर्य की सन्तान होना लिख मारा। इसी प्रकार 'ज्ञातिय और कुत्रिम ज्ञातिय' के लेखक पर केवल यही लिख देने के दुःसाहस ( ? ) के कारण कि 'आईन अकबरी' से भूमिहार और तेली वा कहार और डोम में अन्तर नहीं प्रतीत हो सकता। आप इस कदर उत्ताल खा गए कि आपने ज्ञातियों के विषय में यही फतवा देकर अपने जले दिल की आग ठंडी की—“यदि हम भी 'शठे शाठ्यं कुर्यात्' इस न्यायानुसार उलटकर यह कहने लग जावें कि तमाम इतिहास, पुराण और धर्मणाल्प प्रभृति से भी ज्ञातियों, वर्ण-संकरों, जाटों, सीदियों, अहोरों और कुर्मियों का भेद ब्रह्मा भी सिद्ध नहीं कर सकते तो हमारी समझ में पूर्वोक्त दुष्ट विचार वाले और प्रकृत दुष्टों की नानी मर जावें, सारी आई-वाई ही हजम हो जावें, हाइकार मच जावे और जीतों को कौन कहे, मरे हुओं तक के कलेजे फट जावें। परन्तु हम ऐसी दुष्टता करना नहीं चाहते।” इत्यादि ( ब्र० वं० वि० पृष्ठ २४२ )। यह आपकी बड़ी कृपा है। पर आपने छोड़ा भी तो किसी को नहीं; अपने विरोधियों को मीठे और मनोहर बचनों से याद करने की विधि शावद आपने गोस्वामी तुलसीदास जी से सीखा है; क्योंकि आपकी ही तरह वे भी एक महात्मा थे जिन्होंने 'मानस' के समालोचकों को कूर, कुविचारी, कुटिल, खल आदि की उपाधियों से विभूषित कर उनकी तुलना काक, बक, दादुर, बलाक आदि से की है। इतना ही नहीं; और भी आगे सुनिए। भूमिहारों की तरह ज्ञातियों में भी गौतम, किनवार, दोनवार आदि उपवर्ग होते हैं। इस समानता की व्याख्या आप यों करते हैं कि गौतम और किनवार तो भूमिहार पिताओं के द्वारा ज्ञातिया लियों में उत्पन्न हुए हैं; अतः मनु की

ब्यवस्थानुसार उनकी संज्ञा 'मूर्दाभिषिक्त' हुई और 'मूर्दाभिषिक्त' कोषानुसार 'क्षत्रिय' शब्द के विविध पर्यायों में से है। इसी को कहते हैं यप्पड़ जमाकर आँसू पोछना। पहले तो आपने गौतम और किनवार क्षत्रियों को संकर जाति बनाया; पुनः उन्हें सन्तुष्ट करने के लिए उनके गले में क्षत्रियत्व का हार पहना दिया। क्षत्रियों के भूमि-हार सरीखे अन्य उपवर्गों के विषय में भी आपकी यही अटकल-बाजी है—“इसी प्रकार अन्य भी भूमि-हार ब्राह्मण के से नाम वाले क्षत्रियों को जानना चाहिये।” (ब० वं० वि० पृष्ठ ३०६ और ३०७)। पर इसके विरुद्ध कल्पना क्यों न की जाए कि दोनवार आदि भूमि-हारों का निकास दोनवार आदि क्षत्रियों से हुआ है जैसा कि कतिपय विद्वान् मानते हैं ?

'ब्रह्मपिंश-विस्तर' की मुख्य-पुस्त्र बातों की एक संक्षिप्त समालोचनाकर मैं श्री सहजानन्द जी की सेवा में अपना नम्र निवेदन किए देता हूँ कि  $३६ + ४४० = ४७६$  पुष्टों की यह पुस्तक लिखने में जो आपने महापरिश्रम किया है उसका सदुपयोग हुआ तब समझा जाता जब आप इसके बदले वर्णब्यवस्था तथा जाति-पौति का मटियामेट कर देने वाला कोई ग्रन्थ लिखते; क्योंकि वर्ण और जाति के बखेड़े ने ही हिन्दुओं के थीच ऊँच-नीच का भाव पैदा कर दिया है जिसका कटु अनुभव आपको पग-न्घग पर हो रहा है।

अन्त में भूमि-हार जाति की वर्तमान सामाजिक स्थिति बतलाकर अपने इस भूमि-हार-विवरण का उपसंहार करता हूँ। महामहोपाध्याय

यहाँ पर भी दण्डी जी ने फिर गड्ढड़ मचाया है; कारण कि ब्राह्मण और क्षत्रिय की सन्तान 'मूर्दाविषिक्त' न कि 'मूर्दाभिषिक्त' कहलाती है। पहली संकर और दूसरी क्षत्रिय है। पर आपको यह सूक्ष्म भेद मालूम न हुआ।

पं० हरिप्रसाद जी शास्त्री, एशियाटिक सोसाइटी के जन्मल, भाग १ पृष्ठ ६१ में, जो ई० सन् १६०२ में छपा है, लिखते हैं—

"There are in Behar and in Benares a class of men known as Babhans or Bhumihaars. Their position in Hindu Society is extremely anomalous. They claim to be Brahmans, but no good Brahmans such as the Kanojia and Sarayuparya, treat them on equal terms. They would neither intermarry with them nor eat with them etc."

अर्थ—विहार और बनारस में एक जाति है जो वामन या भूमिहार कहलाती है। हिन्दू समाज में उनका कौन-सा स्थान है, यह अति ही अव्यवस्थित है। ये ब्राह्मण होने का दावा करते हैं परन्तु कोई ऐस्थ ब्राह्मण जैसे कल्पनिए और सरयूपारी, इनके साथ समानता का व्यवहार नहीं करते, न वे इनके साथ विवाह-सम्बन्ध करते और न इनके साथ भोजन करते हैं।

उक्त शास्त्री जो ने सच्ची बात कह दी। कल्पनिये और सरयूपारी भूमिहारों के यहाँ विवाह नहीं करते और न उनके यहाँ कच्ची रसोई भोजन करते हैं। वल्कि भूमिहार उक्त ब्राह्मणों के हाथ की कच्ची रसोई तक स्वा लेते हैं और भूमिहार के हाथ की कच्ची रसोई ब्राह्मण क्या, लक्षिय और वैश्य भी नहीं खाते; केवल शूद्र ही खाते हैं। भूमिहार, विना किसी उमर के लेहाज से ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं; पर ब्राह्मण भूमिहारों को कभी नहीं प्रणाम करते। पर अब भूमिहारों का जातीय आनंदोलन इसके विरुद्ध हवा यहानी चाहती है।

भूमिहारों की तरह कायस्थ भी वर्णोन्नति के फेर में नाहक फँसे

है। नाहक इसलिये कहा कि प्रथम तो रुद्रिप्रिय हिन्दू जनता किसी भी सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन देखना नहीं चाहती और द्वितीय कि वर्णव्यवस्था के देश-कल्याण की दृष्टि से घातक होने के कारण इसे किसी भी तरह कायम रखने के लिए हाय-हाय मचाना विवेक-संगत नहीं जान पड़ता। वर्तमान काल में कायस्थ जाति काफी शिक्षित तथा मुस्कुरत हो रही है और हिन्दू समाज में एक विशेष स्थान रखती है। पूर्वकाल में चाहे भले ही इस जाति में मद्य-मांसादि सेवन रुपी जो भी बीभत्स अवगुण भरे हों पर अब तो इसने अपने को काफी सुधार लिया है। पर इतने से इस जाति को सन्तोष नहीं; वह ब्राह्मण चत्विय बनकर ही रहेगी। पर मैं कायस्थ भाइयों से कह देना चाहता हूँ कि उनके वर्णोन्मति-विषयक सभी प्रयास जब कि सुधार प्रेमियों की दृष्टि में वर्णव्यवस्था गिरी जा रही है, विफल होंगे और इष्टोन्मति विषयक उनके सारे प्रमाण निष्पक्ष आलोचना की एक हल्की-सी भी आँच के सामने मोम की तरह पिघल जाएंगे। मैं इसी सम्भावना से प्रेरित होकर कायस्थ जाति पर पहले शास्त्रीय और तत्पश्चात् ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करूँगा। प्रामाणिकता की दृष्टि से सबसे बलवती श्रुति है, तत्पश्चात् स्मृति और सबके अन्त में पुराण है। महर्षि व्यास अपनी स्मृति में लिखते हैं—

श्रुति स्मृति पुराणानां विरोधो यत्र दृश्यते ।

तत्र श्रौतं प्रमाणं तु तयो द्विष्टे स्मृतिर्वर्गा ॥ १०४ ॥

अर्थ—जहाँ पर श्रुति स्मृति और पुराण में विरोध देख पड़े, वहाँ श्रुति ही प्रमाण मानी जाएगी और जहाँ स्मृति और पुराण में मतभेद हो वहाँ स्मृति श्रेष्ठ मानी जाएगी। भाव यह कि किसी भी जाति की स्मृत्युक्त उत्पत्ति के सामने पुराणोक्त उत्पत्ति अप्रमाण है।

श्रुतियों में केवल ब्राह्मणादि चार वर्णों के अतिरिक्त किसी

जाति विशेष की उत्पत्ति नहीं मिलती; पर स्मृतियों और पुराणों में नानाविविध जातियों की उत्पत्ति तथा उनके कर्म हमको देखने को मिलते हैं। औशनस-स्मृति में कायस्थ नामक एक जाति की उत्पत्ति मिलती है, जिसे कुम्भकार ( कुम्हार ) तथा नापिता ( नाइं ) की सजाति बताया गया है। शुक्राचार्य जी को उशना भी कहते हैं, अतः उनकी स्मृति को औशनस-स्मृति कहते हैं—

वैश्यायां विप्रतश्चैर्यात् कुम्भकारः प्रजायते ।

कुलाल वृत्या जीवेत्तु नापिता वा भवन्त्यतः ॥ ३२ ॥

कायस्थ इति जीवेत्तु विचरेत्त्वं इतस्ततः ।

काकालौल्यं यमाकौर्यं स्थपते रथं कुन्तनम् ।

आद्यचराणि संग्रहं कायस्थ इति कीर्तिः ॥ ३४ ॥

अर्थ—ग्राहण के द्वारा वैश्या जी में चोरी से ( अर्थात् जार कर्म द्वारा ) कुम्हार उत्पन्न होता है। वह मिट्ठी के बरतन आदि बनाकर अपनी जीविका करे। अथवा इस प्रकार ज्ञारकर्म करने वाला नाइं उत्पन्न होता है। वह अपने को कायस्थ कहकर कायस्थ की जीविका करता हुआ इधर-उधर भ्रमण करे। काग से चंचलता, यमराज से कूरता, थर्वाई से काटना, इस प्रकार काक, यम और स्थापति इन तीन शब्दों के आदि अद्वार लेकर कायस्थ शब्द की बनावट कही गई है, जो उक्त तीनों दोषों के बोतक हैं। उक्त श्लोकों से स्पष्ट है कि शुक्राचार्य कुम्हार, नाइं तथा कायस्थ की उत्पत्ति एक की प्रकार से मानते हैं अथवा यो कहिए एक ही जाति के व्यक्तियों के ये जीविकानुसार तीन नाम हैं। व्यास-स्मृति, अध्याय १ श्लोक ११-१२ में कायस्थ नामक जाति को अन्त्यजो और गोमास-भक्षियों में परिणयित किया है—

वणिक-किरात-कायस्थ-मालाकार-कुटुम्बिनः ।

वेरदो मेद-चारडाल-दास-श्वपच-कोलकाः ॥

एतेऽन्त्यजाः समाख्याता ये चान्ये च गवाशनाः ।

एथा सम्भाषणात्स्नानं दर्शनादकं वीच्छणम् ॥

अर्थ—बनिए, किरात, कायस्थ, माली, बैसफोड़, स्यारमार, कंजर, चांडाल, बारी, भंगी और कोल ये सब अन्त्यज कहे गये हैं। इनसे और दूसरे गोमांस-भक्षियों से बात करने पर स्नान करने से, और इनको देखने पर सूर्य का दर्शन करने से दोष दूर होता है। महर्षि याज्ञवल्क्य ने कायस्थों को चोर-डाकुओं से भी अधिक खतरनाक बताकर उनसे प्रजाओं की विशेष रक्षा करने का आदेश राजाओं को दिया है। याज्ञवल्क्य स्मृति, राजधर्मप्रकरण देखिए—

चाट-तस्कर-दुर्वृत्त-महासाहसिकादिभिः ।

पीड्यमानाः प्रजारक्षेत्कायस्थैश्चविशेषतः ॥ ३३६ ॥

अर्थ—राजा को उचित है कि उचकके, चोर, दुराचारी, डाकु और विशेषकर कायस्थों से पीड़ा को प्राप्त हुई अपनी प्रजा की रक्षा करे।

ये कायस्थ तत्कालीन राजकीय कच्छहरियों में लेखकों (Clerks) तथा गणकों (Accountants) का काम किया करते थे, यही उनका जातीय पेशा था जैसा कि उक्त श्लोक की विज्ञानेश्वर कृत मितान्नरा टीका से स्पष्ट मालूम होता है—

“कायस्था लेखका गणकाश्चतैः पीड्यमाना विशेषतो रक्षेत्” ।

यह तो हुआ स्मृतियों के अनुसार कायस्थ जाति की उत्पत्ति तथा उसकी जीविका और सामाजिक स्थिति का वर्णन, जिससे मालूम होता है कि स्मृति-काल में यह जाति हेय दृष्टि से देखी जाती थी। स्मृतियों के मुकाबले में यद्यपि पुराण अप्रामाण्य है तथापि अपना कौतूहल निवारणार्थ हम लोग पुराणों की ओर भी चलें और देखें कि इस जाति के विषय में वे क्या कहते हैं। जातिविवेक नामक ग्रन्थ

में जो पुराणों के आधार पर लिखा गया है, लेखक और गणक का काम करने वाली कायस्थ नामक जाति की उत्पत्ति इस प्रकार लिखी है—

माहिष्यवनितासुनुं वैदेहाचं प्रसूयते ।  
सकायस्थ इति प्रोक्त स्तस्य कर्म विधीयते ॥  
लिपीनां देश जातानां लेखनं स सम्भ्यसेत् ।  
गणकत्वं विचित्रं च वीजपाटी विभेदतः ॥  
वृत्यानयावच्चनं स्यात् कायस्थस्य विशेषतः ।  
अधमः शूद्रजातिभ्यः पञ्चसंस्कारवानसौ ॥

**अर्थ—**माहिष्य की स्त्री में वैदेह से जो पुत्र उत्पन्न होता है वह कायस्थ कहलाता है। उस का कर्म कहते हैं। वह देश की लिपियों (अच्छरों) को सीखकर लिखने का अभ्यास करे। इस जाति का गणकत्व, वीजपाटीगणित और पाटीगणित के विभेद से विचित्र है। कायस्थ लेखक और गणक का काम करके अपनी जीविका करे। वह शूद्रों से भी अधम है। वह पाँच संस्कारवाला है।

**नोट—**द्वितीय और वैश्या के संयोग से 'माहिष्य' तथा वैश्य और ब्राह्मणी के योग से 'वैदेह' उत्पन्न होता है। पुनर्श्च—

शिखां यज्ञोपवीतं च वस्त्रमारकमं भसा ।

स्पर्शनं देवतानां च कायस्थः परिवद्येत् ॥

**अर्थ—**उक्त कायस्थ जाति के लिए शिखा रखना, जनेऊ पहनना, लाल वस्त्र धारण करना तथा देवताओं पर जल चढ़ाना मना है।

कितने महाशय मुझसे यह कहेंगे कि आपने अब तक जिन कायस्थों का हाल लिखा वे संकर कायस्थ हैं; जिनसे चित्रगुप्तवंशीय आदि शुद्र कायस्थ सर्वया भिन्न हैं। वार्दी ने कहा तो ठीक; पर योड़ी कसर रह गई; क्योंकि इतना तो उसको भी निर्विवाद रूप से मानना पड़ेगा।

कि स्मृतियाँ प्रमाण की इष्टि से पुराणों की अपेक्षा बलवती हैं और स्मृतियों के ही अनुसार कायस्थ नामक जाति संकर है और उसी का जातीय धन्वा लेखक और गणक का कर्म है। कोषकार भी कायस्थ नामक लेखक जाति के विषय में इसी मत को कि यह एक संकर जाति है, पुष्ट करते हैं। सुप्रसिद्ध कोषकार श्री आप्टे जी अपने संस्कृत अङ्गरेजी कोष में 'कायस्थः' शब्द का अर्थ करते हुए लिखते हैं—2. The writer-caste (proceeding from a चत्रिय father and a शूद्र mother); अर्थात् लेखक-जाति जो चत्रिय पिता और शूद्र माता से उत्पन्न होता है। अतः स्मृतियों के सामने पुराण अमान्य हैं।

अब प्रसंग-प्राप्त चित्रगुप्त-वंशीय कायस्थों पर विचार करता हूँ। यमद्वितीया के दिन इन कायस्थों के यहाँ चित्रगुप्त की पूजा तथा कथा होती है जिसका आधार पद्मपुराण का उत्तर चित्रगुप्त-वंशीय खंड है। इस कथा में कितनी अन्धा-योपी खेली कायस्थ गई है, यह इन वेचारों को मालूम नहीं। मुझे तो

इस कथा के व्यासकृत होने में ही सन्देह है। सम्भवतः ब्राह्मण पंडितों ने अपने इन कायस्थ वजमानों की रुचि रखने के लिये चित्रगुप्त विषय की एक कपोलकल्पित कथा गढ़कर पुराणों और तंत्रग्रन्थों में पीछे से छुसेड़ दिया जैसा कि आगे चल-कर दिखाया जाएगा। पद्मपुराण, उत्तर खंड, सूत-शीनक सम्बाद में लिखा है कि समाधित्थ ब्रह्मा जी के शरीर से एक सांवला मनुष्य अपने हाथों में कलम और दावात लिए हुए उत्पन्न हुआ और उसने उनसे अपना नाम, जाति तथा वर्ण के विषय में पूछा। ब्रह्मा ने कहा—

तं प्रहस्याव्रवीद् ब्रह्मा पुरुषं वै शगीरजम् ।  
चित्रगुप्तेतिरेनाम्, कायात्वं यद् विनिर्गतः ॥२५॥

तस्मात्कायस्थ विश्वातो भव त्वं सर्वलेखकः ।  
धर्माधर्मं विवेकार्थं धर्मराजपुरे सदा ॥२६॥

( चित्रगुप्तोत्पत्तिप्रकाशे )

अर्थ—ब्रह्मा ने अपने शरीर से उत्पन्न हुए पुरुष से हँसकर कहा कि तुम्हारा नाम चित्रगुप्त है और तुम मेरे काय ( शरीर ) से निकले हो; अतः तुम कायस्थ नाम से विश्वात होओ और धर्मराज की पुरी में सदा रहकर सभी मनुष्यों के शुभाशुभ कर्मों को धर्माधर्म के विचारार्थ लिखा करो । पुनश्च—

कायस्थः पंचमो वर्णो नतु शब्दः कथंचन ।

अतो भवेषुः संस्कारा गर्भाधानादयो दश ॥४॥

( कायस्थ-संस्कारप्रकाशे )

अर्थ—कायस्थ पंचवाँ वर्ण है । कभी भी वह शब्द नहीं है । अतः उसके गर्भाधानादि दश संस्कार होने चाहिए ।

विद्वानों ने अपनी-अपनी अटकल से 'चित्रगुप्त' शब्द के नाना अर्थ करने में लूल सींचातानी की है जिससे कोई भी अर्थ समीक्षीन नहीं जान पड़ता; जैसे—( १ ) चित्रायते पाप-'चित्रगुप्त' शब्द पुरुषविचारः, चित्रं करोति लिखतीत्यर्थः यमविशेषः के विविध अर्थ ( शब्द कल्पद्रुम ), अर्थात् जो पापपुरुष विषयक विचारों का चित्रण करे, यमविशेष । यहाँ 'गुप्त' शब्द का अर्थ ही गायब । ( २ ) चित्राणां पापपुरुषादिविचाराणां गुप्तं रज्ञां यस्मात्; अर्थात् जिसके द्वारा पापपुरुषादि विचित्र पदार्थों की रक्षा होती हो ( हिन्दी विश्वकोप ) । ( ३ ) चतुर्गुप्तः स चित्र गुप्तः; अर्थात् जिनमें अग्नि, वायु, आदित्य और अङ्गिरा ये चारों ऋषि अन्तहिंत हो वे चित्रगुप्त हैं । ( कायस्थ-मीमांसा ) । ( ४ ) चित्रेगुप्तः स चित्रगुप्तः अर्थात् जो ब्रह्मा जी के चित्र में गुप्त ( छिपा ) हो वह चित्रगुप्त है । ( ५ ) चित्रं गुप्तं यस्य सः चित्रगुप्तः अर्थात्

जिसकी तस्वीर छिपी हो वह चित्रगुप्त है। पर यथार्थ में ये सभी अर्थ बेसिर-पैर के हैं जो मानने योग्य नहीं हैं। अनुमानतः ब्रह्मशरीर-जात पुरुष का नाम केवल 'चित्र' या और 'गुप्त' उसकी उपाधि थी। पर ब्रह्मा ने उसका यह वैश्योचित नाम क्यों रखा?

यह एक पहेली है जिस पर अन्य विद्वानों को भी विचार करना चाहिए।

अब कुछ 'कायस्थ' शब्द पर भी विचार कीजिए। ब्रह्माजी ने अपने शरीर से उत्पन्न होने के कारण चित्रगुप्त को कायस्थ कहा। पर यदि ब्रह्माचावाको 'स्था' धातु का ही प्रयोग करना मंजूर था तो उन्हें चित्रगुप्त को कायस्थ न कह कर 'कायोत्थ' कहना चाहता था। इसके दो कारण हैं—( १ ) 'स्था' धातु का अर्थ है गतिनिवृत्ति अर्थात् ठहर जाना, खड़ा होना इत्यादि; न कि उत्पन्न होना; पर 'उद् + स्था' का अर्थ है उठना, उत्पन्न होना; जैसे, कल्पद्रुमोत्थैरव-कोत्थं पुष्टैः ( रघुवंश ); नियाद-विद्वांडज-इर्षनोत्थः ( रघुवंश ) इत्यादि। ( २ ) चित्रगुप्त को 'कायस्थ' कहने में सबसे भारी आपत्ति तो यह थी कायस्थ नाम की एक संकर जाति रमृति-काल में पहले ही उत्पन्न हो चुकी थी। पर वडे आश्चर्य की बात है कि बुद्ध बाबा ने अपने सुयोग्य युवा मुंशी चित्रगुप्त जी के गले में एक संकर जाति का नाम तथा उसकी जीविका भी क्यों बाँध दी और मुंशी जी ने भी बिना कुछ चीचपड़ किए ही उन्हें शिरोधार्य क्यों कर लिया? कहीं बुद्ध बाबा को इस बुढ़ीती में मज़ाक तो नहीं सूझा था! अथवा हिन्दू के बृद्ध होने के कारण उनकी अङ्क सठिया तो नहीं गई थी!! चित्रगुप्त के प्रसंग में पूज्य बाबा साहब ने आगे चल कर इससे भी गुबतर रालतियाँ की हैं जिन्हें देखने से मेरा दूसरा ही अनुमान ठीक जँचता है कि बब्जह जाईफी उनकी अङ्क पर ज़रूरी पर्दा पड़ गया था! अन्यथा अपने बच्चे के साथ वे मज़ाक क्या करेंगे !!

चित्रगुप्त के स्वर्ण-विषयक जिज्ञासा करने पर भी ब्रह्माजी ने उन्हें पञ्चम वर्ण बताया। यहाँ पर भी ब्रह्माजी ने भारी ग़लती की; क्योंकि मन्वादि धर्मशास्त्रकारों ने केवल चार ही वर्ण माने हैं। मनुस्मृति देखिए—

ब्राह्मणः चत्रियो वैश्यस्त्रियो वर्णा द्विजातयः ।

चतुर्थं एकजातिस्तु शूद्रो नास्तीति पञ्चमः ॥ मनु १०।४॥

अर्थ—ब्राह्मण, चत्रिय, और वैश्य, ये तीनों वर्ण द्विजाति कहलाते हैं, क्योंकि इनका उपनयन संस्कार होता है। चौथी एक जाति शूद्र है। पाँचवाँ वर्ण कोई नहीं है।

मनुस्मृति स्वावंभुव मनु की स्मृति है जो स्वयंभू (ब्रह्म) के पुत्र थे। मालूम होता है कि बृद्ध पिता ने अपने पुत्र की उक्त व्यवस्था पर पानी फेर कर चित्रगुप्त की सुविधा के लिए एक पञ्चम वर्ण की भी सृष्टि कर दी; पर गफलत से उन्हें मालूम न हुआ कि उनकी इस नवीन व्यवस्था ने चित्रगुप्त को किस रसातल में पहुँचा दिया! क्योंकि वर्ण-परम्परा में उच्च-नीच की व्यष्टि से यदि चौथा स्थान शूद्र का है तो पाँचवाँ वर्ण शूद्र से भी नीच होगा और जाति-विवेक का कायस्थ विषयक यह वचन कि 'अधमः शूद्र जातिभ्यः' पूर्ण रूप से चरितार्थ होगा। इसके अतिरिक्त ब्रह्माजी ने 'नतु शूद्रः कथं-चन' अर्थात् कायस्थ कभी भी शूद्र नहीं है यह पेशागी कैफियत भी क्यों दे दिया और फिर तब भी कायस्थ के लिए उन्होंने केवल दस ही संस्कार क्यों बताये? यदि वे कायस्थ जाति को द्विजातियों के अन्तर्गत उमझते होते तो वे इसके लिए पूरे सोलह संस्कारों की व्यवस्था देते। दस संस्कार तो शूद्र के होते हैं। व्यास-स्मृति का प्रथम अध्याय देखिए—

नवैता कर्णविघान्ता मंत्रवर्जै क्रियः छ्रियः ।

विवाहो मंत्रतस्तत्व्याः शूद्रस्यामंत्रतोदशः ॥१५॥

अर्थ—गर्भाधान से लेकर कर्णवेद तक जो ६ संस्कार हैं वे स्त्रियों के विना मंत्र के होते हैं। पर (द्विजाति) खी का विवाह समन्वय होता है और शूद्रों के ये ही दस संस्कार विना मंत्र के होते हैं।

ब्रह्माजी की विना माँगी हुई कायस्थ विषयक यह कैफियत और फिर भी केवल दस संस्कारों की व्यवस्था से मालूम होता है कि दाल में अवश्य कुछ काला था। यदि पञ्चम वर्ण के विषय में कोई यह दलील पेश करे कि जैसे महाभारत को पञ्चम वेद कहते हैं और ऐसा कहने से उसका महत्व कुछ घट नहीं जाता, वैसा ही कायस्थ जाति का महत्व भी पञ्चम वर्ण होने से कुछ कम नहीं होता। पर यह उदाहरण लागू नहीं है, कारण कि वेदों में परस्पर उत्कृष्टता और निकृष्टता की भावना नहीं है जो वर्ण-व्यवस्था में विद्यमान है। सच पूछिए तो इसी भेद-भावना की नींव पर ही वर्ण-व्यवस्था की इमारत खड़ी है।

अब चित्रगुप्त के विवाह सम्बन्ध की वार्ता सुनिए। इनकी दो स्त्रियाँ थीं—(१) सुशर्मा ब्राह्मण की कन्या शुभावती (ब्राह्मणी) जिसके आठ पुत्र हुए और (२) आददेव मनु की पुत्री नन्दिनी (कृत्रिया) जिसके चार पुत्र हुए। दोनों कन्याओं का वर की अपेक्षा उत्कृष्ट वर्ण होने के कारण दोनों की ही सन्तानें प्रतिलोमज हुईं। इस पर तुरा यह कि इन आठ पुत्रों का विवाह स्वजातीय कन्याओं से अभाव के कारण नागजाति के १२ कन्याओं से हुआ। अब पाठकगण स्वयं विचार लें कि इन चित्रगुप्त वंशीय कायस्थों को वर्ण-परम्परा में किस स्थान पर विठाया जाय और अब इनका रक्त शुद्ध है या संकर। चित्रगुप्त के इन १२ पुत्रों में कुछ के नाम एकदम आधुनिक दंग के हैं; जैसे—भानुप्रकाश, रामदयालु, श्याम-सुन्दर, दीनदयालु; राघवराम आदि, जिससे चित्रगुप्त कथा के काल्पनिक, प्रक्रिया और अव्यास कृति होने में कुछ भी सन्देह नहीं रह

जाता। कायस्थकुल-भास्कर (चौथा संस्करण) पृष्ठ ४४ में उद्धृत पश्चपुराण उत्तर खण्ड, सूत-शौनक सम्बाद, श्लोक ३६-४२ पढ़िये। कोई-कोई चित्रगुप्त का विवाह एक ब्राह्मणी और दूसरी लक्षिया से हुआ देखकर उन्हें ब्राह्मण मानते हैं; पर यदि वे ब्राह्मण थे तो ब्रह्मा ने उन्हें पंचम वर्ण क्यों कहा? वस्तुतः चित्रगुप्त की सारी कथा ही चंदूखाने की गण्य है।

चित्रगुप्तवंशीय कायस्थों की तरह कायस्थों का एक उपमेद चान्द्रसेनीय कायस्थ है जो अपने को राजा चन्द्रसेन की सन्तान होने के कारण लक्षिय कहते हैं। इस उपमेद की कथा चान्द्रसेनीय स्कन्दपुराण, रेणुका महात्म्य, परशुराम-दालभ्य-कायस्थ सम्बाद में आई है। परशुराम के भय से राजा चन्द्रसेन की गर्भवती लड़ी ने दालभ्य ऋषि के आधम में भाग कर शरण ली। ऋषि ने गर्भस्थ बालक को परशुराम के कोध से इस शर्त पर बचाया कि वह लक्षियत्वम् से गिराकर चित्रगुप्तवंशीय कायस्थ धर्मा बना दिया जाय। निदान ऐसा ही हुआ। गर्भोत्पन्न बालक ने परशुराम की आज्ञा से लक्ष्म-धर्म से बहिष्कृत होकर कायस्थ-धर्म कबूल किया। पर इसने किसी जाति की सी से विवाह कर अपना वंश चलाया, यह मालूम करने के लिये 'वर्ण-विवेक-चन्द्रिका', श्लोक ७६-८२ तक पढ़िये। कर्मकार के वीर्य से कायस्थ की लड़ी में सिन्दुरी नाम कायस्थ उत्पन्न होता है।

\*वहाँ श्लोक है—“रामाक्षया स दालभ्येन लावधर्माद्विष्कृतः। दत्तः कायस्थधर्मोऽस्मै चित्रगुप्तस्य यः स्मृतः॥ अर्थात् उस बालक को लक्ष्म-धर्म से बहिष्कृत करके, कायस्थ धर्म दिया गया, जिससे साफ़ है कि लक्षिय से भिन्न और निकृष्ट कायस्थ है, अन्यथा लक्ष्म-धर्म से बहिष्कार रूपी दंड का अर्थ ही क्या होता?

राजा चंद्रसेन की रानी के उक्त बालक ने किसी सिन्दुरी कायस्थ की कन्या से विवाह किया जिससे चान्द्रसेनी नाम संकर कायस्थ उत्पन्न हुए। लिखा है—

“सोऽपि कायस्थतनयां सिन्दुरस्याप्तवानिह ।  
कायस्थाश्चान्द्रसेनीया वर्णसंकरजातयः” ॥८१॥

इस प्रसंग में हम लोगों को यह भी जान लेना है कि हमारे हाई कोर्ट शास्त्रीय दृष्टि से कायस्थ जाति को किस वर्ण में स्थान देते हैं। यदि भिन्न-भिन्न हाई कोर्टों के कायस्थ-विषयक निर्णय मिलाए जाएँ तो उनमें मत-भेद पाया जाता है। कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्णय-नुसार बिहार का कायस्थ समुदायमात्र शहू है (a)। इतना ही नहीं उक्त हाई कोर्ट ने तो यहाँ तक लिख मारा है कि किसी कायस्थ का विवाह तीव्री जाति की रुपी (b), अथवा डोम जाति की भी रुपी (c) के साथ हो जाना शास्त्रीय दृष्टि से वैध है; क्योंकि ये सभी जातियाँ एक ही शहू जाति के केवल विविध उपजाति (Sub-castes) मात्र हैं। पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पश्चिमोत्तर प्रदेश तथा अवध के द्वादशविध चित्रगुप्तवंशीय कायस्थों को द्वितीय माना है (d)

(a) Raj Kumar Lal vs. Biseshwar Dayal, (1884) I. L. R. 10, Cal., 688. This has been followed in Asita vs. Nirode 20 C. W. N. 801=35 I. C. 127 (see P. C. Decision in 24 C. W. N. 794.)

(b) Biswanath vs. Sm. Shorasibala 48 C, 926=25 C. W. N. 639=66 I. C. 590.

(c) Bhola vs. King Emperor 51 C, 488=28 C. W. N. 323=25 Cr. L. J. 997=81 I. C. 709.

(d) Tulsi Ram vs. Behari Lall (1890) I. L. R. 12, All., 328, 334 F. B.

इसकी देखा-देखी पटना हाई कोर्ट ने विहार के भी उक्त द्वादशविधि कायस्थों के चित्रगुप्त के ही वंशज होने तथा उनकी पश्चिमोत्तर प्रदेश और अवध के उक्त कायस्थों के वहाँ रोटी-बेटी का सम्बन्ध होने के कारण, उन्हें भी ज्ञात्रिय वा कम से कम द्विज होने की व्यवस्था दी है ( e )। पटना हाई कोर्ट के सम्बन्धित जजमेंट के लिखनेवाले हैं कायस्थकुलभास्कर त्वर्गाय जस्टिस् सर ज्वालाप्रसाद महोदय, जिस पर आपके साथ सम्बन्धित मुकद्दमे की सुनवाई के समय बैठने वाले जस्टिस् सर बकनिल महोदय ने केवल 'I agree' (मैं सहमत हूँ), ये दो शब्द लिख कर स्वानुमति-सूचक अपना इस्तान्दर कर दिया है। प्रायः ४८ पृष्ठों का यह लम्बा 'जजमेट The Indian Law Reports, Patna Series, Volume VI, 1927, pp. 506-553 में प्रकाशित हुआ है। यह जजमेट् एक सार्वजनिक लेख (Public Document) होने के कारण सर्वसाधारण की आलोचना-प्रत्यालोचना के लिए सर्वदा खुला है। इस मुकद्दमे के बादी तथा प्रतिवादी दोनों गया ज़िले के चित्रगुप्तवंशीय कायस्थ तथा परस्पर दायाद थे। बादी का दावा था कि उसके और प्रतिवादी के पूर्वज सर्वे भाई तथा पारिवारिक सम्पत्ति के तुल्य अधिकारी थे, अतः उसका विभाग करके उसका अर्द्ध भाग प्रतिवादी से दिला दिया जाय इत्यादि। प्रतिवादी का उत्तर था कि विवादाधीन सम्पत्ति को उसके पूर्वज ने अपने जेठे भाई से उसके दत्तक-पुत्र, तथा स्वयं जेठे भाई ने नाना से उसके दत्तक-पुत्र होने की हेसियत से पाया था; अतः उत्तराधिकार का साधारण नियम उक्त गोदों से डित हो जाने के कारण बादी के पूर्वज का उक्त सम्पत्ति पर कोई हक नहीं था, जो बादी के दावानुसार उसका विभाग किया जाए इत्यादि। गया के

( e ) Ishwari Prasad vs. Rai Hari Prasad La. 7.  
L. T.

सब-जज ( Sub-Judge ) महोदय ने कायस्थ जाति का वर्ण शूद्र निर्दारित कर नाना के द्वारा दौहित्र का गोद लेना वैध समझा और बादी के दाढ़े को खारिज कर दिया, जिस पर उसने पटना हाई कोर्ट में अपील दायर की अपील में हाई कोर्ट के पूर्वोक्त दोनों माननीय जजों ने यह तजवीज की कि बादी उक्त सम्पत्ति पर अपना संयुक्त दखल बिना प्रमाणित किए एवं उक्त गोदों को बिना रद करवाए कोई दादरसी नहीं प्राप्त कर सकता; पर दखल और गोद, दोनों के सम्बन्ध में तमादी लग जाने के कारण उन पर अब विचार ही नहीं किया जा सकता। अंत में दोनों फरीकों ने सुलह कर ली और उसी सुलहनामे के आधार पर अपील फैसल कर दी गई। आलोचना-जजमेट् का पृ० ५५० देखिए।

गोद-विषयक प्रश्न पर मुख्यतः कौन-सा विचार करना था, उसे पाठकों को भी जान लेना चाहिये। धर्मशास्त्रों के अनुसार कोई भी द्विजाति ( ब्राह्मण, द्वितीय वा वैश्य ) अपने दौहित्र को गोद नहीं ले सकता; अतः प्रतिवादी के कथनानुसार उसके पूर्वज जेठे भाई का अपने नाना द्वारा गोद लिए जाने का वैधत्व किम्बा अब कायस्थ जाति के क्रमशः शूद्रत्व वा द्विजत्व सिद्ध होने पर निर्भर था। पर जब उक्त गोद का प्रश्न तमादी-मुशीर हो जाने के कारण उठा ही नहीं तो पटना हाई कोर्ट द्वारा कायस्थ जाति के वर्ण पर विचार करने तथा उसका द्वितीयत्व ( द्विजत्व ) सिद्ध करने के लिए केवल दो-चार मुद्रित पृष्ठों के नहीं, बल्कि छद्म पृष्ठों के मुँह में स्याही पेतने का व्यथ प्रयास क्यों किया गया, यह समझ में नहीं आता। उक्त हाई कोर्ट तथा उसके जजों के प्रति पूर्ण सम्मान का भाव रखते हुए भी मुझे विवश होकर खेद के साथ लिखना पड़ता है कि महामान्य सर जस्टिस ज्वाला प्रसाद जी जैसे कानून-शास्त्र के एक प्रकारण विद्वान् का अपने जजमेट में एक अनावश्यक वस्तु को इतना विस्तार देना शोभा नहीं

देता। यदि कहा जाय कि कायस्थ जाति का वर्ण चिरकाल से विवादप्रस्त था; अतः उस विवाद का निवटारा सदा के लिए कर देने की प्रवल इच्छा ही आपके इस लम्बे जजमेंट की जन्म देनेवाली हुई। पर याद रहे कि जजमेंट में केवल उन्हीं वातों को तक और प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जाता है जिस पर वह अन्त में ले जाकर आधारित किया जाता है। पर यदि जजमेंट उन वातों पर आधारित नहीं हुआ तो वे केवल आकस्मिक विधयों की चर्चामात्र (Obiter Dictum) हुई। ठीक यही दशा सर ज्वालाप्रसाद के कायस्थ-द्विजत्व-निर्णय की है। उसके द्वारा वादी वा प्रतिवादी की स्थिति में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। दखल और गोद के प्रश्न पर, तमादी के कारण, - विचार नहीं होने से वे जहाँ के तहाँ ही रह गए और बेचारा वादी जिस प्रकार खाली हाथ आया था उसी प्रकार उसको खाली हाथ जाना पड़ता यदि उन फरीकों के क्रान्ती सलाहकारों की योग्य-सहायता तथा न्यायालय के सुझाव से उनमें सुलह नहीं होती।

कोई-कोई कहते हैं कि चूंकि गया के सब-जज ने कायस्थों को शद्गत्व की व्यवस्था दे दी थी, अतः उसके खराड़न में जस्टिस् सर ज्वालाप्रसाद जी ने उन्हें द्विजत्व की व्यवस्था देते हुए इतना लम्बा जजमेंट लिख मारा। यह जजमेंट चाहे जिस अभिप्राय से लिखा गया हो, अथवा इसका देनेवाला चाहे कोई भी हो, इससे मेरा कुछ भी मतलब नहीं। मेरा मतलब तो उन तकों, युक्तियों तथा प्रमाणों पर स्वतंत्र रूप तथा निष्पक्ष भाव से विचार करना है, जिनके द्वारा सर ज्वालाप्रसाद जी ने कायस्थ जाति का द्विजत्व सिद्ध करने का महाप्रयास किया है। यदि गया के सब-जज महोदय की व्यवस्था के निराकरणार्थ भी यह प्रयास किया गया हो तो हाइ कोर्ट की तजवीज में इसका कुछ भी उपयोग नहीं होने से इसका मूल्य केवल एक Obiter Dictum से कुछ भी अधिक नहीं है।

आलोचनाधीन व्यवस्था पर विचार करने के पूर्व में पाठकों को सर्वप्रथम सर ज्वालाप्रसाद जी के मूल सिद्धान्तों को बतला देना चाहता हूँ जिनके आधार पर तर्क कर आपने कायस्थों के द्विज होने का दिंदोरा पीटा है। आप श्रुतियों, स्मृतियों तथा पुराणादि ग्रन्थों के चातुर्वर्ष्य के इस अलंकारिक उत्पत्ति-वर्णन को मानते हैं कि ब्रह्मा के मुख से ब्रह्मण, बाहु से चत्रिय, उरु (जंघा) से वैश्य तथा पैर से शूद्र उत्पन्न हुए। इसके अतिरिक्त आप यह भी मानते हैं कि प्रारंभ में किसी भी व्यक्ति का वर्ण उसके निजी गुण, कर्म और स्वभाव पर निर्भर था, किन्तु कालान्तर में वह पैत्रिक हो गया; अर्थात् यह माना जाने लगा कि पुत्र में गुण हो वा दोष, उसे आपने पिता का ही वर्ण प्राप्त हो जाता है। अभिप्राय यह कि जो वर्ण जन्मानुसार एक बार निश्चित हो चुका उसमें कर्मानुसार किसी प्रकार का परिवर्तन बाद में नहीं हो सकता। विचाराधीन जबमेंट के पृष्ठ ५२०, ५२१ और ५२८ देखिए।

अब आपके ही मंतव्यानुसार सर्वप्रथम चित्रगुप्त का ही वर्ण निश्चय किया जाता है। मैं, पहले पञ्चपुराण (उत्तर खण्ड), ब्रह्मपुराण (पुलस्त्य-दत्तात्रेयसम्बाद), विज्ञानतंत्र (सप्तम पटल) आदि ग्रन्थों का प्रमाण देते हुए यह चतुर्वर्ष्य की जहाँ कहाँ चित्रगुप्त की उत्पत्ति लिखी मिलती है वहाँ उन्हें ब्रह्मा के 'काय' अर्थात् शरीर से उत्पन्न हुआ लिखा मिलता है। पर यह कहाँ भी नहीं स्पष्ट करके लिखा गया है कि वे ब्रह्मा के किस अंग से उत्पन्न हुए हैं, अतः उनका वर्ण अनिश्चित तथा संदिग्ध है। इसी भाव के बोतनार्थ उन्हें चातुर्वर्ष्य में न रखकर उन्हें पञ्चम वर्ण माना गया है। पञ्चपुराण में लिखा है—‘अतः कायस्थ जातिस्ते चित्रगुप्तेति नाम ते। कायस्थः पञ्चमो वर्णोः न दु शूद्रः कथंचन’। ब्रह्मपुराण में तो कायस्थ नामक एक वर्ण ही मान लिया गया है जो पञ्चम वर्ण का

ही अभिप्राय प्रकट करता है—‘सहोवाच कायस्थ वर्णो नाम्ना चित्र-  
गुप्तः’ इत्यादि । विज्ञान-तंत्र कहता है—‘कायस्थों पंचयो वर्णों न तु  
शूद्रः कथंचन’ । सारांश यह कि चित्रगुप्त को स्पष्ट शब्दों में ज्ञातिय  
कहीं भी नहीं लिखा । उनके ज्ञातियत्व की पुष्टि में सर ज्यालाप्रसाद  
जी ने एक श्लोक भी नहीं उद्धृत किया है । अतः जब स्वयं चित्रगुप्त  
ही नहीं ज्ञातिय सिद्ध हुए तो उनके बंशधर द्वादशविधि कायस्थ क्यों-  
कर ज्ञातिय माने जा सकते हैं ? वर्ण-विवेक चन्द्रिका में तो चित्रगुप्त  
तथा उनके पुत्रों को स्पष्ट शब्दों में शूद्र लिखा है—

‘कायस्थ-संज्ञको वर्णश्चतुर्णा’ तदनन्तरम् ।  
समुद्रे तोयतस्त्वं हि शूद्रवर्णेऽपतिष्ठितः ॥५॥  
वैश्यकन्याः शूद्रकन्याः प्राप्तास्ते चैत्रगौप्तिका ।  
तेषां पुत्राश्च पीत्राश्च सञ्चूद्रेषु प्रकीर्तिः ॥६॥  
ममस्वेदात्समूद्भूतः कायस्थो जातितुर्यंगः ॥  
चित्रगुप्तेति नाम्ना वै यमलोके ब्रजाधुना ॥७॥  
कायस्थानां त्रयो भेदाः संग्रोकाः प्राणवल्लभे ।  
चित्रगुप्तात्मजाः सर्वे कायस्थाः शूद्रसंज्ञकाः ॥८॥

अर्थ—सरल है, अतः नहीं लिखा । विष्णु-रहस्य के २२वें  
अध्याय में जहाँ देवलोकनिवासियों का वर्णनिर्देश किया गया है,  
चित्रगुप्त का स्पष्टः शूद्रवर्ण लिखा है—‘चित्रश्च चित्रगुप्तश्च  
विदिवेतालकिन्नाराः विश्वधरादयो येऽन्ये शूद्रवर्णाः समस्तयः’ ।  
इसी प्रसंग में यम को भी शूद्र, उनके दूसरे रूप धर्म को ब्राह्मण  
कहा गया है । चान्द्रसेनीय कायस्थों की उत्पत्ति से भी पता चलता  
है कि ज्ञातिय और कायस्थ, ये दोनों भिन्न जातियाँ हैं तथा जाति में  
कायस्थ ज्ञातिय से छोटा है । यदि ऐसी बात न होती तो चान्द्रसेन

\* चतुर्थ जाति ( शूद्र ) ।

की रानी के बालक ज्ञात्र-धर्म से निकाल बाहर करने तथा उसे कायस्थ-धर्म में नियोजित करने का अर्थ ही क्या होता ? इसके अतिरिक्त यह भी जान लेना चाहिए कि परशुराम ने केवल ज्ञात्रियों का ही संहार किया था, कायस्थों का नहीं । अतः यदि कायस्थ भी ज्ञात्रिय थे, तो उनका भी संहार होना चाहता था; पर हुआ नहीं । लेखकों और गणकों की जान, उन्हें वैश्य-शूद्रों की तरह अज्ञात्रिय समझ कर बख्श दी गई । यह कहीं भी लिखा नहीं मिलता कि शास्त्रधारी वीर सैनिकों की तरह ही कान में कलम खोंसे और हाथ में दबात पकड़े हुए सुंथी जी ( लेखक और गणक ) लोग भी परशुराम के फरसे के घाट उतार दिए गए । उक्त रानी के गर्भजात बालक के विषय में सर ज्वालाप्रसाद जी लिखते हैं कि यद्यपि वह बालक फौजी पेश से वंचित किया गया, तो भी उसे लिखने पड़ने का पेशा मिला जो ज्ञात्रियों का ही धन्धा है और ज्ञात्रिय जाति के तथाकथित इस धन्धे के सबूत में आप अमरकोष, ज्ञात्रिय वर्ग, श्लोक १६ और १७ की दुहाई देते हैं, जिनमें लिपिकार, लेखक आदि शब्द आए हैं । पर ज्ञात्रिय-वर्ग में पुरोधा, पुरोहित और कंचुकी शब्द भी आए हैं; पर इससे यह नहीं मान लेना चाहिये कि जिन लोगों के लिये पुरोधा आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है, वे सभी ज्ञात्रिय हैं; पुरोधा पुरोहित कंचुकी, आदि ब्राह्मण होते हैं । पुरोहित का ब्राह्मण होना तो सर्वविदित ही है और कंचुकी के ब्राह्मणत्व ज्ञान के लिये आप्ते जी का कोप देखिए—‘अंतःपुरचरो वृद्धोविग्रो गुणगणान्वितः । सर्वकार्यार्थकुशलः कंचुकीत्यभिधीयते’ । अतः जैसे पुरोधा आदि ज्ञात्रिय-वर्ग में उल्लिखित हो जाने से कुछ ज्ञात्रिय न हो गए; वैसे ही उस वर्ग में उल्लिखित हो जाने मात्र से ही लेखक आदि ज्ञात्रिय नहीं बन गए । ज्ञात्रिय-वर्ग में ये सब इस कारण परिगणित किए गए कि ये सब राजदरबार के अंग माने जाते थे । ज्ञात्रिय शब्द का अर्थ होता

है भय, विपद् और नाश से रक्षा करने वाला। इस शब्द की संस्कृत व्युत्पत्ति इस प्रकार होती है—क्षतात् ज्ञायते इति क्षत्रः। तस्यापत्यं जातिवां क्षत्रियः। अतः आश्चर्य है कि जिन कायस्थों को महर्षि याज्ञवल्क्य ने चोरों और डकैतों से भी बढ़कर खतरनाक मानकर राजाओं को उनसे अपनी प्रजाओं की सदा रक्षा करने में सावधान रहने की सख्त ताकीद की है, उन्हें भी सर ज्वालाप्रसाद जी न्यायाधीश ने, जिना किसी सन्तोषजनक प्रमाण के, क्षत्रिय लिख मारा। वस्तुतः ‘क्षत्रिय’ और ‘कायस्थ’ ये दोनों शब्द उत्तर और दक्षिण, दोनों श्रुतों की तरह ठीक एक दूसरे के प्रतिकूल होकर दो विशद् भाव-नामों के द्वातक हैं। वर्णपुराण ( पाण्डुपतदानध्याय ) भी याज्ञवल्क्य की ही तरह कायस्थ जाति के विशद् वैसी ही भावना को पुष्ट करता है—‘चाट—चारण—चौरेभ्यो वध-वध भयादिभिः। पीड्यमानाः प्रजा रक्षेत् कायस्थेभ्यो विशेषतः’॥ अर्थ—राजा को उचित है कि वह ठगों, चापलूसों, और चोरों तथा विशेष करके कायस्थों से वध ( इत्या ) और वध ( कैद ) के द्वारा सताई जाती हुई प्रजा की रक्षा करे।

जब सर ज्वालाप्रसाद जी का जी श्रुतियों, स्मृतियों और पुराणों से नहीं भरा तो आपने विज्ञान-तंत्र और व्योमसंहिता की शरण ली। इसी को कहते हैं, ‘झूबते को तिनका सहारा’। जान पड़ता है कि आप को कहीं से बंगदेशीय परिदृष्ट ताराचरण शम्मां-लिखित ‘कायस्थाना क्षत्रियत्व-प्रतिपादक व्यगस्था-पत्रम्’ हाथ लग गया था, जिसमें प्रामाण्य-ग्रन्थों के कतिपय श्लोकों का पाठ जान-बूझकर बदल दिया गया है। उदाहरण-स्वरूप आपको विज्ञान-तंत्र से सम्बन्धित श्लोक का यह जाली पाठ वही से प्राप्त हुआ मालूम होता है—‘कायस्थः क्षत्रियो वर्णौ न तु शद्गः कदाचन’। ग्रन्थ के अधिक प्राचीन संस्करण में उक्त श्लोकार्द्ध का यह पाठ दिया है—‘कायस्थः पंचमो वर्णौ न तु

शुद्र क पंचन'। इसमें कायस्थों को पुराण-ग्रंथों की तरह पञ्चम वर्ण लिखा है। यदि थोड़ी देर के लिए आपके ही स्वीकृत पाठ को शुद्र मान लें तो उस हालत में भी आपका ध्येय सिद्ध होते नहीं दीखता; क्योंकि यदि विज्ञान-तंत्र के मत से कायस्थ ज्ञात्रिय हैं तो जैसा मैं पहले कह आया हूँ, उनके सम्बन्ध में 'न तु शुद्रः कदाचन', यह बिना माँगी हुई कैफियत देने का मतलब क्या? क्या इस कैफियत से यह ध्वनि नहीं निकलती कि जनता इनके प्रति शुद्र भावना रखती थी जिसे दूर करने के प्रयत्न में यह कैफियत दे दी गई? इस कैफियत से तो यह सन्देह स्वभावतः उत्पन्न हो जाता है कि दाल में अवश्य कुछ काला है और कायस्थों का ज्ञात्रियत्व संदिग्ध है। विज्ञान-तंत्र के रचयिता ने पहले तो कायस्थों के गले में ज्ञात्रियत्व का हार पहना दिया; पर आगे के इलोक में उक्त संदिग्ध व्यवस्था की कलई खुल गई। उसने कायस्थों के लिए केवल गर्भाधानादि दस ही संस्कार बताए जो वस्तुतः व्यासस्मृति के अनुसार शूद्रों के लिए विहित हैं और जिनका उल्लेख हो चुका है। इसके अतिरिक्त जहाँ मनु, याजवल्न्य आदि धर्मशास्त्रकारों ने नाम-करण-संस्कार दसवें वा बारहवें दिन वा नहीं तो सूतक बीत जाने पर करने को लिखा है वहाँ विज्ञान-तंत्रकार ने कायस्थों के लिए 'शताह' अर्थात् १०० दिनों पर उक्त संस्कार करने की व्यवस्था दी है, जिससे उनका चातुर्वर्षवाह्यत्व अर्थात् पंचम वर्णत्व ही, जो उक्त तंत्र-ग्रन्थ के शुद्र पाठ के अनुसार है, सिद्ध होता है। विज्ञान-तंत्र के उक्त जाली पाठ के अनुसार परस्पर संगतिहीन इन व्यवस्थाओं पर अधिक लिखना व्यर्थ है।

अब व्योम-संहिता को लीजिए। उसमें 'कायस्थो ब्रहसंशकः', 'कलौ हि ज्ञात्रियः' आदि वचन हैं। पर 'कायस्थो ब्रहसंशक', सर ज्वालाप्रसाद जी द्वारा स्वीकृत इस पाठ की भी शुद्धता में सन्देह है, कारण कि इस पाठ की जगह 'कायस्थ वर्णसंशकः', यह पाठ मिला

है, जिसका बहुत्रीहि समाप्त इस प्रकार होता है—‘कायस्थः एव वर्णं-संशा यस्य सः’ अर्थात् कायस्थ ही जिसकी वर्णं-संशा है वह, जिससे पंचम-वर्ण का भाव प्रकट होता है। पर मैं इस पाठ के अनुसार तक न कर उक्त जस्टिस महोदय के पाठानुसार ही तक करूँगा। यदि कायस्थ ब्रह्मसंज्ञक अर्थात् ब्राह्मण हैं तो सर ज्वाला-प्रसाद जी को उन्हें ब्राह्मणत्व की ही सर्टिफिकेट प्रदान करना चाहता था। न मालूम आपने अपनी विरादरी के अभ्युदय-साधक ऐसे सुवर्णमय अबसर को अपने हाथ से क्यों निकल जाने दिया! और यदि अन्य युगों में कायस्थ ब्राह्मण वे तो वे कलि में त्रिविय कैसे हो गए? यह वर्ण-परिवर्तन आपके सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने के कारण पुनः आपके ही द्वारा और अपने ही पक्ष की पुष्टि में प्रमाण-रूप से नहीं पेश किया जा सकता। आपके मन्तव्यानुसार वर्ण मूलतः पैतृक न होकर बल्कि योग्यता-विशेष पर निर्भर था; पर बाद में वह पैतृक हो गया और योग्यायोग्य का विचार जाता रहा। आप आपने जजमेट् के पृष्ठ ५१८ में लिखते हैं—

‘He says that the caste of a person did not originally depend on heredity, but on the occupation and possession of characteristic merits under the texts of Manu; but by lapse of time, it has become a matter of heredity and merit, or no merit, the son gets the caste of the father.’

अर्थ—वे, अर्थात् ‘A Treatise on Hindu Law’ नामक हिन्दू कानून-अंग के रचयिता श्री गोपालचन्द्र सरकार, कहते हैं कि मनु के शास्त्रानुसार किसी व्यक्ति का वर्ण मूलतः पैतृक न था; बल्कि वह पेशे तथा विशिष्ट योग्यताओं पर निर्भर था; पर समय

बीतते-बीतते वह एक पैतृक वस्तु हो गया है और योग्यायोग्य का विचार छोड़ कर पुनर को पिता का वर्ण प्राप्त हो जाता है।

सरकार महोदय के इस वचन को आप मानते हैं; अतः आपके मंतव्यानुसार कायस्थों का भी वर्ण नहीं बदल सकता और यदि वे अन्य युगों में ब्राह्मण थे तो आपको उन्हें कलि में भी ब्राह्मण ही मानना उचित था, न कि ज्ञात्रिय। यदि आप कहें कि व्योम-संहिता के अनुसार उन्हें कलि में ज्ञात्रिय मानना चाहिये, तो आपके सिद्धान्तों के प्रतिकूल जानेवाले ऐसे ग्रन्थ को आपको कूड़े की टोकरी में फेंक देना उचित था। इस प्रकार की स्वमत-विरोधिनी तर्कशैली को बदनो-व्याधात दोष कहते हैं जो आप पर लागू है।

विज्ञान-तंत्र तथा व्योम-संहिता जैसे प्रमाण की दृष्टि से रही की टोकरी में फेंक देने योग्य ग्रन्थों का हवाला सर ज्वालाप्रसाद जी जैसे एक प्रकारण विद्वान् द्वारा दिया जाना उतना आश्चर्यजनक नहीं है जितना कि आपस्तम्भ नामक एक वेद-शाखा का। वेदों की शाखाएँ क्या हैं, इसे पाठकों को भली भाँति बता देना जरूरी है जिससे उन्हें इस प्रमाण की अनर्गलता मालूम हो जाय। वेदों के सम्बन्ध में 'शाखा' शब्द का अर्थ है उनका संस्करण-विशेष (The traditional text or recension of a Veda) जिसे वेदज्ञ ब्राह्मणों की किसी मंडली-विशेष ने अपना लिया है; जैसे शाकल-शाखा, आश्वलायनशाखा, वाङ्कलशाखा, आपस्तम्भशाखा इत्यादि। उदाहरण-स्वरूप ऋग्वेद की २१ शाखाएँ हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि २१ शाखाओं का समुदाय ऋग्वेद है; वल्कि यह है कि प्रत्येक शाखा स्वतंत्र रूप से पूरा ऋग्वेद ही है। अथवा स्पष्ट शब्दों में यह कहिये कि ऋग्वेद की २१ शाखाएँ, परस्पर कुछ भिन्नता रखते हुए, उसके २१ संस्करण विशेष हैं। एक शाखा से दूसरी शाखा का भेद केवल यतस्ततः उच्चारण तथा किन्हीं मंत्रों के ग्रहण करने के विषय

में है। उदाहरण के लिये प्रसिद्ध पुरुष-सूक्त का प्रथम मंत्र 'सहस्र-शीर्षाः पुरुषः' आदि को लीजिए। जहाँ आश्वलायन शास्त्रावाले गम्भीर शब्द से उसे ज्यों का त्यों, अर्थात् 'सहस्रशीर्षाः पुरुषः' उच्चारण करेंगे, वहाँ माध्यनिदनी वाले इसे 'सहस्र शीरेखा पुरुषः' उच्चारण करेंगे। ये लोग मूर्द्धन्य 'ष' की जगह कंठ्य 'ख' का उच्चारण करते हैं। शास्त्राओं के विषय में और भी कुछ बातें जान लेनी चाहिए॥। प्रत्येक शास्त्र की संहिता ( मंत्र-भाग ) ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्, औत-सूत्र तथा गृह्य-सूत्र विशेष होते हैं। वेद-शास्त्र-सम्बन्धी इस संक्षिप्त विवरण से पाठकों को मालूम हो गया होगा कि वेदों तथा उनकी शास्त्राओं के विषय क्या है। उनके विषय हैं वैदिक कृत्यों को सुचारू-रूप से सम्पादित करने की विधियाँ बतलाना आदि, न कि चातुर्वर्ष्य के अन्तर्गत वा वहिर्गत किसी जाति-विशेष की उत्पत्ति भी लिख देना। वेदों में केवल ब्राह्मण, ज्ञात्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार वर्ण और पाँचवाँ निषाद, इन्हीं पाँच मूल जातियों का उल्लेख पाया जाता है जिन्हें 'पञ्च-जन' कहा गया है। वहाँ पर कायस्थ, कुम्भी, अहीर, भूमिहार आदि उपजातियों का नाममात्र भी नहीं पाया जाता। अतः सर ज्वालाप्रसाद जी को उचित था कि आप-स्तम्भ शास्त्र में, जो कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शास्त्र का एक उप-मेद मात्र है, कायस्थ वा किसी भी जाति-विशेष की उत्पत्ति लिखी देखकर या शब्द-कल्पद्रुम या किसी अन्य कोष में उसे किसी वेद-

“सत्यब्रत सामधमो लिखते हैं—“तत्त्वतः नहि वेदशास्त्रा बृक्ष-शाखेव नापि नदीशासेव प्रत्युताघ्येतुमेदान् सम्प्रदायमेदजन्याघ्ययन विशेषरूपैव”; अर्थात् वेद की शास्त्राएँ न तो बृक्षों की शास्त्राओं की भाँति हैं और न नदी की शास्त्राओं की भाँति हैं; प्रत्युत वे पठन-पाठन-मेद से सम्प्रदाय-जन्य अध्ययन का ही विशेष-रूप हैं।

शास्त्रा की आइ में उद्धृत को हुई पाकर उसे किसी पागल का प्रक्रिया प्रलाप समझ तत्काल ही उक्तरा देते। मालूम होता है कि आपको कायस्थ-क्षत्रियत्व-प्रतिपादनार्थ अपने इस भगीरथ प्रयत्न में शब्द-कल्पद्रुम के पन्ने इधर से उधर बार-बार उलटने पड़े हैं। पर उक्त कोष ग्रन्थ की सावधान जामातलाशी करते समय आपकी तेज और उसके उन पृष्ठों पर भारवश नहीं पड़ी, जिनमें कायस्थों को आचार-निर्णय-तंत्र का हवाला देते हुए शूद्रों से भी निकृष्ट बताया गया है, जो ब्राह्मणों की सेवकाई करने से ही कुछ अच्छी दशा में पहुँच गए हैं। पार्वती शिव से कहती है—

‘अतीवचित्रं शंभोत्वं मुक्तवानावयोरुपं ।

शूद्रात्कनीयसी जातिरभवद्विप्रसेवकः’ । ( ३७ तम पठल ) ।

अर्थ—हे शंभो ! यह आपने अति ही विचित्र बात कही कि शूद्र से भी छोटी जाति ( कायस्थ ) ब्राह्मणों का सेवक हुआ । यहाँ कायस्थ का प्रसंग चला है । पुनः उसी प्रसंग में शिव पार्वती से कहते हैं—

‘ब्रह्मपादांशतः शूद्र-मसीशौ द्वौ वभूवतुः ।

शूद्रात्परः कनिष्ठः स चातः कालि ऋतं च तत् ।’

अर्थ—ब्रह्म के पद-भाग से शूद्र और मसीश ( स्याही का मालिक अर्थात् कायस्थ ), ये दोनों उत्पन्न हुए । अतः हे कालि ! यह सत्य है कि कायस्थ शूद्र से भी कनिष्ठ ( छोटा ) है ।

अब सर ज्वालामुखसाद जी के तथाकथित प्रक्रिया श्लोकों पर भी विचार होना चाहिए । यदि आपकी समझ मुवारक में व्यास-स्मृति, अध्याय १, श्लोक १०-१२ तथा औशनस-स्मृति के श्लोक ३२-३४ प्रक्रिया हैं वा चित्रगुप्तवंशीय कायस्थों पर लागू नहीं हैं, तो मेरे जैसे नाचीज़ की अङ्कनाकिस में भी विष्णु और व्यास के नाम पर लिखे हुए वे श्लोक ( यथापि उनकी कृतियों में मुक्ते ऐसे श्लोक न मिले

और न आप ही ने अपने आलोचनाधीन जजमेट में उन्हें उद्धृत करने का कष्ट उठाया ) अथवा शुकनीति, वृहत् पाराशर, वृहस्पति, वीरभिंत्रोदय, अपराक, विश्वनेश्वर आदि के बे श्लोक ( यद्यपि इनमें से भी कोई नहीं आपके द्वारा उद्धृत होने का सौभाग्य प्राप्त कर सका ), जिनमें कायस्थों ( लेखकों और गणकों ) को द्विज, श्रुतियों और स्मृतियों के ज्ञाता तथा सन्धि-विग्रहकारी, न्यायाधीश, राजपरिषद् के सदस्य आदि बड़े-बड़े राजकर्मचारी होना लिखा गया है, स्मृतियों, पुराणों तथा तंत्र-ग्रन्थों के पूर्वोक्त प्रमाणों के प्रतिकूल होने के कारण प्रक्षिप्त क्यों नहीं ? क्योंकि प्रमाण-तुला का कायस्थ-सूदूरत्व-प्रतिपादक पल्ला, उनके द्वितीय-प्रतिपादक पल्ले से भारी होने के कारण अधिक सुका जा रहा है । यदि आपको अपने पद के विरोधी प्रमाणों को प्रक्षिप्त कह देने का अधिकार है तो आपके विपक्षियों को भी स्वमत-विरुद्ध प्रमाणों को प्रक्षिप्त कह देने का वही अधिकार है । पर इस तरह किसी भी प्रमाण को प्रक्षिप्त कह देने से ही बला नहीं टाली जा सकती । प्रक्षेपों की सनाखत जरा टेढ़ी खीर है । प्रक्षेप हुआ करते हैं सही, और मोटे तौर से उन्हें पहचानने की यह रीति है कि उनका प्रतिपाद्य विषय तथा उनकी रचनाशैली मूल ग्रन्थ के प्रतिपाद्य विषय तथा उसकी रचनाशैली एवं स्वीकृत मान्य प्रमाणों और देश काल से मेल नहीं खाते । जहाँ यह पहचान न हो वहाँ प्रक्षेप कह देना अपने तथा दूसरों को धोखा देना है । इसके अतिरिक्त मैं आपकी सेवा में यह नम्र निवेदन कर देना चाहता हूँ कि श्रीमान् आपने भाई-बन्धुओं को इस घोर भ्रम में कभी भी डालने का प्रयत्न न करें कि शुद्ध हिन्दू काल में, जब कि राज्य-शासन स्मृतियों के अनुसार होता था, कायस्थों को राजमंत्री, न्यायाधीश, राजपरिषद् के सदस्य आदि के उच्चपद नसीब होते थे । उन बेचारों को लेखकों ( किरानियों ), तथा गणकों ( आय-व्यय के

हिसाब रखने वालों ) के रूप में अपनी लेखनी सर्वदा घिसते हुए अपनी ज़िन्दगी काटनी पड़ती थी। इसके प्रमाण वे शिला-लेख, दान-पत्र, नामपत्र आदि हैं जिनका हवाला आगे चलकर दिया गया है जहाँ इस जाति पर ऐतिहासिक दृष्टि से विचार किया गया है। उस काल में कायस्थों की कुछ भी हस्ती न थी, जैसा कि मुद्राराज्ञस के इस वचन से पता चलता है—

‘कायस्थ इति लघ्वी मात्रा’; अर्थात् कायस्थ एक तुच्छ अंश है। अभिप्राय यह कि वह किसी गणना के बोग्य नहीं। मुद्राराज्ञस के उक्त वचन पर जीवानन्दी टीका पढ़िए—‘लघ्वी मात्रा त्तुद्रः अंशः हीन जातिल्वात्।’ यहाँ भी कायस्थों को हीन जाति ही कहा गया है। यह वचन चरनिपुणक के प्रति चारणक्य का कहा हुआ है।

इस जाति को सर्वसाधारण किस ओछी निगाह से देखते थे, इसे जानने के लिये मृच्छकटिक के इस वचन पर दृष्टिपात्र कीजिये—

‘अवि अ भो वआस्स ! गणिआ, हस्त, काश्रत्थाश्चो, भिक्खु, चाटो, रासहो अ जहि एदे शिवसन्ति तहिं दुडावि ण जाशन्ति’ ( प्राकृत ) = अपि च भो वयस्य ! गणिका, हस्ती, कायस्थः, भिक्षुः, चाटः, रासमः च यत्र एते निवसन्ति तत्र दुष्टाः अपिन जायन्ते । ( संस्कृत ) । अर्थ—और हे भित्र ! जहाँ पर वेश्या, हाथी, कायस्थ, भिक्षुक, ठग और गधा रहते हैं वहाँ दुष्ट भी नहीं ठहरते । यह चारदत्त के प्रति विदूषक का वचन है। इस पर जीवानन्दी टीका पढ़िए—‘दुष्टाः सदोपा अपि जनाः न जायन्ते न तिष्ठन्ति दोषातिरेकत्यावश्यम्भावादितिभावः।’ अर्थ—वहाँ दुष्ट जन भी इस विचार से नहीं ठहरते कि वहाँ ठहरने से वे अवश्य ही अधिक दुष्ट हो जाएँगे। भाव यह कि दुष्ट लोग भी गणिका, कायस्थ, गधा आदि से अलग रहना चाहते हैं।

आगे चलकर जस्टिस ज्वालाप्रसाद जी कायस्थ जाति को द्विज सिद्ध करने के लिए रिजली साहब का हवाला देते हुए लिखते हैं कि चिहारी कायस्थों के कितने प्राचीन परिवार द्विजों की पाँडि, तिवारी, बखशी, राथ, ठाकुर, मिस्त्र, जिन और साहूलियर उपाधियाँ धारण करते हैं। पाँडि, तिवारी, मिश्र आदि शब्दों का द्विजोपाधियाँ होना तो समझ में आ जाता है; क्योंकि ये संस्कृत के पाठेय, त्रिपाठी (त्रिवेदी), मिश्र आदि शब्दों के अपब्रंश हैं; पर बखशी और साहूलियर जैसे अनार्य भाषा के शब्दों का द्विजोपाधियाँ होना शायद रिजली साहब तथा उनके मतानुयायी आप ही समझते होंगे। रिजली साहब तो एक विदेशी विद्वान् थे। वे भारतीयों के विषय में चाहे जो भी कठपट्टीग बातें लिखें और अपने पाठकों को इस कदर निरे बुद्ध समझें कि वे उनकी सभी बातों को बिना चींचपड़ किये मान लेंगे, तो यह क्षम्य हो सकता है; पर सर ज्वालाप्रसाद जी जैसे एक प्रकाशद भारतीय विद्वान् का न्याय के सर्वोच्च सिंहासन पर बैठकर इस प्रकार की बातें करना और अपने पाठकों को ऐसा बुद्ध समझना अति ही खेदजनक है। न मालूम आपके द्विजोपाधियों की उक्त तालिका में कानूनगो, अख्तीरी आदि जैसी अनार्य भाषा की अन्य द्विजोपाधियाँ (!) क्यों छूट गईं? इसके अतिरिक्त आपको यह भी जान लेना चाहिए कि केवल उपाधियों के बल पर वर्ण-निर्णय करना कठिन है। यदि ऐसा होता तो हजामों की उपाधि 'ठाकुर' होने से उन्हें भी द्विजाति माना जाता। इसी प्रकार मुसलमान दसौधियाँ (माटों) की उपाधि 'राथ' है। पर ये द्विजाति क्या, हिन्दू भी नहीं माने जाते। ज्ञात्रियों में अपनी कुरी (कुल) में, जैसे उज्जैन का उज्जैन के यहाँ विवाह नहीं हो सकता। वैश्यों के यहाँ भी अपनी कुरी में, जैसे ऐरण अग्रवाल का ऐरण अग्रवाल के यहाँ शादी नहीं हो सकती। पर कायस्थों के यहाँ अपनी कुरी में जैसे श्रीवास्तव की श्रीवास्तव के यहाँ ही, शादी करने की प्रथा

है। कायस्थों के यहाँ आदि भी एक मास पर होता है जिसमें 'शूद्रो मासेन शुद्धति' इस शास्त्रीय वचन के अनुसार वे शूद्र ठहरते हैं। इनका भिन्न कुरी जैसे श्रीवास्तव का अम्बष्ट के यहाँ, शादी कर लेना वा एक मास से कम दिनों पर शादी कर देना, परम्परा के नियम के अधिनिक तथा भूले-भट्टके अपवाद मात्र हैं। उक्त साहब बहादुर की पुनः दुहाई देते हुए सर ज्वालाप्रसादजी के इस कथन में कुछ भी तत्त्व नहीं है कि उनके यहाँ समान अल्ल बालों में विवाह नहीं होता; उनमें वही विवाह-पद्धति प्रचलित है जो ब्राह्मणों में है; उनका गोत्र काश्यप है तथा उनमें 'दास' की उपाधि नहीं होती; कारण कि उनके यहाँ विवाह-निर्णयार्थ अल्लों का कोई प्रचार नहीं देख पड़ता। इस अल्लाभाव के कारण, केवल जहाँ तक मालूम रहते हैं, कुछ रिश्ताएँ बचाकर शादी ठीक कर ली जाती हैं। यदि अल्लों का प्रचार है तो आपने पूर्वोक्त तथाकथित द्विजोपाधियों की तरह उनकी भी एक सूची क्यों नहीं दे दी? अल्ल वह चीज़ है जिसके द्वारा एक ही जाति या वर्ग के दो भिन्न व्यक्ति परस्पर परिचित क्या, पूर्णतः अपरिचित होते हुए भी सगोत्र वा असगोत्र निष्प्रित किए जाते हैं। यदि कहो कि उक्त उपाधियाँ ही अल्ल हैं तो बेचारे उन कायस्थों की क्या गति होगी जो अख्लौरी आदि नहीं हैं? वर्तमान काल में ब्राह्मणों से लेकर शूद्रों तक सभी जातियों में एक ही प्रकार का विवाह (ब्राह्म) प्रचलित है, यहाँ तक कि जहाँ विवाह-विधि मालूम नहीं रहती वहाँ ब्राह्म-विवाह का ही गुमान (presumption) किया जाता है। श्री गोपाल-चन्द्र सरकार अथवा मुल्ला साहब का हिन्दू कानून (Hindu Law) पढ़िए। काश्यप गोत्र का कुछ भी विशेष महत्व कायस्थों के सम्बन्ध में नहीं है; कारण कि सभी शूद्रों एवं आर्य गोत्रहीन जातियों का गोत्र सुष्ठि गोत्र के काश्यपीय होने के कारण संकल्प करते समय पुरोहित लोग 'काश्यप' मान लेते हैं तथा उनके नाम के साथ 'दास' की

उपाधि जोड़ देते हैं। कायस्थों के यहाँ भी यही हाल जानिये। प्राचीन काल में कायस्थ लोग अपने नाम के साथ 'दास' की ही उपाधि लगाते थे। पुराने दस्तावेजों के अवलोकन से पता चलता है कि उनके कायस्थ कातिव (लेखक) उन पर हस्ताक्षर करते समय अपने नाम के अन्त में 'दास' शब्द लिख देते थे। अब यह जाति चाहे जो उपाधि न धारण कर ले, सो सब ठीक ही है। विधवा विवाह का न होना भी द्विजत्व का कोई विशेष चिह्न नहीं है। कितने कुर्मियों में विधवा विवाह नहीं होता, पर इससे क्या हिन्दू जनता उन्हें द्विज मान लेती है? इस जाति ने जो कुछ उच्चता की है वह मुसलमानों तथा अंग्रेजों के शासन-काल में की है जिसके लिये वह वधाई का पात्र है। शुद्ध हिन्दू काल में जैसा कि स्मृतियों, पुराणों, तंत्र-ग्रन्थों तथा प्राचीन नाटकों से पता चलता है, इस जाति की दशा अति ही शोचनीय थी।

अब अन्त में सर ज्वालाप्रसादजी का कायस्थ-वर्ग-विषयक आखिरी फतवा पाठकों के सम्मुख उपस्थित कर, जिसे देखकर केवल अकायस्थ ही नहीं, बल्कि कायस्थमात्र भी सन्तुष्ट हो जाएँगे, आपके विशालकाय जजमेट की आलोचना समाप्त करता हूँ। आप कायस्थों को द्विज सिद्ध करने की धुन में इतने बेसुध हो गए मालूम पड़ते हैं कि उन्हें संकर जाति भी मानने को तैयार हो गए। शायद आपकी समझ मुवारक में संकर होना अच्छा, पर शुद्ध होना अच्छा नहीं है। आपके जजमेट के निम्नलिखित उद्धरण पढ़िये—

(a) Even if they be of mixed origin, as some say, they cannot be Sudra... (पृष्ठ ५२६)।

अर्थ—यदि उनकी उत्पत्ति संकर भी हो तो, जैसा कि कुछ लोग कहते हैं, वे शुद्ध नहीं हो सकते।

(पृष्ठ ५३०)।

(b) It is undisputed that if Kayastha is

the off-spring of a Kshatriya by a Vaisya woman, as given by Wilson in his glossary, he will be a twice-born called Mahishya according to Manu and Yajnavalkya, because both the father and mother are such. If he is the off-spring of a Kshatriya by a Sudra wife he will be an Ugra Kshatriya, both according to Manu and Yajnavalkya, and an Ugra Kshatriya is not a Surda... (पृष्ठ ५३०) ।

अर्थ—यह निर्विवाद है कि विल्सन साहब के कोषानुसार यदि कायस्थ वैश्या लड़ी में द्वित्रिय की औलाद है तो वह मनु और याज्ञवल्क्य के अनुसार माता-पिता दोनों के द्विजत्व से माहिष्य-संतक द्विज होगा । यदि वह शूद्रा लड़ी में द्वित्रिय की औलाद है तो वह मनु और याज्ञवल्क्य दोनों के अनुसार उग्रद्वित्रिय होगा और उग्र द्वित्रिय शूद्र नहीं है ।

(c) Thus, even if Kayastha is an off-spring of inter-marriage, he will be twice-born (पृष्ठ ५३१) ।

अर्थ—इस तरह यदि कायस्थ अन्तर्जातीय विवाह की सन्तान हो तो भी वह द्विजन्मा होगा ।

+ जस्टिस महोदय ने कायस्थों को 'उग्र' कहकर उन्हें किस रसातल में ढकेला यह शायद आप को मालूम नहीं; क्योंकि उग्र का कर्म कलम-दावात लेकर कानाक लिखना नहीं है; बल्कि विलो में रहने वाले साँप जैसे जीवों को पकड़ना और बध करना है। आपैजी का संस्कृत-अन्नरेजी कोष देखिए ।

न मालूम, द्विज कहलाने में कौन-सा बहुपन है, जिसके लिए संकर जाति भी बन जाना पसन्द किया जाय? भगवद्गीता का बचन है—‘संकरो नरकायैव कुलभानां कुलस्य च’ इत्यादि। इसीलिए कहा कि वर्ण-निर्णय के लिए माध्यापन्नी करना बेकार है।

कायस्थ जाति पर ऐतिहासिक दृष्टि—कायस्थ जाति पर इस प्रकार शास्त्रीय दृष्टि से विचार कर अब उस पर ऐतिहासिक दृष्टि से विचार किया जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने वाले दो श्रेणियों में विभक्त किए जा सकते हैं—(१) वे जो कायस्थ जाति को

मूलतः ज्ञात्रिय और (२) वे जो इसे मूलतः (क) ज्ञात्रियत्व का दावा ब्राह्मण मानते हैं। ज्ञात्रिय पक्ष वालों का कथन है कि जब तक भारतवर्ष में छोटे-छोटे सरदार राज्य करते रहे तब तक साज्य-प्रबन्ध उतना जटिल न था; अतः उसके लिए अधिक लिखा-पढ़ी की ज़रूरत न थी। बहुत से कार्य जैसे बादी-प्रतिबादी विषयक न्यायाधीश का कार्य ज़्यानी ही हो जाया करते थे। पर जैसे-जैसे बड़े-बड़े राज्य स्थापित होने लगे वैसे-वैसे राज्य-प्रबन्ध की जटिलता बढ़ती गई और इसके फलस्वरूप प्रचुर संख्या में लेखकों और गणकों की आवश्यकता महसूस होने लगी, जो राज्य के प्रत्येक विभाग के कार्य को लिख-पढ़कर उसे सुव्यस्थित हूप में कायम रख सकें। और चूँकि प्रायः सभी राजा ज्ञात्रिय थे, वे लोग अपने ही भाई-बन्नुआओं को, जिन पर उनका भरोसा और विश्वास था, लेखकों और गणकों के पद पर नियुक्त करते थे, जो कलम का पेशा करते-करते कालान्तर में अपनी मूल जाति ज्ञात्रिय से पृथक् होकर कायस्थ नामक एक भिन्न जाति ही बन गए। पर यह कथन सर्वथा निःसार है। प्राच्य किम्बा पाश्चात्य सभी इतिहास-विशारद इस सिद्धान्त पर सहमत हैं कि भारतीय ऐतिहासिक काल का प्रारम्भ इसा के जन्म से पूर्व छठी शताब्दी में अर्थात् महात्मा

बौद्ध के प्रादुर्भाव के समीपवर्ती काल में हुआ था; तथा सातवीं शताब्दी का अन्त होते-होते यानी बौद्ध धर्म के हास और पौराणिक हिन्दू धर्म के पूर्णोदय के साथ-साथ सारा हिन्दू समाज, जिसकी वर्णन्यस्था बौद्ध धर्म के प्रभाव से प्रायः छिन्न-भिन्न हो चुकी थी, विविध वर्तमान जातियों और उनकी उप-जातियों में पेशे के अनुसार विभक्त हो चुका था। अतः यह निश्चय है कि कायस्य जाति की भी सुधि इन्हीं तेरह सौ वर्षों के भीतर ही हुई होगी। अब देखना यह है कि इन १३०० वर्षों में भारत में कौन-कौन से साम्राज्य स्थापित हुए, जिनके सुविस्तृत तथा जटिल राज्य-प्रबन्ध को सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए लेखकों, गणकों तथा उन्हीं के सदृश अन्य राज भूत्यों (अहलकारों) की आवश्यकता पड़ी होगी। भारतीय इतिहास के पन्ने उलटने पर हमें इस काल में 'क्रमशः नन्दों (शूद्र), मौर्यों (शूद्र), शुक्रों (ब्राह्मण), कर्कों (ब्राह्मण), आनंदों (शूद्र) \* , कुशानों (मध्य एशिया की एक खानाबदोश तथा वर्दं जाति जिसका सबसे प्रसिद्ध समाट कनिष्ठ था), गुप्तों (वैश्य) † और वर्दनों (वैश्य) के साम्राज्य पाते हैं। प्राचीन ज्ञानिय जाति के छोटे-मोटे राज्य, कुरुक्षेत्र तथा प्रभास ज्येत्र के ज्ञानियवंश-विनाशकारी घरेलू युद्धों के बाद, यदि भारत के किसी कोने में अपने जीवन की अनितम घड़ियाँ गिनते रहे होंगे तो उनका अस्तित्व किसी गणना के योग्य न था और राजपूत नामधारी नवीन ज्ञानियों का तो न पूर्णरूप से अभी उदय ही हुआ था और न उनका कभी कोई विशाल साम्राज्य

\*आनंदों के शूद्रत्व के प्रमाणार्थ श्रीमद्भागवत, द्वादश स्कन्ध, प्रथम अध्याय, श्लोक २२ पढ़िए।

†गुप्तों और वर्दनों के वैश्यत्व के प्रमाण में "जातिभास्कर" पृ० ११८ और ११९ पढ़िए।

ही या। अतः यदि भाई-बन्धु वाली उक्त ध्योरी को थोड़ी देर तक ठीक मान लेने के साथ-साथ यह भी मान लें कि नष्टावशेष प्राचीन ज्ञात्रिय राजागण अपने शान में ज्ञात्रिय जाति के ही लेखकों और गणकों को नियुक्त करते थे तो प्रश्न यह उठता है कि नन्दादि उक्त अज्ञात्रिय सम्प्राट् गण अपने शासन में किस जाति के उक्त अहल्कार रखते थे। यदि यह कहा जाय कि उनके यहाँ भी ज्ञात्रिय लेखक ही काम करते थे तो प्रथम तो यह उदारता साम्प्रदायिकता (Communalism) दूषित हिन्दू मनोवृत्ति (Mentality) के बिल्कुल प्रतिकूल है, तथा द्वितीय यह है कि यह विश्वास-योग्य नहीं कि तलबार तथा धनुष-बाण धारण करने वाली उच्चमान्य ज्ञात्रिय जाति इतनी गिर गई थी कि वह अख्यान-शब्दों को छोड़ हाथ में कलम ले किरानीगरी जैसे एक हेय धन्वे के द्वारा इतनी प्रचुर संख्या में अपना पेट पालने लगी। बल्कि इसके बदले यह क्यों नहीं मान लिया जाय जो उक्त साम्प्रदायिकता के आधार पर पूर्णतः तर्कसंगत है कि जहाँ सभी को अपना-अपना लगा था तो नन्दों, मौद्यों और आन्द्रों के दफतरों में शूद्र, शुद्धों और करवों के यहाँ ब्राह्मण, कुशानों के यहाँ कुशन तथा गुप्तों और वर्द्धनों के यहाँ वैश्य लेखक आदि का काम करते थे, जिस दशा में वर्तमान कायथ्य जाति पेशे के आधार पर भी विविध वर्गों के मेल-जोल से उत्पन्न हुई मालूम होती है। अतः ज्ञात्रिय-पक्ष की ध्योरी किसी ठोस भूमि पर स्थित नहीं जान पड़ती।

अब ब्राह्मण-पक्ष की ध्योरी पर विचार कीजिए। इस ध्योरी के प्रचारकों का कथन है कि राजा लोग धर्मशास्त्रों के आदेशानुसार जिन सात-आठ मंत्रियों को अपने दरबार में (स्व) ब्राह्मणत्व रखकर राज्य का संचालन किया करते थे उनमें का दावा पर्याप्त संख्या ब्राह्मणों की थी और इन ब्राह्मण मंत्रियों के कायांलयों (Secretariat) में

काम करने, ले अन्य लोग (Ministerial Staff) भी पढ़े-  
लिखे ब्राह्मण ही अधिक होते थे। कालान्तर में ये ही मंत्रियों से लेकर  
साधारण लेखकों तक जो ब्राह्मण राजकर्मचारीगण थे, कार्यालयों में  
काम करने के कारण, कार्यस्थ वा कायस्थ नाम से प्रसिद्ध होकर  
अपनी मूल जाति (ब्राह्मण) से पृथक् हो गए। इसका कारण वे यह  
बताते हैं कि राजकर्मचारी का काम केवल यद्दे-लिखे लोगों के ही  
द्वारा चल सकता है; अतः ब्राह्मण-जाति के ही लोग इस पेशे में  
पहुँचते थे। इस घोरी की पुष्टि में वे एक यह भी प्रमाण देते हैं कि  
नागर ब्राह्मणों तथा वंगाली कायस्थों की दत्त, गुरु, धोष, दास, मित्र,  
देव आदि बहुत-सी-उपाधियों का एक जैसा मिलना और दोनों  
जातियों का आदि उद्गम पांचाल देश में होना इस बात को सिद्ध  
करता है कि दोनों एक ही नस्ल से उत्पन्न हुए हैं। पर ब्राह्मण-पक्ष  
वालों की भी इस दलील में व्यक्तिय-पक्ष वालों की दलील की तरह  
कुछ भी सार नहीं है। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि विज्ञानेश्वर ने  
याजवल्य त्मूति की मिताद्वारा नामक अपनी टीका में 'कायस्थ'  
शब्द से केवल लेखकों और गणकों का ही अर्थ लिया है, न कि  
राजमंत्रियों का भी। अतः यदि कायस्थ शब्द से उसका अभिप्राय  
राजमंत्रियों का भी होता तो वह अपनी व्याख्या में 'लेखकाः' तथा  
'गणाः' शब्दों के साथ-साथ 'मंत्रिणः', 'सचिवाः' वा इसी अर्थ का  
कोई अन्य शब्द भी लिखता। उसके ऐसा नहीं लिखने से स्पष्ट है  
कि राजमंत्रोगण कायस्थ-संज्ञा-भाक् लेखकों और गणकों से सर्वथा  
भिन्न है। इसके अतिरिक्त प्राचीन शिलालेखों, दानपत्रों तथा ताम्रपत्रों  
में जहाँ-जहाँ 'कायस्थ' शब्द मिलता है वहाँ-वहाँ वह लेखन-क्रिया के  
योग में ही मिलता है, जैसे 'लिखितमिदं शासनं कायस्थ.....',  
'काञ्चनेन'; 'लिखितमिदं कायस्थ-काञ्चन-सुतेन-वटेश्वरेण'; 'लिखितमिदं  
शासनं कायस्थान्वय-प्रसूत....सोमसिंहेन' इत्यादि (A book

on eleven land-grants\* of the Chalukyas of Anhilwood Patan of Gujrat by G. Buhler); अतः यह निर्विवाद है कि मंत्री आदि उच्च कर्मचारी कायस्थ कभी नहीं कहलाते थे, वह पदवी तो लेखकों, गणकों, किशनियों तथा मुहरियों की तरह छोटे-छोटे अमलों की थी। स्मृतियों में राजमंत्रियों के पद के लिए, जिस उच्च योग्यता का उल्लेख हुआ है उसे देखने से मालूम होता है ये लोग अवश्य ही कुलीन और शास्त्र कुशल-ब्राह्मण थे, पर लेखकों और गणकों की पद-प्राप्ति के लिए, सिवा लिखने-पढ़ने के किसी अन्य वड़ी योग्यता की आवश्यकता न थी। लिखना-पढ़ना जाननेवाला किसी भी वर्ग का मनुष्य लेखक तथा गणक हो सकता था। राजमंत्री राष्ट्र के कर्णधार थे, कज़तः उनका समाज तथा, स्वजाति (ब्राह्मण) में पूरा रोब और मान था, बल्कि अपनी जाति के तो वे शिरोभूषण और अभिमान के कारण समझे जाते थे। अतः कोई भी कारण नहीं देख पड़ता जिससे विवश होकर वे अपना स्वाभाविक आत्म-गौरव तथा अपनी विरादरी को तिलाजलि देकर कायस्थ-संज्ञा-भाक् न होते हुए भी लेखकों और गणकों जैसे कुद्र कर्मचारियों में जा मिले और कायस्थ बन बैठे। पाठकों को यह कभी भी भूलना नहीं चाहिए कि ब्राह्मण एक स्वजातीयताभिमानी जाति है जो स्वजातीय मान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहती। चौद धर्मों के विविध उद्देश्यों में एक यह भी था कि ब्राह्मणों का जातीय महत्व, वर्णव्यवस्था को छिप-भिन्नकर मिट्टी में मिला दिया जाय, अतः उनकी इस अवैदिक धर्म पर सदा कर-

\*इन दानपत्रों का समय ईसा की १०वीं शताब्दी से लेकर १३वीं शताब्दी तक माना जाता है।

ट्रिट वनी रही और समय पाकर उन्होंने इसे भारत से निकालकर ही छोड़ा। इस धर्म के प्रचंड प्रहारों से यदि कोई जाति अपनी रक्षा कर सकी थी तो यह ब्राह्मण जाति ही थी; शेष सभी जातियाँ लुप्त प्रायः हो चली गी। अतः वर्तमान काल में हम जिन विविध जातियों को देख रहे हैं, वे केवल ब्राह्मण जाति को छोड़कर, सबकी सब नवीन हैं। उनका निर्माण वौद्ध धर्म के पतन तथा पौराणिक हिन्दू धर्म के उत्थान काल में पेशों तथा धर्मों के आधार पर हुआ था। केवल एक ब्राह्मण ही ऐसी जाति है जो प्राचीद कालीन है तथा तब से अब तक विद्यमान है। अतः यह कभी भी मानने योग्य नहीं कि उच्चपदस्थ ब्राह्मण राजकर्मचारी अपना ब्राह्मण रूप छोड़कर कायस्थ रूप में परिणत हो गये। यह बात दूसरी है कि पीछे से सबालखे ब्राह्मणों की तरह कतिपय अन्य जाति के लोग ब्राह्मण जाति में घुस गये हैं; पर मूल जाति पहले से ही विद्यमान थी।

कितने विद्वानों का मत है कि कायस्थ जाति की भर्ती (Recruitment) वैश्य समुदाय से हुई है। वैश्य जाति अपने बलिज-व्यापार को सुध्यवस्थित रूप से चलाने के लिए वहीलाते का हिसाब-किताब सदा लिखते-पढ़ते रहने के कारण लेखक और गणक के कार्य में चतुर होती है। अतः वैश्य जाति के ही लोग राजकीय विभागों में लेखकों और गणकों के पद पर नियुक्त होते थे, जो कालान्तर में कायस्थ जाति में परिणत हो गये। उसके काल्पनिक आदि पुराव चित्रगुप्त की 'गुप्त' उपाधि भी इसी अनुमान की ओर सुकेत करती है। स्वर्गीय श्री रमेशचन्द्रदत्त अपनी पुस्तक Civilisation in Ancient India, Volume I, Book III, Chap. V, पृष्ठ २४८, में कायस्थों तथा बंगाल के वैद्यों पर अपनी सम्मति प्रकट करते हुए लिखते हैं—

The Aryan Vaisyas followed different trades and professions in Ancient India, without forming separate castes, they were scribes and physicians, goldsmiths and blacksmiths, potters and weavers, while still belonging to the same Vaisya caste.

**अर्थ—**प्राचीन भारत में आचर्य वैश्य जिना पृथक्-पृथक् जातियाँ बनाए हुए विविध प्रकार के व्यापार तथा पेशे करते थे। वे लेखक और वैद्य, सोनार और लोहार, कुम्हार और जुलाहे थे जो अब तक उसी वैश्य जाति से सम्बद्ध थे। पुनः वे ही महाशय अपनी उसी पुस्तक के Volume II, Book IV, Chap. VIII, में लिखते हैं—“Sacred learning had not yet become the monopoly of the priests, and honest citizens who gained a livelihood as scribes, physicians, goldsmiths, blacksmiths, weavers, potters etc. were still Vaisyas,.....”

**अर्थ—**धार्मिक ग्रन्थों का अध्ययन अभी तक पुजारियों का एकाधिकार नहीं बन चुका था और सात्यिक नागरिक जो अपनी जीविका लेखक, वैद्य, सोनार, लोहार, जुलाहे, कुम्हार आदि का कामकर प्राप्त करते थे अभी तक वैश्य थे।

**नोट—**उक्त उदाहरणों में वैश्य जाति के अन्तर्गत जो Scribes अर्थात् लेखक थे वे ही कालान्तर में कायस्थ नामक एक पृथक् जाति बन गये।

जातिभास्त्र, पृष्ठ १५६, में यूरोपियन लोगों की कायस्थ जाति विषयक विविध सम्मतियों का उल्लेख करते हुए लिखा है—

“मिस्टर कूक की उद्धृत की हुई मिस्टर रिजली की सम्मति इस अकार है कि यह कायस्थ जाति युद्धप्रिय चत्रियों की अपेक्षा स्वभावतः शान्तिप्रय वैश्यों और शूद्रों के मेल-जोल से बनी है और इस जाति में ब्राह्मणों का लेशमात्र भी अंश नहीं है। ट्राइब्स ऐरव कास्ट्स आफ दी एन० डब्लू० पी० अवध० जि० पृ० १६५”

ब्राह्मण-पञ्चवालों की दूसरी दलील भी, कि नागर ब्राह्मणों और वंगाली कायस्थों की कतिपय परिवारिक उपाधियों के समान होने से उक्त कायस्थों का मौलिक ब्राह्मणत्व सिद्ध होता है, और भी निस्सार है। यह कोइ आवश्यक नहीं कि उपाधियों की समानता सज्जातित्व को सिद्ध करे। उदाहरणतः ‘ठाकुर’ उपाधि भूमिहारों और इडजामों, दोनों जातियों में पाई जाती है; पर ये दोनों मूलतः एक जाति नहीं मानी जा सकती। इसी प्रकार ‘राय’ उपाधि की समानता के आधार पर राजपूतों, भूमिहारों और माँटों को ‘खाँ’ उपाधि के समान होने से कतिपय मैथिल ब्राह्मण परिवारों और मुसलमान पठानों को; ‘पाँडि’ ‘तिवारी’ आदि उपाधियों के सम्बन्ध-बल पर सरयूपारी ब्राह्मणों और भूमिहारों को; ‘चौधरी’ उपाधि की समानता देखकर वंगाल के कतिपय ब्राह्मण परिवारों, कलालों और मुसलमान भट्ठोहारों को मूलतः सज्जाति मान लेना ‘टके सेर भाजी टके सेर खाजा’ वाली कहावत होगी। और भी कितने ऐसे उदाहरण मिल सकते हैं जहाँ एक सी उपाधि घारणा करने वाली विविध जातियों में आकाश-पाताल का अन्तर है। एक बात और भी है। प्राचीन काल में यह प्रथा थी कि दास लोग अपने मालिक के गोत्रादि भक्तिवश धारण कर लेते थे। इसी प्राचीन प्रथा का समर्थन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी कवितावली रामायण, उत्तरकाण्ड में लिखा है—“अति ही अयाने उपखाने नहि बूझे लोग, साहेब के गोत गोत होत हैं गुलाम को”, अर्थात् लोग बहुत ही मूर्ख हैं, वे इस कहावत को नहीं समझते

कि जो मालिक का गोत्र है वही गुलाम का भी गोत्र होता है। इस प्राचीन प्रथा को दृष्टि में रखते हुये क्या यह नहीं माना जा सकता कि बंगाली कायस्थों ने दत्त, गुप्त आदि उपाधियों को अपने मालिक नागर ब्राह्मणों के अनुकरण में भक्तिवश धारणा कर लिया, जिनके घर वे पीढ़ी दर पीढ़ी चाकरी (भूत्य का काम) करते चले आ रहे थे। चाद को नागर ब्राह्मण तो अहिन्द्र (पांचाल) से दक्षिण की ओर गुजरात में चले गये और उनके वहाँ चाकरी करने वाले कायस्थ अपने-अपने मालिकों की उपाधियों को अपने साथ लिए और कल्पीज होते हुए बंगाल पहुंचे। इस विषय पर चाहे जिस किसी पहलू से विचार किया जाय, वह कदापि भी मानने योग्य नहीं कि उपाधि की समानता सजातित्व का द्योतक है।

कायस्थ जाति पर पर्याप्त लिखा जा सका। अधिक लिखने का आवश्यकता नहीं। पाठकगण दिये हुए प्रमाणों और तकों के आधार पर अपनी कायस्थ जाति-विषयक सम्मति स्वयं ठीक कर लें। इस परिच्छेद में भूमिहार, कायस्थ आदि कलिपय जातियों के वर्ण-संबन्धों दावे की जो निःसारता दिखलाई गई है वह वह सिद्ध करने के लिए नहीं कि उक्त जातियाँ वस्तुतः बुरी हैं; यत्कि वह सिद्ध करने के लिये कि वर्ण-न्यवस्था एक ऐसी बुरी चीज़ है जिससे शीघ्र पिरड़ लुड़ा सेना प्रत्येक हिन्दू का धर्म है जिसमें हिन्दू समाज का कल्याण हो।

क्षेत्रिय-रहस्य का वचन है—“आर्यं गोत्रं हु विप्राणां तदन्येषां  
गुरोरिव शास्त्रमेदाद्गुरोर्भेदाद्गोपादीनान्तु सर्वथाः।”

अर्थ—ब्राह्मणों का आर्यं गोत्र होता है और द्वितीयादि दूसरे वर्णों का गोत्र शास्त्रा और गुरु के मेद से गुरु का गोत्र होता है। (जा० भा० पृ० २१४)

कायस्थ आदि की तरह खत्री भी एक जाति है जिसका वर्णन निर्णय आज तक नहीं हुआ। इस जाति का उपालंभ है कि ज्ञात्रियोच्छेदकारी परशुराम के आतंक से हमारे

(३) खत्री ज्ञात्रिय पूर्वजों ने ज्ञात्र-वैष्ण और ज्ञात्र कर्म का परित्याग पुरःसर त्वरत्तार्थ वैश्यवृत्ति का आधय

लिया और उनकी जाति संज्ञा 'ज्ञात्रिय' शब्द कालान्तर में अपभ्रंश होकर 'खत्री' रूप में परिणत हो गई। इस श्योरी पर कितनी ही बातें विचारणीय हैं। पहली तो यह कि खत्री जाति का यह उत्पत्ति-नृत्तान्त केवल एक कपोल-कलिपत दैतकथा है जिसका समर्थन किसी भी प्राचीन तथा प्रामाण्य ग्रन्थ के द्वारा नहीं होता और जिसका आधार केवल 'ज्ञात्रिय' और 'खत्री' इन दोनों शब्दों का इष्टत साहश्य-मात्र है जो खत्री जाति को अनुचित लाभ उठाने का मौका दे रहा है। दूसरी यह कि खत्रियों की ही तरह कृति-पय अन्य जातियों भी जैसे कोइरी, कुर्मी आदि अपने को मूलतः ज्ञात्रिय ही बतलाती हैं जो परशुराम के भय से घबड़ाकर वा किसी अन्य कारण से ज्ञात्र-धर्म को तिलोनलि देते हुए वैश्यादि जातियों की वृत्ति धारण कर लेने से मूल जाति से पृथक् हो गईं। पर क्या कारण है कि इन जातियों की हालत में 'ज्ञात्रिय' शब्द ने 'खत्री' शब्द का रूप नहीं धारण किया? इन्होंने कौन सा पाप किया था कि ये ज्ञात्रिय से खत्री न बनकर कोइरी आदि बन गई? यदि कहा जाय कि कोइरी आदि की जीविका करने से ये जातियों ज्ञात्रिय से कोइरी आदि बन गईं तो क्या यह भी कोई कह सकेगा कि किस जीविका को धारण करने से मनुष्य ज्ञात्रिय से खत्री बन जाता है? यदि ज्ञात्र-धर्म का नहीं पालन करते हुए भी तुम खत्री बानी ज्ञात्रिय कहाते रह सए तो ये जातियों इसी नियमानुसार तुम्हारी ही तरह खत्री (ज्ञात्रिय) क्यों नहीं कहलाई? यदि कहो कि उक्त जातियाँ मूलतः ज्ञात्रिय नहीं थीं, तो तुम्हारे ज्ञात्रिय

होने में क्या प्रमाण है ? यदि शब्द-साहश्य के बल पर उच्छ्वास-कृद मचाते हां तो खत्री शब्द को 'ज्ञतु' शब्द का अपभ्रंश क्यों नहीं माना जाए ? क्योंकि उसे तीन अक्षर वाले ज्ञात्रिय शब्द का अपभ्रंश मानने की अपेक्षा दो अक्षर वाले 'ज्ञतु' शब्द का अपभ्रंश मानना अधिक तर्कयुक्त और वृद्धिसम्मत है । ज्ञतु एक संकर जाति है जिसकी उत्पत्ति शूद्रपिता द्वारा ज्ञात्रिया माता से होती है । श्री आपने अपने प्रसिद्ध संस्कृत श्रवणेत्री कोष में ज्ञतु शब्द का अर्थ करते हुए लिखते हैं—  
 १. A man born of a Sudra man and Kshatriya woman; अर्थात् वह मनुष्य जो शूद्र पिता और ज्ञात्रिया माता से उत्पन्न होता है वे इसका अर्थ कोषाध्यक्ष भी देते हैं । खत्री जाति धन धान्य से संबन्ध होने के कारण लखपती करोड़पती है ही । नदिया के पंडित जगेन्द्र नाथ महाचार्य ८८० ए० डी० लिट० भी इनकी ( खत्रियों ) की उत्पत्ति ज्ञतु ( ज्ञतुः शूद्र पिता ज्ञात्रिया माता ) इसी रूप से मानते हैं तथा वे इनको वैश्य जाति रूप बताते हैं । जाति-मास्कर, पृष्ठ १०८ देखिए ।

तीसरी बात यह है कि जब पृथ्वी की प्रार्थना पर कश्यप ने उन सब ज्ञात्रिय राजाओं को जो परशुराम के भव से जंगलों और पहाड़ों में जा छिपे थे और जिनका पता पृथ्वी ने कश्यप से बताया था, तुलाकर पुनः उन-उनके राज्यों में स्थापित किया, तब परशुराम के तपस्यार्थ वन में चले जाने के कारण स्थिति को निरापद समझकर सभी ज्ञात्रियों ने आकर अपना-अपना अधिकार प्राप्त कर लिया होगा और अपने से निकृष्ट वर्ग की जीविका वा आपदाम् को तत्काल छोड़कर वे ज्ञात्र-धर्म का पालन करने लग गए होंगे । इस दशा में सभी ज्ञात्रियों को अपने प्रकृत रूप में वापस आ जाने से उनमें कोई भी नहीं किसी विकृत रूप में रहा होगा, जिसकी संतान यह खत्री जाति मान ली जाय । अथवा खत्रियों के पूर्वज किस खरटि की नींद सो रहे थे कि उन्हें कश्यप का

निमंवरण न मिला और कई सहस्राब्दियों के बाद उनके वर्तमान वंशज अपने गाँड़िल पूर्वजों की गलती सुधारने चले हैं। महाभारत, शान्तिपर्व, अध्याय ४६ में लिखा है—

ततः पृथिव्या निर्दिष्टस्तान् समानीय कश्यपः ।

अभ्यांषज्ञन्महीपालान् ज्ञचियान् वीर्यसम्मतान् ॥

**आर्थ**—तब पूर्वी के बनाए हुए पराक्रमों राजाओं को बुलाकर कश्यप ने उन्हें फिर राज्यों पर अभिषिक्त किया।

**आतः** स्वत्री जाति मूलतः ज्ञचिय नहीं है। कोई कोई वर्णविवेक-चन्द्रिका के निम्नलिखित श्लोक के आधार पर इसे वैश्य सिद्ध करना चाहते हैं—

अग्निकुरुद्वात् समुत्तज्जास्त्वयः पुत्राः सुधार्मिकाः ।

अग्रवालेतिस्त्री च रौनियारेति संजकाः ॥

**आर्थ**—अग्निकुंड से तीन धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न हुए जिनके नाम अग्रवाल, स्त्री और रौनियार थे।

यह श्लोक ब्रह्मा की जांघ से उत्पन्न भलन्दन वैश्य के वंश-वर्णन प्रसंग में आया है। पर स्वयं स्त्री जाति ज्ञचिय बनने की धुन में इस श्लोक की प्रामाणिकता नहीं मानती; क्योंकि इस श्लोक को प्रामाण्य मानने से वह रौनियार जाति की, जिसमें मद्य-मांस तथा विघ्वाविवाह का प्रचार है और जो निम्न धेराएँ की एक अल्लहीन वर्गिक जाति है, कोटि में आ जायगी। वस्तुतः इस श्लोक की प्रामाणिकता संदिग्ध है, क्योंकि इसमें स्त्री और रौनियार ये दो शब्द शुद्ध संस्कृत के न होकर अपभ्रंश हैं। मालूम होता है कि किसी आधुनिक पंडित ने इन शब्दों के शुद्ध रूप स्वोजने का कष्ट न उठाकर यह जाली श्लोक वर्ण विवेक-चन्द्रिका में बुसेड़ दिया।

हिन्दू जाति के रक्त-सम्मिश्रण पर इससे अधिक स्थितना वर्ष है। य

पाठक इतने से ही समझ लें कि सारी हिन्दू जाति, आर्य या अनार्य, भारतीय या अभारतीय अनेक जातियों के रक्त सम्मिश्रण से बनी है। आशचर्य तो इस बात पर है कि हिन्दू जाति इस प्रकार उत्पन्न होकर भी अपने को संसार मर की अन्य सभी जातियों से अेष्ट मानती है। और उन्हें म्लेच्छ कहती है। बोद्धायन ने 'म्लेच्छ' शब्द की परिभाषा जिस प्रकार लिखी है उसे आप्णे महाशय के कोष में देखिए—

गोमांसखादको वस्तु विश्व वहुमाधते ।

सर्वाचारविहीनश्च म्लेच्छ इत्यभिधीयते ॥

**आर्य**—जो गोमांस खाने वाला, शास्त्र विश्व वहुत बकने वाला और सभी चान्नारों से हीन है उसे म्लेच्छ कहते हैं।

संस्कृत में एक 'म्लेच्छ' वा म्लेच्छ धातु है जिसका आर्य है बड़-बड़ाना वा इस तरह से चोलना कि समझ में न आवे। म्लेच्छ का ठीक अंगरेजी प्रतिशब्द Barbarian है।

यूरोप की सभी जातियों में परस्पर रक्त विनिमय हुआ तो अवश्य है, पर वे काले रंग से सदा दूर रहे। और हम तो अपने रक्त के साथ-साथ अपना रंग भी खो देते। अन्यथा ब्राह्मण कहो जाने वाली जाति में भी काले और शुद्र मानी जाने वाली जाति में भी गोरे रंग का कारण, एक ही प्रान्त तथा एक ही जलवायु के मीतर, और क्या ही सकता है? यदि गोरी जाति के किसी व्यक्ति ने किसी काली खी में संभोग से कोई मिथित सन्तान उत्पन्न कर दी तो वैसी सन्तान गोरी जाति से सदा अलग रखती रही। ऐसेवा के यूरोपियन और अमेरिका के मुलाटों जाति इसके जबलन्त उदाहरण हैं। पर हम तो ऐसी मिथित सन्तानों को अपने धर्मशास्त्रों का व्यवस्थानुसार अपने में चराबर मिलाते चले आए। कहाँ वे यूरोपीय जातियाँ जो कुनौं और भोइं तक की नस्ल विगड़ने नहीं देतीं और कहाँ हम जो अपनी ही नस्ल खो देते। और इस पर तुरा यह कि हम अपने को सर्वश्रेष्ठ ही मान रहे हैं!

अथ तृतीय परिच्छेद

## रक्त-संमिश्रण के कारण

गत परिच्छेद में हिन्दू जाति के रक्त-संमिश्रण पर विचारकर प्रसंगतः इस मिश्रण के कारणों पर भी थोड़ा-बहुत प्रकाश डाला जा सकता है। अब इस परिच्छेद में उन कारणों पर विशेष रूप से विचार किया जाएगा। इन कारणों पर ध्यानपूर्वक विचार करने से पाँच बातें देखी जाती हैं—(१) अवैध योन-सम्बन्ध; (२) असवर्ण-विवाह; (३) नियोग; (४) विदेशियों का हिन्दूकरण; और (५) जात्यन्तर अहण वा जाति-परिवर्तन।

(१) अवैध योन-सम्बन्ध। यदि जी और पुरुष के बीच ऐसा योन सम्बन्ध हुआ हो जिसका अनुमोदन धर्मशास्त्र नहीं करता, तो ऐसे सम्बन्ध को अवैध योन सम्बन्ध कहते हैं। सीधी-सादी भाषा में इसे जारकर्म कहते हैं। सीधी-सादी भाषा में इसे जारकर्म कहते हैं। गत परिच्छेद में वज्र-शुपनिषद् का प्रमाण देते हुए शृण्यशुभ्र आदि जिन महर्षियों के उत्तर-वृत्तान्त कहे गए हैं उनका जन्म ऐसे ही अवैध योन सम्बन्ध से हुआ था। इनके माता-पिता के बीच कोई यात्रानुमोदित दाम्पत्य अथवा नियोग का सम्बन्ध न था। कुन्ती-पुत्र कर्ण और व्यास-पुत्र शुक्रदेव का भी जन्म इसी सम्बन्ध के द्वारा हुआ था। तलाश करने पर और भी कितने ऐसे मिलेंगे जिनके जन्म में यही तथा है। पाठकों को यहाँ पर दाम्पत्य-सम्बन्ध और

नियोग-सम्बन्ध का अन्तर जान लेना चाहिए। दाम्पत्य-सम्बन्ध वह है जिसमें शास्त्रविहित विवाह द्वारा छो-पुरुष बैचे हों। इस सम्बन्ध में छो और पुरुष के बीच पति-पत्नी का सम्बन्ध रहता है। नियोग दूसरी वस्तु है। बद्यापि यह भी एक शास्त्रानुमोदित कर्म है, पर इसमें छो और पुरुष के बीच दाम्पत्य-सम्बन्ध नहीं रहता। ऐसे लोग विशेषावस्था में, जिसका वर्णन आगे किया जायगा, सन्तान उत्पन्नकर पुनः एक दूसरे से पृथक् होते रहे हैं और उनके बीच वही पारस्परिक सम्बन्ध चलता रहता है, जो नियोग से पूर्व विद्यमान था। हिन्दू जाति अपनी प्राचीन सभ्यता का धोर-धर्माङ्ग रखती है; पर इस सभ्यताभिमानी जाति से पूछना चाहिए कि यदि तुम्हारे प्राचीन पूर्वज सभ्य थे तो वे जारकर्म को कुत्सित कर्म क्यों नहीं समझते थे? यदि वे सभ्य थे तो उनकी लियाँ गाय आदि पशुओं की तरह स्वेच्छाचारणी क्यों थीं? अर्थात् जैसे गायों में किसी भी साँड़ के साथ यीन-सम्बन्ध होने पर कुछ भी दोष नहीं माना जाता; जैसे ही उनकी लियों में भी उनके किसी भी पुरुष के साथ प्रसंग करने पर कुछ भी दोष नहीं माना जाता था। महाभारत, आदिपर्व, अथ्याय १२२ में पाण्डु कृन्ती से कहते हैं—

आनावृताः किल पुरा लिय आसन् वरानने ।

कामचारविहरिश्यः स्वतन्त्राश्चारुद्वासनी ॥ ४ ॥

तासा व्युच्चरमाणाना कौमारात् सुमगे पतोन् ।

ना धर्मोऽभूदवरारोहे स हि धर्मः पुरामवत् ॥ ५ ॥

अर्थ—हे सुन्दरी! पूर्वकाल में लियों की कुछ रोक-टोक न थी। हे सुहासिनी! उन दिनों वे स्वतन्त्र रहकर भोग-विलास की आशा में स्वच्छन्दतापूर्वक घूमा करती थीं ॥ ४ ॥ हे सुभगे! वे कौमारावस्था से ही व्यभिचार किया करती थीं और इससे उनको अधर्म नहीं होता था; क्योंकि वही पूर्वकाल का धर्म था ॥ ५ ॥

इसके बाद पाण्डु ने कुन्ती से श्वेतकेतु की कथा कही है कि कब और क्यों उसने पति-पत्नी के बीच बलपूर्वक यह मर्यादा ठहराई कि यदि वे अन्य खो-पुरुष के साथ व्यभिचार करेंगे तो उन्हें भ्रग्णहत्या का पाप लगेगा। श्वेतकेतु के सामने ही कोई ब्राह्मण उसकी माता का हाथ पकड़कर उसे बलपूर्वक किसी अन्य स्थान में कुकर्म करने के लिए खींचने लगा। इस अनुचित कार्य को देखकर मारे कोध के श्वेतकेतु के ओढ़ कापने लगे। तब उसके पिता उदालक ने कहा—

मा तात कोपं कार्यास्त्वमेष धर्मः सनातनः ।

अनाकृता हि सर्वेषां वर्णानामगना भूति ।

यथागावः स्थितास्तात त्वेस्वे वर्णे तथा प्रजाः ॥१४॥

ऋषिपुत्रस्तुतं धर्मं श्वेतकेतुनचक्षमे ।

चकार चैव मर्यादामिमां खीपुंसयोर्भूति ॥ १५ ॥

अर्थ—हे तात ! कोध मत करो; यह सनातन धर्म है। इस भूमंडल में सभी वर्णों की खियाँ बिना किसी बन्धन की हैं। हे तात ! सभी जन अपने-अपने वर्ण के साथ उसी प्रकार व्यवहार करते हैं जैसे गायें ॥ १४ ॥ किन्तु ऋषि-पुत्र श्वेतकेतु को ऐसा धर्म संस्थान हो सका और उसने पूर्णी में खी-पुरुष के बीच इस मर्यादा को (जिसका उल्लेख अभी कर चुका हूँ) स्थापित कर दिया ॥ १५ ॥

महर्षि श्रवि भी इसी ग्राचीन प्रथा के अनुसार खियों में जार-कर्म-जन्य दोष नहीं मानते। श्रवि स्मृति पद्धिए—

न खी दुष्याति जारेण ब्राह्मणो वेदकर्मणा ।

नापोमूत्रपुरीषाभ्यां नामिनदर्हति कर्मणा ॥ १६० ॥

अर्थ—खियों जारो द्वारा दूषित नहीं होती। ब्राह्मण यज्ञिय

हिंसा आदि वैदिक कर्म द्वारा दूषित नहीं होते। नदी, तालाब आदि का जल मल-मूत्र से दूषित नहीं होता और आग अपवित्र वस्तुओं को मी जलाने से अपवित्र नहीं होती।

(२) असवर्ण विवाह—यदि खी पुरुष के वर्ण एक दूसरे से भिन्न हो, तो उनके विवाह को असवर्ण विवाह कहते हैं। असवर्ण विवाह दो प्रकार के होते हैं—(१) अनुलोम, असवर्ण विवाह जिसमें पुरुष का वर्ण खी के वर्ण से उत्कृष्ट रहता है;

जैसे—शिव-पार्वती का विवाह; और (२) प्रतिलोम, जिसमें पुरुष खी की अपेक्षा वर्ण में निकृष्ट रहता है; जैसे—राजा यवानि और देवयानी का विवाह। पुराणों में अनुलोम विवाहों की भरमार देखते हैं; पर प्रतिलोम विवाह मुश्किल से जहाँ-तहाँ मिलते हैं। सबसे उत्तम सवर्ण-विवाह होता है जिसमें खी-पुरुष दोनों एक ही वर्ण के होते हैं। तत्पश्चात् अनुलोम विवाह मध्यम श्रेणी का और प्रतिलोम विवाह सबसे निकृष्ट श्रेणी का समका गया है। सवर्ण विवाह की प्रशंसा करते हुए मनु लिखते हैं—

सर्ववर्णेणु तुल्यासु पक्षीष्वक्षतयोनिषु ।

आनुलोम्येन संभूता जात्या, शेयास्त एव ते ॥मनु १० । ५ ॥

अर्थ—सम्पूर्ण वर्णों में विवाहिता, सवर्ण और अच्छत योनि पक्षी के गर्भ से उत्पन्न सन्तान अपने पिता के वर्ण की होती है और अनुलोम-क्रम से निकृष्ट जाति की खी में पैदा हुई सन्तान अपने पिता के वर्ण की न होकर वर्ण-संकर होती है।\*

\*यह खी 'अच्छत योनि' कहलाती है जिसने किसी पुरुष के साथ प्रसंग नहीं किया है। सवर्ण, विवाहिता तथा अच्छत योनि पक्षी में उत्पन्न पुत्र 'ओरस' कहाता है।

खोप्तनन्तरजातासु द्विजैकल्पादितान् सुतान् ।  
साहशानेवतानाहुमातृदोषविगहितान् ॥ मनु १० । ६॥

**अर्थ—** द्विजों द्वारा व्यवधान-रहित दूसरे वर्ण की लिंगों में ( जैसे ब्राह्मण द्वारा लक्ष्मिया में, लक्ष्मिय द्वारा वैश्या में इत्यादि ) उत्पन्न किये पुत्र माता के निकृष्ट वर्णात्म रूपी दोष के कारण निनिदित होने से पिता के सदृश तो होते हैं, परंतु पूर्ण रूप से उसके सबर्ण नहीं होते; अर्थात् वे माता की अपेक्षा उत्कृष्ट और पिता की अपेक्षा निकृष्ट वर्ण के होते हैं ।

**नोट—** इस श्लोक से स्पष्ट है कि अनुलोम विवाह से पैदा सन्तान मी शुद्ध न होकर मिश्रित वर्ण की होती है प्रतिलोमज सन्तान तो इससे भी निकृष्ट है । यही कारण है कि पैतृक धन में और स पुत्र के तुल्य अनुलोमज पुत्रों को भाग नहीं मिलता । मनुस्मृति, अध्याय ६, श्लो० १४६-१४७ ।

असवर्ण विवाह के सम्बन्ध में मनु की यह व्यवस्था है—

सवर्णाद्वये द्विजातीनां प्रशस्ता दारकर्मणि ।

कामतस्तु प्रवृत्तानामिमाः स्युः क्रमशोवराः ॥ मनु ३ । १२॥

**अर्थ—** ब्राह्मण, लक्ष्मिय और वैश्य के प्रथम विवाह में सवर्ण ली ही प्रशंसनीय है; परन्तु काम-वश विवाह करने में प्रवृत्ति होने पर आगे कहीं हुड़े लियाँ थेष्ठ त है ।

शूद्रैव भाष्यां शूद्रस्य सा च स्वा च विशः स्मृते ।

ते च स्वा चैव राजश्च ताश्च स्वा चाग्रजन्मनः ॥ मनु ३ । १३॥

**अर्थ—** शूद्र की केवल शूद्रा, वैश्य की वैश्या और शूद्रा, लक्ष्मिय की लक्ष्मिया, वैश्या और शूद्रा, और ब्राह्मण की ब्राह्मणी, लक्ष्मिया, वैश्या और शूद्रा ली ही सकती है ।

मनु ने पहले तो द्विजाति के लिए शूद्रा ली की भी व्यावस्था दे

दी; परन्तु उसी सिलसिले में शीब्र ही आगे चलकर उसकी ओर निन्दा भी रह दी—

न ब्राह्मणङ्गचितियोरापद्यपि हि तिष्ठतोः ।  
 कस्मिंश्चिदपि वृत्तान्ते शूद्रा भाव्योपदिश्यते ॥  
 हीनजातिस्त्रियं मोहादुद्दृहन्तो द्विजातयः ।  
 कुलान्येव नयन्त्याशु ससन्तानानि शूद्रताम् ॥  
 शूद्रावेदी पतत्यत्रे दत्यतनवस्य च ।  
 शीनकस्य सुतोत्पत्या तदपत्यतया भूमोः ॥  
 शूद्रांशयनमारोप्य ब्राह्मणोयात्यधोगातिम् ।  
 जनयित्वा सुतं तस्यां ब्राह्मणादेव हीयते ॥  
 दैवपित्र्यातिथेवानि तत्प्रधानानि यस्यतु ।  
 नाशनन्ति पितृदेवास्तन्न च स्वर्गं स गच्छ्राति ॥  
 वृगलीफेनपीतस्य निःश्वासोपहतस्य च ।  
 तस्यां चैव प्रसूतस्य निष्कृतिर्न विधीयते ॥मनु ३ । १४-१६॥

अर्थ—इतिहास आदि किसी वृत्तान्त में गृहस्थ ब्राह्मण और लक्ष्मिय को विपलिकाल में भी शूद्रा भाव्या ग्रहण करने का उपदेश नहीं है। ब्राह्मण, लक्ष्मिय और वैश्य मोहवश यदि हीन जाति की खी से विवाह कर लें तो वे उस खी में उत्पन्न हुईं पुत्र-पौत्रादि सन्तानों के साथ शूद्रत्व को प्राप्त हो जाते हैं। अत्रि और गौतम के मत से शूद्रा खी के साथ विवाह करने से ही ब्राह्मणादि पतित हो जाते हैं। शीनक के मत से शूद्रा के साथ विवाहकर उसमें सन्तान उत्पन्न करने से द्विज पतित होता है। भगु के मत से शूद्रा खी के गर्भ से उत्पन्न सन्तान की सन्तान होने पर वह पतित होता है। शूद्रा के साथ भोग करने से ब्राह्मण नरक को जाता है और उसमें पुत्र उत्पन्न करने से तो ब्राह्मणस्व से ही हाथ धो बैठता है। दैव (होम आदि), पित्र्य (आदि आदि) तथा अगतिध्य (अतिथि-

भोजन आदि) इनको जिसको शूद्रा स्त्री करती है उसका हव्य और कव्य देवता और पितृगण नहीं स्वाते और वह स्वर्ग को नहीं जा पाता। जिसने शूद्रा का ओढ़ लुब्धन किया है, जो शूद्रा के मुँह को भाष पे दूषित हो गया है और जिसने शूद्रा में सन्तान उत्पन्न की है, ऐसे ब्राह्मण की शुद्धि नहीं है।

मनु ने यथापि ब्राह्मण के लिये शूद्रा स्त्री को निन्दित बतलाया तथापि उनके इस वचन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। औरों की कथा तो दूर रहे; स्वयं महर्षि-युगव वशिष्ठ, जो धर्म-शास्त्र के प्रवर्तकों में से है, और महर्षि मन्दपाल ने नीन जाति में उत्पन्न कर्मणः अद्वामाला और सारंगी को अपनी अद्वाक्षिणी बनाया। कारण स्पष्ट है। मानव-प्रकृति में जो पशुता का अंश है वह सदा एक कठोर नियंत्रण में रखने योग्य है। जहाँ उसको थोड़ी भी हिलने की जगह मिली, फिर उसकी धाँधली देख लीजिए। मनु ने 'कामतस्तुप्रवृत्तानामिमाः स्युः क्रमशोवराः' का फतवा एक बार देकर जो वैवाहिक नियम को ढीला कर दिया उसका ऐसा परिणाम होना स्वाभाविक है और जब वशिष्ठ आदि जैसे महर्षियों की ही ऐसी दशा थी, तो साधारण जनता अधोगति के महागत्त्व में किस भैंडिया-घसान की तरह गिरी होगी, इसकी केवल कल्पना की जा सकेगी। उक्त स्मृतिकार ने असवर्ण विवाह की व्यवस्था देकर समाज में न केवल कामुकता ही को प्रोत्साहित किया; बल्कि उसे सांकर्य दोष से दूषित करने में कोई कसर चाकी नहीं रखी। साधारण जन जो कार्य करते हैं उनका वैयक्तिक उदाहरण लेख-वद्द नहीं हो सकता; पर जो कार्य समाज के प्रतिष्ठित तथा कर्णधार करते हैं उनके वैयक्तिक उदाहरण ग्रन्थों में अमिट रूप से आ जाते हैं और प्राकृत जनों के लिए पथ-प्रदर्शक और उत्साह-वद्द के बन जाते हैं। अपने धर्म-ग्रन्थों के पन्ने उलटिये और असवर्ण विवाह के इन वैयक्तिक

उदाहरणों पर हाष्ठिपात कीजिए—वशिष्ठ और अक्षमाला; मन्दपाल और सारसी; जमदग्नि और रेणुका; वैश्ववरण और कैकसी; ययाति और देववानी; ययाति और शर्मिष्ठा; शान्तनु और सत्यवती; शान्ता और अृथशुद्ध; श्रीकृष्ण और जाम्बवतीः अर्जुन और उल्लौपी; भीम और हिंडम्बा, च्यवन और सुकन्या; सौभरि और मान्धाता की ५० कन्याएँ; ब्रह्मदत्त और कुशनाम की १०० कन्याएँ; शिव और पार्वती; ये १५ उदाहरण महानुमावों के हुए। खोजने से असर्वर्ण विवाह के और भी उदाहरण मिलेंगे। यह एक विचार करने योग्य विषय है कि जब वडेन्वडे सिद्ध महात्माओं की यह दशा शी तो साधारण जन अपने मन को किस प्रकार काबू में रख सके होंगे।

(३) रन्त-समिश्रण के अन्य कारणों की तरह नियोग की कुत्सित प्रथा ने भी संकरता फैलाने में कुछ कम काम नहीं किया।

इमारे पवित्र धर्मशास्त्रानुसार पुत्रोत्पादन भी एक नियोग आवश्यक कर्तव्य था; क्योंकि हिन्दू विश्वासानुसार पुत्रहीन पिता की सद्गति नहीं होती। अतः शास्त्रों की यह खुली आज्ञा थी कि अपुत्रा खी यदि विधवा ही जाए, अथवा सधवा खी का विवाहित पति पुत्रोत्पादन के लिए स्वयं असमर्थ हो, तो वैसी खी शास्त्र विहित नियमानुसार अन्य पुकृष के साथ यौन-सम्बन्धकर पुत्र उत्पन्न कर ले। मनु ने अपुत्रा खियों को केवल अपने देवर वा किसी सपिंड से ही नियोग द्वारा पुत्र उत्पन्न कर लेने की आज्ञा दी है—

देवराद्वा सपिंडाद्वा स्त्रिया सम्युक्तिया ।

प्रजेपिताधिगन्तव्या सन्तानस्य परिक्षये ॥ मनु ६ । ५६ ॥

अर्थ—सन्तान के न होने पर खी, पति आदि के द्वारा नियुक्त होने पर देवर अथवा और किसी सपिंड से इच्छित सन्तान प्राप्त कर ले।

नोट—पति के भाई की 'देवर' संज्ञा है; चाहे वह पति से बड़ा हो वा छोटा; जैसे महार्षि व्यास ने अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य की विधवा लियों में नियोग-विधि से धृतराष्ट्र आदि को उत्पन्न किया था। मूल पुरुष से चलकर सात पीढ़ियों तक के वंशज परस्पर संपिण्ड कहलाते हैं। 'जातिभास्कर' पृष्ठ २१५ श्लोक १६६ देखिए—

सापिण्ड्यं सप्तपुरुणं सोदका आनन्दरुद्धरा ।

सगोत्रा एकविंशाः स्युत्तत उव्वेतु गोत्रजाः ॥विष्णु-रहस्य॥

अर्थ—सात पीढ़ियों तक सपिण्ड, चौदह पीढ़ियों तक समानोदक, इक्कीस पीढ़ियों तक सगोत्र और इसके उपरान्त गोत्रज कहलाते हैं।

मनु की व्यवस्थानुसार द्विजाति की स्त्री देवर या सपिण्ड से भिन्न किसी अन्य पुरुष से नियोग नहीं कर सकती। पर इस नियम की परवाह किसी ने नहीं की। जब परशुराम ने पृथ्वी को निःक्षत्रिय कर दिया तो क्षत्रिय विधवाओं ने ब्राह्मणों के साथ, जो भिन्न जाति के होने के कारण न उनके देवर थे और न उनके सपिण्ड थे, नियोग कर पुनः क्षत्रिय सन्तान उत्पन्न की। नियोग-विधयक दूसरा नियम यह था कि नियोग-विधि से केवल एक पुत्र; नहीं तो, किसी-किसी के मत में दो पुत्रों तक; पर दो पुत्रों से अधिक नहीं, उत्पन्न किए जा सकते थे। पर इस वन्धन की भी लोगों ने अवहेलना की; क्योंकि कुन्ती ने नियोग द्वारा युविन्दिर, अर्जुन और भीम इन तीन पुत्रों को उत्पन्न किया था। सारांश यह कि जिस विधि-विशेष के साथ नियोग द्वारा पुत्रोत्पादन करने की शास्त्रीय आज्ञा थी उस पर किसी ने अध्यान नहीं दिया! आगे चलकर मानव-स्वभाव का पशु अंश इस आपद्धर्म का बहुत दुरुपयोग करने लगा यहाँ तक कि जाते-जाते राजा बेन के शासन काल में इसकी यामडोर इतनी ढीली पड़ गई कि सर्वर्ण-असर्वर्ण का, किम्बा देवर-सपिण्ड का विचार विस्तृत

आता रहा और समाज में एक धोर संकरता फैल गई जिससे शिष्ट जन इस एक विगहित पशु-धर्म कहने लगे—

अथं द्विजैर्हिवद्विदिः पशुधर्मो विगहितः ।

मनुष्याणामपि प्रोक्तो वेनेराज्यं प्रशासति ॥

समहीमस्तिलां भुज्ञत्राज्यिप्रवरः पुरा ।

वर्णानां संकरं चक्रं कामोपहतचेतनः ॥ मनु ६ । ६६-६७ ॥

अथ—राजा बेन के राज्य-शासन-काल में विद्वान् ब्राह्मणों ने इस नियोग को मनुष्यों के लिए एक निन्दित पशु-धर्म कहा; अर्थात् नियोग पशु-धर्म है; मनुष्यों के लिए सर्वथा घर्जनीय है। राजर्षियों में थ्रेष्ठ उस बेन ने समूची पृथ्वी का भोग करते हुए कामोन्मत्त होकर वर्णों का संकर ( मिलावट ) कर दिया।

आगे के श्लोक द्वारा मनु ने नियोग पर एक प्रतिबन्ध लगा दिया—

ततः प्रभृतियोऽमोहात् प्रमीतपतिकां स्त्रियम् ।

नियोजयत्यपत्यार्थं तं विगह्निति साधवः ॥ मनु ६ । ६८ ॥

अर्थ—उस समय से जो पुरुष मोहवश मृतभर्तुका आदि स्त्रियों को सन्तानार्थ नियुक्त करता है उसकी निन्दा साधु पुरुष करते हैं।

मनु ने नियोग पर साधु-निन्दा रूपी एक प्रतिबन्ध तो लगा दिया— पर उसकी भी अवहेलना की गई। यहाँ पर पाठकों को जानकारी के लिए उक्त राजा बेन का नंदित परिचय दे देना अनावश्यक न होगा। स्वयंभू ( ब्रह्मा ) के पुत्र स्वायभुव मनु हुए जो वर्तमान श्वेत वशाह कल्प के पहले मनु थे और जिनकी चलाई वर्तमान मनुस्मृति है। स्वायभुव मनु के पुत्र राजा उत्तानपाद हुए जिनके पुत्र पुराण-प्रसिद्ध भक्तराज भ्रुव थे। इन्होंने भ्रुव के छोटे पुत्र वसुर की शास्त्रा में उसकी आठवीं पांडी में राजा बेन हुआ। श्रीमद्भागवत के अनुसार राजा बेन की नंशावली इस प्रकार है—

ब्रह्मा, स्वायंभुव मनु, उत्तानपाद, ध्रुव, वस्सर, पुष्पार्ण, व्युष्ट,  
मर्यंतेजा, मनु, उल्लुक, अंग, बेन इत्यादि। अर्थात् ब्रह्मा से प्रारंभ  
कर उनकी वारहवीं पीढ़ी में राजा बेन हुआ। इससे स्पष्ट है कि बेन  
यहले मन्वन्तर (स्वायंभुव मन्वन्तर) का राजा था और महाभारत  
का युद्ध सातवें मन्वन्तर अर्थात् वैवस्वत मन्वन्तर में हुआ था जैसा  
कि श्रीमद्भागवत के निम्नलिखित श्लोक से पता चलता है—

मनुर्विवस्वतः पुत्रः आददेव इति थुतः ।

सप्तमोवर्त्तमानोयस्तदपत्यानि मे शुणु ॥ रक्त० ८, अ० १३ श्लो० १॥

अर्थ—शुकदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन्  
मर्यंदेव के पुत्र आददेव नाम सातवें मनु हैं। ये ही वर्त्तमान मनु  
हैं। उनकी सन्तानों का विवरण मुझसे सुनो।

नोट—आददेव का दूसरा नाम वैवस्वत है।

उक्त प्रमाणों से सिद्ध है कि नियोग-प्रथा, चाहे वह वैधरूप में

इह वंशावली के अन्तर मनु की ११वीं पीढ़ी में बेन हुआ;  
अतः शुका होती है कि मनु ने बेन-विषयक वार्ता कैसे जानी और  
उसे भूतकाल में क्यों लिखा? इसका समाधान यह है कि मनुस्मृति  
का प्रचलित संस्करण मनु के बहुत काल के बाद तैयार हुआ है।  
अतः सम्पादकों ने धर्म-विषयक स्वकालीन लोकमत का उल्लेख करते  
हुए बेन, विष्वामित्र, भरद्वाज, अजीगर्च, वामदेव आदि की भी चर्चा  
कर दी है। पर इससे उक्त चर्चा की प्रामाणिकता में कोई त्रुटि नहीं  
है। समय को गति के साथ सभी पुस्तकों में नई-नई चातों का  
समावेश हो जाया करता है तथा कुछ चातों निकाल भी दी जाती है।  
पर आर्य समाजी ऐसी चातों को प्रतिष्ठित कह दिया करते हैं। पर क्या  
उनका “सत्यार्थ-प्रकाश” अपने आसली (इ० स० १८७५ के)  
रूप में है?

हो वा अवैधरूप में, स्वायंसुवकृ मन्वन्तर में ही विद्वानों द्वारा पशु-धर्म घोषित हो चुकी थी और तब से वह इ मन्वन्तरों को पार करती हुई सातवें ( वैवस्वत ) मन्वन्तर में भी, जिस समय महाभारत-युद्ध हुआ था, जारी थी और उक्त राजा परीक्षित के पूर्वज धृतराष्ट्र, पांडु तथा पाँचों पांडवों का जन्म नियोग नामधारी इसी पशु-धर्म के द्वारा हुआ था । आश्चर्य है कि स्वयं धर्मराज तथा निखिल ज्ञान के मंडार महर्षि वेदव्यास ने इस पशु-धर्म का आभ्यं लेकर परम्परियों में सन्तान उत्पन्न की और इन महानुभावों को अपने इस घोर आधःपतन पर तनिक भी द्वेष नहीं हुआ । कितने धूर्त्त कथकङ्ग इमारे भोले-भाले तथा सीधे सपाटे हिन्दू भाइयों को, जिन्होंने महाभारत का मूल ग्रन्थ, जो संस्कृत में है, नहीं पढ़ा है, यह कहकर बहकाया करते हैं कि धर्मराज आदि देवताओं ने कुन्ती और माद्रो के साथ, तथा व्यासदेव ने अम्बिका और अम्बालिका के साथ, कुछ प्राकृत मनुष्यों की तरह प्रसंग करके पुत्रोत्पादन नहीं किया था; बल्कि उन महातेजस्वी पुरुषों ने केवल अपने अमोघ आशीर्वाद से ही उक्त रानियों की पुत्र-कामना पूरी की थी । इस प्रसंग में पहले में व्यासकृति नियोगों पर विचार करूँगा और तत्पश्चात् धर्मराजादि देवताओं के किए हुए नियोगों पर । यदि व्यास के केवल आशीर्वाद से ही पुत्र-प्राप्ति हो सकती थी, तो उनको सत्यवती से यह कहने की क्या जरूरत थी कि यदि अम्बिका मेरे कुरुप, दुर्गन्धयुक्त शरीर तथा कुवेश को सह सके तो वह आज ही गर्भवती हो जाए । वे जानते थे कि विचित्रवीर्य की दोनों रानियाँ, अम्बिका और

अ११८ मनु है—स्वायंसुव, स्वारोचिप, उत्तम, तामस, रैवत, नाकुप, वैवस्वत, सावर्णि, दक्षसावर्णि, ब्रह्मसावर्णि, धर्मसावर्णि, रुद्रसावर्णि, देवसावर्णि, और इन्द्रसावर्णि ।

अभ्यालिका, रूप-यौवन-सम्पद हैं; वे उनके जैसे काले-कलूटे पुरुष के साथ, जिसके शरीर से बदबू निकल रही है और जो नितान्त कुरुप है, सहवास करने पर राजी न होगी। स्थिति सचमुच ऐसी ही शी। सत्यवती को बहुत कुछ समझा-नुमाकर अभिका को पुत्रलाभार्थ व्यास के साथ सहवास के लिए राजी करना पड़ा। महाभारत, आदि-पर्व, अध्याय १०५ पढ़िये। सत्यवती ने अपनी पुत्र-वधु अभिका को एकान्त में ले जाकर कहा—

कौशल्ये ! धर्ममंत्रंत्वां यद्ब्रवीमि निवोध तत् ।  
 भरतानां समुच्छेदो व्यक्तं मद्भाग्यसंक्षयात् ॥  
 व्यथितां मां च संप्रेद्य पितृवंशं च पीडितम् ॥ ४६ ॥  
 भीष्मोबुद्धिमदान्महं कुलस्यास्यविवृद्ये ।  
 सा च बुद्धिस्त्वद्यधीना पुत्रि ! प्रापय मां तथा ॥ ४७ ॥  
 नष्टं च भारतवंशं पुनरेवसमुद्धर ।  
 पुत्रजनयसुश्रोणि देवराजसमप्रभम् ।  
 स हि राज्यधुरं गुर्वामिदन्यति कुलस्यनः ॥ ४८ ॥  
 सा धर्मतोऽनुनीयैना कथंचिद्दर्मचारिणीम् ।  
 भोजयामास विग्रांच देवर्णीनितिर्थीस्तथा ॥ ४९ ॥

अर्थ—हे कौशल्ये, तुमको जो धर्मयुक्त सलाह देती हूँ उसे तुम मुनो। मेरे दुर्भाग्य से भरतवंश का आन्त प्रकट है। भीष्म ने मुझे दुःखित तथा अपने पिता के वंश को उच्छ्वास देखकर इस कुल की वृद्धि के लिये एक युक्त बतलाइ है। हे बेटी! वह युक्त तुम्हारे अधीन है; अतः तुम उस युक्त को सफल कर मेरा अभीष्ट सिद्ध करो। इस नष्ट हुए भरतवंश का फिर से उद्धार करो। हे सुन्दरी! तेज में देवराज के समान पुत्र उत्पन्न करो। वह कुमार हमारे कुल के इस भारी राज्य को संभालेगा। सत्यवती ने उस धर्मनारिणी को

वर्मानुसार विनय करके किसी प्रकार राजी किया तथा ब्राह्मणों, देवर्पियों और अतिथियों को मोगन कराया ।

क्या महाभारत के उक्त श्लोकों से यह स्पष्ट नहीं है कि अभिका सत्यवती के बहुत गिरावचने तथा अनुनय-विनय करने पर ही व्यास के साथ नियोग करने को राजी हुई ? यदि केवल आशीर्वाद से ही पुत्र मिलने को होता तो सत्यवती को इस प्रकार अनुनय की नीवत नहीं आती । इसके बाद इस नियोग के सम्बन्ध में जो कुछ आयोजन हुआ उससे तो यह निर्विवाद रूप से मिछ हो जाता है कि व्यास ने अभिका के साथ प्रसंग किया था । अस्याय १०६ के प्रारंभिक श्लोक पढ़िये—

ततः सत्यवती काले वधुं स्नातामृतौ तदा ।

संवेश्यन्ती शयने शनैर्वचन मबवीद् ॥ १ ॥

कौशल्ये ! देवरस्तेऽस्ति सोऽच्यत्वानुप्रवेद्यति ।

अप्रमत्ता प्रतीकैनं निशोये व्यागमिष्यति ॥ २ ॥

**अथ**—तत्पश्चात् अभिका के नियोग-काल में ऋतु-स्नान करने पर सत्यवती ने उसको अच्छे सजे हुए विस्तर पर चिठाकर धीरे से यह कहा—हे कौशल्ये ! आज आधी रात को तुम्हारा देवर तुम्हारे पास आवेगा । तुम सावधान होकर उसकी प्रतीक्षा करना ।

यह एक साधारण बात है जिसे सभी जानते हैं कि ख्लियाँ ऋतुवती होने के पश्चात् स्नान करने पर ही पुरुष-प्रसंग तथा गर्भ भारण के योग्य होती हैं तथा आधी रात ही सहवास करने का उपयुक्त समय है । अतः यदि व्यास के केवल आशीर्वाद सब किसी को उपस्थिति तथा दिन में भी अभिका को दे सकते थे । उन्हें आधी रात को ऋतुभ्याता अभिका के शयनागार में जाने की ज़रूरत ही क्या थी ?

व्यास देव अपने आशीर्वाद का केवल मौखिक उपयोग नहीं करना चाहते थे; प्रत्युत वे उसको कार्य रूप में परिणाम कर उसे एक व्यावहारिक रूप देना चाहते थे। उक्त अध्याय का इच्छा श्लोक तो रहा-सहा सन्देह मिटा देता है—

संबभूव तयासाद् मातुः प्रियचिकीर्थया ।

मयात् काशीसुतातं तु माशकनोदभिवीचितुम् ॥५॥

**अथ**—व्यास ने माता का पिय साधने के लिए अभिविका के साथ संगम किया; पर काशिराजपुत्री ( अभिविका ) मारे भव के उनकी ओर देख न सकी।

नोट—‘संबभूव’ दिया में ‘मम्’ उपसर्ग है जिसका अर्थ ‘सम्प्रकार से’ ( अच्छी तरह ) है; अतः ‘तया साद्’ संबभूव’ का अर्थ हुआ ‘अच्छी तरह उसके साथ हो गए।, ‘मम्’ का अर्थ ‘इकट्ठा’ भी है जिस दृश्या में ‘तयासाद्’ संबभूव’ का अर्थ हुआ ‘उसके साथ इकट्ठे हो गए।’ नाहे जैसे अर्थ कीजिए, संगम ( प्रसंग ) का अर्थ ज़रूर निकलता है।

व्यास के वीभत्स रूप को देखकर अभिविका ने मारे डर के अपनी आँखें बन्द कर लीं और अम्बालिका पीली हो गई। केवल अभिविका की दासी ही ऐसी थी जो तीसरे नियोग में व्यास के साथ निर्भीक तथा निःसंकोच भाव से मिली और वे उसके साथ मोग-चिलास करके परितृप्त हुए—

कामोपभोगेन रहस्तस्यां तुष्टिमगाद्यिः ।

तयासहोर्धितो राजन् ! महर्षिः शंसितव्रतः ॥ २५ ॥

**अथ**—हे राजन ! ब्रतशील महर्षि उस दासी के पास अकेले भै व्यासकर और उसके साथ कामोपभोग कर अति प्रसन्न हुए।

व्यास कृत नियोगों पर इस प्रकार विचारकर अब धर्मराजादि देवताकृत नियोगों पर, जो पांडु की रानियों ( कुन्ती और माद्री ) के

साथ हुए थे, विचार किया जाता है। राजा पांडु मृग रूपधारी किन्दम नाम मुनि के शाप के कारण अपनी लियाँ में स्वयं पुत्रोत्पादन के लिए असमर्थ थे; अतः उन्होंने कुन्ती से किसी तपोनिष्ठ ब्राह्मण को बुलाकर नियोग-द्वारा पुत्र उत्पन्न करने को कहा। इस पर कुन्ती ने पांडु को जो उत्तर दिया वह धूत्<sup>१</sup> कथकहों और पाखंडियों के मुँह में स्थाही पोत देने के लिए काफी है। यदि आशीर्वाद से ही पुत्र प्राप्ति हो सकती थी तो कुन्ती ने नियोग पर आपत्ति क्यों की? आदि पव॑ का १२१वाँ अध्याय पढ़िये—

न मामर्हसि धर्मज्ञ ! वक्तुमेवं कथंचन ।  
 धर्मपत्नीमभिरतां त्वयि राजीवलोचने ॥ २॥  
 त्वमेवतु महाबाहो ! मर्यापत्यानि भारत !  
 वीर ! वीर्योपपन्नानि धर्मतोजनयिष्यसि ॥ ३ ॥  
 स्वर्गं मनुज-शादर्दूल ! गच्छेयं सहिता त्वया ।  
 आपत्याय च मां गच्छु त्वमेव कुरुनन्दन ! ॥ ४ ॥  
 न त्वं ह मनसाप्यन्यं गच्छेयं त्वहृते नरम् ।  
 त्वतः प्रतिविशिष्टश्च कोऽन्योऽस्ति भुविमानवः ॥ + ॥

अर्थ—हे धर्म के जानने वाले ! मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ और कमल की सी आँखों वाले आपसे प्रेम करती हूँ। आपको मुझसे ऐसी (नियोग विषयक) बात कहना किसी प्रकार उचित नहीं है। हे महाबाहु वीर भारत ! धर्मानुसार आप ही गुरुमें अपने वीर्य से सन्तान उत्पन्न करें। हे पुरुषिंह ! ऐसा ही करने से मैं आपके साथ स्वर्ग जा सकूँगी। हे कुरुनन्दन ! सन्तान के लिए आप ही मेरे साथ संगम करें। मैं आपको ढोइ किसी दुसरे पुरुष के पास मन के द्वारा भी नहीं जा सकती। इस भूमंडल में ऐसा कौन है जो आपसे अधिक श्रेष्ठ है।

ये हैं कुन्ती के वचन जो नियोग का नाम सुनते ही मारे वृणा

के तिलमिला उठी। क्या उसकी इन बातों से यह स्पष्ट नहीं है कि वह नियोग-विधि से पुत्र उत्पन्न करना नहीं चाहती थी; क्योंकि वह नियोग की वास्तविकता जानती थी कि इसमें परपुरुष के साथ प्रसंग का होना अनिवार्य है जो उसकी आत्मा के विरुद्ध था? इसीलिए तो उसने अपने धर्मपति पांडु से बार-बार प्रार्थना की कि वे ही अपने बीर्य से उसमें पुत्र उत्पन्न करें; वह अन्य पुरुष से मिलना नहीं चाहती। पर पांडु पुत्र-मुख देखने के लिए केवल लालायित ही नहीं, बट्टिक पागल हो गए थे। उन्हें तो चाहे जैसे हो, अपनी छोटी के गर्भ के पुत्रलाभ करना अपनी सद्गति के लिए अधिक आवश्यक हो रहा था। अतः उन्होंने कुन्ती को बहुत भाँसा-पट्टी देकर तथा पूर्वकाल में किए हुए नियोगों का दृष्टान्त सुनाकर नियोग द्वारा पुत्रोत्पादन के लिए राजी किया। अबला अबला ही है। बेचारी कुन्ती अपने पतिदेव की आज्ञा का उल्लंघन न कर सकी और धर्मराज, वायु और इन्द्र, इन तीन देवताओं के साथ नियोगकर क्रमशः युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, इन तीन पुत्रों की जन्मदात्री बनी। इसी प्रकार पांडु की दूसरी रानी माद्री ने अश्विनीकुमारों के साथ नियोगकर नकुल और सहदेव, इन दो पुत्रन्तों को प्राप्त किया। यहाँ पर कितने धूर्त एवं उनके बहकावे में पड़े कितने हमारे भोले-भाले भाई लोग भी यह कह सकते हैं कि प्राकृत पुरुषों के साथ नियोग करने में नियुक्ता छोटी को प्रहंग करने की आवश्यकता भले ही पड़े; पर देवताओं के साथ नियोग होने में इसकी आवश्यकता एकदम नहीं पड़ती; वहाँ पर तो केवल देवताओं का आशीर्वाद ही पुत्र-प्राप्ति के लिए काफ़ी हो जाता है। यदि ऐसी बात होती तो पांडु के और भी पुत्र पैदा करने के लिए कहने पर कुन्ती निम्नलिखित बातें क्यों कहती? आदिपर्व का १२३वाँ अध्याय पढ़िए—

नातश्चतुर्थं प्रसवमापत्स्वपि वदन्तस्युत ।

अतः परं स्वैरिणोस्याद् वन्धकी पञ्चमे भवेत् ॥ ७६ ॥

स त्वं विद्वन् ! धर्ममिम मधिगम्य कथं नु मास् ।

अपस्थार्थं समुक्तम्य प्रमादादिव भाष्ये ॥ ७७ ॥

**आर्थ**—बुद्धिमान् लोग आपत्काल में भी चौथे प्रसव (सन्तान) की प्रशंसा नहीं करते; क्योंकि चौथे पुरुष से मिलने पर स्त्री व्यभिचारिणी और पाँचवें पुरुष से मिलने पर वेश्या हो जाती है। हे बुद्धिशील ! आह यह धर्म जानने पर भी क्यों प्रमादपूर्ण बात कह रहे हैं ।

कुन्ती के इन शब्दों से स्पष्ट है कि वह धर्मराज, नायु और इन्द्र, इन तीन पुरुषों के साथ प्रसंग कर चुकी थी; बस यही उसके लिए काफी पूर्णित था । वह चौथे और पाँचवें पुरुष से मिलना नहीं चाहती थी; क्योंकि ऐसा करने से वह व्यभिचारिणी और वेश्या कही जाती । यदि नियोग में प्रसंग का प्रश्न नहीं था; यदि केवल देवताओं के आशीर्वाद से ही पुत्र मिल सकता था तो कुन्ती ने 'व्यभिचारिणी' और 'वेश्या' वे शब्द क्यों कहे ?

आख्य समाज के प्रवर्त्तक स्वामी दयानन्द का नियोग-विषयक निचार जानने के लिए चतुर्थ परिच्छेद का अन्त देखिए ।

नियोग, नियोगक (क्षेत्रज) पुत्र, सवर्णासवर्ण विवाह एवं तत्त्वज्ञन्य पुत्र-विषयक चर्चा करते समय अष्टविध विवाह तथा द्वादश विध पुत्र-विषयक चर्चा का भी छिड़ जाना, जो प्राचीन हिन्दुओं में प्रचलित थे, अप्रासाद्धिक नहीं है । प्राचीन काल में सवर्ण और असवर्ण नामक जो दो विवाह-भेद बतलाये गये हैं, वे स्त्री और पुरुष के वर्ण की दृष्टि से हैं । यहाँ पर जिन अष्टविध विवाहों का विवरण दिया जायेगा, वे उनकी सम्पादन-विधि की दृष्टि से हैं । मनु के अनुसार यो आठ प्रकार के विवाह नीचे लिखे हैं—

ब्राह्मो दैवस्तथैवार्थः प्राजापत्यस्तथासुरः ।

गान्धवो राज्ञसश्चैव पैशाचश्चाऽधमोऽधमः ॥ मनु ३।२१ ॥

**अर्थ—**ब्राह्म, दैव, आर्य, प्राजापत्य, आसुर, गान्धव, राज्ञस और पैशाच, ये आठ प्रकार के विवाह हैं। इनमें पैशाच नामक आठवाँ विवाह अधम विवाह है।

अब इन आधुनिक विवाहों की समादन-विधि बतलाइ जाता है—

( १ ) **ब्राह्म—**विद्या और आचारयुक्त वर को बुलाकर और उत्तम वस्त्रों और अलंकारों से कन्या तथा वर को भूषितकर वर को जो कन्यादान दिया जाता है उसको ब्राह्म विवाह कहते हैं।

( २ ) **दैव—**ज्योतिष्ट्रोम आदि यज्ञ के आरम्भ होने पर अच्छे प्रकार से कर्म करते हुए ऋत्विज् के लिए वस्त्राभूपणों से सुशोभित कर जो कन्या का दान है, उसे दैव विवाह कहते हैं।

( ३ ) **आर्य—**एक गी और एक वैल ऐसे गौओं का एक जोड़ा, वा दो जोड़े, वर से यज्ञादि की सिद्धि के लिए अथवा कन्या को देने के लिए लेकर शाखानुसार जो कन्यादान किया जाता है उसे आर्य विवाह कहते हैं।

( ४ ) **प्राजापत्य—**तुम दोनों मिलकर धर्म किया करो, ऐसा नियम कन्यादान के समय पहले करके और पूजन करके जो कन्यादान किया जाता है उसे प्राजापत्य विवाह कहते हैं।

( ५ ) **आसुर—**कन्या के पिता आदि को अथवा कन्या को यथा शक्ति धन देकर जो अपनो इच्छा से कन्या का लेना है उसको आसुर विवाह कहते हैं।

( ६ ) **गान्धव—**कन्या और वर की आपस की प्रीति से जो

परस्पर आलिंगनादि रूप मिलना है, ऐसे मैथुन सम्बन्धी और काम ने उत्पन्न हुए विवाह को गान्धर्व विवाह कहते हैं।

( ७ ) राजस—कन्या के पद्मवालों को मारकर, उनके अंगों को काटकर और किले की दीवार को तोड़कर, हाय पिता ! हाय भाई ! अनाथ मैं हरी जाती हूँ, ऐसी कहती हुई और आँसुओं को छोड़ती हुई कन्या को उसके पर से जो बलपूर्वक हर लेना है उसको राजस विवाह कहते हैं।

( ८ ) पैशाच—सोई हुई, मर्द से व्याकुल, वा अपने शील की रक्षा से रहित कन्या के साथ जो एकान्त में मैथुन करता है वह सब यापों की जड़ तथा सब विवाहों में अधम पैशाच विवाह है।

कौन-कौन से विवाह किस-किस वर्ण के लिए उपयुक्त है, इस विषय में भी मनु ने अपनी सम्मति दी है। ब्राह्मण के लिए ब्राह्मा, देव, आर्य, प्राजापत्य, आसुर और गान्धर्व, ये छुः; द्वित्र्य के लिए आसुर, गान्धर्व, राज्ञि और पैशाच, ये चार; तथा वैश्य और शूद्र के लिए आसुर, गान्धर्व और पैशाच, ये तीन विवाह धर्म्य हैं। पर ग्रन्त्येक वर्ण के लिए अलग-अलग अनुमोदित इन विवाहों में भी ब्राह्मण के लिए ब्राह्मादि चार, द्वित्र्य के लिए केवल राज्ञि तथा वैश्य और शूद्र के लिए केवल आसुर विवाह विद्वानों के द्वारा अष्ट माने गए हैं।

अब यहाँ पर इन अष्टविध विवाहों के गुण दोषों पर प्रकाश ढालना अप्रासंगिक न होगा। आदि के ब्राह्मादि चार विवाह-भेद सर्वथा अनिन्य हैं। इनके सम्बन्ध में किसी ग्रन्ति की आपत्ति नहीं की जा सकती, अतः ये पूर्णतः प्रशस्त हैं। पर अन्त के आसुर आदि चार विवाह-भेदों में, जिनके लिए भारतीय आर्य कमशः असुरों, गन्धर्वों, राज्ञियों और पैशाचों के, इन अनार्य जातियों से उन्हें सीखने के कारण शृणी थे, सभी आपत्तिजनक हैं तथा इनमें

आपत्ति की मात्रा क्रमशः बढ़ती गई है। आसुर विवाह कन्या के क्रय विक्रय के सिवा और कुछ नहीं। पर चूंकि कन्या के इस प्रकार का क्रय विक्रय केता और विकेता दोनों ही की रजामन्दी से होता था और इससे किसी तीसरे व्यक्ति का कुछ हानिलाभ न था, अतः इस विवाह में एक प्रकार का नैतिक पतन भले ही देख पड़ता हो, पर यह राजकीय नियमानुसार कोई दंडनीय अपराध नहीं था। गान्धर्व विवाह एक युवक और एक युवती के पारस्परिक प्रेम पर निर्भर है जिसमें उनके माता-पिताओं वा किसी अन्य अभिभावकों की स्वीकृति का स्थान नहीं है; अतः इस पर भारी आपत्ति यह है कि कुलीन कन्याएँ अकुलीन वरों के साथ, प्रेम के अन्वे होने के कारण, एक पाश में बँधकर एवं मोलीभाली नवयुवतियाँ धूर्त तथा धनलोलुप नवयुवकों के बनावटी प्रेम में फँसकर अपना जीवन नष्ट कर सकती हैं। अतः गान्धर्व विवाह भी एक प्रकार से अनुचित ही माना गया है। राज्ञस और पैशाच विवाहों को तो विवाह न कहकर घोर अपराध कहना चाहिए जो वर्तमान काल में ताजिरात हिन्द के क्रमशः दफा ३६६ तथा ३७६ के अनुसार दंडनीय है। दफा ३६६ (§ 366 kidnapping or abducting woman to compel her marriage, etc.) हमें बतलाता है कि जो कोई किसी खी को इस नियत से उड़ा ले जाये कि उसकी शादी किसी पुरुष के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी पुरुष के साथ अभिन्नार करते हों तो वैसे आदमी को १० वर्ष तक की कैद की सजा हो सकती है। पाठक गग ! राज्ञस विवाह की पूर्णोक्त परिमापा के साथ इस दफा के विधान को मिलावें और देखें कि दोनों में कितनी तास्विक समानता है। अत्तर केवल इतना ही है कि एक ही वस्तु एक जगह विवाह है तो दूसरी जगह दंडनीय जुम्ह है। तिस पर तुर्ग यह कि

राजस विवाह ज्ञाति के लिए प्रशस्त माना गया है जिसके मुख्य कर्तव्य दूसरे की और विशेष करके अबला जाति की जान और माल तथा इज़ज़त और आवरु की रक्षा करना है। जहाँ के रद्दक ही भक्त हैं वहाँ की प्रजा की स्वैरियत कहाँ? दफा ३७५ में किसी लोटी के साथ जिना विल्जव अर्थात् बलपूर्वक मैथुन (Rape) नामक अपराध की परिभाषा दी गई है। इन पाँच अवस्थाओं में से एक अवस्था खो की अनुमति (Consent) का अभाव है! सोइं हुई या किसी मादक द्रव्य के व्यवहार के कारण नशे में चूर वा निकृष्ट (पागल) लोटी की मानसिक स्थिति इस प्रकार की नहीं रहती कि वह किसी कार्य की मलाई वा बुराई को अच्छी तरह समझूभकर अपनी अनुमति दे सके, अतः इस दशा में उनके साथ मैथुन करना जिना विल्जव (Rape) है जिसके लिए दफा ३६६ के अनुसार आजन्म कालेपानो वा १० वर्ष तक के कैद की सज्जा हो सकती है। पर हमारे पवित्र धर्म-मन्त्र ऐसे पशुओं के मैथुन से भी बदतर मैथुन को पैशाच नामक एक वैध विवाह ही मानते हैं। मनु का ऐसे विवाह के लिए केवल 'अधम' शब्द का प्रयोग करना काफी नहीं है। उन्होंने तो इसकी गणना अपनी स्मृति के आठवें अध्याय में विविध घोर अपराधों में कर इसके लिए एक कठोर दंड की व्यवस्था देना चाहता था। पर उन्होंने ऐसा किया नहीं। पराएँ की बहु-बेटियों को उनके भाभ जबर्दस्ती शादी करने की बुरी नीयत से इस प्रकार उड़ा ले जाने तथा नीद वा नशे के कारण अपने सतीत्व-रक्षण के प्रति असावधान अबलाओं के सतीत्वापहरण को भी शास्त्रीय विवाह भेद बतलाना हमारे प्राचीन सम्बन्ध वृत्तों की विलक्षण सम्भता की परमोक्तवल बानगियाँ हैं जिन्हें पाठकवृन्द कृपया उपहार स्वरूप स्वीकार करें।

वर्तमान काल में कौन-कौन से विवाह-भेद हिन्दू समाज में

चलित हैं, इसे भी पाठकों की जानकारी के लिए बतला देना बहुत ज़रूरी है। आजकल ब्राह्म और आसुर विवाहों को छोड़कर शेष सभी विवाह उठ गए हैं, वहाँ तक कि ब्राह्म विवाह जो पूर्वकाल में केवल ब्राह्मणों में ही प्रचलित था, अब ज्ञातियों, वैश्यों और शूद्रों तक ये भी प्रचलित हो गया है। जहाँ विवाह-विधि मालूम नहीं रहती वहाँ ब्राह्म विवाह का ही गुमान (Presumption) किया जाता है। आसुर विवाह कतिपय शूद्र जातियों में प्रचलित है, पर द्विजातियों के लिए भी कोई कानूनी मनाही नहीं है। ब्राह्म और आसुर विवाह ठीक एक दूसरे के प्रतिकूल हैं। ब्राह्म में कन्या का दान (Gift) है तो आसुर में उसका विक्रय (Sale) है।

**द्वादशविधि पुत्र** अब द्वादश-विधि पुत्रों का विवरण दिया जाता है। मनु के अनुसार बारह प्रकार के पुत्र हैं—

**औरसः क्षेत्रजनश्चैव दसः कृत्रिम एव च ।**

**गूढोत्पन्नोऽपविद्धश्च दायादावान्धवाश्च षट् ॥**

**कानीनश्च सहोदरश्च कीतः पौनर्भवस्तथा ।**

**स्वयंदतेश्च शीद्रश्च पड़दायादन्वान्धवाः ॥ मनु ६।१५८-१६०॥**

**अर्थ—** औरस, क्षेत्रज, दस्तक, कृत्रिम, गूढोत्पन्न और अपविद्ध ये छः पुत्र दायाद (पैतृक सम्पत्ति में भाग पाने वाले) तथा बान्धव (पिराडतर्पणादि के अविकारी रितेमन्द) भी हैं। कानीन, सहोदर कीत, पौनर्भव, स्वयंदत्त और शीद्र, ये छः पुत्र पिराडतर्पणादि के अविकारी बान्धव तो हैं पर पैतृक सम्पत्ति में भाग पाने वाले दायाद नहीं हैं।

उक्त १२ प्रकार के पुत्रों के लक्षण क्रमशः ये हैं—

(१) **औरस—** कन्या अवस्था में विवाहित अपने वर्ष की लोटी में जिसको स्वयं उत्पन्न करे उसको औरस पुत्र कहते हैं। वही सभी प्रकार के पुत्रों में शेष है।



( २ ) लेत्रज—अपुत्रा, मूलपतिका वा असमर्य-पतिका स्त्री में नियोग-विधि से परपुरुष द्वारा उत्पन्न किए हुए पुत्र को उस स्त्री के पति का लेत्रज पुत्र कहते हैं ।

( ३ ) दत्तक—पुत्रहीन व्यक्ति द्वारा स्त्रीकृत ऐसे पुत्र का नाम दत्तक पुत्र है जो वर्ण में उसके समान है और जिसके प्रकृत माता-पिता ने हाथ में जल लेकर प्रीतिपूर्वक उसे उस व्यक्ति को दान कर दिया है ।

( ४ ) कृत्रिम—आद्व करने में क्या गुण है और न करने में क्या दोष है, इसके शाता, तथा माता-पिता की सेवा करना आदि पुत्र-गुणों से युक्त जिस समान वर्ण के बालक को पुत्र रूप मान ले, वह मान लेने वाले का कृत्रिम पुत्र कहलाता है ।

( ५ ) गूढ़ोत्पन्न—पतिगृह-वासिनी स्त्री में गुप्त रीति से अन्य पुरुष द्वारा उत्पादित ऐसे पुत्र को उस स्त्री के पति का गूढ़ोत्पन्न पुत्र कहते हैं जिसके विषय में यह तो मालूम है कि वह सजातीय है, पर उसका उत्पादक कौन है, इसका पता नहीं है ।

( ६ ) अपविद्ध—प्रकृत माता-पिता, दोनों के त्यागे हुए, अथवा माता के देहान्त होने पर पिता के त्यागे हुए, वा पित के मरण होने पर माता के त्यागे हुए जिस पुत्र को ग्रहण किया जाय वह ग्रहण करनेवाले का अपविद्ध पुत्र कहलाता है ।

( ७ ) कानीन—कन्या एकान्त में पिता के घर समान वर्ण के पुरुष द्वारा जिस पुत्र को उत्पन्न करे उसका नाम कानीन है और उस कन्या के साथ जो विवाह करता है वह सन्तान उसका कानीन पुत्र कहलाता है ।

( ८ ) सहोद्र—जिसको गर्भिणी जानकर वा न जानकर उसके साथ जो पुरुष विवाह करता है वह गर्भ उस विवाहनेवाले का ही होता है और उस गर्भ से उत्पन्न पुत्र उसका सहोद्र पुत्र कहलाता है ।

( ९ ) क्रीतक—जिस पुत्र को, चाहे वह क्रेता का सवर्ण हो वा असवर्ण, उसके प्रकृत माता-पिता को मूल्य देकर खरीद लिया जाए, वह क्रेता का क्रीतक पुत्र कहलाता है।

( १० ) पौनर्भव—पति की त्यागी हुई अथवा विधवा जी अपनी इच्छा से पुनर्भू ( फिर दूसरे की जी ) होकर जिस पुत्र को उत्पन्न करती है वह उत्पादक का पौनर्भव पुत्र कहलाता है।

( ११ ) स्वयंदत्त—जो माता-पिता से हीन हो, अथवा जिसका माता-पिता ने अकारण त्याग कर दिया हो, ऐसे पुत्र जिसको आत्म-प्रदान कर दे तो वह उस ग्रहण करनेवाले का स्वयंदत्त पुत्र कहलाता है।

( १२ ) शौद्र—द्विजाति पिता के द्वारा विवाहित शूद्रा जी में उत्पन्न किया हुआ पुत्र शौद्र कहलाता है। यदि पिता ब्राह्मण हो तो उसकी सज्जा पारशव ( निषाद ); चत्रिय हो तो उग्र तथा वैश्य हो तो सूचिक ( दरजी ) होती है।

मनु के पूर्व के आचार्यों ने इन द्वादशविधि पुत्रों के अतिरिक्त एक और भी पुत्र-भेद माना है जिसका नाम पुत्रिका-पुत्र है। यदि भ्रातृहीन कन्या का पिता उसको आभूषणों से पुत्रिका-पुत्र अलंकृतकर इस शर्त पर किसी वर के साथ उसका विवाह करे कि उस विवाह से उत्पन्न हुआ पुत्र कन्या के पिता को मिलेगा तो ऐसा पुत्र कन्या के पिता का अर्थात् अपने नाना का पुत्रिका-पुत्र कहलाता है। वरिष्ठ स्मृति देखिए—

अभ्रातृकांप्रदास्यामि तुम्यं कन्यामलंकुताम् ।

अत्यां यो जायते पुत्रः समेपुत्रोभवेदिति ॥

अर्थ—कन्या का पिता वर से कहता है कि मैं अपनी भ्रातृहीन

कन्या को आभूषणों से शोभितकर तुमको इस शर्त पर देता हूँ कि  
इस कन्या से जो पुत्र उत्पन्न होगा वह मेरा होगा ।

अष्टविध विवाहों तथा द्वादशविध पुत्रों पर विचार करना है ।

इन विवाहों में राज्यस और पैशाच तथा इन पुत्रों में चेत्रज, गूढोत्पन्न,  
कानीन, सहेद, पौनर्भव और खौद्र क्रमशः ऐसे विवाह और पुत्र हैं  
जो किसी भी सम्ममन्य जाति के लिए कलंक के कारण हैं और  
विशेषकर हमारे पूर्वजों को तो तथाकथित (so called) सम्पत्ता  
और संस्कृति का भंडाफोड़कर उनका नम्न स्वरूप आधुनिक सम्प्य  
जगत् के सन्मुख लाकर खड़ा ही कर देते हैं । जिस समाज में  
अबलाओं का बल-पूर्वक विवाहार्थ अपहरण और उनका सतीत्व  
नाशन, तथा व्यभिचार जैसे पापकर्म के द्वारा उत्पन्न हुए पुत्र भी  
धर्मशास्त्रानुसार क्रमशः दंडनीय और अवैध ठहराये जाने के बदले  
जायज्ञ करार दिए जाते हों उस समाज का नैतिक पतन किस रसातल  
को जा पहुँचा होगा, यह मानव-कल्पना के बाहर है । उक्त विगहित  
विवाहों तथा पुत्रों के कारण समाज में कितना दुराचार, कितना  
व्यभिचार तथा कितनी संकरता फैल गई होगी, इसका अनुमान  
करना कठिन है । इन सारी बुराइयों की जड़ हिन्दुओं का वह  
धार्मिक अन्व विश्वास था जो उन्हें एक कपोल-कल्पित सद्गति के  
लिए किसी भी प्रकार से पुत्रोत्पत्ति के लिए विवश करता था ।  
हिन्दुओं का विश्वास है कि जब तक परलोक प्राप्य पिरण्ड-तर्पणा दि  
का देनेवाला पुत्र नहीं होता तब तक कोई व्यक्ति सद्गति प्राप्त  
नहीं कर सकता और न वह पितृ-ऋण से ही छुटकारा पा सकता है,  
अतः चाहे जैसे हो पुत्र प्राप्त करना एक ज़रूरी कर्ज है । दत्तक  
मीमांसोध्युत मनु वचन है—

अपुत्रेण सुतः कार्यः यादक् तादक् प्रयत्नतः ।

पिरण्डोदक्कियाहेतोनामिसंकीर्तनाय च ॥

**आर्थ**—पुत्रहीन व्यक्ति को चाहिए कि वह किसी प्रकार का पुत्र पिण्ड-तर्पणादि कियाओं को करने तथा बंश का नाम जारी रखने के लिए, यज्ञपूर्वक कर ले। अति का बचन है—

अपत्रेणैव कर्त्तव्यः पुत्रप्रतिनिधिः सदा ।

पिण्डोदक कियाहेतोयस्मात् तस्मात् प्रयत्नः ॥३०८०५२॥

**आर्थ**—पुत्रहीन व्यक्ति को चाहिए कि वह पिण्ड-तर्पणादि किया के लिए यज्ञपूर्वक, चाहे जैसे हो, सदा पुत्र का प्रतिनिधि कर ले।

**नोट**—केवल औरस पुत्र ही यथार्थनामा है। क्षेत्रज आदि उसके प्रतिनिधि (Substitutes) मात्र हैं। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं—

ऋणमस्मिन् सन्नयति अमृतलं च गच्छति ।

पिता पुत्रस्य जातस्य पश्येच्चेऽजीवतो मुखम् ।

अनन्ताः पुत्रिणां लोका नापुत्रस्य लोकोऽस्तीतिश्रूयते ॥

**आर्थ**—पिता यदि उत्पन्न हुए अपने जीवित पुत्र का मुँह देख ले तो वह अपना पिटू-ऋण उस पुत्र को सौंप देता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। पुत्रवालों के लिए अनन्त स्वर्गलोक है; पर वे पुत्रहीनों के लिए नहीं हैं, ऐसा वेदों में सुना जाता है।

बंगाल के सुप्रसिद्ध हिन्दू कानून-विशारद श्री गोपालचन्द्र शास्त्री, एम॰ ए॰ बी॰ एल॰ महोदय अपनी “A Treatise On Hindu Law”, Sixth Edition, pp. 180 & 181, में पूर्वोक्त विविध आपत्तिजनक पुत्रों पर अपनी सम्मति इस प्रकार देते हैं—

The above descriptions of diverse kinds of sons recognised in ancient times, disclose that sexual relation was very loose, and chastity of women was not valued. The relation of husband and wife, of father

and son, and of master and slave, appears to have involved the idea of absolute power on the one hand, and abject subjection on the other, or of the one being the property of the other Procreation by the father was not a necessary element in the conception of sonship.

अर्थ—उपर्युक्त विविध प्रकार के पुत्रों के विवरण से, जो प्राचीन काल में स्वीकृत थे, यह प्रकट होता है कि ( प्राचीन हिन्दुओं में ) यौनसम्बन्ध बहुत ही ढीला था और स्त्रियों के सतीत्व का कोई मूल्य न था । पिता और पत्नी का, पिता और पुत्र का, एवं स्वामी और दास का सम्बन्ध, एक ओर असीम अधिकार तथा दूसरी ओर अधम आधीनता, वा एक दूसरे की सम्पत्ति होने की भावना से भरा था । पिता द्वारा उत्पन्न होना पुत्रत्व की कल्पना का आवश्यक अंश न था ।

इस विषय पर इतना ही लिखना पर्याप्त है । इतने से ही हमारी प्राचीन सभ्यता की भलक मालूम हो जाती है ।

( ४ ) विदेशियों का हिन्दूकरण—हिन्दू जाति में रक्त-संमिश्रण का चौथा कारण विदेशियों का हिन्दूकरण है । द्वितीय परिच्छेद में राजपूत जाति की उत्पत्ति लिखते समय बतलाया विदेशियों का गया है कि शक, हृष्ण, गुजरात आदि कितनी ही हिन्दूकरण विदेशी वर्वर जातियाँ हिन्दू धर्म को ग्रहण करके राजपूत नामक एक नवीन ज्ञात्रिय जाति बन गईं । पर इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि इन वर्वरों का समूचा ही जनसमुदाय हिन्दू धर्म को ग्रहण कर लेने से ही ज्ञात्रिय वर्ष में परिणत हो गया । वल्कि इन लोगों के केवल वे ही दल वा

**राजपूत** परिवार द्वितीय हुए जिन्होने शासक-पदवी प्राप्त की या किसी/राज्य के संस्थापन में कृतकार्य हुए और जो इनमें मध्यम तथा निम्न श्रेणी के लोग ये वे जाट, गूजर एवं इन्हीं के सदूश अन्य जातियों के रूप में ढल गए। इसी प्रकार दक्षिण भारत की गोड़, भर, कोल आदि अनार्य जातियों के जिस दल ने अधिकार प्राप्तकर राज्य शासन, जो द्वितीयों का धर्म है, अपने हाथ में लिया वे तो चन्देल, बुन्देल, गहरवार आदि राजपूत-द्वितीयों के रूप में परिणत हुए और इनके ही भाई-बन्धु, जो इस प्रकार की उन्नति न कर सके, गोड़ आदि ही रह गए जो आज तक अपनी प्राचीन हीनावस्था में सङ्हिते हुए मजदूरी आदि कर अपना पेट पाल रहे हैं।

**राजपूत द्वितीयों** की ही तरह शाकद्वीपीय ब्राह्मण भी भारतीय जातियों की सन्तान नहीं है। ब्राह्मणोत्पत्ति मार्त्तंगड नामक ग्रन्थ के पृष्ठ ५४१-५४२ तक में इस जाति की उत्पत्ति शाकद्वीपीय भविष्यपुराण के १३३वें अध्याय के आधार पर यो ब्राह्मण लिखी है—श्रीकृष्ण के पुत्र साम्ब ने जो जाम्बवती के गर्भ से उत्पन्न हुआ था, सूर्यदेवता का एक मन्दिर बनवाया और जब उस देवता की पूजा-पाठ के लिए उसे स्वदेश (भारत) में देवलकर्म को स्वीकार करनेवाला कोई ब्राह्मण नहीं मिला, तो उसने सूर्यदेवता की आशा से शाकद्वीप (Scythia) से मगसंजक ब्राह्मणों के दश तथा मंदगसंजक शूद्रों के आठ, कुल मिलाकर अद्वारह, कुमारों को लाकर चन्द्रभाग नदी के तट पर बसा दिया इत्यादि। किसी-किसी विद्वान् का कथन है कि साम्ब कुष्ठ-रोग से ग्रस्त हुआ। भारत में जब रोग का कोई चिकित्सक नहीं मिला, तो श्रीकृष्ण ने साम्ब की चिकित्सा करने के लिए शाकद्वीप से कुछ मग ब्राह्मणों को, जो इस रोग की चिकित्सा करने में निपुण

ये, अपने यहाँ तुलाया। परम्परागत अन्धविश्वासानुसार कुष्ट-रोग का मूल कारण सूर्यदेवता का प्रकोप है; अतः उन्हीं मग चिकित्सकों के परामर्श से, जो सूर्यदेवता के पुजारी भी ये, श्रीकृष्ण ने उक्त देवता को प्रसन्न करने के लिए सूर्य का एक मन्दिर बनवाया और उन्हीं मग ब्राह्मणों को उसका पुजारी नियुक्त कर दिया। निदान सूर्यदेव की कृपा तथा मग चिकित्सकों की चिकित्सा से साम्य कुष्ट-रोग से मुक्त हुआ। दोनों मतों की संगति इस प्रकार लग सकती है; क्योंकि इनमें कोई पारस्परिक विरोध नहीं है। और उन्हीं भारत में आए मग ब्राह्मणों की सन्तान शाकद्वारीय ब्राह्मण कहलाई।

पर शाकद्वारीय ब्राह्मणों के ब्राह्मणत्व पर एक भारी आचेप है जिसका निराकरण दुष्कर है। मनु अपनी स्मृति के दसवें अध्याय में इलोक ४३-४४ द्वारा, जिनका उद्धरण द्वितीय परिच्छेद में हो चुका है, कह गए हैं कि ब्राह्मणों के अदर्शन ( नहीं मिलने ) से शक त्रिय, अर्थात् शाकद्वीप के त्रिय, वृषलत्व ( शूद्रत्व ) को प्राप्त हो गए, जिससे सिद्ध होता है कि शाकद्वीप में कोई ब्राह्मण या ही नहीं, तो फिर ये शाकद्वारीय ब्राह्मण आए कहाँ से ? इनका ब्राह्मणस्व ही संदिग्ध है।

इस पर एक प्रतिवादी कहता है कि भविष्यपुराण में ही सूर्य ने साम्य को शाकद्वीप से मग ब्राह्मणों को लाने के लिए आज्ञा देते समय कहा है कि शाकद्वीप में भी ब्राह्मणादि चार वर्ण रहते हैं जो क्रमशः मग, मगस, मानस और मन्दग कहलाते हैं; अतः सिद्ध हुआ कि शाकद्वीप में भी ब्राह्मण रहते थे जो मग कहलाते थे। पर मनुस्मृति स्मृति है और भविष्यपुराण पुराण है; अतः स्मृति के सामने पुराण अमान्य है। यों तो सभी देशों तथा सभी कालों में पुरोहित, सैनिक, व्यापारी तथा कुली वे चार प्रकार के लोग जो

क्रमशः ब्राह्मणादि चार वर्णों के सदृश हैं, पाए जाते हैं; पर इससे वे कुछ ब्राह्मणादि चार वर्ण नहीं हो जाते। चातुर्वर्ण्य की सत्ता तभी मानी जा सकती है जब वह श्रुति-स्मृति के आचार पर स्थापित की गई हो। इंग्लैंड के इतिहास के पाठकों को मालूम है कि वहाँ के प्राचीन निवासी ब्रिटन लोगों ( Britons ) के पुरोहित ड्रूइड ( Druids ) कहलाते थे। इसी प्रकार शाकद्वायप के निवासियों के पुरोहित, जो सूर्यदेव के पुजारी थे, मग कहलाते थे। सूर्यदेव के उक्त कथन का केवल यही अभिप्राय है; और यह नहीं कि वे सचमुच ब्राह्मण ही थे। मनुस्मृति और भविष्यपुराण के उक्त अन्योन्य विरोधी वचनों की संगति इसी प्रकार लग सकती है; किसी दूसरे प्रकार से नहीं। इसके आंतरिक शाकद्वायपस्थ चातुर्वर्ण्य वोधक मगादि शब्द किसी अनार्थ भाषा के शब्द मालूम होते हैं; कारण कि ये ब्राह्मणादि वर्णों वा कम से कम उनसे उपभेदों के अर्थ में किसी प्राचीन संस्कृत कोष में भी नहीं मिलते। वर्णवोधक अर्थ में इनकी व्युत्पत्ति आदि का भी पता नहीं है। यो तो उणादि के सहारे अंग्रेजी-फारसी आदि शब्द भी संस्कृतवत् सिद्ध किए जा सकते हैं।

साम्व ने शाकद्वायप से लाकर दत मग कुमारों का विवाह भोजकन्याओं के साथ कर दिया, जिससे भोजक जाति उत्पन्न हुई। ये भोजकन्याएँ किस जाति की थीं, यह मालूम नहीं होता। पर अवश्य ही ये मग जाति की न थीं, नहीं तो भोजकन्या क्यों कहलातीं? और यदि मग और भोज दो जातियाँ सिद्ध हुईं तो ये विवाह अन्तर्जातीय हुए तथा भोजक जाति मिश्रित रक्त की हुई। इन भोजकों के विषय में बाबू योगेन्द्रनाथ एम० ए०, डी० एल० अपने जाति-र्पाति-विषयक ग्रन्थ के पृष्ठ ५६६ में निम्नलिखित विवरण देते हैं—

**Bhojak:**—A class of inferior Brahmans found in Rajputana who minister to the Jains as priest and partake of their hospitality.

**अर्थ—**भोजक एक निम्न भेणी के ब्राह्मण हैं जो राजपूताने में पाए जाते हैं। ये जैनियों के यहाँ पुजारी (सेवग) का काम करते हैं और उनके आतिथ्य में भाग पाते हैं अर्थात् उनके घर भोजनादि प्राप्तकर अपना जीवन-निर्वाह करते हैं। भोजक जाति के कुछ लोग पुष्करक्षेत्र में पंडों का काम करते हैं। पर जब जयपुर के महाराज स्वर्गवासी जयसिंह तथा जोधपुर के महाराज स्वर्गवासी बख्तसिंह को पुष्करक्षेत्र के इन भोजक पंडों के ब्राह्मणत्व में सनदेह हुआ तो उन लोगों ने इन पंडों को अपनी पुरोहिताई से हटाकर इनकी जगह गौड़-सनात्य ब्राह्मणों को अपना पुरोहित बनाया। मिथिला आदि प्रान्तों में शाकदीपियों के विषय में यह श्लोक प्रचलित है—'कुष्मांडं महिषीक्षीरं विलवपत्रं मगद्विजम् । चत्वार्येतानि वस्तुनि आदेषु परिवर्जयेत् ।'

**अर्थ—**कुष्मांड, भैस का दूध, वेलपत्र और शाकदीपी ब्राह्मण, इन चारों वस्तुओं को आद में नहीं आने देना चाहिए।

यह तो हुआ दश मगकुमारों की सन्तान भोजकों का विवरण। और उनके साथ जो आठ मंदग कुमार आए ये उनका विवाह शक जाति की कन्याओं से हुआ और उनकी औलाद शृद हुईं।

पर सबसे कठिन प्रश्न तो यह है कि वर्तमान काल में भारतवर्ष में पाए जाने वाले निःशेष शाकदीपीय ब्राह्मण पूर्वोक्त दश मगकुमारों की ही सन्तान हैं वा मगों के किसी दूसरे जात्यों की, जो भारत में नाम्ब द्वारा लाए न जाकर किसी सरे काल में शाकदीप से आकर

भारत में आ वसा। पर साम्बद्धारा लाए गए दश मगकुमारों के अतिरिक्त किसी दूसरे मग-जत्या का भारत में आ वसना किसी भी पुराणा वा इतिहास से प्रमाणित नहीं होता। अतः विवश होकर हमें मानना पड़ता है कि भारतवर्ष के सभी शाकद्वीपीय ब्राह्मण साम्बद्धारा लाए गए दश मगकुमारों की ही सन्तान हैं और भोजक हैं। अन्य विद्वानों को भी इस विषय में खोज करनी चाहिए और इन लोगों के पक्ष में यदि कोई प्रबल प्रमाण मिले तो सर्वसाधारण की सन्देह-निवृत्ति के लिए उसका प्रकाशन होना चाहिए। ये लोग पहले कपास का बना हुआ, भीतर से पोला, सौंप की केंचुल के समान एक प्रकार का बख्त जनेऊ की जगह अपने गले में ढाला करते थे; पर व्यों ही इन्होंने भारत में आकर ब्राह्मण की पदवी प्राप्त की त्यों ही इन लोगों ने उक्त बख्त विशेष को त्यागकर यज्ञोपवीत पहनना आरंभ कर दिया। द्विज मात्र में गोत्र बचाकर विवाह होना चाहिये। यही धर्मशास्त्र की मर्यादा है, पर शाकद्वीपीय ब्राह्मणों के यहाँ गोत्र का गोत्र में विवाह हो जाता है। इनके १२ गोत्र तथा ७४ 'पर' यानी अप्ल देते हैं। कोई कोई 'पर' से 'प्रवर' की कल्पना करते हैं तथा दूसरे लोग 'पर' से 'पुर' का अभिप्राय निकालते हैं; अर्थात् वे पुर अथवा ग्राम जहाँ से उक्त ७४ कुलों का निकास हुआ। Mr. H. H. Risley, Census Commissioner, अपने ग्रन्थ के पृष्ठ १५८ में लिखते हैं कि ये लोग गोत्र का गोत्र में विवाह कर लेते हैं; केवल 'पर' टालते हैं। ब्राह्मण-निर्णय ग्रन्थ के पृष्ठ ४७८-४८३ तक पढ़िए।

विहार प्रान्त का वह भाग जो गंगा नदी से दर्जिण तथा शोण नद से पूर्व है, मगह कहलाता है। मगह शुद्ध संस्कृत शब्द 'मगध' का अपभ्रंश है। मगह में छठ नामक सूर्य का ब्रत जिस समारोह के साथ मनाया जाता है वैसा भारत के किसी भी प्रान्त

में नहीं मनाया जाता। सूर्य-ग्रजा शाकद्वीपस्थ मग जाति का मुख्य धर्म था। जब ये मग भारत में आए तो वे सूर्योपासना अपने साथ ही यहाँ लेते आए, जिससे उक्त व्रत का प्रचार हुआ। जान पड़ता है कि मग लोग अधिक संख्या में विहार प्रान्त के उक्त भाग में जावसे, जिससे उसका नाम 'मगध' पड़ गया। संस्कृत के व्यक्तरणानुसार 'मगध' शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है— मगं तत्त्वामकं जाति विशेषं दधाति धारयति इति मगधः मगशब्दात् 'आतोऽनुपसर्गेऽकः, इति क प्रत्ययः। अर्थात् ये मग जाति को धारण करे वह मगध हैं।

(५.) जात्यन्तर-ग्रहण वा जातन्परिवर्त्तन—रक्त-संमध्रण का पौच्छार्याँ कारण अपनी जाति को छोड़कर दूसरी जात्यन्तरग्रहण जाति में मिलना है। इनके उदाहरण सवालाखे गयावाल, प्रयागवाल आदि ब्राह्मण कही जानेवाली जातियाँ हैं जिनका विवरण द्वितीय परिच्छेद में दिया जा चुका है। कूक साहब ने अपने Tribes And Castes नामक ग्रन्थ में ऐसे ब्राह्मणों सवालाखे आदिब्राह्मण के और भी उदाहरण दिए हैं जो मूलतः नीच जातियों के सदस्य होते हुए भी किसी राजा के द्वारा ब्रह्म-भोज के अवसर पर ब्राह्मण बना दिए गए। उक्त साहब बहादुर के ग्रन्थ का सम्बन्धित अंश The Brahmins नामक एक अंग्रेजी पुस्तक के पृष्ठ २४ में उद्धृत हुआ है जिसका मावानुवाद यह है कि अवध और पश्चिमोत्तर प्रदेशों की परम्परागत कथाएँ राजाओं द्वारा, जब उन लोगों को किसी यज्ञ वा भोज के लिए असली ब्राह्मणों की पर्याप्त संख्या नहीं मिली, नीच जातियों से ब्राह्मण बनाए जाने की कहानियों से भरी पड़ी है। उदाहरणतः प्रतापगढ़ के कुंडा ब्राह्मण राजा मानिकचन्द के द्वारा बनाए गए हैं जब उनको १२५,००० ब्राह्मणों की इष्ट संख्या, जिनको

भोज देने का उन्होंने संकल्प किया था, नहीं मिली। इस प्रकार कितने अहीर, कुरमी और भाट जनेऊ पहनाकर ब्राह्मण बना दिए गए जिनके वंशज आज तक ब्राह्मण हैं। ऐसी ही कहानियाँ अमतारा के पाठक, हरदोई ज़िले के पड़ि तथा गोरखपुर एवं वस्ती ज़िलों के विषुल संरूपक सवालस्वियों के विषय में भी कही जाती हैं जिन्होंने नीच जात्युत्तम होकर भी दूबे, उपाध्याय, तिवारी, मिश्र, दीक्षित, पड़ि, अवस्थी और पाठक की उच्च उपाधियाँ धारण कर ली हैं। लगभग डेढ़ सौ वर्ष हुए कि असोधर के राजा भगवन्तराय ने एक नोनिए को ब्राह्मण बना दिया था जिसके वंशधर ऐसी के मिश्र ब्राह्मण हैं।

जाति-परिवर्त्तन द्वारा जिस प्रकार कितनी जातियाँ हिन्दू समाज के निम्न स्तरों से उठकर ऊपर को चली गई यादव ज्ञात्रिय हैं, उसी प्रकार कितनी ही जातियाँ ऊपर से से अहीर नीचे को चली आई हैं। उदाहरणातः यदुवंशीय ज्ञात्रिय राजकुमार आहुक के वंशधर अहीर हो गए। शक्तिसंगमतंत्र में लिखा है—“आहुक-वंशात् समुद्रभूताः आभीरा इति प्रकीर्तिताः” अर्थात् अहीर आहुक के वंश में उत्तर कहे गए हैं। इसका समर्थन जातिविवेकाध्याय के द्वारा भी होता है; यथा—“आहुक जन्मवन्तश्च आभीराः ज्ञात्रियाऽभवन्।” अर्थात् आहुक से जन्मे हुए ज्ञात्रिय अहीर हो गए। इन प्रमाणों से सिद्ध होता है कि अवश्य ही कुछ यदुवंशीय ज्ञात्रिय अवनति को प्राप्त होकर गोपालन आदि अहीरोंनि कर्म करते-करते अहीरों में जा मिले हैं; परं आजकल इनकी पहचान मुश्किल है, जिसका भट्टी राजपत से फल यह हुआ कि सभी अहीर अब अपने को यादव नार्इ आदि ज्ञात्रिय कहने लग गए हैं। इसी प्रकार भट्टी-वंशीय ज्ञात्रिय फूल और केवल की सन्तान

नाईं और कुम्हार, रकेच्छों की सन्तान बनिए, देसाऊ (देकाऊ) के वंशधर सुतार और बढ़ई तथा देवसी के वंशज ऊँटपाल हो गए। टाड साहब के 'राजस्थान' में जैसलमेर का इतिहास पढ़िए। इसी प्रकार की जातीय अवनति कुछ पांचाल ब्राह्मणों की भी हो गई। पांचाल देश के क्षितिपथ ब्राह्मण बढ़ई, लोहार, सोनार आदि शिल्पियों की जीविका लेकर कमशः ब्राह्मणिए बढ़ई, ब्राह्मणिए लोहार, ब्राह्मणिए सुनार आदि संशक जातियों के रूप में परिवर्तित हो गए। इनमें अभी तक ब्राह्मणोंचित संस्कार, रीति-रस्म, आर्ष गोत्रादि प्रचलित है, जिन्हें देखकर भारत के विद्वानों ने उक्त जातियों को उपब्राह्मणों में स्वीकृत कर लिया है। पर अन्वेष तो यह है कि उक्त ब्राह्मणिए बढ़ईयों, लोहारों, सोनारों आदि की देखा-देखी सब के सब संकर-वर्णी तथा शूद्र-वर्णी बढ़ईयों, लोहारों, सोनारों आदि ने भी, जो चिरकाल से संस्कारहीन थे और जिनमें मध्य-मासादि का सेवन तथा विधवाओं का पत्यन्तरग्रहणादि शूद्रोचित कर्म अभी तक प्रचलित है। लम्बी-लम्बी चोटियाँ सिर पर रखकर ललाट में तिलक-छापे लगाकर, गले में जनेऊ तथा पैरों में खड़ाऊँ पहनकर परस्पर पंडितजी-पंडितजी कहते और नमस्कार करते हुए अपने को पांचाल ब्राह्मण घोषितकर ब्राह्मण बन जाने के लिए सिर तोड़ परिध्रम कर रहे हैं। इनमें से कितने ही अपने को विश्वकर्मा की सन्तान होने के आधार पर विश्वकर्मा ब्राह्मण बतलाते तथा विश्वकर्मा की रथयात्रा निकालकर उनकी जयन्ती मनाते हैं। पर विश्वकर्मा शब्द दो अर्थों में प्रयुक्त होता है—(१) जगत्सृष्टा और (२) देवशिल्पी। यदि पहला अर्थ लिया जाए तो निःशेष मनुष्य जगत्सृष्टा की सन्तान होने से विश्वकर्मा ब्राह्मण और इसीसे बढ़ईयों के सजाति हो जाएँगे, जो नहीं हो

सकता । और यदि दूसरा अर्थ लिया जाए, तो देवशिल्पी विश्वकर्मा तथा उनकी स्त्री का वर्ण-निरूप होना चाहिए, जिससे उनकी सन्तान का वर्ण-निरूप हो सके । वर्णविवेक-चन्द्रिका के ३६वें श्लोक के आधार पर विश्वकर्मा ब्रह्मा के चरण से उत्पन्न होने के कारण शूद्र हैं और उनके पुत्र भी शूद्र हैं—

ब्रह्मणश्चरणज्ञे विश्वकर्मा प्रतापवान् ।

तस्यात्मजाश्चदुर्दर्शाः शूद्रवर्णोप्रतिष्ठिताः ॥ ३६ ॥

**अर्थ—** प्रतापी विश्वकर्मा ब्रह्मा के चरण से उत्पन्न हुए । और उनके दुर्दर्शपुत्र शूद्र वर्ण में रखे गए । दुर्दर्श वह है जिस पर आकर्मण करना कठिन है । दुर्दर्श—दुरतिक्रम । पुनः श्लोक ३७-३८ के अनुसार—

इन विश्वकर्मा ने मन्मथ गोप की प्रभावती नामक कन्या से विवाहकर उसमें मालाकार, कर्मकार, शंकुकार, कुविन्दक, कुंभकार और कंसकार, ये छः पुत्र उत्पन्न किए जो सभी शूद्र वर्ण में स्थित हैं । इसमें बढ़ियों का कहीं भी पता नहीं है और यदि उनका पता भी होता तो वे भी शूद्र वर्ण में ही रखे जाते ।

विष्णु-रहस्य के अनुसार विश्वकर्मा वैश्य है । जोतिभास्कर पृ० २०८, श्लोक ३० पद्धि—

अश्विनी धनिदो विश्वकर्मा विद्याधरादयः ।

वैश्यवर्णः पतितेषां धनदं व्यदधादरिः ॥ ३० ॥

**अर्थ—** दोनों अश्विनीकुमार, कुवेर, विश्वकर्मा और विद्याधरादि ये वैश्यवर्ण वाले हैं । भगवान् विष्णु ने कुवेर को इन लोगों का स्वामी बनाया ।

विष्णुपुराण, प्रथम अंश; अध्याय १५, श्लोक ११८-११ के अनुसार विश्वकर्मा आठवें वसु प्रभास के द्वारा देवगुरु वृहस्पति

की बहिन में उत्पन्न हुए लिखे गए हैं। ब्राह्मण-निर्णय, पृष्ठ ४०५,  
पढ़िए—

बृहस्पतेस्त्रु भगिनी वरखी ब्रह्मचारिणी ।  
योगसक्ता जगत्कृत्स्नमसक्ता विचरस्युत ॥  
प्रभासस्य तु भावां सा वस्त्रामष्टमस्य च ।  
विश्वकर्मा महाभागस्तस्यां जज्ञे प्रजापतिः ॥

अर्थ—बृहस्पति की बहिन सुन्दरी और ब्रह्मचारिणी थी। वह योग-यल से सब जगत् में धूमा करती थी। वह बसुओं में आठवें वसु प्रभास की ल्ली थी। उसके गर्भ से वड़े भागवाले विश्वकर्मा-नामक प्रजापति उत्पन्न हुए।

विष्णु-रहस्य के अनुसार प्रभास ज्ञात्रिय है। जातिमास्कर, पृष्ठ  
२०७, श्लोक ८० पढ़िये—

इन्द्रं प्रद्युम्नं चन्द्राकं वसु रुद्रादयोऽपरे ।  
मरुतः चत्रवर्णत्वाजजिरे चत्रजीविकाः ॥१०॥

अर्थ—इन्द्र, प्रद्युम्न, चन्द्र, सूर्य, वसु रुद्रादि तथा अन्य देवगण त्रित्रिव वर्ण होने से चत्र-जीविका वाले हुए।

अब प्रभास-पुत्र विश्वकर्मा का वर्ण-निर्णय कीजिए। प्रभास एक वसु होने के कारण ज्ञात्रिय है और उनकी ल्ली बृहस्पति की बहिन होने के कारण ब्राह्मणी हुई। अतः विश्वकर्मा ज्ञात्रिय पिता के द्वारा ब्राह्मणी माता में उत्पन्न होने के कारण मन्वादि धर्मशास्त्रकारों के मत से जातितः ‘सूत’ हुए जिसका काम रथ हाँकना है। देवशिल्पी विश्वकर्मा का ब्राह्मण होना कहीं भी लिखा नहीं मिलता। यदि वड़ई भाइयों के सन्तोष के लिए विश्वकर्मा को ब्राह्मण भी मान लें तो भी इन भाइयों का ब्राह्मण होना सिद्ध नहीं होता; क्योंकि विश्वकर्मा ने जिस ल्ली में वड़ईयों को उत्पन्न किया था वह रुद्रा थी।

और ब्राह्मण पिता द्वारा शूद्रा माता में उत्पन्न हुड़े सन्तान ब्राह्मण न होकर 'पारशव' होती है। जातिभास्कर, पु० १६४ तथा १६५ में उद्धृत बहाव० पुराण, ब्रह्मसंद, अथवाय १०, इलोक १६, २० और २१ पढ़िए—

विश्वकर्मा च शूद्रायां वीर्याधानं चकार सः ।

ततो बभूतः पुत्राश्च नवैते शिल्पकारिणः ॥ १६॥

मालाकारः कर्मकारः शंखकारः कुविन्दकः ।

कुमकारः कंसकारः पञ्चैते शिल्पिना वराः ॥२०॥

सूतधारश्च त्रकारः स्वर्णकारस्तथैव च ।

तास्ते ब्रह्मशापादवाज्या वर्णसंकराः ॥२१॥

**अर्थ—** विश्वकर्मा ने शूद्रा में वीर्याधान किया, जिससे शिल्पकर्मा ६ पुत्र उत्पन्न हुए। इन ६ शिल्पियों में मालाकार (माली), कर्मकार (लोहार), शंखकार (शंख की चीजें बनाने वाले), कुविन्दक (जुलाहा), कुम्हार और केसरा, (ठठोरा, तमेड़ा आदि) ये ६ थे। तथा सूतधार (बढ़ई), चितेरा और सोनार ये तीन ब्रह्मशाप के कारण पतित और अयाज्य वर्णसंकर हैं। जिनको यज्ञकर्म का अधिकार नहीं है वह अयाज्य है।

पहले जिन ब्राह्मणिएं बढ़ईयों आदि उपब्राह्मणों का उल्लेख हुआ है उनका इन विश्वकर्मा से कोई वंश का सम्बन्ध नहीं मालूम पड़ता, सिवा इसके इन लोगों ने विश्वकर्मा के वंशजों का पेशा अस्तित्यार कर लिया है। उनकी उत्पत्ति ब्राह्मणोत्पत्तिमार्त्तर्ण भूमि लिगपुराणोक्त शैवागम के आधार पर यो लिखी है कि ब्रह्मा के पुत्र स्वावंभुव मनु ने शिल्पायन, गौरवायन, कायस्थायन और मागधायन इन चार उपब्राह्मणों को उत्पन्न किया। इनमें शिल्पायन की सन्तान लोहार, सुतार (बढ़ई), पथरकट, तमेड़े, और सोनार हैं। पर शैवागम से किस ग्रन्थ का अभिग्राय है, यह ब्राह्मणोत्पत्ति-

मार्त्तरह में नहीं लिखा और लिंगपुराण में यह कथा नहीं मिलती। अब इसकी प्रामाणिकता अविश्वसनीय है। अनुमान होता है कि ब्राह्मणिए बढ़ई आदि मूलतः ब्राह्मण ही हैं; पर पुश्ट-दर-पुश्ट शिल्पियों का धन्वा करते चले आने से ब्राह्मणत्व से गिरकर उप-ब्राह्मण हो गये। ब्राह्मणिए बढ़ईयों और ब्राह्मणिए सोनारों की तरह ज्ञचिय बढ़ई और ज्ञचिय सोनार भी होते हैं जो मूलतः ज्ञचिय हैं। इसी प्रकार चमर बढ़ई भी होते हैं जो मूलतः चमार हैं।

अब यहाँ पर वैद्य जाति के विषय में कुछ लिखकर इस परिच्छेद को समाप्त करता हूँ। चिकित्सा करना इस जाति की जातीय जीविका है। वंगाल के वैद्य एक शिक्षित तथा प्रतिष्ठित जाति हैं,

वैद्य पर इस जाति का वर्ण-निर्णय करना कठिन है। शिर्ढा-विभाग के फामों में राजपूत, भूमिहार, कायस्थ और वैद्य छात्रों की इकड़े गिन-कर उनकी संयुक्त संख्या एक ही स्तम्भ में लिख देते हैं। इस जाति की उत्पत्ति कई प्रकार की लिखी मिलती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार ब्राह्मण की ज्ञी में अश्विनीकुमार से उत्पन्न हुआ पुनर्वैद्य कहलाया, जिसे खुद उन्होंने ही चिकित्सा-शास्त्र पढ़ाया। पर यह-कल्पद्रुम में लिखा है—

सत्यवैताद्वापरेषु युगेषु ब्राह्मणाः किल ।  
ब्रह्मज्ञचियविट्शूदकन्यका उपयेमिरे ॥  
तत्र वैश्यसुतायां ये जजिरे तनया अमो ।  
सर्वे ते मुनयः ख्याता वेदवेदांगपारगाः ॥  
तेषां मुख्योऽमृताचार्यस्तस्थावभ्वाकुर्वते हितत् ।  
अम्बष्ठ इत्यसावृक्तस्तनो जातिप्रवर्तनात् ॥  
परे सर्वेऽपिचाम्बष्ठा वैश्या-ब्राह्मण-संभवाः ।  
अथ रक्षप्रतिकारित्वाद् भिषजस्तेप्रकीर्तिः ॥

सत्ये वैश्याः पितुस्तुल्याक्षेतायां च तथा स्मृताः।  
द्वापरे जन्मवत् प्रोक्ता कलौ वैश्योपमाः स्मृताः॥  
अथाम्बष्ठेषु सर्वेषु विस्त्याता अभवन्नमी।  
सेनोदासधु गुप्तश्च दत्तोदेवः करोधरः॥  
राजः सोमश्च नन्दश्च कुंडश्चनन्दश्चरक्षितः।  
एषां वंशाः समुत्तन्ना एतत्पद्धतयो मताः॥

अर्थ—कहते हैं कि ब्राह्मण लोग सत्यादि तीन युगों में ब्राह्मणादि सभी वर्णों का कन्याओं के साथ विवाह करते थे। उनमें वैश्या खी से जो पुत्र उत्पन्न हुए वे सभी वेदवेदांगायाराग विस्त्यात सुनि हुए। उन पुत्रों में सुख्य अमृताचार्य हुआ जो अम्बा (माता) के कुल में रह जाने के कारण अम्बष्ठ कहलाया और उसी से जाति का प्रवर्तन होने से वैश्या-ब्राह्मण से उत्पन्न सभी लोग अम्बष्ठ और चिकित्सा करने के कारण वैद्य कहलाए। वैद्य जाति सत्य-युग और त्रेता में ब्राह्मण के, द्वापर में जन्मवत् के और कलि में वैश्य के तुल्य कही गई है। इस जाति में सेन, दास, गुप्त, दत्त, देव, करधर, राज, सोम, नन्द, कुंड, चन्द्र और रक्षित ये १३ वंश प्रसिद्ध हैं।

वंगाल के राजा आदि शहर और वल्लाल सेन इसी जाति के शिरोमणि थे। शम्द-कल्पद्रुम में आदि शहर को 'अम्बष्ठ कुल-संभूतः' और वल्लाल सेन को 'अम्बष्ठ कुलनन्दनः' लिखा गया है।

## अथ चतुर्थं परिच्छेद

# प्राचीन हिन्दुओं का स्वान-पान

इस परिच्छेद में प्राचीन हिन्दुओं के स्वाय पदार्थों पर विचार किया जाएगा। ऋग्वेद के अध्ययन से पता चलता है कि वेदिक काल में जौ और गेहूँ खेतों की मुख्य उपज और तत्कालीन हिन्दुओं के मुख्य स्वाय पदार्थ थे। वेदों में चावल का व्यवहार होना नहीं पाया जाता। उस काल के हिन्दु पक्षि (चपाती), पुरोडाश, अण्प, करंभ आदि नाना प्रकार की चीज़ें तैयार करके स्वाते थे। मास-भोजन भी उस काल में बहुत प्रचलित था और आधुनिक हिन्दू जनता यह जानकर चौंक उठेगी कि अन्य स्वाने योग्य पशुओं के मांस की तरह गोमांस भी स्वाय पदार्थों में सम्मिलित था। प्राचीन हिन्दुओं में गोमांस स्वाने के प्रचलन के विषय में, आगे चलकर विचार किया जाएगा; तब तक अन्य पशुओं तथा पक्षियों और मछली आदि जलचरों के भक्षण करने के विषय में, जिनका मांस आधुनिक हिन्दू भी स्वाया करते हैं, प्राचीन ग्रन्थों के आधार पर, पाठकों की जानकारी के लिए, कुछ विवरण दे देना अनुचित न होगा।

मनु ने अपनी स्मृति के पाँचवें अध्याय में भद्राभद्र्य पदार्थों भद्र्य मांस पर विचार करते हुए निम्नलिखित जन्तुओं के मांस भक्षण-योग्य बताए हैं—

पाठोनरोहितावाचीं नियुक्तौ हृष्यकव्ययोः ।

राजीवान् सिंहतुरडांश्च सशल्काश्चैव सर्वशः ॥१६॥

श्वाविधं शल्यकं गोधां स्वद्ग्रूर्मशशास्तथा ।

मद्यान् पञ्चनखेष्वाहुरनुष्ट्रैश्चैकतोदतः ॥१८॥

**अर्थ—**पाठीन (पीठिया) और रोहू मछली आद्य अर्थात् जाने योग्य कही है और हव्य (देवताओं के निवेद्य) और कव्य (पितरों के पिण्ड-दान) में विहित है। इसी प्रकार राजीव (मत्स्य-मेद), सिंहतुरड (एक प्रकार की मछली), तथा सभी छिलके (चोयटे) दार मछुलियाँ मन्त्रण-न्योग्य हैं ॥१८॥ साही, सेइ (एक प्रकार का कौटिदार जंगली जानवर), गोइ, गोड़ा, कलुआ और खरगोश इनको पञ्चनखों में और एक और दाँतवालों में ऊँट को छोड़ और सभी जन्तु मद्य हैं ॥१८॥

**नोट—**एक और दाँत होने के कारण गाय, वैल, साँड़, बकरा, मैड़, हरिण आदि सभी मन्त्रण योग्य हो गए। 'राजीव' शब्द के अर्थ है कमल, हाथी, मृग विशेष, मत्स्य-मेद और सारस पक्षी; प्रसंगानुसार अर्थ कीजिए।

तत्पश्चात् इन विविध जन्तुओं के मासों को किस विधि से मन्त्रण वा वर्जन करना चाहिए, इस विषय में वे अपनी सम्मति इस प्रकार देते हैं—

प्रोक्षितं भन्तयेन्मासं ब्राह्मणानां च काम्या ।

यथाविधि नियुक्तस्तु प्राणानामेव चात्यये ॥२५॥

यज्ञाय जरिवर्मासस्येत्येष दैवो विधिः स्मृतः ।

अतोऽन्यथाप्रवृत्तिस्तु राज्ञसो विधिरुच्यते ॥२६॥

कोत्वा स्वयं वाप्युत्पाद्य परोपकृतमेव वा ।

देवान् पितृंश्चार्चयित्वा खादन्मासं न दुष्यति ॥२७॥

यज्ञार्थं पशवः सृष्टाः स्वयमेव स्वयं सुवा ।

यज्ञस्य भूत्यै सर्वस्य तस्माच्च वधोऽवधः ॥२८॥

श्रीष्वध्यः पशवो वृक्षात्तिर्यङ्कः पन्निरणस्तथा ।

यज्ञार्थं निधनं प्राप्ताः प्राप्नुवन्त्युल्तीः पुनः ॥२९॥

मधुपके च यज्ञे च पितृदेवत कर्मणि ।  
 अवैय पश्चो हिस्या नान्यत्रेत्यब्दीन्मनुः ॥४१॥  
 या वेदविहिता हिंसा नियताऽस्मिंश्चराचरे ।  
 अहिंसा-मेव तां विद्यादेदादम्भो हिनिर्वभी ॥४४॥

**आर्थ**—यज्ञ के अंगीभूत पूजित पशु का मांस भक्षण करे । प्राणान्त होता हो तो ब्राह्मणों की आज्ञा देने पर नियम के साथ एक बार मांस भक्षण कर ले ॥२७॥ यज्ञ के लिए मांस का खाना देव विधि कही गई है और इससे अन्यथा अर्थात् विना यज्ञ के मांस खाना राक्षस-विधि कही जाती है ॥३१॥ मोल लेकर या अपने से उत्पन्न करके अथवा और किसी का लाकर दिया हुआ मांस देवताओं तथा पितरों को देकर शेष खाय तो पुरुष दोष को नहीं प्राप्त होता ॥३२॥ यज्ञ की सिद्धि के लिये प्रजापति ने स्वयं ही पशु उत्पन्न किये हैं और यह अर्थात् अपिन में डाली हुई आहुति इस समझ जगत् की वृद्धि के लिये होती है; अतः यज्ञ में जो वध है वह वध नहीं है ॥३६॥ ओषधी, पशु, वृक्ष, पड़कर चलने वाले जन्मु जैसे कल्युए आदि तथा पक्षी यज्ञ के लिये नाश को प्राप्त होकर जन्मान्तर में उत्तम यंनि में उत्पन्न होते हैं ॥४०॥ मधुपक्ष में तथा ज्योतिष्ठोम आदि पितृ एवं देव कर्म में ही मांस भक्षियों की पशु मारने योग्य है; अन्यत्र नहीं, ऐसा मनु ने कहा है ॥४१॥ कर्मविशेष तथा देशकालादि के द्वारा जो नियमित और वेदविहित हिंसा है उसे इस चरचर जगत् में अहिंसा जाने; क्योंकि वेद उसको अहिंसा कहता है और वेद से ही सब धर्मों का प्रकाश होता है ॥४४॥

**पुनः** उक्त प्राणियों के मांस क्यों भक्षण करने चाहिए, इसकी कैफियत मनु यह देते हैं—

प्राणस्थ्यान्मिदसर्वं प्रजापतिरकल्ययत् ।  
 स्थानरं जंगमं चैव सर्वं प्राणस्य भोजनम् ॥२८॥

चराणामन्नमचरादेष्टिरामायदंष्ट्रिणः ।  
अहस्ताश्च सहस्तानो शुराणा चैव भीरवः ॥२६॥  
नासादूष्यत्यदभावान् प्राणिनोऽहन्यहन्यपि ।  
धात्रैवसुष्टाहावाश्च प्राणिनोऽत्तार एव च ॥३०॥

अर्थ—प्रजापति ने ये सब खाने योग्य पदार्थ शरीरान्तर्गत भोक्ता जीव के लिये बनाये हैं। पशु आदि जंगम तथा धान्य जै आदि स्थावर, वे सभी पदार्थ उस जीव के भोजन हैं, अतः जीव रक्त के लिये मांस खाना चाहिये ॥२६॥ जंगमों ( हरिण आदिको ) के अन्तर ( तुण, घास आदि ); दाढ़वालों ( बाघ आदिको ) के चिना दाढ़वाले ( हरिण आदि ); हाथ वालों के चिना हाथ वाले ( मछली आदि ) और शहरों ( सिंह आदिको ) के डरपोक ( हाथी आदि ) भद्र्य हैं। विधाता की सुषिट ऐसा ही है ॥२६॥ खाने योग्य प्राणियों को प्रतिदिन खाता हुआ भी मनुष्य ( वा कोई अन्य मच्छक ) दोषी नहीं होता; क्योंकि विधाता ने ही भद्र्य और मच्छक बनाये हैं ॥३०॥

मनुस्मृति के उक्त उद्दरण्ठों से स्पष्ट है कि मनु विशेष जीवों के मांस खाने की व्यवस्था तो देते हैं; पर वहाँ वे दो प्रतिबन्ध लगा देते हैं—(१) चिना देवताओं और पितरों को समर्पण किये मांस नहीं खाया जाए और २) चिना ऐसे आपत्तिकाल के उपस्थित हुए, जब आहाराभाव वा किसी व्याधि के कारण प्राणान्त होता ही, मांस नहीं खाना चाहिये ।

‘मधूनां मधुरसात्मकानां द्रव्याणां पक्वों योग्यायस्मिन्सः’ अर्थात् विसमें मधुर द्रव्यों का योग हो वह मधुपर्क है। यह दही, घी, जल, शहद और चीनी के योग से बनता है।

इस प्रकार मांस के भक्षण और वज्रजन की विधि तथा अप्रोक्षित एवं अनापत्तिकालिक प्राणि-वध और तन्मांस भक्षण के विविध कुफल बतलाकर मनु मांस भक्षण विषयक अपना अन्तिम फैसला (निर्णय) यो देते हैं—

न मांस भक्षणे दोषो न मद्ये न च मैथुने ।

प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला ॥५६॥

अर्थ—न मांस भक्षण में दोष है; न मद्यपान में दोष है और न मैथुन में दोष है; क्योंकि यह तो प्राणियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति (धर्म) है। परन्तु शुभाशुभ कर्मों का परिणाम देखकर मनु कहते हैं कि इन मांस भक्षण आदि कर्मों का परित्याग तो अत्युत्तम फल का देनेवाला है। अतः विहित मांसादि का भी त्याग करना परम गुलदायक है।

वहाँ तक तो मनु के अनुसार आमिष-भोजन पर सामान्य रूप से विचार हुआ। अब यहाँ पर उन्हीं के अनुसार यह बतलाया जाता है कि शास्त्र में किन-किन प्राणियों के मांस पितरों को अपेणु करने से वे कितने-कितने समय तक तृप्त रहते हैं। इसके लिये मनुस्मृति का तीसरा अध्याय पढ़िये—

तिलौत्रीहियवैमांथिरदिममूलफलेन वा ।

दत्तेन मासं तृप्यन्ति विधिवत् पितरो नृणाम् ॥२६७॥

द्वौ मासीं मत्स्यमासेन त्रीन्दमासान् हारिणेन तु ।

श्रीरघ्रेणाथ चतुरः शाकुनेनाथ पञ्चवै ॥२६८॥

एड्मासांश्चाग मासेन पाष्ठेन च सप्तवै ।

अध्टावेणस्य मासेन रौरवेण नवैवतु ॥२६९॥

दश मासांतु तृप्यन्ति वराह महिषामिषैः ।

शशकृमयोस्तुमासेन मासानेकादशैव तु ॥२७०॥

संवत्सरं तु गव्येन पश्यसा पाष्ठेन च ।

वार्षिक सत्य मसिन तृष्णिर्द्वादश वार्षिकी ॥२७१॥

कालशाक महाशलकाः खड्गलोहामिष मधु ।

आनन्दयायैव कल्प्यन्ते मुन्यन्नानि च सर्वशः ॥२७२॥

शर्थ—तिल, धन्य, जौ, काले उड्डर, जल, मूल और फल, इनमें से कोई एक वस्तु विधि के साथ अद्वापूर्वक पितरों को अर्पण करने

से वे एक मास तक तृप्त रहते हैं ॥२६७॥ पाठीन और  
श्राद्ध में प्राह्यमास रेहित आदि मछुलियों के मांस से दो मास तक,

हरिग के मांस से तीन मास तक, मैड के मांस से चार मास तक, और भन्द्य पक्षियों के मांस से पाँच मास तक वे तृप्त रहते हैं ॥२६८॥ छाग मांस से छः मास तक, घब्बेदार हरिशा के मांस से सात मास तक, एण (हरिग-विशेष) के मांस से आठ मास तक और रुह (मुग-विशेष) के मांस से नव मास तक वे तृप्त रहते हैं ॥२६९॥ सुअर और मैसे के मांस से दस मास तक, सरगोश और कलुए के मांस से ग्यारह मास तक पितर लोग तृप्त रहते हैं ॥२७०॥ गौ के दूध तथा उसमें पकाए खीर से, एवं वार्दीगुस के मौस से बारह वर्ष तक उनकी तृष्णि होती है ॥२७१॥ जिस बूढ़े नफेद छाग के जल पीते समय दोनों कान और जीभ, ये तीन अंग, जल का स्वर्ण करे उसको वार्दीगुस (त्रिपिव कहते हैं । कालशाक (एक प्रकार की साग), महाशलक (एक प्रकार की वही मौगा मछुली जो समुद्रों में पाई जाती है और जिसको गोड़रा मछुली भी कहते हैं), गेहे तथा लाल रंग के स्वस्त्री का मांस, मधु और नीवार आदि धान्य, इन सब वस्तुओं से पितरों को अनन्त काल के लिये तृष्णि-सुख प्राप्त होता है ।

ये तो हुए आमिष-भोजन के विषय में मनु के विचार । अब धन्य धर्मशास्त्रों के भी विचार जो प्रायः मनु के ही सरीखे हैं सुन लीजिये । महर्षि शंख लिखते हैं—

राजीवाः सिंहतुंडाश्च सशालकाइचतथैवच ।

पाठीनरोहितौचापि मद्या मत्स्येषु कर्तिताः ॥१७१२४॥

**अर्थ—**राजीव (मत्स्य-मेद), सिंहतुंड (एक प्रकार की मछुली) तथा चोयटेवाली मछुलियाँ, एवं पोठिया और रोहू मछुलियों में मद्य कहे गये हैं। पुनः वे उसी प्रसंग में लिखते हैं—

भृष्टाः पञ्चनखास्त्वेते, गोधाकच्छुपशालकाः ।

खड्गश्च शशाकश्चैव तान्हत्वा च चरेद्वतम् ॥१७१२५॥

**अर्थ—**गोह, कछुआ, साही, मैड़ा और स्वरगोश, पञ्चनखों में ये मद्य हैं। इन्हें व्यर्थ (अर्थात् यज्ञादि के निमित्त नहीं) मारने पर बताये बत को दोष निवृत्ति के लिये करे। यज्ञवल्मीय कहते हैं—

मद्याः पञ्चनखाः इवाविद्गोधाकच्छुपशालकाः

शशश्चमत्स्येष्वपितु सिंहतुंडकरोहिताः ।

तथा पाठीनराजीवसशालकाइच द्विजातिमिः ॥

आचाराध्याय श्लोक १७३-७८

**अर्थ—**पञ्चनखों में साही, गोह, कछुआ, सेह और स्वरगोश तथा मछुलियों में, सिंहतुंड, रोहू, पोठिया, राजीव तथा चोयटेवाली मछुलियाँ द्विजातियों के लाने योग्य हैं। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं—

इवाविच्छुल्लक शशाकच्छुप गोधाः पञ्चनखा नामद्या अनुष्टुपः पश्चानामन्यतोदन्तश्च मत्स्यानां वा वहशवयः शिशुमार नक कुलीरा अविकृतरूपाः सर्पशीर्पश्च गौर गवय शलभाइचानुदिष्टास्तथा । वेन्वनड्वाहैमेष्योवाजसनेषने । खड्गोतु निवदन्ति ग्राम्यशूकरे च इत्यादि ॥ अध्याय १४॥

**अर्थ—**साही, सेह, स्वरगोश, कछुआ और गोह, ये पाँच नखवाले पशु अमद्य नहीं हैं। ऊँट के अतिरिक्त अन्य पशु भी जो एक तरफ दौत नाले हैं, अमद्य नहीं हैं। मत्स्यों में वह (दरियाई नील गाय) शिशुमार (संगमाही), नक, केकड़ा तथा वे जिनका आकार बुरा

नहीं है और वे जिनका सिर सर्पि के समान है अभद्र्य नहीं है। इसी प्रकार गोरे पक्षी, टिड़ी और जिनको मना नहीं किया है वे अभद्र्य नहीं हैं। वाजसनेय मत में गाय और बैल भी पवित्र अर्थात् भद्र्य हैं। गेड़े और ग्रामसूकर के विषय में शूष्पिगण विवाद करते हैं अर्थात् कोई इन्हें भद्र्य तथा कोई इन्हें अभद्र्य बतलाते हैं इत्यादि।

महर्षि व्यास लिखते हैं—

नाश्नीयाद् ब्राह्मणो मांसमनियुक्तः कथंचन ।

कतौशाद् नियुक्तोवा अनश्नन् पतति द्विजः ॥३१५५॥

मृगयोपार्जिर्जंतमांसमध्यर्थं पितृदेवताः ।

ज्ञत्रियो द्वादशांशं च क्रोत्वा वैश्योऽपि धर्मतः ॥३१५६॥

अर्थ—शाद्वादिकों में विना नियुक्त हुए ब्राह्मण मांस-भोजन कदापि न करें; पर यह वा शाद् में नियुक्त होकर ब्राह्मण यदि मांस-भोजन न करे तो वह पतित होता है। ज्ञत्रिय मृगया (शिकार) करके लाए हुए मांस से पितरो और देवताओं को पूजकर आप भी भोजन करें और उसके बारहवें भाग को मोल लेकर यदि वैश्य भी खा ले तो धर्म ही है। अब यहाँ पर पाठकों की जानकारी के लिए अभद्र्य मांस उन पशुओं, पक्षियों, तथा मछलियों के नाम बताएं जाते हैं जिन्हें हमारे स्मृतिकाग्रों ने अमेघ तथा अभद्र्य कहे हैं—

कव्याद् (बचा मांस खानेवाले जन्तु, जैसे गिर्द आदि), कबूतर आदि गाँव के पक्षी, मना किए हुए एक सुखवाले पशु जैसे गधा आदि, टिटिहरी पक्षी, कलदिक (गौरवा), प्लव (एक प्रकार का चत्क), हंस, चकवा, गाँव का मुर्गा, सारस पक्षी, रञ्जुवाल (एक जंगली पक्षी) पैरेया, तोता, मेना, चोच से खुरच-खुरचकर, नोच-नोचकर खानेवाले पक्षी जैसे बाज आदि, जालपाद (जिनके पैर में महीन खाल का

जाल होता है जैसे वत्तक आदि ) कोयषि (सारस-मेद), लखविष्ठिर (जो चंगुल वा पंजे से खुरच-खुरचकर स्वाते हैं जैसे मुर्गा आदि) जो जल में गोते लगाकर मछुलियों को स्वाते हैं, जैसे पनडुब्बी आदि, शौन (वध-स्थल में रखा हुआ मांस), सूखा मांस, बगला, बलाका (सारस-मेद), काकोल (काक-मेद), खंजरीट, मछुली स्वानेवाले पशु-पक्षी, विषा स्वानेवाला सुअर, सभी मछुलियाँ (सिवा उनके जो निर्दिष्ट हैं), एकन्नर (अकेले विचरनेवाले जैसे साँप आदि), जो जाने हुए पशु-पक्षी, गधा, गोवेय, हाथी, ऊट, मद्गुरक (मागुर मछुली, काक, मेडक, साँप, कोक, (चक्रवाक-मेद), रक्षपाद (शुक-मेद) तित्तिर, लवा, कपिंजल (चातक), भास (गद्द-मेद), नक्कन्नर (रात को उड़नेवाले जैसे उल्लू, चमगादर आदि), कटफोडवा, हारिल, कोवल इत्यादि कहाँ तक गिनाए जाएँ। जो जन्तु भद्र और मेघ चताये गये हैं उन्हें छोड़कर शेष सभी को अभद्र और अमेघ मानना चाहिये।

स्मृतियों के अध्ययन से पता चल गया कि हमारे धर्मशास्त्र-कारों ने स्पष्ट शब्दों में मांस-भोजन करने के लिए आशा दी है; पर वहाँ एक यह अङ्गालगा लगा दिया है कि केवल उन्हीं भद्र पशुओं का मांस खाया जाय जिन्हें यज्ञों में देवताओं, एवं भाद्रों में पितरों के लिए बलि स्वरूप चढ़ाया गया हो; यों तो आपत्तिकाल में, जैसे आहाराभाव तथा रोग आदि में, विना देवताओं तथा पितरों के चढ़ाए हुए भी मांस को खा सकते हैं। आपत्तिकाल का तो अभिप्राय समझ में आ जाता है; पर देवताओं तथा पितरों का प्रसाद-स्वरूप मांस-भोजन करने का मतलब समझ में नहीं आता। कोई-कोई पंडित यह कहा करते हैं कि मन्वादि स्मृतिकारों का अभिप्राय पूर्व भीमांश की परिमाणव्या विधि के अनुसार 'निवृत्तिस्तु महापला' में है; अर्थात् जो नित्य मांस खाते हैं और भद्राभद्र मांस का विचार नहीं करते, उनकी

मांस-भज्जण-प्रवृत्ति को धीरे-धीरे कम कर देने के लिए यश आदि का अङ्ग लगा दिया गया है। तथा किन्हीं-किन्हीं पंडितों का यह भी मत है कि ये सब मांस-भज्जण अथवा मदा-पान का अनुमोदन करने वाले विचार हमारे पवित्र ग्रन्थों में वाममार्गियों के द्वारा स्वमत की पुष्टि में प्रक्षिप्त किए हुए हैं। वाममार्गियों पर जो दोषारोपण किया जाता है उस पर विचार तो आगे चलकर किया जाएगा; तब तक हम लोग यह देखें कि मन्वादिकों के द्वारा लगाए हुए यश आदि अङ्गों का कुछ भी फल हुआ कि नहीं; आमिष-लोलुप मनुष्य मांस-भज्जण की कुटेव से धीरे धीरे निवृत्त होकर ठांक रास्ते पर आ गया कि नहीं। हिन्दू समाज के निर्माण तथा उक्त घम्मंग्रन्थों की रचना के समय से आज तक कई सहस्राब्दियाँ चाल गईं, पर यह समाज आज भी प्राचीन काल की ही तरह मांस-भज्जकों तथा मदापों से ज्वां का त्यों भरा हुआ है। हिन्दू जनता पर 'निवृत्तिस्तु महाफला', इस दिव्य उपदेश का कुछ भी असर न हुआ। यदि भाव्यवरा किसी एक ने मांस खाना छोड़ा तो अनेक ने उसकी कमी पूरी की जिसका फल यह हुआ कि कपोल-कल्पित देव-देवियों के नाम पर मूक तथा निरीह पशुओं की हत्या आज तक अबाध-रूप से चल रही है। रामनवमी, विजयादशमी और आवणनवमी जैसे देश-व्यापी त्योहारों के अवसर पर, जिनका महात्म्य हमारे पवित्र मन्त्र मुक्त कंठ से गाते हैं, काली-बाट (कलकत्ता), विन्ध्याचल आदि प्रसिद्ध तीर्थस्थानों के बीमत्स तथा भयानक दृश्य देखकर रोगटे लड़े हो जाते हैं। खड्ड-खण्डर-धारिणी, मुखविनिःस्तकरालरसना, कोधारक भवंकरात्मा तथा काली-कलूटी कालीमाता के प्रसादनाथ छिन्न-शिरस्क बकरों के धरणीमाता का पवित्र गोद में मृत्यु-योड़ा से छूटपटाते हुए रक्त में झबे लोथड़ों का देखकर किस विचारवान् मनुष्य का हृदय नहीं कौप उठता? मनु को जान लेना चाहिये था इक वे जिस मुँह से 'यज्ञार्थ' पश्चदः सद्याः

(यज्ञ के लिए ही पशु बनाये गये हैं), 'तस्माद् यज्ञे वधोऽवधः' (अतः यज्ञ में वध वध नहीं है), 'सर्वं प्राणस्य भोजनम्' (सभी पदार्थ जीव के भोजन हैं), 'अहिंसा मेव तो विद्यात्' (वेदविहित हिंसा को अहिंसा ही जाने) आदि हिंसोत्तेजक तथा मांस-भक्षियों के प्राप्तसाहक वचन निकाल रहे हैं, उसी मुँह से निकले हुए 'निवृत्तिस्तु महाफला' रूपी आत्मविरोधी (Self Contradictory) वचन का मूल्य ही कितना होगा ? उनको समझना चाहिए था कि मानव प्रकृति में जो 'शुद्धि' का अंश है वह एक कठोर नियंत्रण में सर्वदा रखने योग्य है; क्योंकि नियंत्रण की बागडोर में थोड़ा भी शैयित्य अपनी प्रकृति का मयं-कर प्रदर्शन करने लगता है। अहिंसा-ब्रत की दीवार की जड़ में स्वयं एक गहरी स्वाई स्वोदकर भी उसके स्वडे रहने की आशा करना मानो किसी बन्ध्या खो के गर्म से पुत्रल की प्राप्ति की आशा करना है और यह भ्रान्तिपूर्ण आत्म-विडम्बना है। यदि उनकी राय में मांस से निवृत्ति ही महाफलप्रद थी, तो उन्हें उचित था कि वे अपना सारा यत्न जीवहिंसा तथा मांस-भक्षण के नियेष पर ही लगाते और किसी भी हालत में, चाहे यज्ञ हो वा आद्व, उक विगर्हित कर्मों के करने की आज्ञा न देते। इस दिशा में उनके चूक जाने से अहिंसा-धर्म के प्रचार का सारा अद्य गौतम और महावीर को आगे चलकर मिला।

अब यहाँ प्राचीन हिन्दुओं में गोमांस भोजन के प्रचलित होने की बात भी लिखना है जिसमें वर्तमान हिन्दू जनता को भली-भाँति मालूम हो जाए कि गोमांस भोजन आज की तरह प्राचीन काल में हिन्दुओं के यहाँ 'शापथ' न थी। मन्वादि धर्मशास्त्रकारों ने भद्रयामद्य प्राणियों की सून्ती बतलाते हुए एक तरफ दाँतवालों में केवल ऊँट को ही अभद्र बताया है ! अतः इससे यह घनि निकलती है कि एक और दाँतवाले अन्य पशु जैसे गाय, बैल, बकरा, भेड़ आदि भद्र हैं। इस प्रसंग में महर्षि वशिष्ठ के वचन को उद्धृत

करते हुए पहले लिखा गया है कि “धेनवनड्वा हीमेध्यीवाजसनेयने”

आर्थित् वा जसनेय के मत में गाय और वैल मेध्यभद्र्य

**गोमांस** है। आर्थ्य जाति किसी शीतप्रधान देश की रहने-

वाली भी जैमा कि प्राचीन ग्रन्थों में वर्णित उनके

आकार वर्णन से मालूम होता है और भारत में आया हुआ उन्हीं का

एक जल्दा हिन्दू-संस्कृति तथा हिन्दू-सम्यता का आदि जन्मदाता था। वे

अपने साथ गाय, वैल, भैत, वकरा, भेड़ आदि धरेलू पशु बराबर

रखते थे। शीतप्रधान देश कृषिप्रधान नहीं होता; कारण कि वर्ष के

वृष्टिक भाग में पृथ्वी बर्फ से ढकी रहती है जिससे कृषि-कार्य सुचारू

रूप से नहीं चलता और अब की कमी रहती है। अतः हिन्दुओं के

पूर्वज प्राचीन आर्थ्य अन्न की कमी तथा शीताधिक्य के कारण अन्य

भद्र्य पशुओं के मांस की तरह यदि गोमांस भी साते रहे हो और

इस आदत को आपने साथ ही भारत में भी ले आये हों तो इसमें

आश्चर्य ही क्या है ! और भारत जैसे नातिशीतोष्ण तथा कृषिप्रधान

देश में आने पर जब उन्हें कृषि-कार्य के लिए गोजाति की नितान्त

उपयोगिता तथा गोमांस भोजन की स्वास्थ्य की दृष्टि से नितान्त हानि-

कारिता के साथ-साथ अनावश्यकता भी मालूम हुई तो गोमांस के

ब्यवहार का सर्वथा निषेध कर दिए हों, तो इसमें भी कोई आर्थ्य

नहीं है। इसके अतिरिक्त एक और भी बात विशेष रूप से कहने के

योग्य है। हमारे पूर्वज प्राचीन भारतीय आयों के ही भाइ-बन्युओं का

एक दूसरा जल्दा यूरोप में जा चसा जिनके बंशधरों में, जो जम्मन,

अंग्रेज, फ्रेंच, नार्वेजियन आदि विविध वर्तमान यूरोपीय जातियाँ

हैं, अपने पूर्वजों की तरह गोमांस भोजन की परिपाठी शीताधिक्य

तथा अन्न की कमी से ही आज तक नहीं कूट सकी। अतः कोई

कारण नहीं देख पड़ता जिससे यह भान लिया जाए कि हमारे पूर्वज

उक्त सामान्य तथा व्यापक परिपाठी के अपवाद थे।

प्राचीन हिन्दुओं में गोमांस भक्षण का एक सुस्पष्ट तथा लाक्षणिक (Typical) उदाहरण हमें 'वादिप्रतिभ्वानि निर्णयितोऽर्थः सिद्धान्तः' (वादी और प्रतिवादी के द्वारा परस्पर शास्त्रार्थकर ठीक किया हुआ अर्थ—सिद्धान्त होता है) की तरह महाकवि भव-भूतिकृत उत्तर रामचरित नामक नाटक-अन्थ के चौथे अंक के विष्कंभक में मिलता है जब तथाकथित इश्वरावतार सूर्यकुल-प्रदीप महाराज श्रीरामचन्द्र जी के कुलपूज्य महार्थ वशिष्ठ ने तपस्वि-पुंगव तथा आदिकवि महार्प्त वाल्मीकि के आश्रम में मधुपक्क के साथ वाल्मीकि की दी हुई वस्तरी भी भोजन में स्वीकार कर लिया। इसके सम्बन्ध में वाल्मीकि के सौधातकि और भी नामक दो छात्रों के परस्पर वार्तालाप पढ़ने और मनन करने यह है—

सौधातकि— तो मार्णवाच्चण ! कि गामधेश्व्रो एसो महन्तस्स त्यचि-  
रसत्थस्स धुरन्धरो अज्ज अदिधी आश्रदो ।

अर्थ—अरे मार्णवाच्चण ! बूढ़े और बुढ़ियों के एक बड़े भारी जमात का सुखिया बनकर आज आए हुए इस अतिथि का क्या नाम है ?

मार्णवाच्चण—धिक् प्रहसनम् ! नन्ययमृष्यशृणुगामादरुन्धतीयु-  
रस्त्वतान् महाराज दशरथस्य दारानधिष्ठाय भगवान् वशिष्ठः ग्रातस्तत्  
किमेव प्रलपसि ?

अर्थ—धिकार है (तुम्हारे) हँसी उड़ाने पर ! अरे नृष्यशृणुग के आश्रम से अरुन्धती को आगे किए हुए महाराज दशरथ की रानियों को लेकर यह भगवान् वशिष्ठ पहुंचे हैं। अतः क्यों ऐसा बक्ता है ?

सौधातकि—हुँ वसिष्ठो !

अर्थ—हुँ ! तो वशिष्ठ आए हैं !

मार्णवाच्चण—अथ किम् !

अर्थ—नहां तो और क्या !

सौधातकि—मण उण जाणिएं वग्धो वा विओवाएसोचि ।

अर्थ—मैं तो समझता या कि यह कोई वाष वा भेड़िया है ।

भांडायन—आः किमुक्तं भवति ?

अर्थ—अरे यह क्या कहता है ?

सौधातकि—तेण प्राचार्दिदेण उजेव सा वराइया कल्लागिया मङ्ग  
मङ्गाइदा ।

अर्थ—आजी वे आते ही उस विचारी कल्याणिका ( बछिवा ) को  
चट कर गए ।

भांडायन—समांसो मधुपर्क इत्याम्नायं वहुमन्यमानाः; ओत्रिया-  
भ्यागताय वत्सरी महोक्तं महाजे वा निर्वपन्ति गद्यमेधिनः; तं हिधम्म-  
सूत्रकाराः समामनन्ति ।

अर्थ—मधुपर्क मांसयुक्त होना चाहिए, इस वेद न का बहुत  
सम्मान करते हुए यहस्थगण अतिथिभूत ओत्रिय के लिए गाय को  
बछिया वा बड़ा वैल अथवा बड़ा बकरा प्रदान करते हैं । इस वेद-  
वचन को धर्मसूत्रों के रचनेवाले भी अच्छी तरह मानते हैं ।

सौधातकि—भो ! गिगि ही दोऽसि ।

अर्थ—अरे ! तू हार गया ।

भांडायन—कथमिव ?

अर्थ—सो कैसे ?

सौधातकि—जेण आश्रदेषु वसिष्ठ मिस्तेसु वच्छदरी विसिदा;  
आश्रजेय पञ्चागतस्य राष्ट्रियो जगाश्रस्त मश्ववदा वल्मीएण विहरि-  
महू हिज्जेव गिन्वत्तिदो मदुवक्तो, वच्छदरी उण विसिजदा ।

अर्थ—क्योंकि महर्षि वशिष्ठ के आने पर तो बछिया मारी गई;

आज ही आए हुए राजर्षि जनक को भगवान् वाल्मीकि ने केवल  
अब मधु का ही मधुपर्क दिया है; बछिया रहने दी है ।

**भांडायन** — अनिवृत्तमांसानामेवं कल्यमृषयो मन्यन्ते, निवृत्तमांस स्तुतत्र भवान् जनकः ।

**अर्थ**—जो मांस से निवृत्त नहीं है अर्थात् जो मांस भोजन करते हैं उन्हीं के लिए शृणिगण ‘समांसोमधुपकः’ इत्यादि, इस विधि को मानते हैं । जनकजी तो मांस से निवृत्त है ।

**सौधातकि**—कि गिमित्तम् ।

**अर्थ**—सो क्यों ?

**भांडायन**—सतदैव देव्याः सीतायास्तादशं देवदुर्विषपाकम् सुपश्रुत्य वेखानसः संवृत्तः । तथास्य कतिपये सम्बत्सराश्चन्द्रद्वीपतपोवने तपस्तप्य-मानस्य । ( अतीता इति शेषः )

**अर्थ**—जब से उन्होंने सीतादेवी के पति द्वारा परित्याग रूपी दुर्भाग्य को सुना है तभी से वे वाणप्रस्थी हो गये हैं । नन्दद्वीप में तप करते-करते उनके कई वर्ष बीत गये ।

इस सौधातकि-भांडायन-संबाद को अधिक बढ़ाने की ज़रूरत नहीं । ‘उत्तर रामचरित’ है तो केवल एक नाटक ग्रन्थ; पर याद रखना चाहिये कि यह भवभूति जैसे एक प्रकाशड विद्वान् के मस्तिष्क का अनुपम उद्गमार है । नाटक का नाटकत्व इसी में है कि वह सम्बन्धित समाज का एक सच्चा प्रतिविम्ब बनकर उस समाज के आचार-विचार, रीति-रस्म, स्वानन्दान आदि विविध विशेषताओं को एक स्वच्छ दर्पण की तरह कलका दे । अतः भवभूति<sup>॥</sup> की

भवभूति ने तीन नाटक लिखे हैं—महाबीर-चरित, मालती-माधव और उत्तर रामचरित । इन तीनों में उत्तर रामचरित ही सर्वोत्कृष्ट है; अतः विद्वानों की सम्मति में “उत्तरे रामचरिते भव-भूतिर्विशिष्यते” अर्थात् ‘उत्तर रामचरित लिखने में भवभूति ने विशेष योग्यता दिखलाई है ।

आऊँगी, तो मैं सुरा (शराव), मांस आदि विविध पूजन द्रव्यों तथा अन्य नैवेद्यों से आदर के साथ तुम्हारा पूजन करूँगी । पुनः उसी रामायण के आरण्य-काशड, आठवें सर्ग में इलोक ३८ और ३९ पद्धिएं जहाँ रामचन्द्र ने दिवंगत जटायू का आद्र किया है—

स्नात्वा दुःखेन रामोऽपि लक्ष्मणेन समन्वितः ।  
हस्ता बने मृगं तत्र मांसखंडान् समन्ततः ॥३८॥  
शाद्वले प्राक्षिपद्रामः पृथक् पृथग्नेकधा ।  
भञ्जन्तु पक्षिणः सर्वे तृष्णोभवतु पक्षिराट् ॥३९॥

अर्थ—रामचन्द्र ने जटायू का दाहकर्म करके बहुत दुःखित होकर लक्ष्मण के साथ स्नान किया और उस बन में मृग को मारकर उसके मांस के टुकड़ों को तमाम हस्तियाली पर अलग-अलग विस्तेर दिया जिसमें सब पक्षी खाएँ और पक्षिराज जटायू तुम हो जाएँ ॥

महर्षि वाल्मीकि भी अपने रामायण में गंगा के प्रति सीता की प्रार्थना तथा रामचन्द्रकृत जटायू के आद्र के सम्बन्ध में ऐसा ही विवरण देते हैं । सीता की प्रार्थना विषयक विवरण जानने के लिए आर्थ (वाल्मीकीय) रामायण, आयोध्या-काशड, सर्ग ५२, इलोक ८८ पद्धिए—

सुराघट सदस्तेण मांस भूतौदनेन च ।  
यक्ष्ये त्वां प्रीयतां देवि पुरीं पुनरुपागता ॥

अर्थ—सीताजी कहती है कि हे गंगे ! यदि मेरे पतिदेव मेरे और अपने भाई लक्ष्मण के साथ बनवास से सकुशल लैंट आयेंगे, तो मैं अपनी नगरी में पहुँचकर मदिरा के हजारों घड़ों तथा मांस-मिश्रित भात से तुम्हारी पूजा करूँगी । हे देवि ! तुम प्रसन्न होओ ।

जटायू का आद्र विषयक विवरण जानने के लिए पुनः वही रामायण, आरण्य-काशड, सर्ग ६८, इलोक ३२ और ३३, पद्धिए—

रामोऽपिसहसौमित्रिवं यात्वा सुवीर्यवान् ।  
 स्थूलान हत्वा महारोही ननुतस्तार तं द्विजम् ॥३२॥  
 रोहिमांसानस चोदधृत्य पेरीकृत्वा महायशाः ।  
 शक्नाय ददौ रामो रम्ये हरितशाद्गुले ॥३३॥

**अर्थ—** वलशाली तथा वडे यशस्वी रामचन्द्र ने लक्ष्मण के साथ वन में जाकर खूब मोटे-मोटे और वडे-वडे मृगों को मारा और उनका मांस लूटा और उस मांस के पिंड बना उन पिंडों को दिवंगत जटायू पत्नी की तृणि के लिए एक रमणीक तथा तुणा-संकुल हरियाली पर बिखेर दिया ।

आदि के लिए पशुवध का एक ज्वलन्त उदाहरण हमें श्रीमद्भागवत, नवम स्कन्ध, अध्याय ६ में मिलता है । जब राजा इच्छाकु ने अपने पुत्र विकुञ्जि को वन में जाकर मेध्य पशुओं को मार लाने को कहा और वह वहाँ जाकर भूल से यज्ञ के लिए मारे हुए पशुओं में से एक नवरगोश खा गया, जिससे उसका नाम शशाद हो गया—

स एकदाष्टका श्राद्धे इच्छाकुः सुतमादिशत् ।  
 मांस मानीयता मेध्यं विकुञ्जे गच्छमाचिरम् ॥ ६ ॥  
 स तथेति वनं गत्वा मृगान् हत्वा क्रियाहंशान् ।  
 आन्तो द्वुभुक्षितो वीरः शशं चादपस्मृतिः ॥ ७ ॥  
 शेषं निवेदयामास पित्रे तेन च तदगुरुः ।  
 चोदितः प्रोक्षणायाह दुष्टमेतदकर्मकम् ॥ ८ ॥  
 जात्वा पुत्रस्य तत्कर्म गुरुणाऽभिहितं नृपः ।  
 देशान्निः सारयामास सुतं ल्यक्तविधि रुपा ॥ ९ ॥

**अर्थ—** एक समय राजा इच्छाकु ने अष्टका श्राद्ध के लिये पवित्र मांस लाने को अपने पुत्र विकुञ्जि से कहा । विकुञ्जि ने 'यहुत अच्छा' कहकर और वन में जाकर श्राद्ध योग्य पशुओं को मारा । पर उस वीर

को मारे थकावट और भूत्र के शाढ़कार्य भूल गया और वह एक स्वर-  
गोश स्वा गया और वाकी मांस लाकर अपने पिता को दिया। पिता ने  
जब अपने गुरु (वशिष्ठ) को उस मांस पर पवित्र करनेवाला जल  
छिड़कने को कहा तब उन्होंने विकृचि के कृत्स्नित कर्म को कह  
दिया। राजा ने अपने पुत्र के कर्म को गुरु से सुनकर मारे क्रौंध के  
उसको अपने देश से निकाल दिया; क्योंकि उसने पिति का उल्लंघन  
किया था अर्थात् पितरों को पूजने से पहले ही उसने मांस जड़ा कर  
दिया था।

यद्यपि मन्वादि धर्मशास्त्रकारों की यह व्यवस्था है कि यिना यज्ञ  
वा आदि में देवताओं और पितरों को अर्पण किए हुए पशुओं का  
मांस न खाया जाए; पर हमें अपने पवित्र ग्रन्थों में  
मध्य मांस के ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं जहाँ उक्त व्यवस्था का  
अवैध व्यवहार उल्लंघन करके महापुरुषों के द्वारा मांस के साथ मध्य  
के उदाहरण का भी सेवन किया गया है। औरों की कथा तो जाने  
दोजिए; इन्यं रामचन्द्र और उनकी धर्मपत्नी जानकी  
जी भी, जो सनातनी हिन्दू विश्वासानुसार ‘धर्म-संस्थापनार्थीय’,  
ईश्वर और योगमाया के अवतार माने जाते हैं, उक्त व्यवस्था के उल्लं-  
घन-कारियों में जान पहुँते हैं। वाल्मीकीय रामायण, उत्तरकाण्ड,  
सर्ग ४२, श्लोक १७-२१ पढ़िए जिनमें राम-सीता का राजकीय उत्तान  
में विहार-वर्णन है—

अशोक वनिकों स्फोतां प्रविश्व रघुनन्दनः।

आनने च शुभाकारे पुण्यप्रकरभूषिते ॥ १७ ॥

कुशास्तरणमस्तीर्णे रामः सन्निपसादह ।

नीतामादायहस्तेन मधुमैरयेकं शुचि ॥ १८ ॥

पाययामातं काकृत्यः शची मिवपुरन्दरः ।

मांसानि च सुमृष्टानि फलानि विविधानि च ॥ १९ ॥

रामस्याभ्यवहारार्थं किंकरास्तूर्णं माहरन् ।

उपानृत्येश्चराजानं नृत्यगीतं विशारदाः ॥ २० ॥ -

आप्सरोरगसंधाश्च किञ्चरीपरिवारिताः ।

दक्षिणा रूपवत्यश्च स्त्रियः पानवशंगताः ॥ २१ ॥

**अर्थ—**रामचन्द्र ने अपने अन्तःपुर से सटे हुये समुद्र राजकीय उपवन में विहारार्थं प्रवेश किया और वे एक फूलों से शोभित तथा ऊपर से कुरा का विछावन विछाये हुये सुन्दर आसन पर बैठ गए । राजा ककुत्स्थ के वंश में उत्पन्न रामचन्द्र ने सीता जी को हाथ से पकड़ कर पवित्र मैरेय नामक मद्य को जैसे इन्द्र शत्रुघ्नी को पिलाते हैं वैसे ही पिलाया । चाकर उत्तम पकाये हुए मांस तथा नाना प्रकार के फल रामचन्द्र के भोजनार्थ शीघ्र लाये । रामचन्द्र के समीप जाकर नाच-गान में प्रवीण आप्सराएँ, नाग-कन्याएँ, किञ्चरियाँ तथा अन्य गुरुणी और रूपवती स्त्रियाँ मदिरा के नशे में मतवाली होकर नाचने लगीं ।

वह तो हुआ एक ईश्वरावतार का मद्य-मांस सेवन द्वारा आमोद-प्रमोद का वर्णन । अब दूसरे ईश्वरावतार बलराम जी का मद्य-सेवन तथा सुन्दरियों के साथ विहार-वर्णन जानने के लिये श्रीमद्भागवत, स्कन्ध १०, अध्याय ६७ पढ़िए, जिसमें बलराम द्वारा द्विविद बानर का वध लिखा है । वह बानर रामावतार में सुग्रीव का मन्त्री तथा रामचन्द्र का सहायक था और असुर सेना के साथ इसका घोर सुदूर हुआ था । पर कृष्णावतार में कृष्ण का घोर शत्रु बन गया था, कारण कि उन्होंने उसके परम मित्र भौमासुर को मार डाला था । अतः वह अपने मरे हुये मित्र का बदला चुकाने के लिये राष्ट्रविभूषण करने पर उतारू हुआ । वह नगरों को भस्म करता, निरीह स्त्रियों और पुनरों को पकड़कर कन्दरों में बन्द करता, कुल-नारियों को दूषित करता तथा अन्यान्य घोर उत्पात मचाता हुआ मधुर संगीत

विद्वत्ता में यदि किसी को सन्देह नहीं है तो उनके 'उत्तर रामचरित' के नाटकत्व में भी तनिक भी सन्देह किसी को नहीं होना चाहिये । इस दशा में हमें यह मानना पड़ेगा कि भवभूति ने अपने इस नाटक ग्रन्थ में जो कुछ लिखा है वह रामचन्द्र कालीन हिन्दू समाज का सच्चा चित्र है । सौधातकि और भांडायन भले ही उक्त महाकवि के काल्पनिक पात्र हों; पर उन्होंने उन काल्पनिक पात्रों के बीच एक सम्बाद रचकर गोमांस भोजन का तत्कालीन हिन्दुओं में प्रचलित होना पूर्णरूप से सिद्ध कर दिया है । इसकी पुष्टि हमें महर्षि वरिष्ठ की स्मृति से भी मिलती है । वे अपनी स्मृति के चतुर्थ अध्याय में लिखते हैं—

अथापि ब्राह्मणाय वा राजन्याय वा अभ्यागताय वा महोक्त्वा वा  
महाजं वा पचेत् । एवमस्यातिथ्यं कुवर्वन्तीति ।

अर्थ—और अपने यहाँ यदि ब्राह्मण अथवा राजा अतिथि आवे तो उसके लिये एक बड़ा बैल वा बड़ा बकरा पकाना चाहिये । उस अतिथि का सत्कार इसी प्रकार करते हैं ।

किसी-किसी का मत है कि यहाँ पर महोक्त्व तथा महाज शब्दों के अर्थ कमशः बड़ा बैल (उच्चन्) तथा बड़ा बकरा (अज) न लेकर उनके अर्थ वैद्यक शास्त्रोक्त औपधिविशेष यहाँ महोक्त्वादि लेनी चाहिये और सधुपक्ष को उन औपधियों के (गूढे) से युक्तकर अतिथि सत्कार करना चाहिये । ऋषभ शब्द को, जो उच्चन् शब्द का पर्याय है, साधारणतः बैल के अर्थ में लेते हैं । पर ऋषभ एक औपधि का भी नाम है । अतः जितने पर्याय बैल-अर्थ में ऋषभ शब्द के होंगे, उतने ही पर्याय उसके औपधिविशेष-अर्थ में होंगे । इसी

प्रकार अज शब्द के साथारण अर्थ वकरे के अतिरिक्त उसका अर्थ एक ग्रीष्मधिविशेष भी होता है और एक ही पर्याग-सूची प्रसंगवश दोनों अर्थों में प्रयुक्त होती है। 'ऋषभो वृषभो धीरो विषाणीद्राक्ष इत्यपि' अर्थात् ऋषभ, वृषभ, धीर, विषाणी और द्राक्ष, ये नाम ऋषभ नामक महीषधि के हैं। यह हिमालय के जंगलों में पाई जाती है; वैत की सींग के समान होती है; इसके पत्ते छोटे-छोटे होते हैं। यह शीतल गुणवाली तथा बल-वीर्य-वर्द्धनी है; स्वाद में मीठी तथा बात-क्षय प्रभृति रोगों का नाश करनेवाली है। अर्थवर्णवेद में एक मंत्र आया है जिससे पता चलता है कि गर्भाधान के समय जो ऋषभ खाने को इस अनुर्ति में लिखा है वह वैत के अर्थ में नहीं, किन्तु महीषधि-विशेष के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है—

| यानि भद्राणि वीजानि ऋषभा जनयन्ति च ।

तैस्त्वं पुत्रं विन्दत्वं सा प्रस् वेनुका भव ॥

**अर्थ—**हे पुत्र की कामना रखने वाले मनुष्यो ! ऋषभ महीषधि जिन-जिन कल्याणकारी वीजों को उत्पन्न करती है उनका सहायता से तुम लोग पुत्र प्राप्त करो और वे तुम्हारी क्षियाँ पुत्रवर्ती और स्तनों में खूब दूधवाली हों।

इसी प्रकार अज वा अजा भी एक प्रकार का महीषधि है। इसके ये लक्षण सुधुत में लिखे हैं—

| अजास्तनाभकन्दा तु सज्जीरा ज्ञुपरूपिणी ।

अजा महीषधिज्ञेया शंखकुन्देन्दु पांडुरा ॥

**अर्थ—**दूध भरे हुये वकरा के थन के समान अजा नाम का एक महीषधि होता है। यह ज्ञुपसंवक्त उद्दिभद्रो में मिनी जाती है और शंख, कुन्द तथा चन्द्रमा के समान श्वेत वर्ण की होती है। यनः चरक में लिखा है—'अजा नाभीषधि: राजश्रृंगीति विज्ञायते'

अर्थात् आज्ञा नाम को एक श्रौपधि होती है जो राजशृंगी कही जाती है। इसी प्रकार अश्व ( अश्वगन्धा ), मेष ( मेषपर्णी, चकचड़ ) मृग ( महदेह ), महिप ( गुमगुल ), पशु ( मोथा ) आदि जानना चाहिये।

अब मांस शब्द के श्रौपधि-परक अर्थ पर भी चिनार करना चाहिये। यह कोई आवश्यक नहीं है कि मांस शब्द से केवल जंगम प्राणियों का ही मांस समझा जाए। जंगमों को तरह स्थावरों में भी मांस, उचिर, अस्थि आदि सभी घातु माने जाते हैं। यथा—‘चूतफले-परिपक्वे केशर मांसास्थिमद्वानः पृथग् दृश्यन्ते’, अर्थात् आम के पकने पर उसके केशर (रिशे), मांस (गूदा), हड्डी (गुठली) और मंज्जा (रस) अलग-अलग दिखाई देते हैं। यह तो पूर्वपक्व हुआ। अब उत्तरपक्व सुनिए—

यह तो ठाक है कि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं; पर अर्थ प्रसंगानुसार ही करना चाहिये। अर्थ करने का यही नियम है। इसी नियम के अनुसार हमें उत्तर रामचरित तथा वशिष्ठ ल्मृति के पूर्वोक्त उद्दरण्डों में आये ‘महोद्ध’ और ‘महाज’ शब्दों का अर्थ करना चाहिए। महर्षि वशिष्ठ यदि किसी श्रौपधि का गूदा खाए होते तो सौधातकि उनकी उपमा वाय और भेड़िया जैसे घोर पशुहितक तथा पशु-मांसभक्षक जन्तुओं से नहीं देता और न तो भांडायन को ही एक वाडित्यपूर्ण व्याख्यान द्वारा उसकी वार-वार उठती हुई शंकाओं का समाधान करने की आवश्यकता होती। अतः यह अवश्य है कि महर्षि वशिष्ठ ने गोवत्सरी (गाय की छोटी बछिया) का मांस ही, न कि ऋषभ नामक किसी श्रौपधि-विशेष का गूदा खाया था। इसी प्रकार वशिष्ठ ल्मृति में ‘महोद्ध’ और ‘महाज’ शब्द पशुवध के प्रसंग में ही आये हैं; अतः वहाँ भी उक्त दोनों शब्दों के अर्थ किसी श्रौपधि-

विशेष न कर पशुविशेष ही करना चाहिए। वरिष्ठ-स्मृति के पूर्वोत्तम उद्धरण के प्रासंगिक श्लोक ये हैं जो ठीक उसके पहले आए हैं—

पितुदेवतिधिष्ठजायो पशुं हिस्यात् । मधुपकं च यज्ञे च, पितु-  
देवतकर्मणि । अत्रैव च पशुं हिस्याज्ञान्वयेत्य ब्रवीन्मनुः ॥ ना कृत्वा  
प्राणिना इंसा मांसमुत्पद्यते क्यचित् । न च प्राणि वधः स्वर्ग्य स्तस्मा-  
चक्षे वधोऽवधः ॥

**अर्थ—**पितरों, अतिथियों तथा देवताओं की पूजा में पशुहिंसा कर सकते हैं। मधुपक में, यज्ञ में और पितरों तथा देवताओं के कर्म में ही पशु-वध करें; दूसरी जगह नहीं; यह मनु ने कहा है ॥ प्राणियों का विना वध किये कहीं भी मांस नहीं मिल सकता और प्राणि-वध स्वर्ग का देनेवाला नहीं है; अतः पशु-वध करे तो यह में ही करें; क्योंकि यह में किया हुआ वध वध नहीं है ।

यह तो हुआ मधुपक में पशुमांस के व्यवहार होने का उदाहरण । अब देवपूजा तथा पितु-आद में उसके व्यवहार के उदाहरण दिए जाते हैं । अध्यात्म रामायण, अयोध्या कारण, छठा सर्ग, देव-पूजादि में श्लोक २१ और २२ पढ़िए और देखिए कि भगवती मांस व्यवहार के सीता अपने पतिदेव तथा देवर के साथ बन जाती हुई

**उदाहरण** गंगा जी से क्या प्रार्थना करती हैं—

गंगामध्ये गता गंगां प्रार्थयामास जानकी ।

देवि गंगे नमस्तुभ्यं निवृत्ता बनवासतः ।

रामेण सहिताऽहं त्वां लक्ष्मणेन च पूजये ।

सुरामासोपहरैश्च नाना वलिभिरादता ॥२१, २२॥

**अर्थ—**जब सीता जी गंगा जी के बीच में पहुँची तो उन्होंने गंगा जी से प्रार्थना की—“हे गंगे ! तुम्हारे लिए नमस्कार हैं । जब मैं अपने पतिदेव श्री रामचन्द्र तथा देवर लक्ष्मण के साथ बनवास से लौट

ध्वनि को सुनकर द्वारका के सभीपस्थ रैवतक पर्वत पर चढ़ गया और वहाँ बलराम को विहार करते देखा—

तत्रापश्यचदुपति रामं पुष्करमालिनम् ।

सुदर्शनीयसब्वींगं ललनायूथमध्यगम् ॥६॥

गायन्तं वारुणीं पीत्वा मदविहुललोचनम् ।

विभ्राजमानं वपुषा प्रभिन्नमिव वारगम् ॥१०॥

अर्थ—वहाँ उसने यदुपति बलराम जी को देखा । उनके गले में नील कमलों की माला पड़ो हुई है । उनके सभी अंग देखने में सुन्दर हैं । वे सुन्दर रमणियों के बीच में बैठे वारुणी मदिरा पीकर गा रहे हैं । उनकी आँखें भारे नशे के संज्ञुबध हो रही हैं और उनका शरीर ऐसा चमक रहा है कि मानो कोई मदमत्त गवराज हथिनियों के साथ विहार कर रहा है ।

ये ही बलराम जी हैं जिन्होंने एक बार द्वारका से नन्द के गोकुल में जाकर वहाँ की गोपियों के साथ यमुना के उपवनों में वारुणी मत्त स्वयं पी-पीकर और उन्हें भी पिला-पिलाकर रास-विलास किया था और यमुना जल में जल-कीड़ा भी की थी । क्यों न करें ? आखिर ठहरे श्रीकृष्ण के बड़े माई ! आवश्य से भाद्रपद क्यों दुर्वल रहे ! यह है दरा हमारे ईश्वरावतारों की तो हम-आप जैसे प्राकृत जन की क्या बात है ।

ये तो हुये आदि कार्यार्थ या यो ही केवल भोजनार्थ पशु-पक्षियों के बध के उदाहरण । अब यज्ञ कार्यार्थ पश्वादि प्राणियों के बध के उदाहरण सुनिये । पशु-यज्ञों में अश्वमेघ तथा गोमेघ, ये दो यज्ञ मुख्य हैं जिन्हें प्राचीन हिन्दू धर्मोपार्जनार्थ किया करते थे । वर्तमान काल में कालीमिया के प्रसादनार्थ जो बकरों तथा भैसों का बध किया जाता है उसे कमशः छागमेघ तथा महिषमेघ कह सकते हैं । सर्व-प्रथम अश्वमेघ पर ही विचार किया जायेगा ।

अश्वमेघ शब्द का अर्थ है 'अश्वः प्रधानतया मेष्यते हिस्यते च, मेष् हिसने वज्र' अर्थात् जिसमें मुख्य करके धोड़े का वध किया जाए वह अश्वमेघ है; मेष् धानु से, जिसका अर्थ मारना अश्वमेघ है, वज्र प्रत्यय लगाने पर मेष् शब्द सिद्ध होता है। यह अर्थ आप्टे के संस्कृत-अंग्रेजी कोष में लिखा है और शब्दकल्पद्रुम के अनुसार अश्वमेघ शब्द का विवरण इस प्रकार है—

‘व  
लक्षणविशेषाकान्तमश्वं  
संप्रोच्य कपाले जयपत्रं वद्ध्वा त्यजेत् ।  
तद्रक्षाथ् पुरुषविशेषं नियोजयेत्  
संवत्सरान्ते अश्वे आगते सति  
अथवा केनापि संवदे युद्धं कृत्वा तमानीय  
यथाविधि वधं कृत्वा तद्वप्या होमः कर्तव्यः ।  
कामनानुसारेण तत्कलम्; मोक्षः,  
ब्रह्महत्यापापक्षयः, स्वर्गश्च ।

अर्थ—जिस यज्ञ में लक्षण-विशेषों से युक्त धोड़े को, उस पर वित्र करने वाले जल को मंत्रोच्चारणापूर्वक छिड़कर तथा उसके कपाल पर जयपत्र बाँधकर धोड़े दिया जाता है। उसकी रक्षा के लिए पुरुष-विशेष को नियुक्त कर दिया जाता है। वर्ष के अन्त में धोड़े के लौट आने पर वा यदि किसी ने उस धोड़े को बाँध रखा, तो उस बाँधनेवाले को युद्ध में हराकर धोड़े को बापस लाने पर उसे शास्त्रोक्त विधि के अनुसार मारकर उसकी नर्ती से होम किया जाता है। कामना के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। मोक्ष, ब्रह्महत्या जनित पाप का नाश, स्वर्ग आदि इसके फल हैं।

वैदिक काल में पुत्र-प्राप्ति की कामना रखनेवाले राजा लोग अश्व-मेघ यज्ञ किया करते थे; पर बाद में केवल वही राजा इसे करता था

अन्य सभी राजाओं पर अपना आधिपत्य जमाकर सम्राट् (मंड-  
लश्वर, चक्रवर्ती, सार्वभौम आदि) जैसे सर्वोच्च पद-प्राप्ति की महत्वा-  
कांक्षा रखता था। राजा दशरथ ने भी पुत्र कामना से प्रेरित होकर  
यह वज्र किया था, जिसका वीभत्स वर्णन वाल्मीकीय रामायण, वाल-  
कारड, चतुर्दश सर्ग में पढ़कर हृदय सन्न हो जाता है और अपने  
पूजनीय पूर्वजों की तथाकथित विलक्षण सम्मता, जिसका दिंदोंरा  
हम सदा और सर्वत्र पीटा करते हैं, हमारे मत्तक को गर्व से ऊँचा  
रखने की जगह एक दुर्वंह लक्ष्मा-भार से दबा देता है। पाठकगण !  
निम्नोद्धृत श्लोकों को पढ़िए और अपने हृदय पर हाथ रखकर  
निष्ठद तथा शान्त भाव से विचार कोजिए—

अथ संवत्सरे पूर्णे तस्मिन्प्राप्ते तुरङ्गमे ।  
सरव्वाश्चोत्तरे तीरे राजो यज्ञोऽस्यवर्तत ॥ १ ॥  
ऋष्यशृंगं पुरस्कृत्य कर्म चकुर्दिजर्थमाः ।  
अश्वमेषे महायज्ञे राजोऽस्य सुमहात्मनः ॥ २ ॥  
नियुक्तास्तत्र पश्चास्तत्तदुद्दिश्य दैवतम् ।  
उरगाः पंक्षिणश्चैव यथाशास्त्रं प्रचोदिताः ॥ ३० ॥  
शामित्रेतु हयस्तत्र तथा जलचराश्च ये ।  
ऋग्मिभिः सर्वमेवैतनियुक्तं शास्त्रस्तदा ॥ ३१ ॥  
पश्चानां त्रिशतं तत्र यूपेषु नियतं तदा ।  
अश्वरक्षोत्तमं तत्र राजो दशरथस्य ह ॥ ३२ ॥  
कौशल्या तं हयं तत्र परिचर्यं समन्ततः ।  
कृपाशैविंशशासैनं त्रिभिः परमयामुदा ॥ ३३ ॥  
पतत्रिश्चा तदा सार्दु सुस्थितेन च चेतसा ।  
अवसद्रजनीमेका कौशल्या धर्मकाम्या ॥ ३४ ॥  
होताध्युरत्थोदगाता हयेन समयोजवन् ।  
महिष्या परिवृत्याथ वावातामपरा तथा ॥ ३५ ॥

पतंत्रिणस्तस्य वपामुदधृत्य नियतेन्द्रियः ।  
 ऋत्विक् परमसंपत्तिः अपयामास शास्त्रतः ॥ ३६ ॥  
 धूमगन्धं वपायास्तु जिग्रतिस्म नराधिपः ।  
 वथाकालं यथान्यायं निर्णुदन् पापमात्मनः ॥ ३७ ॥  
 हयस्य वानि चाङ्गानि तानि सर्वाणि ब्राह्मणाः ।

अग्नी प्रास्यन्ति विधिवत् समस्ताः पोइशर्विजः ॥ ३८ ॥

इलोक ३—३६ अनावश्यक समझकर छोड़ दिए गए हैं।

अर्थ—तत्पश्चात् एक वर्ष पूरा होने पर धोड़ा लौट आया और नरयू नदी के उत्तर तीर पर राजा का यज्ञ प्रारंभ हुआ ॥१॥ वह महात्मा इन राजा (दशरथ) के अश्वमेघ नामक महायज्ञ में श्रेष्ठ ब्राह्मणगण को डापना मुखिया बनाकर यज्ञ-सम्बन्धी कर्म करने लगे ॥२॥ पशुओं, पक्षियों और सपों को, जिन्हें रखने की आज्ञा शास्त्र देता है, उनके अधिष्ठाता देवताओं के नाम पर, वहाँ रखा गया ॥३०॥ ऋषियोंने यज्ञ में वध करने के लिए धोड़े तथा जलचर प्राणियों को यूपों में चाँधा ॥३१॥ उस यज्ञ में तीन सौ पशु यूपों में चाँधे गए। राजा दशरथ का यह श्रेष्ठ धोड़ा (जो पृथ्वी में सर्वत्र धूमकर वापस आ गया था) भी चाँधा गया ॥३२॥ कौशल्या ने वही खुशी के साथ उस धोड़े की प्रदक्षिणा चारों ओर से करके उसे तलवार के तीन बार से मार डाला ॥३३॥ कौशल्या देवी ने उस वध किए हुए धोड़े के पास सावधान नित होकर धर्म की कामना से एक रात निवास किया ॥३४॥ तदनन्तर होता, अध्ययु और उद्गाता ने महिषी, परिवृत्ति तथा वावाता, इन तीन श्रेणी की रानियों को उस धोड़े से स्पर्श द्वारा मिला दिया ॥३५॥ नोट—महिषी उस रानी की संज्ञा है जिसका राजा के साथ राज्याभिषेक किया गया हो; राजा की शृद्रा जी परिवृत्ति तथा वैश्या जी वावाता कही जाती है। जितेन्द्रिय तथा श्रीत-प्रयोग में कुशल ऋत्विक् ने उस धोड़े की चर्ची निकाली और शास्त्रानुसार उसे पकाया ॥३६॥

राजा दशरथ ने हवन की हुई उस चर्ची की गत्य उचित समय पर विधान के अनुसार सैधी जिससे उनके पाप दूर हो गए ॥३७॥ सोलह श्रुत्यिक् ब्राह्मणों ने मिलकर उस घोड़े के जितने अंग ये उन सभी अंगों को अग्नि में हवन किया ॥३८॥

यह है परम धर्मात्मा तथा परम पवित्र कीर्ति महाराज दशरथ के पशु-रक्त-रन्जित आश्वमेध यज्ञ का रोमांचकारी वर्णन, जिसकी वीभत्सता के सामने किसी घड़े से भी घड़े बूचड़खाने की वीभत्सता भी हार मानेगी । अब पशु-रक्त-प्लावित उस परम पवित्र यज्ञस्थली के हृदय धर्मनेवाले भयानक दृश्य को कल्पना कीजिए जहाँ असंख्य नूक तथा निरीह पशु-पक्षियों को धर्म के नाम पर तलवारों तथा जवह करनेवाली चुरियों के घाट उत्तार-उत्तारकर उन्हें भस्मीकरणार्थ एक प्रकारण तथा अपनी अनेक जिहोपम अग्नि-शिखाओं को चारों ओर लपलपाते हुए हवनकुरण में ढाला जा रहा होगा, और नृशंस तथा बूचड़ निर्विशेष श्रुत्यिजों के जयजयकारों एवं दान पानेवालों तथा कचर-कूट करनेवाले भोजन-भट्ठों की बाहवाहियों की तुमुल ध्वनि से नभोमंडल विदीर्घ हो रहा होगा, जिसे सुन-सुनकर आर्य-कुल-रक्त महाराज दशरथ अपने को कृतकृत्य मान रहे होंगे । तथा इसी कल्पना के साथ-साथ उस पवित्राचरणा शान्त स्वभावा, भावी राममाता, मुख्य महिषी कौशल्यादेवी की भी कल्पना कीजिए जो महिषासुर मारणोन्मुखी विश्वलधारिणी श्री दुर्गादेवी की छटा का अपहरणकर यज्ञ-यूप में बैठे अतः विवश आश्वमेधिक घोड़े के गले पर तलवार के आघात कर रही होंगी । हम अपनी कपोल कल्पित सम्यता के मद में सदा चूर रहते हुए वेद-विश्वद धर्माविलम्बियों को 'म्लेच्छ' कहने में तनिक भी नहीं हिचकते; पर सच पूछिए तो हमारी म्लेच्छता अन्यों की म्लेच्छता को मात कर देती है । इसके अतिरिक्त हमारे परमाराध्य मगवान् विष्णु भी निरीह प्राणियों के रक्षपात में ही आनन्द लूटने-

बाले जीव जान पड़ते हैं; क्योंकि तभी तो उन्होंने असंख्य पशुधार्ती दम्पति राजा दशरथ और रानी कौशल्या की कोख में ही अंशावतार धारण करने का निश्चय किया। और सबसे बड़े भारी स्वेद की बात तो यह है कि इस बीमर्वी शताब्दी में भी, जब शिवा का प्रकाश सब और फैल गया है, हमारे कितने शिक्षित पर भोले-भाले सनातनी हिन्दू भाई धूतों के बहकाने में पड़कर यह कहा करते हैं कि अरे भाई ! उस युग में हमारे शृष्टि-मुनियों को ऐसी महिमा थी कि यज्ञों में हवन किए हुए पशु फिर जीकर उठ स्वडे हो जाते और सशरीर स्वर्ग को चले जाते थे। बुद्धि का कितना धौर पतन और शास्त्रों की कितनी दयनीय अनभिज्ञता है !!

इस पर एक प्रतिवादी कहता है कि अजी ऐसे-ऐसे श्लोक जिनके द्वारा हमारे अद्वितीय व्रतधारी, शुद्धाहार विहारी तथा प्राणिमात्र पर दया हृषि रखनेवाले पूज्य पूर्वजों पर मद्य-मांस सेवन वाममार्गियों पर तथा यज्ञादि धार्मिक कृत्यों के सम्पादनार्थ पशु-उत्था कलंक लगाना करने का अभियोग लगाया जाता है, हमारे पवित्र व्यर्थ हैं। बन्धों में वाममार्गियों के घुसेहुए हुए हैं, जिसमें वे इन श्लोकों के प्रमाण दिखाना कर अपने पंचमकारी मत को पुष्ट कर सकें। इस पर मुझे ऐसी योथी तथा लचर दलील करने वालों से केवल इतना ही पूछना है कि ये सभी ग्रन्थ जिनमें ऐसे जाली कहे जानेवाले श्लोक वाममार्गियों के द्वारा प्रचित बताए जाते हैं, केवल उनके ही घर थे जिनमें चुपके से उन्होंने ऐसी जाल-साजी कर दी ? और ग्रन्थों को योही देर के लिए छोड़कर केवल बालमीकीय रामायण का ही उदाहरण लानिए। प्राचीन काल में मुद्रण-यत्रों के अभाव से पुस्तकें हाथ में लिखी जाती थीं। अतः इतना मान लिया जा सकता है कि उक्त रामायण की जो हस्तलिखित प्रति जिसके घर में थी, उसमें उसका जाल कर देना एक अति ही सुकर तथा

निरापद कार्य था; क्योंकि उस काल में मुद्रण के अभाव के कारण उसको इस बात का तनिक भी ढर न था कि उसकी जाली प्रति के किसी प्रेस में छुपकर प्रकाशित हो जाने पर उसकी चोरी सर्वसाधारण द्वारा पकड़ ली जाएगी। पर उक्त रामायण की जो प्रतियाँ दूसरों के बर (जिन्हें हम तर्कशीली की सुगमता के लिए दक्षिण-मार्गी कह सकते हैं) थीं, उनमें तो वाममार्गियों की चाँच अवश्य हा नहीं लगी होगी। पर प्रत्यक्ष देखने में आता है कि उक्त रामायण के सभी संस्करणों तथा प्रतियों में ही, जो प्राचीन काल की हस्तलिखित और वर्तमान काल की मुद्रित उपलब्ध हैं, राजा दशरथ का अश्वमेष यज्ञ, रामचन्द्र का किया हुआ जटायू का श्राद्ध तथा उनका मवा-मांसन्सेवन पूर्वक उत्तरवन-विहार, ये सभी निय घटनायें न केवल वर्णित मिलती हो हैं, बल्कि एक ही प्रकार से और ठीक उन्हीं श्लोकों के द्वारा वर्णित मिलती है जिनका उद्दरण मैं कर चुका हूँ। तो क्या मैं इससे यही मान लूँ कि वाल्मीकीय रामायण की सभी प्रतियाँ वाममार्गियों के ही अधिकार में थीं; दक्षिण-मार्गियों के अधिकार में एक भी नहीं; क्योंकि यदि होती तो उसका भी संस्करण वाममार्गीय संस्करण के साथ-साथ आज भी प्रचलित देख पड़ता, जिसमें अश्वमेष यज्ञादि के पूर्वोक्त वाभल्त वर्णन हमें देखने को नहीं मिलते ? उक्त ग्रन्थ के दक्षिण-मार्गीय संस्करण के नितान्त अदर्शन होने से क्या मैं यही मानकर सन्तोष कर लूँ कि दक्षिण-मार्गियों की सभी प्रतियाँ दीमक चाट गई, अथवा नहीं तो विवरियों ने उन्हें भस्म कर दिया ? पर ऐसा मान लेने पर एक दूसरा प्रश्न उठ सड़ा होता है कि वाममार्गियों की प्रतियाँ ने अपने प्राक्तन जन्म में कौन-सा युग्म-कर्म किया था जिसके कालस्वरूप वे उक्त उपद्रवों से बाल-बाल बच गईं ? हमारे परिच्छ्र ग्रन्थों में पाए जानेवाले आपत्तिजनक श्लोकों को वाममार्गियों द्वारा प्रक्रिय मान लेने पर हमारे सम्मुख ऐसे ही कितने प्रश्न हठात्

उठ सड़े हो जाते हैं जिनका संतोषजनक उत्तर मिलना नितान्त कठिन ही नहीं, वरन् पूर्णतः असंभव है। अतः सच्ची बात यही है कि धर्मवश वा स्वार्थवश प्रक्रिया माने वा कहे जानेवाले इलोक किसी के द्वारा प्रक्रिया न होकर मूल ग्रंथकारों की ही रचनाएँ हैं, और उन्होंने उनके द्वारा तत्कालीन हिन्दू-समाज का एक सच्चा चित्र अंकित किया है। प्रक्षेपों का गुजारा केवल वही हो सकता है जहाँ उनके कोई विरोधी न हो वा कम से कम उनके प्रति अन्य लोग उदासीन हो। आश्चर्य तो इस बात पर है कि इन प्रन्थों को बने आज कई सहस्रान्दिशों बीत गए और तब से आज तक इस देश में धर्मशास्त्रों के अनेक धूरन्धर विद्वान् उत्थन हुए; पर उनमें से किसी को भी प्रक्षेप नहीं सूझ पड़ा जो सभा-शास्त्रार्थ द्वारा ठीक करके निकाल दिया जाता और जो इस वीसवीं शताब्दी में वरसातों कोड़ों की तरह फुटकनेवाले विद्वन्मन्यों को प्रस्फुरित हुआ। इसके अतिरिक्त प्रक्षेप मानने का अधिकार सब को है। यदि एक के मत में मांस-मक्काण प्रक्षेप है तो दूसरे के मत में नियोग। इस तरह हमारा सामा धर्मशास्त्र प्रक्षेपों का आकार होकर मिट्टी में मिले जाएगा।

पुनः एक दूसरा प्रतिवादी कहता है कि 'अश्वमेघ' शब्द में जो 'अश्व' शब्द है उसका अर्थ धोड़ा नामक पशु-विशेष नहीं है जैसा कि सामान्यतः प्रचलित है; वहिंक अश्ववंगन्धा नामक औपचिं (जड़ी) विशेष है और वही जड़ी झूषणम्, मेष (मेषपर्णी), अजा (राजशृङ्गी), मूर्ग (सहदेह) आदि पशु-नाम-धारिणी जड़ियों के साथ अश्वमेघ के अवसर पर हवन कुँड में डाली जाती थी, जिनकी सुगन्ध से देवता जोग प्रसन्न होते थे और जिनके धूएँ से विविध रोगों के कोटाणु (Germ) नष्ट हो जाते थे, जिससे प्रजा स्वस्थ और सुखी रहती थी। क्या मैं इन लालचुम्भकड़ों से नम्रतापूर्वक पुछ सकता हूँ कि अश्वमेघी यज्ञ सम्पादनार्थ सम्माट्पद प्राप्ति रूप महत्वाकांक्षी राजाओं के द्वारा देवियजयार्थ

मैनिकों के साथ जो 'अश्व' छोड़ा जाता था वह सचमुच छोड़ा न होकर अश्वगन्धा नाम की जड़ी थी जिसे किसी भूत्य के माथे पर एक टोकरी में रखकर सर्वत्र भुमाया जाता था और वही अश्वगन्धा जड़ी सब और से भुमा-फिराकर वापस लाई जाती और इवन-कुरड़ में काट-काटकर डाल दी जाती थी ? पर बाल्मीकीय रामायण में वर्णित राजा दशरथ के अश्वमेष्य यज्ञ-सम्बन्धी कतिपय श्लोकों को उद्धृत कर पहले बता आया है कि रानी कौशल्या ने जिस आश्वमेष्यिक 'अश्व' का वध अपनी तलवार के तीन प्रहारों से पूर्ण किया था वह यज्ञ-यूप में बैधा था । यज्ञ में वध होनेवाले पशुओं को यूपों में इसलिए बौधते हैं कि वे प्रहार करते समय भाग न जाएँ । अतः अश्वमेष्य यज्ञ में वध किए जानेवाले 'अश्व' से योड़ा नामक जंगम प्राणी को ही भ्रहण करना बुद्धिसंगत प्रतीत होता है; न कि अश्वगन्धा नामक औषधि-विशेष को; क्योंकि यदि अश्वगन्धा जड़ी होती तो उसे किसी यूप में, उसके जड़ तथा स्थावर होने के कारण, बौधने की आवश्यकता न होती और न तो उसे तलवार से काटने की ही आवश्यकता होती; बल्कि वह तो यो ही इधन की तरह इवन-कुण्ड में मौक दी जाती और यदि वह जलाने योग्य लकड़ी के बड़े-बड़े कुन्दों की तरह होती तो उसे कुलहाड़े से इवन-कुरड़ में डालने के पूर्व फाड़ देने की आवश्यकता होती । अतः वह अवश्य है कि अश्वमेष्यादि यज्ञों में तत्त्वज्ञामधारी जंगम प्राणी ही वध किए जाते थे और वे ही इवन-कुरड़ में जलाए भी जाते थे । यादि कोई यह शंका करे कि आग में जंगम प्राणियों के मांस जलाने पर उसमें से सुगन्ध निकलने के बजाय एक ऐसी घिनीभी रुधा उत्कट दुर्गन्ध निकलती है कि कोई देवता क्या, कोई मनुष्य भी बर्दाश्त नहो कर सकता । तो इसका समाधान यह है कि हमारे मानव प्राणियों में कितने ऐसे जीव हैं जिनकी नाक में आग पर पकते हुए मांस की दुर्गन्ध के पहुँचते ही वे उससे कोसा भागते हैं; पर उन्हीं

प्राणियों में कितने ऐसे भी जीव विद्यमान हैं जिनका हृदय लोहे के सिक्कों पर पकते हुए कबाब को खुशबू (!) सेंधकर मेघध्वनि अवगणकर मज्ज मधूर की तरह अनिर्वचनीय आनन्द से नाच उठता है। हमारे देवगण भी इस विश्वव्यापक तथा नैसर्गिक नियम से बाहर नहीं हैं। हमारी दुर्गादेवी स्वखड़ से सद्वानिपातित असुरों का गरमागरम रक्त बार-बार पीकर भी नहीं अधारी ! श्रीदरदानी भगवान् शुक्र से सिफ़-एक चिलम गाँजे, नहीं तो, वस दो धैर भंग पर तिन्दक-तिन्दक यैवा नाच नचवा लीजिए और उनसे अपनी सारी मुराद पूरी करा लीजिए !! पर इन्हीं के सुपुत्र देवाधिदेव भगवान् लभ्वोदर जी को यिन पांचोंरास मिठाई तथा पंचमेवा की थाल परोसे आप प्रसन्न नहीं कर सकते !!! सृष्टि का यही नियम है कि भिन्न-भिन्न प्राणियों की रुचि भिन्न-भिन्न होती है और हमारे पूर्वज इस नियम के अपवाद नहीं हो सकते। अतः अपने पूर्वजों के अन्धविश्वासजन्य काले वारनामों की कालिमा छिपाने के लिए उस पर कपोल-कल्पित तथा अप्रासंगिक शब्दार्थों की कलई चाहे जितनी बार चढ़ाई जाए, वह आलोचना की आँच पर टिक नहीं सकती। हमारे पूर्वजों में कौन सा सुखाव का पर लगा हुआ था कि वे कुन्दन की भाँति सर्वथा निष्कलंक तथा सर्वथा निर्दोष मान लिए जाएँ ? जिन हमारे पूर्वजों (भारतीय आद्यों) ने किसी शीत-प्रधान भूमाग से इस नीतिशीतोष्ण देश पर एक प्रचंड वातावर्त के रूप में आकमणकर स्वमातृभूमि की रक्षा में व्यस्त यहाँ के मूलनिवसियों को दास, दस्तु आदि धृशा-व्यंजक नामों से उकारते तथा युद्ध में हराते हुए उनका धन-जन आदि सर्वस्व छीन लिया जिसके फलस्वरूप आज भी उनके कतिपय वंशधर जंगलों और गिरिकन्दरों की शरण ले अपने पशुप्राय जीवन बिता रहे हैं, तथा कितने लाजारी से हमारी दासता स्वीकार कर हमारे घर के नीच से भी नीच टहल करते और अस्युश्य कहाते हुए अपने भाग्य को कोस

रहे हैं; जिन हमारे पूर्वजों ने वर्णव्यवस्था जैसी स्वार्थमयी पापव्यवस्था का प्रचारकर हिन्दू समाज में कूट को वह आग लगा दी जिसकी जबाला धार्य-धार्य जलती हुई अपने दुर्दमनीय रूप में आज भी लप-लपा रही है और उस समाज के शरीर को जर्जर बनाकर उसे संगठित नहीं होने देती जिसमें वह अपने शबुओं का मुकाबला कर सके; जिन हमारे पूर्वजों की खियाँ सन्तानाभाव में नियोग जैसे कुकर्म का आभय लेती हुई पुरुषान्तर के साथ मैथुनकर सन्तान उत्पन्न कर लेना 'मांतुकूल' मानती थीं; जिन हमारे पूर्वजों के वहाँ राजस पैशाच जैसे घोर अपराध-मूलक विवाह भी वैध विवाह तथा द्वेष, गृहोत्पत्ति, कानीन, सहोड़, पौनर्भव आदि पापजात पुत्र भी जायज सन्तान माने जाते थे; उन हमारे पूर्वजों के विषय में जितना ही थोड़ा लिखा और कहा जाए उतना ही अच्छा है !

शश्वमेध यज्ञ पर विचारकर अब गोमेध यज्ञ  
गोमेध पर विचार किया जाता है। शब्दकल्पद्रुम में 'गोमेध'  
शब्द के विषय में यह विवरण दिया है—

"यज्ञ विशेषः । अत्र खोगोपशुः मंत्रेषु खोलिङ्ग पाठात् । तस्य लक्षणम्-सप्तशापत्व-नवशाफत्व-भगवृद्धल्लव-काशात्व-छुनकर्णत्वादि दोष-राहित्यम् । तस्य प्रयोगः सर्वोऽपिछागपशुवत् । यजमानस्य स्वर्गः कलम्, गोश्च गोलोकप्राप्तिः । तस्य च कलीनिपेषो यथा—'अश्वालभ्यं गवालभ्यं संन्यासं पलपैतुकम् । देवराज्ञं मुतोत्पत्तिः कलीपंच विवज्जयेत्' इति आपस्तम्भ कल्पसूत्र पुराणे ।"

अर्थ—यह एक यज्ञविशेष है। यहाँ पर 'गो' शब्द से खीं गोपशु अर्थात् गाय, न कि सौँड़, वैज वा बाढ़ा, अभियेत है; क्योंकि मंत्रों में खोलिङ्ग का पाठ है। उस गाय का यह लक्षण होना चाहिए कि वह सात खुरबाली, वा नव खुरबाली वा दूटी संगवाली वा कानी वा कनकटी आदि न हो; अर्थात् उसमें ये दोष नहीं होने चाहिए। उसका

समूचा प्रयोग छाग पशु (वकरा) की तरह होना चाहिए, अर्थात् गाय के साथ वध आदि सब वे ही व्यवहार होने चाहिए जो वकरे के साथ होते हैं। गोमेष का फल यजमान के लिए स्वर्ग और गाय के लिए गोलोक की प्राप्ति है। गोमेष यज्ञ का कलि में निषेध है जैसे—‘अश्वमेष, गोमेष, संन्यास, मौस द्वारा पितरों को आद, तथा देवर के साथ नियोगकर पुत्र उत्पन्न करना, वे पाँच काम कलियुग में वर्जित हैं।’ यह आपस्तम्भ कल्पसूत्र पुराण का बचन है।

आपस्तम्भ कल्पसूत्र के उपर्युक्त उद्धरण में ‘अश्वालम्भ’ और ‘गवालम्भ’ शब्दों के अर्थ कमशः अश्वमेष और गोमेष इस कारण किये गये कि उक्त शब्दों में आये हुए ‘आलम्भ’ शब्द का अर्थ है मारना; अतः वहुत्रीहि तमास के अनुसार ‘अश्वालम्भ’ शब्द का अर्थ हुआ वह कर्म जिसमें अश्व (बोड़ा) का आलम्भ (वध) होता है; अर्थात् अश्वमेष नामक यज्ञ विशेष। इसी प्रकार गवालम्भ शब्द का अर्थ हुआ गोमेष नामक यज्ञ विशेष। मेरे इस अर्थ की पुष्टि दूष्कारदीय भी करता है जिसमें कलियुग में कतिष्य अन्य कर्मों के साथ-साथ अश्वमेष और गोमेष को भी वर्जित किया गया है—

समुद्रवात्रा-स्वीकारः, कमरदल्लु-विधारगाम, द्विजानामसवर्णांसु  
कन्यासूप्यमः, तथा देवरेण सुतोत्पत्तिः मधुपक्षं पशोर्वदः, मासोदनं  
तथा आदे, वानप्रस्थाभ्रमः, तथा दत्तायाश्चैव कन्यायाः पुनर्दानं  
परस्परच, दीर्घकालं ब्रह्मचर्यम्, नरमेषाश्वमेषकौ, महाप्रस्थानगमनम्,  
गोमेषं च मस्तं तथा, इमान् धर्मान् कलियुगेवज्यानाहुः मनीषिणः।

अर्थ—समुद्रवात्रा, संन्यासग्रहण, द्विजातियों का असवरण कन्याओं के साथ विवाह, देवर से सुतोत्पादन, मधुपक्ष में पशु का वध, आद में मास का पिण्डदान, वान-प्रस्थाभ्रम, जो कन्या एक बार दान कर दी गई पुनः उसको किसी दूसरे वर को दान करना, दीर्घ काल तक

ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना, नरमेष्ठ तथा अश्वमेष्ठ, महाप्रस्थानगमनके अर्थात् शास्त्रोक्त विधि से आत्मधात, एवं गोमेष्ठ, इन धर्मों को आत्माओं ने कलियुग में वर्जित किया है।

शब्द कल्पद्रुम में अमरकोप का हवाला देते हुए 'आलभ्म' शब्द के अर्थ मारणा तथा वध लिखे हैं; पर आप्टेजी के संस्कृत-अंग्रेजी कोषानुसार 'आलभ्म' ( आ + लम् + वज् + मूर् ) शब्द के Taking hold of ( पकड़ना ), touching ( वर्ण करना ) uprooting ( जड़ से उखाइ फेंकना ), killing ( मारना, वध करना ) आदि कई अर्थ होते हैं। अतः 'आलभ्म' शब्द के विविध अर्थ होते हुए भी प्रसंगानुसार जो अर्थ 'गोमेष्ठ' शब्द का है वही अर्थ 'गवालभ्म' शब्द का भी है और वह अर्थ गोवध-परक है; क्योंकि यदि ऐसा अर्थ नहीं होता तो पूर्वोक्त आपस्तम्भ कल्पसूत्र गोमेष्ठ यज्ञ को 'गवालभ्म' शब्द के द्वारा और बृहज्ञारदीय स्पष्ट रूप से 'गोमेष्ठ' शब्द के ही द्वारा कलियुग के लिये मना क्यों करते ? और गोमेष्ठ यज्ञ में गाय के लिए जो गोलोक प्राप्तिरूप फल बनाया गया है उसकी संगति गोवध-परक अर्थ के अभाव में कैसे लगेगी ? अतएव यह निश्चित है कि 'आलभ्म' और 'गवालभ्म' शब्दों में 'आलभ्म' शब्द का अर्थ वध ही है।

गोमेष्ठ यज्ञ का विख्यात उदाहरण हमें चन्द्रवंशीय नरेशनल तथा राजा हुधून्त और रानी शकुन्तला के वंशधर राजा रन्तिदेव का

क्रमनु १३ देखिये—“अपराजितां वास्थाय ब्रजेद्विशमजिह्वाः । आनिपातोच्छ्रीरस्य युक्तो वार्यनिलाशनः ।” अर्थ—असाध्य रोगादि उत्पन्न होने पर ईशाण कोण की ओर योगनिष्ठ होकर तथा जल और वायु का आहार करता हुआ शरीर के पतन होने तक सीधे चला जाये। यही महाप्रस्थान है।

किया हुआ तथा अन्य सभी यज्ञों को मात करनेवाला गोमेघ यज्ञ मिलता है जिसमें इतनी गाएँ काटी गईं कि कहते हैं कि उनके नाम के द्वेर से निकले हुए लोहू की धारा से चर्मेश्वती नाम की एक नदी ही उत्पन्न हो गई। इस चर्मेश्वती को आजकल चम्बल कहते हैं जो बुन्देलखण्ड में बहती है। महाकवि कालिदासकृत भेषद्रूत, पूर्वादि, श्लोक ४५ तथा उसकी मलीनाथकृत टीका का सन्दर्भित श्रंश पढ़िये—

आराध्यैन् शरवणम्भवं देवमुल्लंघिताध्या । सिद्धद्वन्द्वैर्जलकण्ठ-  
भयाद्वौगिमिरुक्मार्गः । व्यालम्बेयाः सुरभितनयालभ्मज्ञा मानवि-  
ष्यन् । सोतोमृत्या सुविपरिणामा रन्तिदेवस्य कीर्तिम् ॥४५॥

**अर्थ—** ज्ञ मेघ से कहता है—कुछ दूर जाकर स्कन्ददेव की आराधना करना। वीणा धारण किए हुए सिद्धों की जोड़ियाँ ( जो वीणा च जाकर गान करते हुए उक्त देव की आराधना के लिये आए रहेंगे ) जलकण्ठ के भव में तुम्हारे रास्ते पर से हट जाएंगे ( क्योंकि जलकण्ठ पड़ने पर वीणा का शब्द शिथिल हो जाता है )। पुनः गायों के वध करने से उत्पन्न तथा भूलोक में नदी ( चर्मेश्वती ) के रूप में परिणत राजा रन्तिदेवक की कीर्ति का सम्मान करने के अभिप्राय से लटककर उत्तर जाना।

३राजा रन्तिदेव की पाकशाला में अतिथि-सेवार्थ प्रतिदिन दो सहस्र गायें कटती थीं, महाभारत, वनपर्व, अध्याय २०२ पढ़िए—  
राहो महानसे पूर्व रन्तिदेवस्य वै द्विज ।

अहन्यहीनवध्येते देसहस्रेगवर्णं तथा ॥३॥

समासं ददतोऽप्यन्नं रन्तिदेवस्य नित्यशः ।

अतुलाकीर्तिरभवन्तुपस्य द्विजसत्तम ॥४॥

**अर्थ—**राजा रन्तिदेव की पाकशाला में प्रतिदिन २००० गाएँ कटती थीं। मांस के साथ अज्ञ का दान करते-करते रन्तिदेव की कीर्ति अद्वितीय हो गई।

अब इस श्लोक की महीनाथकुत टोका का सम्बन्धित अंश पढ़िये—‘सुरभितनयानं गवामालमेन संजपनेन जायत इति तशोकाम् । भुवि लोके खोतोमूर्ख्या प्रवाहरूपेण परिगता रूपविशेषमापद्मा रन्तिदेवस्य दशपुरपतेमहाराजस्य कीर्तिम् । चर्मणवत्याख्यो नदीमित्यर्थः । मानविध्यन सत्करिष्यन व्यालम्बेयाः आलम्ब्यावतरे-रित्यर्थः । पुराकिलराजः रन्तिदेवस्य गवालमेष्वेकन संभृता द्रक्त निध्यन्दाच्चर्मराजोः काचिन्ददीसस्यन्दे । चर्मणवतीत्याख्यायत इति

अर्थ—गायों के वध करने से उत्पन्न तथा लोक में प्रवाह रूप में बदली हुई दशपुराधिपति महाराज रन्तिदेव की कीर्ति को अर्थात् चर्मणवती नाम को नदी को सत्कार करने के अभिग्राय से लटककर उत्तर जाना । कहते हैं कि प्राचीन काल में राजा रन्तिदेव के गोमेध यज्ञों में इकहे किए तथा खून निकलते हुए चाम के ढेर से एक नदी यह निकली जो चर्मणवती कही जाती है ।

गोरक्ष से चर्मणवती नदी की उत्पत्ति मानने पर एक प्रतिवादी आचेप करता है कि पशुओं वा किन्हीं भी प्राणियों के रक्त से किसी नदी की उत्पत्ति मानना निरी मूर्खता है; क्योंकि प्राकृतिक नियमों के प्रतिकूल होने के कारण ऐसा होना मर्बधा असम्भव है । गत यूरोपीय महासमर में न मालूम कितने घोड़े और योधा मारे गए; परन्तु उनके खून से कोई भी नदा नहीं निकली । पुराणों में प्रक्षिप्त ऐसे-ऐसे गोपोड़े वामपाणियों की लीलाएँ हैं । चर्मणवती ( चम्बल ) तो विन्ध्यपर्वत से निकली है ।

इस आचेप का उत्तर यह है कि यदि पुराण-वर्णित ऐसी-ऐसी घटनाओं को असंभव कहकर टाल दोगे 'तो तुम्हारे श्रुति, सृष्टि, उपनिषद्; ब्राह्मण आदि सभी ग्रंथ इस प्रकार के दोष से दूषित होने के कारण उनके भी कतिपय अंशों को तुम्हें असंभव वातों के वर्णन

करने के कारण, छोड़ देना पड़ेगा। अर्थवेद, काशड ८, अनुवाक ५,  
सूक्त ११, मंत्र १२। १०। ११। पर, जो नीचे दिए गए हैं, विचार करो—

सोदकमात् सा सुरनागच्छत तामसुरा उपाहयन्त माय एहीति  
॥१॥ तस्या विरोचनः प्राहादिवेत्स आसीदयस्यावं पात्रम् ॥२॥  
तस्या मनुष्यवस्ततो वस्त आसीत् पृथिवी पात्रम् ॥३॥ तां पृथिवीं  
वैन्योऽधोक् तां कृषि च सत्यं चाधोक् ॥४॥

**अर्थ—** वह गोरुपधरा पृथ्वी असुरों के पास गई। ‘इधर आओ,’  
ऐसा कहकर असुरों ने उसे चुलाया ॥१॥ प्रह्लाद का पुत्र विरोचन  
उसका बछड़ा बना और पृथ्वी पात्र बनो ॥२॥ फिर उस पृथ्वी का  
बैं स्वत मनु बछड़ा और पृथ्वी पात्र बनी ॥३॥ बैन के पुत्र  
पृथु ने उस गोरुपधरा पृथ्वी से खेता और तुणादि को दुहा ॥४॥  
अर्थवेद के इन मंत्रों में जो पृथ्वी का गोरुप तथा विरोचन और  
वैवस्तत मनु का बछड़ा बनना; फिर पृथु का उस गोरुपधरा पृथ्वी से  
कृषि और फसल का दुइकर निकाल लेना लिखा है वह सब असंभव  
होने के कारण अमान्य है।

पुनः मनुस्मृति, अध्याय १०, श्लोक ७२, में लिखा है—‘यस्मा-  
द्वाजं प्रभावेण तिर्यग्जा ऋष्योऽभवन्। पूजताश्च प्रशस्ताश्च तस्मा-  
द्वाजं प्रशस्त्यते ॥७२

**अर्थ—** चूँकि पशुओं से भी उत्पन्न लोग बीज के प्रभाव से  
पूजित और ऐष्ट भृषि हो गए, अतः क्षेत्र से बीज ऐष्ट है।  
‘तिर्यग्जा’ पर कुल्लूह भट्ठ का टाका पाइए। ‘तिर्यग्जाति हरिण्यादि  
जाता अपि ऋष्यशृंगादया मुनित्वं प्राप्तः’, अर्थात् पशु जाति  
हरिणी आदि में उत्पन्न ऋष्यशृंगादि मुनित्व को प्राप्त हो गए।  
वहाँ हरिणी आदि पशुओं में जो ऋष्यशृंगादिकों का उत्पन्न होना  
लिखा है वह प्राकृतिक नियमों के प्रतिकृत तथा असंभव होने के

कारण मानने योग्य नहीं है। ब्रजसूच्योपर्निषद् में भी, जिसका हवाला पूर्व में दे आया हूँ उत्तिप्य अन्य प्रूपियों की भी उत्पत्ति इसी प्रकार असंभव तथा अप्राकृतिक ढंग से हुई बताई गई है जो प्रतिवादी के आचेपानुसार मानने योग्य नहीं है। यदि ऐसे-ऐसे आचेपों पर ध्यान दिया जाए तो श्रुति, स्मृति, उपानिषद् आदि सभी अन्य अप्राकृतिक प्रतीत होने वाली घटनाओं को समझने के लिए कुछ अपनी अकल से भी काम लेना चाहिए। पहले चर्मशब्दी नदी की ही उत्पत्ति-विषयक कथा लीजिए। राजा रन्तिदेव ने जिस स्थान पर गोमेध यज्ञ किया था वहाँ पर विन्ध्यपर्वत से निकला हुआ कोई अप्रसिद्ध तथा नाम-रहित सोता बहता होगा, जिसमें वध की हुई गायों के चाम फेंक दिए गए होंगे जिनसे वहते हुए रक्त के कारण वह सोता सवंत्र रक्तमय हो गया होगा। राजा रन्तिदेव जैसे जगत्यसिद्ध राजा के उस सोते के तट पर गोमेध वश करने के कारण उस सोते का महस्त्र तभी से बढ़ गया होगा और उसमें चाम फेंके जाने के कारण उस नामरहित सोते का नाम तभी से चर्मशब्दी पड़ गया होगा। यही इस असंभव तथा अप्राकृतिक समझी जाने वाली घटना का सरल तथा बुद्धिगम्य व्याख्या है। इसी प्रकार राजा पृथु का गोरूपधरा पुरुषी के वैवस्त्रत मनु को बछड़ा बनाकर तृण और कृषि दुहने का यह अर्थ है कि उन्होंने वैवस्त्रत मनु के द्वारा पृथु पर लगे हुये जंगलों और झाड़ियों को साफ़ कराकर तथा उसे जोत-बोकर उसमें फसल उत्पन्न की और हरिगाँ आदि तिर्यग् योनि में भूध्यशृंगादिकों के उत्पन्न होने का यह अर्थ है कि हरिगाँ आदि नामों से अनायं तथा असभ्य जातियों की छियाँ अभियेत हैं जो उनकी माताएँ थीं। आदकल भी संस्कृत-हीन जातियों में छियों तथा पुरुषों के भी नाम पशु-पक्षियों की तरह रखे जाते हैं, जैसे— सुर्गिया, कुतरी, चिलौया, नेत्र, विलूर आदि। अतः गोचर्म के

रक्त से चमंसेवती नदी की उत्पत्ति का यही तात्त्विक अर्थ है जो अभी किया है और जो सर्वथा सभव, सर्वथा प्राकृतिक, सर्वथा बुद्धिगम्य अतः सर्वथा मान्य है।

पुनः एक दूसरा प्रतिवादी कहता है कि 'अश्वालम्भ' तथा 'गवालम्भ' शब्दों के अन्तर्गत 'आलम्भ' शब्द का अर्थ मारना वा बच करना नहीं है; वलिक इसका अर्थ है प्राप्त करना वा संग्रह करना और अपने इस मत को पटिं में तैत्तिरीय ब्राह्मण, काण्ड ३, प्रपाठक ६, अनुवाक ८ को सायण भाष्य के साथ पेश करता है—

(१) अश्वमालमते । प्राजापत्यो वा अश्वः । प्रजापतिमेवालमते ।  
अथो श्रीचार्वा एकशक्ति भियमेवालमन्ते ।

अर्थ—यजमान अश्व को मर्यादापूर्वक प्राप्त करे । अथवा अश्व का अधिष्ठाता देवता प्रजापति है; अतः अश्व को प्राप्त करने से यजमान मानो प्रजापति को ही प्राप्त करता है । अथवा एक खुर वाले जन्म, जैसे अश्व, अश्वतर (खच्चर) और गवा, लक्ष्मीस्वरूप हैं; अतः अश्व को प्राप्त करने से यजमान मानो लक्ष्मी का ही संग्रह करता है । इस पर सायण-भाष्य पटिष्ठए—

प्रजा (अश्वः) प्रत्यक्ष जन्यस्यात् प्राजापत्यः । तदालम्भेन प्रजापतिमेवालम्भवान् भवति । अपिच एकशक्ति अश्वाश्वतरगद्भूतं भीस्वरूपं धनिकानां एहेषु, मनुष्य-धनादि-वहनायाश्वादीनां दर्शनात् । तस्मात् भियमेव प्राप्नोति ।

अर्थ—अश्व, जो एक प्रजा है, प्रजापति से प्रत्यक्षतः उत्पन्न होने के कारण प्राजापत्य है । भाव यह कि प्रजा का प्रजापति के साभ तादात्म्य है । अतः अश्व को प्राप्त करने से मानो प्रजापति ही प्राप्त हो जाते हैं । तथा धनिकों के घर मनुष्य, धन आदि होने के लिए अश्वादि के देखे जाने से एक खुरवाले जन्म, जैसे अश्व, अश्वतर

(स्वच्छ) और गधा, लद्धीस्वरूप है। अतः अश्व को प्राप्त करने से यजमान मानो लक्ष्मी को ही प्राप्त करता है।

पुनः तैसिरीय ब्राह्मण के उक्त निर्देश पर ही गोपशु-विषयक निम्नलिखित कथन देखिये—

(२) गामालभते । यज्ञोवैगौः । यज्ञ मेवालभते । अथो अन्नं वै गौः । अन्नमेवावरुन्धे ।

अर्थ—यजमान गोपशु को मर्यादापूर्वक संग्रह करे। गोपशु यज्ञ का कारण होने से यज्ञस्वरूप है। अतः गोपशु को प्राप्त करने से यजमान मानो यज्ञ का ही प्राप्त करता है। और गोपशु दूध, वी आदि की प्राप्ति का कारण होने से अन्न (मोजन-द्रव्य) स्वरूप है। अतः गोपशु को प्राप्त करने से यजमान मानो अन्न को ही प्राप्त करता है। इस पर सायण-भाष्य पढ़िए—

‘द्वे धेनू भौमी’ इत्यादौ पशुत्वेन गौर्विदिता । सा च यज्ञ निष्यादक-त्वात् यज्ञस्वरूपा । अतः गवालभेन यज्ञ एवालब्धो भवति । अपि च ज्ञीरादिद्वारेण गोरन्नत्वात् अन्नमेव प्राप्नोति ।

अर्थ—‘द्वे धेनू भौमी’ इत्यादि, इस वचन में गोशब्द से गोपशु का ही विवान है। वह गोपशु यज्ञ का कारण होने से यज्ञ स्वरूप है। अतः गोपशु की प्राप्ति से यजमान को मानो यज्ञ ही प्राप्त हो जाता है। और दूध आदि के द्वारा गोपशु के प्राण-प्रेषक अन्न (मोजन-द्रव्य) स्वरूप होने से यजमान गोप्राप्ति से मानो अन्न को ही प्राप्त कर लेता है।

यह है ‘आलभ्म’ शब्द के हिंसा-परक अर्थ पर प्रतिवादी का आचेप। उसने कहा तो ठीक; किन्तु उसकी समझ में कुछ फेर आ गया। तैसिरीय ब्राह्मण के उक्त वचनों से उसे यह समझना चाहता था कि उक्त ब्राह्मण के कर्ता मृत्यि ने उन वचनों से अश्व जाति तथा

गो जाति का महत्त्व एवं उपयोगिता बार-बार दिखाते हुए यजमान को उन्हें संग्रह करने के लिए आदेश करता है। किसी वस्तु की उपयोगिता तथा महत्त्व दिखाने के प्रसंग में उस वस्तु को नष्ट कर देने के लिए नहीं कहा जाता; बल्कि उसको संग्रह करने के ही लिए कहा जाता है। अतः अश्व और गोपशुश्रों का महत्त्व दिखाने के प्रसंग में 'आलभ्म' शब्द का अर्थ प्राप्त करना वा संग्रह करना ही युक्ति-युक्त तथा तकँ-संगत है; मारना वा वध करना नहीं।

इस पर यह शंका हो सकती है कि यदि घोड़ा और गाय इतने उपयोगी और महत्त्व-पूर्ण प्राणी हैं तो उन्हें यज्ञ में मारा क्यों जाता था? इस शंका का सरल समाधान यही है कि यह मनुष्य का स्वभाव ही है कि वह अपनो असीम अद्वा-भक्ति के पात्रभूत देवता को प्रसन्न करने के लिए अपनी सबसे अच्छी तथा प्यारी वस्तु को ही अपेण करता है; न किसी हेठ वस्तु को। प्राचीन हिन्दुओं का यह पूरा विश्वास था, जैसा कि आजकल मीं दुर्गादेवी के मन्दिरों में वकरा काटने तथा कटवाने वाले हिन्दुओं का है, कि उनके इष्टदेव प्रसन्न होंगे तो उन्हें एक घोड़े वा एक गाय के बदले हजारों घोड़ों तथा गायों की लागत का लाभ पहुँचाएँगे। प्राचीन काल के राजा लोग इस आशा तथा विश्वास पर १०० अश्वमेघ यज्ञ किया करते थे कि उन्हें इन्द्र का पद जो उक्त यज्ञों में वध किए हुए १०० घोड़ों की तुलना में उनसे असंख्य गुना मूल्यवान् पदार्थ समझा जाता था, प्राप्त होगा। वैदिक ग्रन्थों के अर्थ करने में पूरी सावधानी रखनी चाहिए। इस विषय पर इस परिच्छेद के अन्त में कुछ विचार किया जाएगा।

अश्वमेघ और गोमेघ यज्ञों पर विचार करने के पश्चात् अब नरमेघ नामक यज्ञ पर विचार किया जाता है जिसे प्राचीन हिन्दू किया करते थे और जो ब्रिटिश-शासन के आने के नरमेघ पूर्व कहो-कहो अर्बाचीन काल में भी इस देश में

प्रचलित था। इस यज्ञ का आधार ऋग्वेदीय शुनः शेफ सूक्त माना जाता था। इस निष्ठुर प्रथा को ब्रिटिश सरकार ने १८० सन् १८४५ के एकट २१ द्वारा बन्द कर दिया।

नरमेध की नर्चा के साथ ही हृत्य मारे भय के सिहर उठता है। आश्चर्य तो इस बात का है कि हिन्दुओं के पूर्वज, जो अपने की जगद्गुरु होने का ढाँग हाँकते थे, इस पैशाचिक कृत्य को धर्म के नाम पर किया करते थे और शब्द तक भी यह अमानुषिक कृत्य इस भारत में हाता रहता यदि ब्रिटिश सरकार इसे कानून द्वारा नहीं उठाती।

अभी कह आये हैं कि नरमेध यज्ञ का आधार ऋग्वेदीय शुनः शेफ सूत्र माना जाता था। इस शुनःशेफ की संक्षिप्त कथा जो ऋग्वेद के ऐतरेय-ब्राह्मण में विस्तृत रूप से लिखी गई है और जो नरमेध यज्ञ का एक भवकर नमूना हमारे सन्मूल उपस्थित करती है, इस प्रकार है—

हरिश्चन्द्र नामक एक राजा की सौ खियाँ थीं; किन्तु पुत्राभाव के कारण वह सदा दुःखी रहता था। उसने पर्वतनारद नामक ऋषि की मलाह से बहुण देव की यह मनोती की कि, 'यदि मुझे पुत्र प्राप्त होगा तो मैं उसे बहुण देव को वर्तल चढ़ा दूँगा।' निदान बहुण की कृपा से हरिश्चन्द्र को एक पुत्र हुआ जिसका नाम उसने रोहित रखा। वह होने पर जब रोहित को यह मालूम हुआ कि उसके पिता ने उसे वलि चढ़ाने की मनोती की है तो वह प्राण के भय से जंगल में भाग निकला और वहाँ उसने अजीर्ण नामक एक लुधा-पीड़ित ऋषि को सौ गाँठ देकर उसके शुनःशेफ नामक एक पुत्र को अपने बदले वर्तल देने के लिये मोल ले लिया और उसे बहुण देव को भैंट चढ़ाने के लिये अपने पिता राजा हरिश्चन्द्र के हाथों में सौंप दिया। राजा ने यज्ञ प्रारम्भ किया और जब शुनःशेफ को यज्ञ-यूप से चाँधने के लिये

कोई आगे नहीं बढ़ा, तो उसके पिता ने पुनः सौ गाँए लेकर उसे यज्ञ-यूप से बाँध दिया। पर जब शुनःशेष का बध करने का किसी का साहस न हुआ तो उसके पिता ही पुनः सौ गाँए लेकर इस कूर कर्म को करने के लिए खड्ग लिये उसके समीप आ खड़ा हुआ। अन्तिम समय में शुनःशेष ने अपने सूक्त से अग्नि, प्रजापति आदि देवों की प्रार्थना का जिससे उस संकट से छुटकारा मिला और वह अपने नृशंस माता-पिता का परित्याग कर विश्वामित्र ऋषि का देवरात नामक स्वयंदत्त पुत्र हो गया।

शुनःशेष ने जिस सूक्त द्वारा देवताओं को प्रसन्नकर अपने ग्राण बचाये थे उसके कतिपय मंत्रों को पाठकों की जानकारी के लिये यहाँ उद्धृत करता हूँ। ऋग्वेद, मंडल १, सूक्त २४ देखिये—

कस्य नूनं कतमस्यामृतानां मनामहे चारु देवस्य नाम ।

कोनोमद्या अदितये पुनर्दात् पितरं च दृश्येयं मातरं च ॥१॥

अग्नेर्वैयं प्रथमस्यामृतानां मनामहे चारु देवस्य नाम ।

सनो मद्या अदितये पुनर्दात् पितरं च दृश्येयं मातरं च ॥२॥

अमीय ऋद्धा निहितास उचानकं दद्भे कुहचिद्वेषुः ।

अदृवानि वरुणस्य ब्रतानि विचकासचन्द्रमा नकं मेति ॥३॥

शुनःशेषोऽहृद् गुभोत्स्तिष्यादित्यं दुपदेषु बद्धः ।

अवैनं राजा वक्षणः ससूज्यद्विद्वा अदृधोत्रिमुमोक्तुपाशान् ॥४॥

अर्थ—यज्ञ-यूप में जकड़ा हुआ शुनःशेष कहता है—मैं भला किसके, अमरों में से किस देवता के, पवित्र नाम का स्मरण करूँ? भला कौन (मेरे बन्धनों को काटकर) मुझे महनीय मुक्तिदेवी के पास पुनः पहुँचा देगा जिससे मैं अपने पिता और माता को पुनः देख सकूँ ॥१॥ देवताओं में श्रेष्ठ जो अमिनदेव है उनके पवित्र नाम को हम लोग स्मरण करें। वे ही हम लोगों को महनीय मुक्तिदेवी के पास

पुनः पहुँचा देंगे जिसमें हम लोग अपने पिता और माता को पुनः देख सकेंगे ॥२॥ ये जो नक्षत्रगण ऊपर आकाश में निश्चल रूप से नभापित हैं, वे रात को दिखाई पड़ते हैं और दिन को कहाँ चले जाते हैं अर्थात् लुप्त हो जाते हैं। और विशेष प्रकार से चमकता हुआ चन्द्रमा रात को उदय लेता है। वरुण देव के ये नियम नष्ट नहीं होते ॥४॥ तीन यज्ञ-न्यूपों में जकड़ा हुआ शुनःशेफ वरुण को पुकारता है। देवताओं के राजा वरुण, जो ज्ञान-स्वरूप तथा अनश्वर है, उसको बन्धनों से छुड़ाकर मुक्त कर दें ॥१३॥

नोट—मंत्र १ में शुनःशेफ (जिसे शुनःशेप भी कहते हैं) अपने माता-पिता के दर्शन के लिए लालायित जान पड़ता है; पर उसके माता-पिता ही ने तो उसे वधार्थ बेचा था; अतः वह ऐसे उशंस माता-पिता का दर्शनाभिलाषी नहीं हो सकता। अनुमान से मालूम होता है कि वह किसी ऐसे दम्पति को प्राप्त करना चाहता था जो उसके साथ सच्चे माता-पिता की नाइँ पालन-न्योगण तथा लाड़-प्यार आदि उचित व्यवहार कर सके और निदान वह महर्षि विश्वामित्र का स्वयंदत्त पुत्र बनकर अपने मनोरथ में सफल हुआ। मंत्र १३, में ‘आदित्य’ शब्द का अर्थ ‘वरुण’ किया गया है; कारण कि बारह आदित्यों में वरुण ही प्रमुख है और पहले तो ‘आदित्य’ नाम वरुण के ही लिए सीमित था।

शुनःशेफ का उपाख्यान रामायण, महाभारत तथा श्रीमद्भागवत में भी आया है। भागवत में राजा हरिश्चन्द्र के किए हुए नरमेघ को पुरुषमेघ यज्ञ कहा गया है जो नरमेघ का ही एक विशेष प्रकार का भेद है। यह वसन्त ऋतु में किया जाता है और ४० दिनों तक चलता है। भागवत, नवम स्कन्ध, सातवाँ अध्याय पढ़िए—

शुनःशेपं पशुं पित्रे प्रदाय समवन्दत ।

ततः पुरुषमेघेन हरिश्चन्द्रो महायशाः ॥२१॥

मुक्तोदरोऽयजहेवान् वरुणादीन् महत्कथः ।

**अर्थ—** रोहित ने अपने बदले में शुनःशेफ को ही यशपशु बनाकर पिता को दिया और उनकी वन्दना की तब हरिश्चन्द्र ने, जो बड़े यशस्वी थे और जिनकी कीर्ति बड़े-बड़े लोग वर्णन किया करते थे, जलोदर रोग से मुक्त होकर वरुणादिक देवताओं का पुरुषमेघ के द्वारा पूजन किया ।

मनु-स्मृति में भी पुत्र शुनःशेफ का वध करने के लिए उच्यत आजीगर्त की चर्चा आई है । दशम अध्याय का १०५वाँ इलोक पट्टिए—

आजीगर्तः सुतं हन्तुमुपासपद्मं भुक्षितः ।  
न चालिष्यत पापेन, कृत्पतीकारमाचरन् ॥१०५॥

**अर्थ—** आजीगर्त नामक ऋषि ज्ञुधातुर होकर अपने पुत्र का वध करने चला; परन्तु ज्ञुधा को दूर करने के लिए ऐसा करता हुआ वह पाप से लिप नहीं हुआ ।

कतिपय आधुनिक विद्वान् ऋग्वेद के पूर्वोक्त शुनःशेफ-सूक्त में नरमेघवज्ञ-संवंधी किसी वास्तविक घटना का लेशमात्र भी नहीं पाते । उनके मत में यह उपाख्यान प्रकृति के सत्, रजस् और तमस् इन तीन यज्ञ-यूपों में माया-न्याश से बंधा हुआ सुमुक्तुजीव परमात्मा से प्रार्थना करता है कि वह उसके माया-न्याश को काटकर उसे निष्ठै-गुण्य तथा माया-मुक्त कर दे, वस इसी कथन का एक आलंकारिक रूप (Allegorical form) मात्र है । पर याद रहे कि वेद-मंत्रों को अलग-अलग विषयानुसार ऋग्वेदादि संहिताओं के रूप में वर्णोकरण करनेवाले और महाभारत एवं भागवत पुराण के रचयिता एक ही व्यक्ति अर्थात् कृष्णद्वैपायन महर्षि वेदव्यास हैं । अवश्य ही उन्हें वेद-मंत्रों का वास्तविक अर्थ जिस स्पष्टता के साथ मालूम

रहा होगा उस स्पष्टता के साथ आधुनिक विद्वानों को, जो काल की दृष्टि से वैदिक काल से कई सहस्रांशियाँ दूर चले आए हैं तथा जिनके समय में वेदों के अध्ययनाभ्यापन का इस प्रकार भीषण हास हो गया है, मालूम होना असंभव है। इसी प्रकार रामायण के रचयिता तपःस्वाध्याय निरत स्वयं महर्षि वाल्मीकि हैं जो काल की दृष्टि से वैदिक काल के, महर्षि व्यास की भी अपेक्षा, अधिक समीप थे; उन्हें तो वेदों का ज्ञान व्यास से भी बढ़कर होगा। अतः जब स्वयं वाल्मीकि और व्यास को भी शुनःशेफ के सूक्त में कोई रूपक नहीं सूक्ख पड़ा, तो उसे रूपक बतानेवाले आधुनिक विद्वान् किस खेत की मूली है कि उनमें मौलिकता कुछ भी न रहते हुए भी उनके बचनों पर विश्वास किया जाय। इसके अतिरिक्त एक और भी बात है जिस पर विद्वानों को मनन करना चाहिए। यदि वेदों में निबद्ध शुनःशेफ विषयक जैसी ऐतिहासिक घटनाओं को हम रूपक मान लें तो रामायण तथा महाभारत में निबद्ध सभी ऐतिहासिक घटनाएँ रूपक क्यों नहीं? यदि ये भी रूपक मात्र हुए तो राम, सीता, कृष्ण, अर्जुन आदि इन सभी उक्त इतिहास-प्रन्थों के पात्रों का अस्तित्व भी काल्पनिक होता हुआ हमारे पूर्वजों के सारे इतिहास पर एकदम पानी फेर देगा। अस्तिर इस प्रश्न का भी कोई उत्तर होना चाहिए कि यदि श्वर्मवेदोक्त शुनःशेफ का सूक्त रूपक है तो व्यास और वाल्मीकि जैसे वेदों के प्रकारड विद्वानों ने उसकी रूपकता क्यों नहीं समझी और उसे भागवत, रामायण आदि अपनी-अपनी निजी कृतियों में ऐतिहासिक रूप क्यों दें दिया? असल बात तो यह है कि वेदों जैसे प्राचीनतम ग्रंथरत्नों में भी हमारी सारी सम्यता एवं सारी संस्कृति का बास्तविक इतिहास निबद्ध है। किसी वेद-संहिता को उठाकर देखिए, उसमें आप को मन्त्र भान्ना में ऐतिहासिक सामग्री मिलेगी। किसी भी पञ्चपातरहित तत्त्वान्व-

वेष्टक की दृष्टि में हमारी सभी वेद-संहिताएँ, सारे ब्राह्मण, आर-स्थक तथा उपनिषद् ग्रन्थ इतिहास से भरे पड़े हैं। वेदों को नित्य तथा परमात्मा का निःश्वास माननेवाले सायण, भट्टमास्तकर, स्कन्दस्वामी, शंकर, रामानुज, बलभ आदि सभी आचार्यगण संहितादि वैदिक ग्रन्थों में इतिहास मानते हैं। यास्क ने भी वैदिक इतिहासों का कोई वार उल्लेख किया है। अतः इन सब बातों पर अच्छी तरह विचारकर हग इसी निर्णय पर पहुँचते हैं कि शुनःशफ मृत्क किसी ब्रह्मज्ञान के कथन का रूपक न होकर नरमेघ जैसी एक सच्ची घटना का उल्लेख है, जिसे प्राचीन हिन्दू एक धार्मिक कृत्य समझकर किया करते थे और जिसका सिलसिला अर्वाचीन हिन्दुओं में भी अब तक कहो-कही प्रचलित था जिसे ब्रिटिश सरकार को कानून ढारा रोकना पड़ा।

अब वेदमंत्रों के अर्थ करने की शैली पर कुछ विचारकर इस परिच्छेद को समाप्त करता हूँ। मंत्रद्रष्टा ऋषियों ने स्वदृष्ट मंत्रों के अर्थज्ञान के लिए अपनी ओर से उन पर कोई वेदार्थ करने की शैली ठीका या भाष्य नहीं रचा जिनके सहारे हम उन मंत्रों में निरद किए हुए सम्बन्धित ऋषियों के वास्तविक भाव को समझ सकें। अतः यह आवश्यक है कि हम वेदमंत्रों तथा किसी अन्य वेद-सम्बन्धी ग्रन्थों का अर्थ करने के लिए किसी दूसरी वस्तु का आधार लें। प्रायः लोग यास्कादि के निरुक्त तथा निष्ठण्डु का आधार लेकर वेदों के मंत्र, ब्राह्मण, आरस्थकादि विभागों का अर्थ किया करते हैं। पर निरुक्त तथा निष्ठण्डु ऐसी एक ही कुंजी से एक ही मंत्र के भिन्न-भिन्न लोगों द्वारा भिन्न-भिन्न भाव निकाले जाते हैं। यह तो हो नहीं सकता कि मंत्र द्रष्टा ऋषियों के मन में किसी मंत्र के दर्शन-काल में वे सभी भाव उपस्थित हो। यदि होगा तो कोई एक ही भाव मौजूद होगा, और

वह भी संभव है कि दूसरों के निकाले हुए विविध भावों में से कोई भी भाव उपस्थित न हो और दृष्टाओं का कोई अपना विलक्षण भाव हो जो किसी अन्य के भाव से नहीं मिलता हो। परं ऐसा मानकर वेदमंत्रों के अर्थज्ञान के विषय में हमें निराश होना उचित नहीं जान पड़ता; प्रत्युत उन अर्थों को हँड़ने का कोई न कोई उपाय करना हमारा एक आवश्यक कर्तव्य जान पड़ता है; अन्यथा हमारा सारा वैदिक साहित्य निकम्मा अतः रही की टोकरी में फेंकने योग्य हो जाएगा। अस्यबामीय सूक्त (ऋ० ११६४३६) की व्याख्या तीन प्रकार से करता हुआ निश्चत (१३११) कहता है—

‘अथं मंत्राभ्युहोऽन्युद्देऽपि श्रुतितोऽपि तर्कतः ।

नतु पृथक्त्वेन मंत्रानिर्वक्तव्याः; प्रकरणवश एव निर्वक्तव्याः।’

अर्थ—मंत्र का यह विचार परम्परागत श्रुति और तर्क द्वारा निरूपित किया गया है मंत्रों की व्याख्या पृथक्-पृथक् न कर प्रसंगा-नुमार की जानी चाहिए।

अतः निरुक्तानुसार तीन साधन हैं जिनके द्वारा हमें वेदों का अर्थ मालूम हो सकता है—(१) श्रुति अर्थात् आचारों के मुख से परम्परा से सुने हुए ज्ञान वा उनके संग्रह-ग्रन्थ जैसे ब्राह्मण आदि; (२) तर्क यानी अनुमान। वाल्मीकि, व्यास, मनु आदि जिन विद्वानों को वेदों के अध्ययनाध्यापन तथा मनन करने के अधिक सुअवसर प्राप्त थे उनकी निजी कृतियों में जो धर्मनिरूपण किए गए हैं वे अवश्य वेदानुकूल हैं तथा जिन्हें (जैसे आधुनिक विद्वान्) उक सुअवसर प्राप्त नहीं हुए उनके धार्मिक मन्तव्य मन्वादिकों के अनुकूल होने पर ही माननीय हैं; अन्यथा नहीं, ऐसा विचार तर्क या अनुमान है और (३) प्रकरण या प्रसंग। इन तीन प्रकार के साधनों के उदाहरण क्रमशः नीचे दिये हैं—

(१) परभ्यराभत् अर्थ-ज्ञान के उदाहरण के लिये चाजसनेय-  
संहिता की ईशोपनिषद् के इस वचन को लीजिये—

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेऽच्छ्रुतं समाः ।

एवं त्वयि नान्यथेऽस्ति न कर्म लिप्यते नरैः ॥'

अर्थ—कर्म करते हुए भी सौ वर्ष तक जीने की इच्छा करे । इसी प्रकार तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी ; दूसरी तरह से नहीं । कर्म मनुष्य में लिप्त नहीं होता । अब ईशोपनिषद् के उक्त वचन के साथ भगवद्गीता के इस वचन को मिलाइए—

“न मा कर्माणि लिप्यन्ति, न मे कर्मफलेऽप्युहा ।

इति मा योऽभिजानाति कर्मभिन्नसवध्यते ॥”

अर्थ—कर्म मुझे लिप्त नहीं करते और न कर्म-फल में मेरी रप्त्युहा रहती है । मुझे ऐसा जो जानता है, वह कर्मों से नहीं बौद्धा जाता । क्या गीता का यह वचन ईशोपनिषद् के उक्त वचन की व्याख्या नहीं है ?

पुनः वृहदारण्यक तथा कठोपनिषद् का यह वाक्य लीजिए—

“यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामायेऽस्य हृदिस्थिताः ।

अथ मत्योऽमृतोभवत्यथ ब्रह्म समश्नुते ॥”

अर्थ—जब इसके हृदयस्थित सभी कामनाएँ क्लूट जाती हैं तब मरण-शील (मनुष्य) अमर होकर ब्रह्म को प्राप्त करता है । इसके साथ गीता का यह श्लोक मिलाइए—

“विहाय कामान् यः सर्वान् पुमाश्चरति निःस्पृहः ।

निर्ममो निरहंकारः स शान्तमधिगच्छति ॥”

अर्थ—जो मनुष्य सभी कामनाओं को क्लूटकर तथा इच्छा, समता और अहंकार से रहित होकर आचरण करता है वही शान्ति

पाता है। क्या गीता का यह वाक्य उक्त उग्निपद्माक्य की व्याख्या नहीं है।

खोजने पर और भी ऐसे-ऐसे कितने उदाहरण मिलेंगे जहाँ वेद-सम्बन्धी वचनों की व्याख्या अन्य ग्रन्थों में मिलेंगी। वस्तुतः पुराण और धर्मशास्त्र एवं रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रन्थ परम्परा प्राप्त अर्थों की खाने हैं जिनसे वैदिक वचनों की व्याख्या करने में यथेष्ट सहायता मिल सकती है। पुराण आदि विविध उक्त ग्रन्थों की सहायता वेदों के अर्थ जानने के लिए ठीक बैसी ही है जैसी लौकिक संस्कृत की सहायता वेदों की भाषा समझने के लिए। हाँ, वेदों के अर्थ-ज्ञान के लिए उन ग्रन्थों में निबद्ध परम्परा प्राप्त ज्ञान के साथ-साथ इन्हों-यूरोपियन भाषाओं के तुलनात्मक भाषा-विज्ञान की सहायता, एक दूसरे के शोधक के रूप में ली जाए, तो सोने में मुगन्ध वाली कहानूत चरितार्थ हो।

(२) तर्क यानी अनुमान। इस साधन की आवश्यकता यहाँ पड़ती है जहाँ एक ही वेद-वचन के अनेक युक्त-युक्त अर्थ होते हों; पर यह न स्पष्ट होता है कि मंत्रद्रष्टा वा लेखक ऋषि का वास्तविक भाव क्या है। जैसे अभी पहले कहा गया है कि ऋग्वेदीय गुणः शेष-सूक्त रूपक न होकर एक वास्तविक घटना का वर्णन है; कारण कि वाल्मीकि, व्यास आदि महर्षियों ने अपने ग्रन्थों में इसे ऐसा ही माना है। इन महर्षियों ने उक्त सूक्त की कुछ व्याख्या नहीं की है; वहिंक उसके विषय में जो नाना प्रकार की समावनाएँ भी उन सब का निपटाराकर उसके वास्तविक भाव को निरूपित कर दिया है। इस निर्णाय पर हम लोग इस तर्क से पहुँचते हैं कि उक्त महर्षियों को वेदार्थ साक्षात्कार की जो सुविधाएँ प्राप्त थीं वे आधुनिक विद्वानों को नहीं हैं। इसके अतिरिक्त इस साधन का वहाँ भी काम

पड़ता है जहाँ संवंधित वेद-वचन को उपलब्धि नहीं होती जैसा कि आगे दिखाया गया है।

दूसरा उदाहरण लीजिए। वेदों में कई जगह यह लिखा मिलता है—“यजमानस्य पश्चात् पाहि; अवि मा हिसीः; गां मा हिसीः; एकशाफ़ ना हिसीः” इत्यादि।

अर्थ—यजमान के पशुओं की रक्षा करो; भेड़ मत मारो; गाय मत मारो; एक खुरवाले पशु को मत मारो इत्यादि। पर यहाँ व्यर्थ वा केवल उदर-पूर्ति के लिए पशु-वध का निषेध है; यज तथा श्राद के लिए नहीं; क्योंकि मनु इसमें प्रमाण है—“मधुपके च यज्ञे च पितृदैवतकर्मणि । अत्रैव पशवो हिस्या नान्यत्रेत्यबर्वीन्मनुः” (४।४१)। पुनश्च—“या वेदविहिता हिसा नियताऽस्मिंश्चराचरे । अहिसामेव तो विद्याद् वेदाद्भास्मौ हि निर्वभौ” (४।४४)। इन श्लोकों का अर्थ मांस-भक्षण-प्रसंग में पहले ही कर चुका हूँ। वहाँ देख लीजिए। इनके अतिरिक्त मनु के और भी वचन हैं जिनके अनुसार यज्ञ में पशुओं का वध वध नहीं है। इस बात को सभी मानते हैं कि मनु-स्मृति वेदाओं की पुष्टि करनेवाली सर्वप्रधान स्मृति है। बहस्पति कहते हैं—

“वेदार्थोपनिवदत्यात् प्राधान्यं हि मनोः स्मृतम् ।

मन्वर्थविपरीता या सा स्मृतिं प्रशस्यते ॥”

अर्थ—वेदाओं को निवद करने के कारण मनुस्मृति प्रधान मानी गई है। जो स्मृति मनु की विरोधिनी है वह प्रशस्त नहीं है। और भी कहा है—

“तावच्छास्त्राणि शोभन्ते तर्कव्याकरणानि च ।

धर्मार्थमोक्षोपदेष्ठा मनुर्यावच दृश्यते ॥”

अर्थ—तर्कव्याकरणादि सभी शास्त्र तभी तक शोभा देते हैं जब

तक धर्म, अर्थ और मोक्ष का उपदेश करनेवाला पनु नहीं देख पड़ता। महाभारत में भी लिखा है—

“पुराणं मानवो धर्मः साङ्गो वेदश्चकित्सितम् ।

आज्ञासिद्धानि चत्वारि न हन्तव्यानि हेतुभिः ॥”

अर्थ—पुराण, मानव-धर्म (मनुष्रोक्त धर्मशास्त्र), वेद-चिकित्सा-शास्त्र, ये चारों आज्ञासिद्ध हैं, अर्थात् ये जो कहे उसे मान लेना चाहिए। इन पर तर्क-वितर्क करके इन्हें अन्यथा नहीं करना चाहिए। इन सब प्रमाणों से यह निर्विवाद सिद्ध है कि मनुस्मृति ही सब स्मृतियों में प्रधान है और वह वेदाओं को ही बनलाती है; अर्थात् उसमें जो कुछ लिखा है वह वेद-सम्मत है। इसका कोई भी अंश प्रक्षिप्त कहकर नहीं उड़ाया जा सकता।

अब यहाँ पर यह शंका हो सकती है कि वेदार्थ जानने के पहले (अति) और दूसरे (तर्क वा अनुमान) साधनों में अन्तर ही क्या है? इस शंका का समाधान यह है कि पहले में वेद-भिन्न ग्रन्थों के वचनों के मूलभूत वेद-वाक्यों की प्रत्यक्ष उपलब्धि होती है; और दूसरे में वेद-वाक्यों की वा उनके वास्तविक भावों की अनुपलब्धि में उनके अस्तित्व वा वास्तविक भाव का तक द्वारा अनुमान कर लिया जाता है; अर्थात् यह समझ लिया जाता है कि वेदों की भी मंशा अवश्य यही होगी; अन्यथा मनु अपने धर्मशास्त्र में उसको क्यों स्थान देते?

(२) प्रकरण वा प्रसंग। वेदों का अर्थ सदा प्रसंगानुकूल होना चाहिए। यह नहीं कि जहाँ-जहाँ ‘अश्व’ शब्द मिले वहाँ-वहाँ उसका केवल घोड़ा ही, वा केवल अश्वगन्धा नाम की श्रीधरि ही अर्थ लिया जाए। प्रसंगानुसार उसके दोनों ही अर्थ हो सकते हैं। जैसे पूर्व में कह आया हूँ कि गो तथा अश्व के उपयोगितावर्णन-प्रसंग में

'आलमते' का अर्थ संग्रह कर लेना चाहिए; पर गोमेष तथा अश्व-मेष यज्ञों के प्रसंग में उसका अर्थ हिंसा-परक ही लेना चाहिए।

उक्त साधन-त्रय के अतिरिक्त एक चौथा साधन भी है जो किसी भी ग्रन्थ के अर्थ-निर्णय में काम आ सकता है। वह है पूर्वार्पण-परस्पर विरोधी प्रतीत होनेवाले अर्थों का संगति-करण। जैसे मनु ने कहा है कि मांस-भक्षण तथा मैथुन में दोष नहीं है; क्योंकि इनमें प्राणियों की प्रवृत्ति स्वाभाविक होती है। इस पर कोई यह आच्छेप करने लगे कि यदि मांस खाने में दोष नहीं तो कुत्ते, बिल्ही और गधे का मांस क्यों नहीं खाते? यदि मैथुन में दोष नहीं तो माता, बहिन आदि के साथ मैथुन में क्यों दोष समझा जाता है? इस आच्छेप का उत्तर यह है कि कुत्ते, बिल्ही आदि का मांस कुस्वाद तथा स्वास्थ्य-हानिकर समझ उसे पंचनखों और एकशफों में निषिद्ध किया गया है और माता आदि के साथ मैथुन इस कारण निषिद्ध किया गया है कि इससे समाज का उच्छ्रेद होगा; यौन-सम्बन्ध का कोई नियम नहीं रहने के कारण समाज में व्यभिचार बढ़ेगा, जिसके पक्षस्वल्प किसी को सुख शान्ति न मिलेगी, लोगों का जीवन पशु-जीवन हो जाएगा जिससे किसी प्रकार की उत्तरि न हो सकेगी इत्यादि। अतः यदि मनु ने कहा है कि मांस-भक्षण करने में दोष नहीं तो उन्होंने यह भी नियम कर दिया है कि किस प्राणी का मांस-भक्षण है और किसका अभक्षण है। और यदि उन्होंने मैथुन में दोष नहीं माना है तो उन्होंने यह भी कह दिया है कि विवाहिता-मित्र स्त्रियों के साथ मैथुन करने से प्रायश्चित्त करना पड़ता है। अभिप्राय यह कि किसी भी ग्रन्थ के वाक्यों का अर्थ पूर्वार्पण मिलाकर करना चाहिये।

यदि उक्त आच्छेप को उलट कर यह प्रत्याच्छेप किया जाए कि यदि मांस खाने में दोष है तो आहाराभाव के कारण जान जावे

हुए भी मनुष्य का, वा व्याधि-विशेष में प्राणरक्षार्थ मांस-भक्षण की नितान्त आवश्यकता होते हुए भी सम्बन्धित रोगी का मांस खाना सदोष है। पर यह धर्म और नीति दोनों के प्रतिकूल होने के कारण अमान्य है। इसी प्रकार यदि मैथुन में दोष है तो अपनी विवाहिता स्त्री के भी माथ मैथुन करने में दोष होगा। पर ऐसा मानने से मानव वंश का उच्छ्रेद होगा; अतः यह भी अमान्य है।

अब 'प्रवृत्ति' शब्द पर धोड़ा विचार कीजिए। यदि मांस खाना वा मैथुन करना मनुष्य-मात्र का स्वाभाविक धर्म है तो सभी को मांसाहारी तथा कामुक होना चाहिए। पर हम लोग प्रत्यक्ष देखते हैं कि मनुष्यों में से कितने मांसाहारी नहीं हैं। वे मांस का नाम सुनते ही मारे पुरुणों के मुँहफेर लेते हैं। वे अपना जीवन-निर्बाह केवल शाकाहार द्वारा करते हैं। तथा कितने पंड वा नपुंसक हैं जिनमें काम का विकार तनिक भी नहीं है जिससे वे मैथुन के प्रति विलक्षण निःस्पृह रहते हैं। पर शाकाहारियों तथा पंडों की संख्या बहुत ही कम है; अतः वे गणना योग्य नहीं हैं और मनु का वचन अक्षरशः सत्य मालूम पड़ता है। जब वे कहते हैं कि मत्त, मांस और मैथुन में प्राणियों को प्रवृत्ति स्वाभाविक है।

अन्त में धोड़ा कुछ और कहकर इस परिच्छेद का उपसंहार कर देना है। प्रश्न यह नहीं था कि मत्त-मांस का सेवन करना चाहिए वा नहीं; और यदि मेरी सम्मति पूछी जाए तो मैं यही कहूँगा कि मासन जैन उषणप्राय देश से जहाँ प्रचुर-मात्रा में खाने योग्य अन्न, दूध पैदा होता है, मत्त-मांस से विलक्षण परहेज रखना चाहिए; बल्कि प्रश्न यह था कि प्राचीन हिन्दू क्या खाते-पीते थे और श्रुति, स्मृति तथा पुराणादिकों के द्वारा यह दिखला दिया गया कि उनमें मत्त-मांस का प्रचार था। उनमें किसी विशेष प्रकार को विशेषता नहीं थी कि वे इन दोषों से दूर रह-

सकें। इतना ही नहीं; बल्कि यज्ञों में वे गोवध तक किया करते तथा गोमांस भी खाया करते थे। सायण-भाष्य के साथ ऋग्वेद का अध्ययन कीजिए और अपने पूर्वजों के काले कारनामों की सूची तैयार कीजिए—वे धोड़े, गाय, बैल, सुअर, भेड़े तथा भैंसे का मांस खाते थे (ऋ० १०१८६।१३ तथा १०२८।३); एक उथान पर इन्द्र ने अपने भोजन के लिए २० बैल मारने को कहा है (ऋ० १०१८६।१४); एक-एक बार सौ-सौ भैंस भी काटे जाते थे (ऋ० ६।१७।११); धोड़े, बैल, भेड़ और गायों की आहुति होती थी (ऋ० १०१६।१।१४ तथा १०।१६६।३); जगह-जगह कसाईखाने भी थे (१०।१८।१४); सोमलता को गोचर्म पर रखकर उसे पत्थर से कुटा जाता था (ऋ० ६।७२।५) पाठकगण क्रमशः निम्नोद्धृत उक्त वेदमंत्रों का अवलोकन करें—

(१) वृषाकपायि रेवती सुपुत्र आदु सुस्तुपे ।

वसत इन्द्र उत्तरः प्रियं काचित् करं हविर्विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः॥

ऋ० १०।१८६।१३ ॥

अर्थ—हे वृषाकपि (तप्तामधारी इन्द्र-पुत्र) की लौ ! तुम धन-शालिनी, उत्तम पुत्रवाली और सुन्दर पुत्र-बधु हो। तुम्हारे वृषों (सौङों) को इन्द्र खा जाएँ। तुम्हारे प्रिय और सुखकर हवि का वे भज्ञण करें। इन्द्र सर्वशेष है।

(२) अद्रिसाते मन्दिन इन्द्र तयान्त्सुन्वन्ति सोमान् पिवसित्यमेषाम् ।

पचन्ति ते तृष्णमां अतिं तेषां पुक्षेण यन्मध्यन् द्रूयमानः॥

ऋ० १०।२८।३ ॥

अर्थ—हे इन्द्र ! अब कामना से जिस समय तुम्हारे लिए हवन किया जाता है, उस समय यजमान शीघ्र-शीघ्र ग्रस्तर-फलकों पर मादक सोमरस तैयार करते हैं। उसे तुम पीते हो। यजमान बैल (सौङ) पकाते हैं। तुम उन्हें खाते हो।

(३) उक्षणो हि मे पञ्चदशा साकं पचनित विशतिम् ।

उताहमग्नि पीव इन्दुभा कुची पृणान्ति मे विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥

ऋ० १०।८।३।१४ ॥

अर्थ—इन्द्र कहते हैं—मेरे लिए इन्द्राणी के द्वारा प्रेरित याजिक लोग पन्द्रह-बीस सौङ्ग वा बैल पकाते हैं। उन्हें खाकर मैं मोटा होता हूँ। मेरे दोनों कुचियों को याजिक लोग सोम से भरते हैं। इन्द्र सर्व-धेष्ठ है।

(४) वर्दान् व विश्वे मकतः सजोपाः पचच्छ्रुतं महिषां इन्द्रतुभ्यम् ।

पूषा विष्णुष्ट्रीणि सरामि भावन् वृत्रहणं मदिरमंशुमस्मै ॥

ऋ० १०।७।२।१ ॥

अर्थ—हे इन्द्र ! सम्पूर्ण मरुदगण समान प्रीतिभाजन होकर स्तोत्र द्वारा तुम्हें वर्दित करते हैं और तुम्हारे निमित्त पूषा तथा विष्णु देव शतसंख्यक महिषों का पाक करते एवं तीन पात्रों को पूर्ण करने के लिए मादक और वृत्र-नाशक सोम ढालते हैं।

(५) यस्मिन्नश्वास ऋष्यभास उक्षणो वशामेषा अवसुश्रास आहुताः ।

कोलालपे सोमपृष्ठाय वेघसे हृदा मतिंजनये चारमग्नये ॥

ऋ० १०।८।१।१४ ॥

अर्थ—जिन अग्नि में धोड़ों, बली वृषों और पीरुषहीन मेषों को अश्वमेध यज्ञ में आहुति दी जाती है, जो जल पीते हैं, जिनके ऊपर सोम रहता है और जो यज्ञानुष्ठाता है, उन अग्नि के लिए मैं हृदय से कल्याणकारी स्तुति बनाता हूँ।

(६) या देवेषु तन्वमैरयन्त यासां सोमो विश्वा लूपाणि वेद ।

ता अस्मम्यं पयसा पिन्वमानाः प्रजावतीर्न्द्र गोष्ठे रिरीह ॥

ऋ० १०।१६।३ ॥

अर्थ—जो गाएँ अपने शरीर को देवों के वज्र के लिए दिया

करती है; जिन गायों की आहुतियाँ सोम जानते हैं; हे इन्द्र ! उन गायों को दूध से परिपूर्ण करके और सन्तानयुक्त बनाकर हमारे लिए गोष्ठ में भेज दो ।

(७) कहिंस्वित् सात इन्द्र चेत्यासदघम्य यद्दिनदो रक्ष एषत् ।

मित्रकुवो यच्छुशने न गावः पुथिव्या आपुगम्या शयनते ॥

ऋ० १०।८३।५॥

अर्थ—हे इन्द्र ! जिस अख्ल वा वाग्ण को फेंककर तुमने पापी राक्षस को काटा था, वह कहाँ फेंकने योग्य है ? जैसे गोहत्या के स्थान में गाएँ काटी जाती हैं, वैसे ही तुम्हारे इस अख्ल से निहत होकर मित्रद्वेषी राक्षस लोग पृथ्वी पर गिरकर सदा के लिए सो जाते हैं ।

(८) दिवि ते नाभा परमो य आददे पुथिव्यास्ते बुद्धुः सानविक्षिपः ।

अद्रयस्त्वा वप्सति गोरथित्वच्यप्सुत्वा हस्ते दुर्दुर्मनीपिणः ॥

ऋ० १०।७६।४॥

अर्थ—हे सोम ! तुम्हारा परम अंश बुलोक में है । वहाँ से तुम्हारे अंश पृथ्वी के उच्चत प्रदेश ( पर्वत ) पर गिरे और वहाँ बूढ़ हो गए । मेघावी लोग तुम्हें हाथों से गोचर्म पर पत्थरों से कृटते हैं और जल में निचोड़ते हैं । ऋ० १०।१।१ भी देखिए ।

इन वेदमंत्रों के अतिरिक्त पाठकगण ऋग्वेद, प्रथम मण्डल का १६२ वाँ सूक्त पढ़ें जिससे उन्हें मालूम होगा कि किस प्रकार वैदिक ऋषिगण अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञाभि में छागों और धोड़ों की आहुति देते थे । उक्त सूक्त के कुछ मंत्र यहाँ उद्धृत किए जाते हैं—

(९) एषन्छागः पुरो अश्वेन वाजिनापूष्णो भागो नीयते विश्वदेव्यः

अभिप्रियं वत्पुरोलाशभर्ता त्वद्वे देवं सीभवसाय जिन्वति ॥

ऋ० १। १६।२।३॥

अर्थ—सब देवों के लिए उपयुक्त छाग पूषा के ही अंश में पड़ता है। उसे शीघ्रगामी अश्व के साथ सामने लाया जाता है। अतएव त्वष्टा देवता के सुन्दर भोजन के लिए, अश्व के साथ, इस छाग से सुखाव पुरोडाश तैयार किया जाए।

(२) यद्वाजिनो दामसन्दानमवतो या शीर्षया रशना रज्जुरस्य ।

यद्वाधास्य प्रभृतमास्ये तृण सर्वाता ते अपि देवेष्वस्तु ॥

ऋ० ११६२०॥

अर्थ—जिस रसी से धोड़े की गर्दन बाँधी जाती है; जिससे उसके पैर बाँधे जाते हैं; जिस रसी से उसका सिर बाँधा जाता है, वे सब रसियाँ और अश्व के मुँह में डाली जानेवाली घासें देवों के पास आतीं।

(३) यदश्वस्य क्रविषा मल्किकाश यद्वा स्वरौ स्वधितौ रिष्टमस्ति ।

यदस्तयोः शमितुर्यज्ञस्वेषु सर्वाता ते अपि देवेष्वस्तु ॥

ऋ० ११६२०॥

अर्थ—अश्व का जो कच्चा मांस मक्खी स्वाती है, काटने अथवा साफ़ करने के समय जो हथियार में लग जाता है तथा काटने वाले के हाथों और नखों में जो लग जाता है, वह सब देवताओं के पास जाय।

(४) वत्तेगात्रादग्निना पच्यमानादभिशूलं निहतस्यावधावति ।

मा तद्भूम्यामाभिष्ठन्मा तुरोषु देवेष्वस्तदुशद्भ्यो रातमस्तु ॥

ऋ० ११६२०॥

अर्थ—हे अश्व ! आग में पकाते समय तुम्हारे शरीर से जो रस निकलता है और जो अंश शूल में आबद्ध रहता है वह मिट्टी में गिरकर तिनकों में मिल न जाए। देवता लोग लालायित हुए हैं। उन्हें सारा इवि प्रदान किया जाए।

(५) ये वाजिनं परिपश्यन्ति पक्कं य इमाहुः सुरभिनिर्वर्ति ।  
ये नार्वतो मांसभिन्नामुपासत उतो तेषामग्निर्गृतिर्न इन्वतु ॥

ऋ० ११६२।२॥

अर्थ—जो लोग चारों ओर से अश्व का पक्का देखते हैं; जो कहते हैं कि गन्ध मनोहर है, देवताओं को दो; और जो मांस-भिन्ना की अपेक्षा करते हैं अर्थात् उसे पाने की आशा से वहाँ बैठे हैं, उनका संकल्प हमारा ही हो ।

(६) निकमण्णं निषदनं विवर्तनं यच्च पद्मीशमवंतः ।  
यच्च पपी यच्च धासि जघास सर्वाता ते अपि देवेभ्यस्तु ॥

ऋ० ११६२।३॥

अर्थ—अश्व जहाँ गया था, जहाँ बैठा था, जहाँ लौटा था, जिससे उसके पैर चाँचे गए थे, जो उसने पिया था तथा जो घास उसने खाई थी, सो सब देवों के पास जाए ।

(७) यदश्वाय वास उपस्त्रणांत्यधीवासं या हिरण्यान्यस्मै ।  
संदानमवंतं पद्मीशं प्रिया देवेभ्यायामयन्ति ॥

ऋ० ११६२।४॥

अर्थ—जिस आच्छादन-योग्य चक्र से अश्व को आच्छादित किया जाता है, उसको जो सोने के गहने दिए जाते हैं, जिससे उसके सिर और पैर चाँचे जाते हैं, सब देवों के लिए प्रिय हैं। ऋत्विक लोग देवों को ये सब प्रदान करते हैं ।

(८) यत्ते सादे महसा शूक्रतस्य पाण्ड्या वा कशया वा तुलोद ।  
सुखेव ता हविषो अध्वरेणु सर्वाता ते ब्रह्मणा सूदयामि ॥

ऋ० ११६२।५॥

अर्थ—अश्व को, जोर से नासा-ध्वनि करते हुए गमन करने

पर, चाकुक के आधात से जो व्यथा उत्पन्न हुई थी, उसे मैं मंत्रद्वारा उसी प्रकार आहुति में देता हूँ जैसे सुक द्वारा हव्य दिया जाता है।

जो लोग इन वेदमंत्रों में 'छाग' और 'आश्व' शब्दों से तन्नामधारी पशुओं का अर्थ न लेकर क्रमशः अजा और अश्वगन्धा वा अश्वपणी नामक औषधियों का अर्थ लेते हैं वे जान बूझकर सत्य पर पद्धि डालना चाहते हैं। यज्ञों में पशुओं का ही वध होता था, यह अमन्दागच्छ से भी प्रमाणित है। चौथे स्कन्ध का २५ वाँ अध्याय पढ़िए। राजा प्राचीनवर्द्धि, जो प्रचेताओं के पिता थे, कर्मकाण्ड में तत्पर होकर यज्ञों में पशुओं का संहार करने लगे। महर्षि नारद को उनकी बुद्धि पर दिया आई; अतएव उन्होंने राजा के पास जाकर जान का उपदेश दिया—

भो भो प्रजापते राजन् पश्चन् पश्य त्वयाऽवरे ।

संवापितान् जीवसंवान् निर्वृणेन सहस्रशः ॥७॥

एते त्वां सम्प्रतीक्षन्ते स्मरन्तो वैशसं तव ।

संपरेतमयः कृटैश्छन्दन्त्युत्थितमन्यवः ॥८॥

अर्थ—नारद ने कहा कि हे प्रजाओं के पालन करने वाले राजा, तुमने निर्दय होकर यज्ञों में इज्जारों पशुओं की हत्या की है। ये सब तुम्हारे मरने की साह देख रहे हैं ॥७॥ जब तुम मरोगे तब ये सब तुम्हारी दी हुई पीड़ा का स्मरणकर उसका बदला लेंगे। ये सब कुप्रित होकर यमराज के यहाँ अपने वज्र-तीक्ष्ण सींगों से तुम्हारे शरीर को छिन्न-मिन्न करेंगे ॥८॥ जान पड़ता है कि महर्षि व्यास के समय में पशुवध रूपी वर्वरता के कारण लोगों की अद्वा वैदिक कर्मकाण्ड से उठ चली थी। तभी तो हमें इसका संकेत भगवद्गीता के 'ब्रैगुरेवविषयो वेदा निस्त्रैगुण्यो भवाज्ज्ञेन' इस वेद-विरोधी वचन से मिलता है। महाभारत, शान्ति-पर्व, अध्याय ३३७ में, भोम्म ने

युधिष्ठिर से ऋषियों और देवताओं का विवाद कहा है। देवताओं का पक्ष था कि यज्ञों में पशुओं का ही हवन होना चाहिए। इसका विरोध करते हुए ऋषियों ने कहा—

‘वीजैर्यज्ञेषु यष्टव्यमितिवै वैदिकी अतिः ।  
अज संज्ञानि वीजानि छागं नो इन्तुमर्हय ॥४॥

**अर्थ—** यज्ञों में धान्यादि अन्नों के द्वारा हवन करना चाहिए; यह वैदिक अति है; क्योंकि सभी वीजों (अन्नों) को ‘अज’ कहते हैं। इसलिए वकरों को मारना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। जान पड़ता है कि ये कोई अधकतरे ऋषि थे, जिन्हें वेदों का अधूरा ज्ञान था; अन्यथा धर्मराज (!) बुधिष्ठिर पर भीष्म द्वारा प्राप्त उनके इस सदृपदेश का कुछ भी प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? और युधिष्ठिर ने इसे जानकर भी अपने अश्वमेघयज्ञ से असंख्य पशुओं की जान क्यों ली? महाभारत, अश्वमेघपर्व, अध्याय ८६ को पढ़िए। मजा तो यह कि यह हिंसात्मक यज्ञ अद्वितीय वेदज्ञ महर्षि वेद व्यास के नमय तथा उनकी ही सलाह से हुआ था। उक्त पर्व का अध्याय ७१ पढ़िए।

यज्ञ-निहत पशुओं के विविध शरणों का बटवारा यज्ञ करानेवाले पुरोहितों में किस प्रकार होना चाहिए, यह हमें गोपथ-ब्राह्मण ३१८ से मालूम होता है—

अथातः सवनीयस्य पशोर्विभागं व्याख्यास्यमः । उद्भृत्यावदानि इन् सञ्जिहे प्रस्तोतुः कंठः सकुद्रः प्रतिहत्तुः, इयेनपक्ष उद्गातुः दक्षिणं पाश्वं सांसमध्ययोः इत्यादि ।

**अर्थ—** अब इसके बाद यज्ञीय पशु का विभाग कहते हैं। जीव के साथ दोनों जवहे प्रस्तोता के, कुद्र (मौर) के साथ कंठ प्रतिहत के, इयेनाकार वक्षःस्थल उद्गाता के, कन्धे के साथ दहना पाश्व

(बगल) अस्त्वयु<sup>१</sup> के होते हैं इत्यादि। स्थानाभाव के कारण गोपथ ब्राह्मण का सम्बन्धित अंश पूर्णतः उद्भूत ही हुआ। उदाहरण स्वरूप उसकी कुछ आरंभिक पंक्तियाँ ही उद्भूतकार शेष छोड़ दिया गया। यज्ञनिहत पशु का इसी प्रकार का विभाजन ऐतरेय ब्राह्मण में भी बतलाया गया है। यह विभाजन गोपेष यज्ञ के प्रत्यंग में आया है; अतः यहाँ पशु शब्द से गो पशु का ही विभाजन समझना चाहिए। नियम यह था कि यज्ञनिहत गोपशु की लाश में से उसके ३६ अंगों को काटकर उन्हें यज्ञ में भाग लेनेवाले प्रस्तोता आदि पुरोहितों एवं यजमान और उसकी लौ में बाँट दिया जाता था। इन देह अंगों में जबड़े, जीम, गर्दन, कुद, सीना, रीढ़, कन्धा, चूतङ्ग, कूलहा, जाँघ, पेड़, कमर, आमाशय, हस्पिंड, गुर्दा, ठाँग, आठ, मूत्राशय, सिर, खाल, पैर, हल्क, तालू, कुरकुरी, मणिका आदि हैं और इन्हें पानेवालों में प्रस्तोता, प्रतिहस्तां, उद्गाता, अस्त्वयु<sup>२</sup>, उपगाता, प्रतिप्रस्थाता, ब्रह्मा, ब्राह्मणाच्छंशी, पोता, होता, भैत्रावरुण, कच्छावाक, नेष्टा, सदस्य, यहस्वामी और उसकी लौ, अग्निप्र, अत्रेय, चमसास्त्वयु<sup>३</sup>, सुब्रह्मण्य आदि हैं। यज्ञस्थली क्या थी, मानो पूरा बूचड़-खाना थी।

पशु-यज्ञ के विषय में पहले बहुत कुछ लिखा गया है; किन्तु फिर भी कुछ लिखना बाकी रह गया है, जिसे पाठकों की सेवा में निवेदन कर देना ही उचित मालूम होता है। वर्तमान काल में वेद प्रतिपादित धर्म के माननेवालों में मुख्यतः दो सम्प्रदाय देखने में राते हैं—(१) सनातनी तथा (२) आयंसमाजी। पर खेद के साथ ही हाना पड़ता है कि दोनों ही उक्त धर्म के असली रूप को छिपाना कर रहते हैं। उन्हें सदा यह भय बना रहता है कि कहीं वैदिक धर्म के असली रूप जनता को मालूम हुआ तो वह उनके पूर्वजों को छोड़ा असन्न तथा जंगली कहने लगेगी। सनातनी तो यह कहकर

अपने पूर्वजों की बर्वरता को छिपाते हैं कि भाई, हमारे वैदिक ऋषिगण ऐसी दिव्य-शक्ति रखते थे कि उनके प्रताप से यज्ञ में मारे गए पशु पुनः जी उठते थे और अपने भौतिक शरीर के साथ ही सीधे स्वर्ग में चले जाते थे। आजकल इस कलियुग में इतनी सामर्थ्य कहाँ कि हम वैसा चमत्कार दिखा सकें; अतः हमें इस कलिकाल में यज्ञ-सम्पादनार्थ पशुओं का वथ नहीं करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह कि सनातनी तो अश्व, गो, छाग, महिष, मेष नामधारी वास्तविक पशुओं का ही मारा जाना स्वीकार करते हैं; पर वे भोली-भाली जनता को यह कहकर वहकाया करते हैं कि यज्ञनिहत पशु ऋषियों के मंत्र-बल से पुनः जी उठते थे और स्वर्ग को चले जाते थे। इस धूर्ततापूर्ण सफाई के खंडन में केवल यही कहना पर्याप्त है कि यदि यज्ञ-निहत पशु पुनरुज्जीवन होकर सशरीर स्वर्ग को चले जाते थे तो, फिर उनके किस शरीर को बूचड़ की तरह काट-काटकर विभाग किया जाता था, यह सनातनियों को बतलाना चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्हें इस बात का प्रमाण भी देना चाहिए कि यज्ञ-निहत पशु पुनः जी उठते थे। पर आज तक उन लोगों ने दोनों में कोई भी काम नहीं किया।

आर्यसमाजी सम्प्रदाय तो और भी विचित्र है। न्वामी दयानन्द के चेले होने के कारण इसके सदस्य कतर-ब्योत करने तथा वाक्-छल का आश्रय लेने में सिद्ध है। वस, जहाँ हुआ वहाँ चट अर्थ बदल दिया और हटपूर्वक अपने पक्ष पर डटे रहे। इसका कुछ भी विचार नहीं रहता कि उसका अर्थ कहाँ तक प्राप्तिगिक है। ये तथा इनके फेर में पड़े हुए अन्य अशिक्षित तथा कुशिक्षित जन भी, जिनके अध्ययन की परिवर्ती जीवन पर्याप्त 'सत्यार्थ-प्रकाश' की चहार-दीवारी के भीतर समित रही, पर जो सर्वत्र 'वेद-वेद' चिल्लाया करते हैं, वैदिक यज्ञों की वीभत्सता पर यह कहकर पर्दा ढालते हैं कि अश्वादि

शब्द तन्नामधारी पशुओं के बोधक न होकर अश्वगान्धा आदि औपधियों के बोधक है, जिनकी आहुति अभिकुण्ड में होती थी। इसका फल यह होता था कि उनकी सुगन्ध तथा धुएँ से वायुमंडल शुद्ध हो जाता था और उसमें उड़नेवाले रोग-कीटारण नष्ट हो जाते थे, जिससे प्रजा स्वस्थ तथा सुखी रहती थी। उनका कथन है कि जिस प्रकार पशुओं के चर्म, मांस, अस्थि आदि होते हैं उसी प्रकार ये औपधियों के भी होते हैं। औपधियों का छिलका उनका चर्म, उनका गूदा, उनका मांस, उनका रस, उनका रक्त और उनकी गुठली उनकी अस्थि है। सायण आदि भाष्यकारों ने औपधियों के गूदाशय न समझकर और अर्थ का अनर्थकर वैदिक यज्ञों को कलंकित कर दिया है इत्यादि। यह तो हुआ पूर्व-पञ्च। अब इसका उत्तर-पञ्च सुनिए—

यह तो ठीक है कि औपधियों के छिलके, गूदे, गुठली उनके कमशः चर्म, मांस, अस्थि आदि कहे जा सकते हैं। पर ऐसी कल्पना के आवार है। वे आधार हैं पशुओं तथा औपधियों के विविध शरीरावयवों के बीच उनके आकार, गुण, क्रिया तथा शरीरान्तर्गत स्थान का साहश्य एवं उन अवयवों में आकारादि की पारस्परिक भिन्नता। साहश्य यह कि आधारण तथा रक्षण का काम करने के कारण छिलके वा त्वच् को चर्म, तरलत्व और पोषकत्व गुण के कारण रस को रक्त, इसी प्रकार कठिन्य गुण के कारण गुठली को अस्थि कह सकते हैं। भिन्नता यह कि जो आकार, गुण, क्रिया और स्थान छिलके के हैं वे गुठली के नहीं हैं। इसी प्रकार जो आकारादि गुठली के हैं वे गूदे, रसादि के नहीं हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक ही अवयव वा इन्द्रिय किसी अन्य अवयव का भी काम दे। यदि ऐसा होने लगे तो औपधियों का, पशुओं के साथ, कुछ भी तुलना नहीं हो सकती। पहले गोप्य तथा ऐतरेय ब्राह्मणों का हवाला देते हुए यह सिद्ध कर

आया हूँ कि यज्ञीय पशु के जबड़े, जीभ आदि ३६ अंगों को अलग-अलग काटकर उन्हें प्रस्तोता आदि ३६ व्यक्तियों में बांटते थे। क्या कोई भी स्वामी दयानन्द के मतानुयायी मुझे सन्तोषजनक रूप से वह बतलाने की कृपा कर सकता है कि यदि वेदमंत्रों में आए हुए अश्व, मेघ, महिष, उच्चण, वृषभ, वृष, ऋषभ, गो, छाग आदि शब्द औषधियों के द्योतक हैं तो इन औषधियों के कौन-कौन से अंग, कौन-कौन-सी इन्द्रियों तथा कौन कौन से अवयव जबड़े आदि अलग-अलग ३६ अंग हैं जिनका बैठवारा किया जाता था? यो ही कुछ अनगंभीर बक देने से काम नहीं चल सकता। सन्तोषजनक तथा सप्रमाण उत्तर देना होगा। यदि ऐसा उत्तर वे नहीं दे सकते तो यह निर्विवाद सिद्ध हो गया कि यज्ञों में पशुओं का ही होम किया जाता था और उन्हीं के अंगों का बैठवारा होता था, न कि औषधियों का। मैं मानता हूँ कि वेदों पर स्वामी दयानन्दकी अटल अद्वा थी, अतः वे उसका उदार करना चाहते थे। पर उनकी अटल अद्वा ही उनके भ्रम का कारण हुई। वस्तुतः वेद, जो पूर्वोक्त प्रकार की हिंसा की शिक्षा देनेवाले हैं वैसी अद्वा तथा भक्ति के पात्र नहीं हैं जैसा स्वामीजी मान वैठे थे। हाँ, दुनिया की सबसे प्राचीनतम पुस्तकें होने के कारण; उन्हें प्राचीन हिन्दुओं की धार्मिक, सामाजिक तथा राजनैतिक अवस्था मालूम करने के लिये पढ़ सकते हैं। पर यह मान वैठना कि वैदिक धर्म ही सर्वोत्कृष्ट धर्म है भारी भूल है। यदि स्वामीजी जान-बूककर वेद-मंत्रों का अर्थ बदलते हो तो, यह उनके जैसे एक महाविद्वान् को शोभा नहीं देता। शलती तो किसमें नहीं है; पर शलतियों का स्वीकारपूर्वक सुधार करना ही यथार्थ पुरुषार्थ तथा नैतिक साहस का लक्षण है।

०स्वामी दयानन्द की वेद-विषयक धारणाएँ जानने के लिए इस परिच्छेद का अन्त देखिए।

आयसमाजी बाल्मीकीय रामायण को मानते हैं। पर जब उनको यह दिखाया गया कि राजा दशरथ के अश्वमेधयज्ञ में रानी कौसल्या ने स्वयं यज्ञ-दीक्षित अश्व का बध किया था तथा स्वयं रामचन्द्र तथा महारानी सीताकी ने उत्तरकाशड में वर्षित उपवन-विहार करते समय नाना प्रकार के मद्य-मांसों का सेवन किया था तो, वे चट कह बैठे कि आजी, यह सब वाममार्गियों की लीला है। उन लोगों ने ही हमारे पवित्र ग्रन्थों को कल्पित करने के लिए उनमें ऐसी-ऐसी गष्टें छुसेड़ दी हैं। पर वाम-मार्गवाले सिद्धान्त का खंडन में इसी परिच्छेद में पहले कर आया हूँ। देख लीजिए। सबको आप मना सकते हैं; पर हठी और दुराग्रहियों को नहीं। इसीलिए नीति-शास्त्र में कहा गया है—

अञ्जः सुखमाराघ्यः सुखतरमाराघ्यते विशेषज्ञः ।

ज्ञान-लब-दुर्विदर्घं ब्रह्मापि तं नरं न रंजयति ॥३॥

म० नीतिशतकम् ॥

आर्थ—जो विचारे अनजान हैं उन्हें तो आप आसानी से मना सकते हैं। और जो विद्वान् हैं उन्हें तो आप और भी आसानी से मना सकते हैं। पर जो अधकचरे हैं उन्हें ब्रह्मा भी नहीं मना सकते।

अब वहाँ गो-चर्म के ऊपर कुछ कह देना चाहता हूँ। आधुनिक हिन्दू जिस धृणा की दृष्टि से गो-चर्म को देखते हैं उस दृष्टि से उनके मूर्खज नहीं देखते थे। वे तो उसका उपयोग पवित्र से भी पवित्र अवसरों पर किया करते थे; यहाँ तक कि, जैसे आभी पहले कहा गया है, सोमलता को गो-चर्म पर ही रखकर वे उसे पत्थर से कूटते और उसका रस निकालते थे। गृहसूत्रों के अध्ययन से पता चलता है कि विवाह जैसे पवित्र कृत्य के अवसर पर भी गो-चर्म से काम लिया जाता था। पारस्कर-गृहसूत्र के विवाह-प्रकरण में लिखा है—

‘तां हड़ः पुर्व उन्मथ्य प्राग्वोदवानुगुप्तागारे अनुहुदोरोहिते चम्भ-  
शयुपवेशयति’। अर्थ—उस कन्या को कोई हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति उठाकर  
( विवाह-मंडप से ) पूर्व वा उत्तर की ओर ( दिशत ) किसी सुरक्षित  
गृह में लाल बैल के चमड़े पर बैठा देवे। कोई-कोई ‘प्राग्वोदवानु-  
गुप्तागारे’ का अर्थ ‘पूर्व वा उत्तर से आनन्दादित यह’ करते हैं।

‘दशकर्म पद्धति’ नामक संस्कार-ग्रन्थ में भी यही बात लिखी है—  
‘अथ वधूं बलवान् कश्चिद्ब्राह्मण उत्थाप्य प्रागुदवानुगुप्तागारे  
लोहितानुहच्चमर्मणि प्रतिलोमास्तीर्णे उपवेशयेत्वरोवा ।’ अर्थ—  
तत्त्वश्चात् कोई बलवान् ब्राह्मण अथवा वर वधू को उठाकर पूर्व वा  
उत्तर की ओर किसी गुप्त घर में लाल रंग के बैल की खाल उल्टा  
विछाकर उस पर उसको बैठा देवे।

‘पारस्कर यज्ञसूत्र’ तथा ‘दशकर्म पद्धति’ में यह कृत्य कन्या के  
पिता के घर पर ही करने को लिखा है। पर ‘आपस्तम्ब-यज्ञसूत्र’ में  
वर को यह कर्म वधू को अपने घर ले जाकर करने को लिखा है—  
“लोहितं चम्मानहुं प्राचीन-ग्रीवमुत्तरलोम मध्येऽगारस्योत्तरयास्तीर्य  
यहान्प्रादयन्तुत्तरां वाचयति दक्षिणेन पदा” ॥६।८॥ अर्थ—वर अपने  
घर में प्रवेशकर जो कमरा पति-पत्नी के निवास का हो, उसके बीच  
में लाल बैल की खाल को, जिसका शिरोभाग पूर्व की ओर हो और  
गोम ऊपर को हो, विछाकर दहने पर से वधू को उसमें ले जाए।  
पुनः आगे चलकर लिखा है—“परि पेचनानां कृत्योत्तरया चर्मण्यु-  
पविशत उत्तरोवरः ॥६।१०॥ अर्थ—वहाँ पर अन्याधान से लेकर  
परिपेचन पर्यन्त करके वर और वधू दोनों उस खाल पर पूर्वा-  
भिमुख बैठें। उत्तर में वर और दक्षिण में वधू बैठें।

पारस्कर यज्ञसूत्रों का अध्ययन करने से कुछ ऐसी भी विचित्र  
बातें पाठकों को मालूम होंगी जिसे पढ़कर वे चौंक उठेंगे और प्राचीन

हिन्दुओं के सम्बन्ध होने में शका करेंगे। उदाहरणतः स्नातक लोग मल-त्याग के बाद आवदस्त न लेकर केवल एक सूखे काठ वा ढेले से गुदा को पोछ देते थे। लिखा है—‘पशीर्णेन काष्ठेन गुदंप्रमृजौत्। इस पर पं० वेणीराम शर्माजी की संस्कृत-विवृति पढ़िए—‘यत्नं विना पतितेन अयज्ञिय काष्ठेन गुदं प्रोच्छेत्। एनच्च लोष्टादी नामप्युपलक्षणम्’ (पृ० ११३); अर्थात् इस प्रकार के अयज्ञिय सूखे काठ से, जो आप से आप वृक्ष से गिरा हो, स्नातक अपने गुदा को पोछ लेवे। काष्ठ कहने से डेला आदि भी अहं करना चाहिए। तात्पर्य यह कि उक्त प्रकार के सूखे काठ के अभाव में ढेले आदि से भी काम नला लेना चाहिए। कोई-कोई अपने पूर्वजों के इस दुर्गुण को छिपाने के लिए यह कह देते हैं कि स्नातक लोग सूखे काठ वा ढेले से गुदा को पोछ लेने के बाद उसे जल से सफा कर देते थे। पर मुझे प्राचीन ग्रन्थों में इसका प्रमाण कहीं पर नहीं मिला।

कल्पसूत्रों के अध्ययन करने से प्राचीन हिन्दुओं तथा आस्तिक-मन्य कतिपय आधुनिक हिन्दुओं के महाअन्धविश्वासी तथा अपने बहुमूल्य समय को वृथा नष्ट करनेवाले होने में तनिक भी सन्देह नहीं रह जाता। नाना प्रकार के यज्ञों तथा संस्कारों के सम्पादन करने में वे कितना निरर्थक तूल किया करते थे; कितने कपोल-क्लित देवताओं की मंत्रों के द्वारा प्रार्थना किया करते थे तथा कितनी सामग्रियों को इकड़ा करते थे कि जिसका ठिकाना नहीं। मालूम होता था कि मानो दुनिया में उन्हें और कुछ करना है ही नहीं। उदाहरण के लिए गर्भाधान को लीजिए। गरस्कर-गृहसूत्र में लिखा है—

‘प्रजाकामः दक्षिणेन पाशिना ऊरु प्रसार्य प्रजास्थानभिमृशति पूषा भग्न-सविता मे ददातु, इत्यादि। अर्थ—सन्तान चाहनेवाला अपने दहने हाथ से खीं की जंयों को पसारकर उसकी जननेन्द्रिय को ‘पूषा भग्न-सविता मे ददातु’ इत्यादि मन्त्र का जाप करता हुआ मले।

पुनः आगे चलकर लिखा है—‘प्राह्मुख उद्भूमुखो बोप विष्टो मन्त्रे  
द्रतो मूत्रमिति चैके स्वावरणं कुर्यात्।’ अर्थ—पूर्व वा उत्तर की ओर  
मुङ्ग किए हुए बैठकर ‘रेतो मूत्रम्’ इत्यादि मंत्र का जाप करता हुआ-  
मैथुन करके बीय॑-दररगा करे। गर्भाधान-संस्कार क्या है मानो पूरा  
कोकशाख है। प्राणियों की, मैथुन में, स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है।  
मैथुन करते समय किसी देवता का मन्त्र जपने से क्या लाभ ? यदि  
कहो कि ऐसा करने से उत्तम सन्तान उत्पन्न होती है तो ऐसे प्रलाप  
करनेवालों से क्या मैं पूछ सकता हूँ कि वशिष्ठ, पराशर; वेद-व्यास,  
भरद्वाज, गीतम, ऋष्यशृंग, अगस्त्य, मांडव्य, आदि महर्षियों के  
गर्भाधान काल में, जिनकी उत्पत्ति मैं पहले लिख आया हूँ तथा जिन्हें  
आज भी यह हिन्दू जाति परमपूज्य मानती है, किस संस्कार-विधि  
का प्रालन किया गया था ? इसी प्रकार का एक मूर्खता-पूर्ण संस्कार  
सीमन्तान्नयन है जिसमें पति कुछ मन्त्र बड़बड़ाता हुआ अपनी पत्नी  
का माँग गर्भ के छाठे वा आठवें मास में काढ़ता है। भला कहीं इस  
स्वैरण्ता का भी ठिकाना है ! यशों का भी यही हाल जानिए। वहाँ भी  
प्रत्येक यज्ञ कार्य के लिये अलग-अलग मंत्र हैं। गाय को दुहने के  
समय उनको जाँधों को छान से बाँधने का मंत्र, उसके थन में बाढ़ा  
लगाने का मंत्र, दूध दुहने का मंत्र, उसे जमाकर दही और धी तैयार  
करने के मंत्र तथा अन्यान्य कार्यों के मंत्र दिए गए हैं।

स्वामी दयानन्द तथा उनके चेले अपने को अन्धविश्वास से  
पूर्णतः मुक्त मानते होंगे। पर स्वामीजी कृत ‘संस्कार-विधि’, ‘पंचयज्ञ  
महाविधि’ तथा वेदों के भाष्य पढ़ने पर आपको  
स्वामी दयानन्द मालूम होगा कि वे मूर्खता-पूर्ण लृदियों में सनातनियों  
और अन्ध-विश्वास की अपेक्षा कुछ भी कम नहीं कह से है। स्वामीजी ने  
अपने चेलों से देव-मूर्तियों की जगह ओखली,  
मूसल, पटेला, लुरा आदि को पुजवाकर ही छोड़ा

है। इतना ही नहीं; आपने उन्हें नियोग जैसे 'पशु-धर्म' में भी फँसाने का बीड़ा उठाया और इसे सिद्ध करने के लिए स्वामी दयानन्द यथापि महाभारत में काफ़ी सबूत है, पर आपने उन्हें और नियोग छोड़ सीधे वेदों तक दौड़ लगाई और उनके कतिपय मंत्रों के मुह में थप्पड़ लगा और उनके कान ऐंड उनसे अपनी चात कहवानी चाही जो सरासर झैठ थी। उदाहरणः आपको ऋग्वेद के यम-यमी सम्बादान्तर्गत : "अन्यभिन्नस्त्वं सुभगे पति मत्" इस वाक्य में 'मुनिहि हरि अरी सूर्य' की तरह नियोग का प्रमाण मिला, यथापि वास्तव में वहाँ नियोग का गन्ध-मात्र भी नहीं है। वहाँ तो यमी (वहन) आपने भाई (यम) के साथ प्रसंग करने का प्रस्ताव करती है; पर यम इसे पाप-कर्म बता यमी को, उक्त मंत्र में किसी पुरुषान्तर के साथ दाम्पत्य-सम्बन्ध स्थापित कर लेने का उपदेश देता है। यदि स्वामीजी को उक्त सम्बाद में नियोग का भ्रम हुआ तो यह भ्रम आप के वेद-विषयक छिप्पले ज्ञान (Superficial knowledge) का भंडाफोड़ कर देते हैं और यदि जान-बुझकर आपने आपने चेलों को गुमराह किया तो आप जैसे एक मुशारक को यह शोभा नहीं देता। भारत में ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय प्रभृति कतिपय समाज-सुधारक हुए, पर इन लोगों ने भूलकर भी नियोग का नाम तक नहीं लिया; भले ही ये विभवा-विवाह के समर्थक तथा प्रचारक हुए और बिटिश सरकार के द्वारा इसके लिए कानून भी बनवाया। वर्तमान काल में किसी भी सभ्य-मन्य देश में नियोग नहीं देख पड़ता; न मालूम स्वामी जी को इस पशु-धर्म में इतनी दिलचस्पी क्यों हुई। उक्त मंत्र में पति शब्द आवा है और पति के साथ नियोग नहीं होता।

स्वामी दयानन्द की यह धारणा थी कि वेद निःशेष विद्याओं की जड़ है। इसी मिथ्या धारणा के बशीभूत होकर, सर्वत्र पीला

ही पीला देखनेवाले पाशु-रोगी की तरह, आपने स्वामी दयानन्द रेल, तार आदि विद्याओं को भी वेदों में देख ली।

**और वेद और ऋग्वेद के "युवां पेदवे पुरुवार मश्विना"**

इत्यादि ( ऋ० मं १, सूक्त ११८ मंत्र ६ )

इस मंत्र की कोल-कल्पित व्याख्याकर इसमें से तार-निया घसीट निकाली। यदि वेद निःशेष विद्याओं की जड़ है तो तार-विद्या की तरह आप ने सिनेमा, ग्रामोफोन, लाउड-स्पीकर, रेडियो, टेलीविजन आदि विद्याओं का भी पता वेदों में से क्यों नहीं खोज निकाला ? वास्तविक बात तो वह है कि आप के समय में ही भारत में तार और रेल का प्रचार हो चुका था; अतः उन्हीं को देखकर उक्त वेद मंत्र में आए हुए 'तरुवार' आदि शब्दों के बल पर आपने तार विद्या की कल्पना कर ली। पर चूँकि सिनेमा आदि विद्याओं का प्रचार आप के समय तक नहीं हुआ था; अतः आपने इन विद्याओं के विषय में कान तक भी नहीं पटपटाएँ; अन्यथा इन्हें भी आप वेदों के किसी कोने में स्थान देकर कितने मंत्रों की मिट्टी पलीद जरूर कर दिए होते ।

इसका, आपका एक चेला यह कहकर, प्रतिवाद करता है कि प्राचीन भारत में विमान आदि यंत्रों का प्रचार अवश्य था जैसा कि प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों में लिखा पाते हैं और यह तो दस्तूर की चात है कि जब किसी वस्तु का प्रचार बन्द हो जाता है तो तत्सम्बन्धित शब्दों का अर्थ ठीक-ठीक नहीं लगता; पुनः वैसी वस्तु जब सामने आती है तो उक्त शब्दों का यथार्थ अभिप्राय समझ में आ जाता है। यदि ऐसी बात है तो सिनेमा आदि विद्याओं का पता, जिनका प्रचार आज घर-घर देखने में आता है, आपके चेले अर्थवा कम से कम उनमें से वे जो अपने को वैदिक अनुसन्धानों के विद्वान् ( Vedic Research Scholars ) होने का दम भरते हैं, वेदों में से खोज-

कर क्यों नहीं बतला देते ? यह तो हुई एक बात । दूसरी बात यह है कि यदि पदार्थ को देखे बिना तद्विभक्त शब्दों का ठीक अर्थ स्फुरित नहीं होता तो स्वामी जी का किया हुआ केवल उन्हीं वेद मंत्रों का भाष्य ठीक है जिनमें आप की देखी हुई वस्तुओं के सदृश वस्तुओं का वर्णन है; पर आपका किया हुआ अन्य वेद मंत्रों का भाष्य, जिनमें सिनेमा आदि विद्याओं का वर्णन है, संदिग्ध है; क्योंकि आपने सिनेमा आदि नहीं देखा था और चूँकि इन मंत्रों को छाँट-कर अन्य मंत्रों से अलग करना असंभव है; क्योंकि इसका पता नहीं है कि किन मंत्रों में सिनेमा आदि का वर्णन है और किनमें नहीं है; अतः इस अनिश्चयता के कारण आप का किया हुआ सारा वेद भाष्य संदिग्ध एवं अमाल्य है । यही कारण है कि आपके भाष्य को केवल आपके चेले ही मानते हैं, अन्य नहीं । इसके अतिरिक्त मैं वह कभी भी मानने को तैयार नहीं कि प्राचीन भारत-वासी विमान बनाना जानते थे । प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में विमानों का वर्णन या तो कवियों की कोरी कल्पनाएँ हैं, या नहीं तो उनके बनाने वाले अभारतीय ये जिन्हें देखता और असुर कहा गया है ।

स्वामी दयानन्द का वेद-सम्बन्धी प्रक और भी विचित्र मत था । वे कहते थे कि वेदों में इतिहास कहीं भी नहीं है । वेद शब्द से आपका अभिप्राय संहिता-त्रयी ( ऋक्, वज्स् और स्वामी दयानन्द सामन् ) से था । इस विषय में आपका यह तर्क और वेदों में या कि यदि वेदों में इतिहास मिल गया तो वे इतिहास कदापि नित्य नहीं माने जा सकते; क्योंकि इस दशा में वेद उनमें लिखित इतिहासों से पहले के कदापि नहीं हो सकते । यदि-वेदों को नित्य मानते हो तो उनमें इतिहास मत मानो और यदि उनमें इतिहास मानते हों तो उन्हें नित्य मत मानो । आप का कथन है कि वेदों में आए हुए व्यक्ति-

वाचक जैसी दीख पड़ने वाली संज्ञाएँ कुछ ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम नहीं हैं जिनसे किसी ऐतिहासिक घटना का वर्णन समझा जाए; वल्कि वे सब की सब यौगिक हैं। ये शब्द आदि में धात्वर्थक थे और उन सभी वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होते थे जिनसे उनके अर्थों की कल्पना निकलती थी। बाद में वे ऐतिहासिक रूप धारणाकर व्यक्ति-वाचक संज्ञाएँ बन गए। इसके सबूत में आप शतपथ ब्राह्मण के आठवें काण्ड में की हुई वसिष्ठ आदि नामों की व्याख्या पेश करते हैं जिसके अनुसार वासिष्ठ का अर्थ प्राण; विश्वामित्र का अर्थ कान और भरद्वाज का अर्थ मन है। माना कि किसी विशेष प्रयोजन की सिद्धि के लिए शतपथ कार ने वसिष्ठ आदि शब्दों में उक्त अर्थों की कल्पना कर ली हो; पर सर्वंत्र ऐसी ही कल्पना करना अनुचित होगा। और नहीं; यदि वेदों में आए हुए वसिष्ठ आदि शब्द सचमुच यौगिक हैं तो वसिष्ठ, विश्वामित्र, नहुष, इला, पुरुषा, उवंशी आदि की कथाओं की क्या गति होगी और दाशरथ मुद्र कहाँ इवा खाने जाएगा? यदि कहो कि ये कथाएँ रूपक हैं तो यह ठीक नहीं; क्योंकि यदि वैदिक कथाएँ रूपक हैं तो उक्त व्यक्तियों को रामायणीय तथा महाभारतीय कथाएँ रूपक क्यों नहीं और इसी प्रकार हमारा सारा ऐतिहासिक साहित्य रूपक क्यों नहीं? परन्तु इस तरह किसी भी जाति के सारे इतिहास को रूपक मान लेना अन्याय है। सायण, रामानुज, स्कन्द स्वामी, भट्टभास्कर, शंकर, बल्लभ, यास्क आदि सभी आचार्य वेदों में इतिहास मानते हैं। नूसरे धर्मावलंबियों के अनुकरण में, जो अपने-अपने धर्म ग्रन्थों को नित्य तथा ईश्वर-कृत मानते हैं वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानने से कोई लाभ नहीं। वेदों को अनित्य और पौरुषेय मानने से भी उन पर हिन्दू जाति की अद्वा ठीक वैसे ही अद्वृत्य रह सकती है जैसे कि अनित्य और पौरुषेय रामायण, महाभारत और भगवद्गीता पर।

अब प्रसंग-ग्रात्, वेद पौरुषेय है वा अपौरुषेय, इस विषय पर कुछ प्रकाश डालकर इस परिच्छेद को समाप्त करता हूँ। मनुष्य-कृत को पौरुषेय और अमनुष्य (ईश्वर) कृत वेद पौरुषेय हैं को अपौरुषेय कहते हैं। स्वामी दयानन्द सरीखे वा अपौरुषेय कतिपय जीवों की धारणा है कि वेद अपौरुषेय अथांत् ईश्वरकृत हैं। पर स्वयं वेद ही इस कपोल कल्यना को 'मुद्दै सुस्त पर गवाह चुस्त' वाले मसले की तरह, समूलोच्छ कर देते हैं। आप किसी भी वेद-मंत्र को लीजिए; आप को साफ़ मालूम हैं। जाएगा कि कोई प्रार्थी जीव उक्त मंत्र के द्वारा अपने इष्ट देव से किसी वस्तु की याचना कर रहा है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र के द्वारा बुद्धि की प्रेरणा माँगी गई है। इसी प्रकार ऋ० ३।६।२३ के द्वारा पुनः धन, पुत्र और गृहादि शरण स्थान; ऋ० ३।६।२।११ के द्वारा पुनः धन; ऋ० ३।६।२।१४ के द्वारा दो पैर वाले (मूल्य) चार पैर वाले (गो-आदि पशु) एवं रोगरहित अन्न तथा ऋ० ३।६।२।१५ के द्वारा आयु की वृद्धि और शत्रु का नाश इत्यादि अभिलिप्ति पदार्थ माँगी गए हैं। और तो और, वर्जुवेद, अध्याय ३०, मंत्र ३ के द्वारा अपने सभी दुःखों और दुर्गम्यों के नाश और कल्याण-कारी पदार्थों की मासि के लिए प्रार्थना की गई है। ईश्वर को किस वस्तु की कमी है जो उक्त पदार्थों की भीत्य किसी से माँगेगा? अतः अवश्य ही उक्त प्रार्थनाएँ मनुष्य की हैं; ईश्वर की नहीं। यदि कहो कि ईश्वर उक्त मंत्रों के द्वारा हमें प्रार्थना करने का ढंग बतलाना है तो वह ठीक नहीं; कारण कि इस दशा में वेदों की रचना भगवद्गीता की तरह ओता-वक्ता के सम्बाद के रूप में हुई होती। वस्तुतः प्रार्थना करने वाले मंत्र-कार्यां क्षमिय हैं जिन्हें 'मंत्र-द्रष्टा' कहा जाता है। इन क्षमियों के लिए लौकिक तथा वैदिक साहित्य में मंत्रकृत, संस्कार, आदि शब्द अनेक जगह प्रयुक्त हुए हैं।

पंचम परिच्छेद

## सामर्थ्य और दोष

अपने प्रातःस्मरणीय तथा परमपूज्य वशिष्ठ, पराशर, भरद्वाज, विश्वामित्र, व्यास आदि प्राचीन महर्षियों, एवं सर्वशक्तिमान् तथा पड़ैश्वर्य समझ माने जानेवाले ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन्द्र आदि पौराणिक देवताओं, तथा दत्त, शान्तनु, धूतराष्ट्र, पारंगु, युधिष्ठिर आदि वडे वडे प्राचीन राजाओं और अल्प्या, द्रीपदी, कुन्ती आदि जैसी प्रसिद्ध ऋषिपत्नियों और जमहर्षियों के ऊपर चरित्र दोष का आचेष होने पर धूतों के बहुत हुए हमारे भोले भाई उक्त पूज्य व्यक्तियों के बचाव में चट यह नहीं उन्हें है कि सुनो वे समर्थ प्राणी थे; उनमें दोष कैसा? उनमें दोष नहीं गाना महापाप है। हमारे जैसे पामर जीवों की अल्प बुद्धि में उन्हें आचरण बुटिगूँ लगते हैं अन्यथा वे सर्वथा निष्कलंक हैं। हमारी जुद बुद्धि में इतनी शक्ति कहाँ कि वह उन्हें ठीक-ठीक समझ ले जाएगा उनके चरित्र में बहुत दिखाना 'छोटा मुँह बड़ी बात' वाला। दुहावत को चरितार्थ कराना है इत्यादि; और अपने इस उत्तर की पुष्टि में गोस्वामी तुलसीदासजी की वही सर्वश्रुत चौपाई 'समरथ कहें नहि दोष गोसाई'। रवि पानक सुरसरि की नाई ॥ की दुहाई दिया करते हैं। इत परिच्छेद में इस बात पर गवेषणापूर्ण विचार किया जायेगा कि समर्थ व्यक्तियों में चरित्र की बुटि दोष मानी जा सकती है या नहीं।

सर्वप्रथम गोसाईजी की उक्त चौपाई पर ही विचार होना चाहिए जिससे यह मालूम हो जाए कि उनकी बातें कहाँ तक तक तथा

तुदि के अनुकूल हैं। इस चौपाई को उन्होंने देवर्पि नारद के मुँह से उस समय कहलवाया है जब उन्होंने शैलराजपुत्री उमा की हस्त-रेखा देखते हुए उनके भावी पति शिव के दोषों का वर्णन किया है और इस आशंका से कि शायद शैल-सम्बाट् हिमालय अपने भावी जामाता के दोषों को सुनकर दुःखी तथा हताश न हो जाएँ, उन्हें सान्ध्यना देने के लिए इसा प्रकार की और भी बातें कही हैं—

जो विवाह संकर सन होइ । दोपउ गुन सम कह सबु कोइ ॥  
 जो आहि सेज सयन हरि करही । बुध कछु तिनकर दोषु न धरही ॥  
 म नु कृतानु सर्व इस स्वाही । तिन्ह कहै मंद कहत कोउ नाही ॥  
 सुभ अठ असुभ सलिल सब बहइ । सुरसरि कोउ अपुनीत न कहइ ॥  
 समर्थ ककहै नहिं दोष गोसाहै । रवि ० इक सुरसरि की नाइ ॥

अर्थ—नारद कहते हैं कि यदि भी का विवाह शंकर से हो जाए तो (कोई हानि नहीं); क्योंकि सभी लोग उनके दोषों को भी गुण कहते हैं। विष्णु का सर्वशः ग्रन्थ पर सोना पंडितों को हाणि में दोष नहीं है। सर्व और अग्नि यों भी प्रकार के भले-बुरे रस पचते हैं; पर उन्हें कोई भी दुष्यित नहीं होता। गंगाजी अपने जल से भली-बुरी सभी चीजों को बद्धा ले जाता है, पर उन्हें कोई भी अपवित्र नहीं कहता। हे गोसाई! सर्व यों में सूर्य, अग्नि और गंगा की तरह दोष नहीं रहता।

अन्तिम चौपाई के 'नाइ' शब्द से स्पष्ट है कि यहाँ समर्थ

पर गोसाई जी ने अपनी सतसई में निम्नलिखित दोहा लिख कर मानो उक्त चौपाईयों की वापस लेते हुए सभी को असमर्थ यना कर छोड़ दिया है जिससे सभी दोषी ठहरते हैं—

दो०—तुलसी यह जग आइके, कोउ न भया समरथ ।

इक कंचन दै कुन, पै को न पसारेउ हथ ॥

व्यक्तियों की तुलना गंगा-जल, सूर्य की धूप तथा आग से की जाई है जो तत्तदाभिमानी देवताओं के जड़खूप है तथा जो जड़खूप वस्तुतः स्वयं ही सर्वथा निर्दोष नहीं है। अतः यहाँ पर गोसाई जी ने दो भूलें की है—(१) चेतन की तुलना जड़ से करना और (२) उस जड़ को सर्वथा निर्दोष मानना। हम लोग पूर्वोक्त महर्षियों तथा देवताओं आदि के चरित्र पर विचार करने चले हैं जो चेतन व्यक्ति है या माने जाते हैं और उनकी तुलना की जाती है जड़ पदार्थों से जिनके सम्बन्ध में चरित्र का कोई प्रश्न उठता ही नहीं। भले ही गंगा-जल, सूर्य की धूप तथा आग में दोष न माना जाए; पर चेतन व्यक्तियों के चरित्र में बुटि होने पर उनको समर्थ मानते हुए भी उनमें दोष अवश्य माना जाएगा। इतना ही नहीं; बल्कि सामर्थ्य के अनुपात से ही दोष का न्यूनाधिक्य समझा जाएगा। तात्पर्य यह कि किसी भी व्यक्ति में सामर्थ्य की मात्रा जितनी ही अधिक या कम होगी उसका दोष भी उतना ही अधिक या कम माना जाएगा; कारण कि सामर्थ्य को हासन-बृद्धि के साथ ही उत्तरदायित्व की हासन-बृद्धि होती है। यह एक ऐसा सर्वसम्मत-सिद्धान्त है जिस पर ननुन्नन करने का किसी को अधिकार नहीं है। इस यात को सभों जानते और मानते हैं कि यदि कोई अद्वाध बालक या कोई विकास मनुष्य किसी को गाली भा दे तो वह उनकी गाली का उपेक्षा यह कहकर कर देता है कि बालकों या पागलों को उचित अनुचित का विचार कहा? और दूसरे लोग भी उसे यही कहकर सम्बन्धना देते हैं कि जाने दो भाई! यह तो आभी नादान बच्चा है या तो पागल है; इसकी गाली की परवाह करना ही पागलपन है इत्यादि। हमारे ताजिरात हिन्द में (Indian Penal Code) भी तो इसी का समर्थन है। उसकी निम्नलिखित घाराओं पर दण्डित कीजिए—

82. Nothing is an offence which is done

by a child under seven years of age.

83. Nothing is an offence which is done by a child above seven years of age and under twelve, who has not attained sufficient maturity of understanding to judge of the nature and consequences of his conduct on that occasion.

84. Nothing is an offence which is done by a person who, at the time of doing it, by reason of unsoundness of mind, is incapable of knowing the nature of the act, or that he is doing what is either wrong or contrary to law.

85. Nothing is an offence which is done by a person who, at the time of doing it, is, by reason of intoxication, incapable of knowing the nature of the act, or that he is doing what is either wrong, or contrary to law: provided that the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will.

**अर्थ—**प्र. सात वर्ष से कम अवस्थावाले वच्चे का कोई भी व्यापार अपराध नहीं है। प्र. सात वर्ष से ऊपर और बारह वर्ष के नीचे की अवस्थावाले ऐसे वच्चे का कोई भी व्यापार अपराध

नहीं है जिसकी बुद्धि इतनी परिपक्व नहीं है कि वह उस कार्य के करते समय अपने आचरण की प्रकृति और परिणाम समझ सके। ८४. ऐसे व्यक्ति का किया हुआ कोई भी व्यापार अपराध नहीं है जो उस व्यापार के करते समय निक्षिप्त होने के कारण अपने व्यापार की प्रकृति अथवा यह समझने में असमर्थ है कि जो कुछ वह कर रहा है वह अनुचित या कानून के विरुद्ध है। ८५. ऐसे व्यक्ति का किया हुआ कोई भी व्यापार अपराध नहीं है जो उस व्यापार के करते समय नशे में चूर होने के कारण अपने व्यापार को प्रकृति अथवा यह समझने में असमर्थ है कि जो कुछ वह कर रहा है वह अनुचित या कानून के विरुद्ध है; पर शर्त यह है कि वह नशीली वस्तु, यिना उसकी जानकारी वा इच्छा के विरुद्ध उसे दी गई हो।

अतः इस प्रकार न्यायपूर्वक विचार करने से यही सिद्धान्त निकलता है कि समयों को नहीं, वल्कि असमयों को ही दोष नहीं होता; समयों की तो बल-बुद्धि इतनी परिपक्व रहती है कि वे अपने आचरण की अच्छाई वा बुराई भली भांति समझ सकते हैं, जिससे उनका यह एक अनिवार्य कर्तव्य हैं जाता है कि वे अपने शुद्ध आचरण के द्वारा प्रकृत जनता के लिए एक अनुकरणीय आदर्श सदा बने रहें, क्योंकि साधारण लोग तो अपने पथ-प्रदर्शकों का ही अनुसरण करते हैं। भगवद्गीता भी इसी सिद्धान्त का अनुमोदन करती है—

यदाचरति श्रेष्ठस्तत्त्वेवत्तरं जनः ॥

स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्त्तते ॥ ३२६ ॥

अर्थ—एक माननीय व्यक्ति जो कुछ करता है उसी को दूसरे लोग भी करते हैं। और वह जो आदर्श खड़ा करता है उसी का अनुसरण जनता करती है।

समर्थ जीवों में सबसे पहले देवताओं की कोटि है; क्योंकि उन्हीं को हम लोग परमाराध्य, परमपूज्य तथा सर्वभीषण फलप्रद मानते हुए उनके पवित्र नामों की रट इस विश्वास के साथ निरन्तर लगाए रहते हैं कि ऐसा करने से ही हमारी तापत्रय से मुक्ति हो सकेगी तथा हमारे ऐहिक एवं पारलौकिक कल्याण का मार्ग भी निष्कट्टंक होगा। अतः सर्वप्रथम हमें इन देवताओं के आचरण का ही अध्ययनकर इस बात का निर्णय करना चाहिए कि यथार्थ में इनके आचार-व्यवहार इस प्रकार के थे कि ये समर्थ या हमारे आदर्श बनने के योग्य माने जा सकें। देवताओं में सर्वप्रधान ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं, जो त्रिमूर्ति कहलाते हैं। हिन्दू पीरागिकों का कथन है कि ये तीनों परमात्मा के ही अवस्थामें से तीन रूप हैं; अर्थात् एक ही परमात्मा जगत्खण्डा के रूप में ब्रह्मा, जगत्तालक के रूप में विष्णु तथा जगत्संहक्ता के रूप में महेश कहा जाता है। इन विदेवों के विषय में पीरागिकों की कल्पना चाहे जो कुछ हो; पर सच पूछिए तो एक निष्पक्ष आलोचक की दृष्टि में इनमें परमात्मा के कुछ भी लक्षण नहीं देख पड़ते। विष्णु महाराज तो एक पार्टी विशेष ( देव-पार्टी ) के नेतामात्र मालूम पड़ते हैं, जिन्हें अपने दल का आभ्युदय-साधन के लिए नीचातिनीच उपाय का भी आश्रय लेते हुए तनिक भी संकोच नहीं होता। असुरों का उत्तीर्ण जब-जब देवगण पर हुआ तब-नव वे बुद्ध का बाबा ब्रह्मा-जी को लेकर विष्णुजी के दरबार में जा पहुँचे और उनको अपनी करियाद सुना उनकी सहायता ली। विष्णु के बचाव में यदि यह कहा जाए कि परमात्मा सदा अच्छों का ही पक्ष लेता है; तुरों का नहीं, तो यह कथन सरासर अन्याय और पक्षपात से भरा है; कारण उसके पुराणों के अध्ययन से पता चलता है कि देवताओं में भी तुरे से तुरे तथा असुरों में भी अच्छे से अच्छे व्यक्ति मौजूद थे। यह तो

स्वाभाविक है कि जब दो दलों में परस्पर बैमनस्य रहता है, तो वे एक दूसरे को कलंकित करते हैं। यदि देवताओं की हण्ठि में असुर चुरे थे तो असुरों की हण्ठि में भी देवता चुरे ही थे। पारसी जाति की धर्मपुस्तकों में असुर (अहुर) ही अच्छे और देवगण चुरे कहे गए हैं। अतः निष्पक्ष होकर न्याय करना चाहिए।

और देवताओं का तो अभी छोड़िए। सर्वप्रथम देवाखिदेव विष्णुजी के ही काले करनामों की सूची लीजिए। असुरों में राजा बलि एक बहुत ही प्रतापशाली तथा धर्मात्मा राजा हो गए हैं। इन्होंने अपनी दुर्दर्श दैत्य सेना लेकर एक

**विष्णु** बार इन्द्र की राजधानी अमरावती (इन्द्रपुरी) का घेर लिया। देवगण इस दुर्मनीय असुर-सेना का मुकाबला करने में अपने को असमर्थ जानकर अमरावती छोड़कर भाग गए और वह समुद्रिशालिनी विशाल देवनगरी बलि के हाथ लगी। बलि ने अपनी इस महाविजय के उपलक्ष में अश्वमेष यज्ञ करना आगम्म किया। देवताओं को अपनी हार पर मढ़ादुःख हुआ। तब विष्णु वामनरूप धारणकर बलि के उक्त यज्ञ में पहुंचे और उनसे मित्रास्वरूप तीन पग पृथ्वी माँगने के बहाने से उनका सारा राज्य छुल करके छीन लिया और उसे इन्द्र को दे दिया। अब यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि विष्णु यदि सचमुच परमात्मा थे तो उन्हें इस प्रकार की ठगी करने की क्या जरूरत थी तथा उन्होंने बलि जैसे उदारचित्त तथा धर्मात्मा का पक्ष न लेकर इन्द्र जैसे कपटा, कुटिल, इषांगु तथा इन्द्रिय-लोकुप व्यक्ति का पक्ष क्यों ग्रहण किया? यह बात सभी पुराण-पाठकों को भली भाँति विदित है कि इन्द्र ने किस नीचता के साथ महर्षि गौतम की धर्म-पत्नी अहल्या का सतीत्व अपहरण किया था तथा वह किस प्रकार दूसरों की उच्चति को अपनी फूटी और्खों से न देख साधु-महात्माओं की तपत्या में विभ डाला करता

तथा चोर की तरह अश्वमेध के धोड़े को चुराया करता था। इसलिए तो गोस्वामी तुलसीदासजी ने उसके बारे में लिखा है कि—“काक समान पाक रिपु रीती; छली मलीन कतहूँ न प्रतीती”; अर्थात् इन्द्र का तौर-तरीका काले कौप का-सा है; वह छली है; उसका हृदय मलिन है तथा किसी पर वह विश्वास नहीं करता। सन पूछा जाए तो बलि कि तुलना में इन्द्र उसके चरणों के धोशन-तुल्य भी न था; पर विष्णुदेव ने बलि की सारी सम्पत्ति छीनकर इन्द्र को दी और बेचारे बलि को रसातल में फेल दिया ! वाह रे अच्छों के पृ०-गोषक हिन्दुओं के परमात्मा विष्णुदेव !

विष्णुजी की दूसरी काली करतृत समुद्र मन्थन के समय देखी गई। समुद्र-मन्थन में देवताओं और आसुरों ने तुल्य ही परिश्रम किया था और यदि यथार्थ कहा जाए तो देवताओं की अपेक्षा आसुरों को अधिक दुःख भेलने पड़े थे; कारण कि देवताओं ने मन्थन कार्य में मयानी भूत मन्दराचल में रसीवत् लिए बासुकि नाग को उसकी पूँछ की ओर, पर उनके विपक्षी आसुरों ने उसे उसके मुँह की ओर पकड़ा था जिसका यह परिणाम हुआ कि विचारे असुरगण उन नाग के ज्वला-मय फूलकारों से बार-बार झुलस रहे थे। और जब इस प्रकार समुद्र-मन्थन से अमृत प्राप्त हुआ, तो विष्णु महाराज ने, इस भय से कि कहाँ अमृत-पान कर लेने से विपक्षी आसुरों का दल अजर-अमर न हो जाए, मोहिनी का रूप धारणकर अपनी मन्द सुस्कान तथा तिरछे नितयन से उन्हें इस प्रकार कामान्ध बना दिया कि उनकी सारी सुध-झुध जाती रही और उनके देखते-देखते देव-मंडली में मोहिनी-रूप-भारी विष्णु ने सारा अमृत बांट कर पिला दिया। यहाँ पर मैं अपने पाठकों की जानकारी के लिए यह बतला देना चाहता हूँ कि विष्णु महाराज की सलाह से ही इन्द्रादिक देवगण समुद्र मथकर उसमें से अमृत निकाल लेने का प्रस्ताव लेकर दैत्येन्द्र बलि के पास

गए थे और वाल बेचारे सीधे-सादे साधु-स्वभाव के व्यक्ति थे जो देवताओं के छुल-कपट को न समझकर उक्त प्रस्ताव पर उनके साथ सहमत हो गए थे। विष्णु किस प्रकार के चालवाज तथा कृटनीतिश नेता थे, वह श्रीमद्भागवत, स्कन्ध ८, अध्याय ६, के निम्नलिखित श्लोकों से प्रकट होता है—

अरयोऽपि हि सन्वेयाः सति कार्योर्थं गौरवे ।

अहिमूषकवहेवा त्यर्थस्य पदवीं गतेः ॥२०॥

अमृतोत्पादने यतः क्रियतामविलम्बितम् ।

यस्य पीतस्य वै जन्तुमृत्युग्रस्तोऽमरोभवेत् ॥२१॥

क्षिप्त्वा तीर्णं दधौ सर्वा वीरचूणालतीषधीः ।

मन्यानं मन्दरं कृत्वा नेत्रं कृत्वात् वासुकिम् ॥२२॥

सहयेन मयादेवा निर्मन्यध्यमतन्द्रिताः ।

क्लेशभाजो भविष्यन्ति दैत्या यूयं कलग्रहाः ॥२३॥

यूयं तदनुमोदशं यदिच्छन्त्यसुराः सुराः ।

न संरम्भेण सिद्ध-यन्ति सर्वेऽर्थाः सान्त्वया यथा ॥२४॥

अर्थ—कार्य की सिद्धि कठिन देख पड़े तो अपना मतलब निकालने के लिए शत्रु से सन्धि उसी प्रकार कर लेनी चाहिए जिस प्रकार सौप ने चूहे के साथ कर ली थी ॥२०॥ अतः दैत्यों से मिल-कर आप लोग अमृत निकालने का प्रयत्न शीघ्र करें जिसके पीछे से मर ग्रासी भी अमर हो जाता है ॥२१॥ आप लोग द्वीर्ण-समूद्र में सभी बनस्पतियाँ, तुण, लताएँ तथा औषधियाँ डालकर एवं मन्दराचल को मथानी और वाह कि नाग को उस मथानी की रस्सी बनाकर मेरी सहायता से एकाग्रचित्त होकर उसे मरें। उसका फज्ज, अर्थात् अमृत, आप लोगों को प्राप्त होगा और दैत्य लोग केवल परिअमरुपी क्लेश के भागी होंगे; अर्थात् वे अमृत न पी सकेंगे ॥२२-२३॥ हे देवगण !

इस समय असुरगण जो जो इच्छा करें उन सब में आप लोग सहमत हो जाइए; क्योंकि सभी कार्य लड़ाई करने से ही नहीं सिद्ध होते; कभी-कभी मेल से भी काम निकाला जाता है और मेल से जैसा काम बनता है वैसा भगवे से नहीं बनता ॥२४॥

ये वचन देवताओं के प्रति विष्णु महाराज के हैं जिनसे उनकी चिलकरा कूटनीतिज्ञता तथा स्वार्थपरायगणता फूट-फूटकर निकलती है। चूहे ने अपने शत्रु सौंप के उसे नहीं खाने के वचन पर विश्वास-कर पेटों में छेद कर दिया और वह विश्वासघाती सौंप उस चूहे को खाकर उसी छेद से निकल गया। विष्णु की इस कूटनीति का अभिप्राय यह था कि पहले दैत्यगण जो-जो बातें कहें उन्हें मान ली जाए; पीछे तो उन्हें बुद्ध बनाकर अपना उल्लू सीधा ही किया जाएगा। यदि दानवों के विरुद्ध और देवताओं के पक्ष में वह कहा जाए कि दानवों का मोहिनी के रुद-जावण्य पर मुख हो जाना ही उनके अमृत से बंचित हो जाने का कारण था, और चूँकि देवगण उसके माया-जाल में नहीं फँसे अतः वे अमृत प्राप्त करने में सफल हुए, तो इस आन्दोल का खंडन इस प्रकार ही जाता है कि जिस भुवन-मोहिनी मोहिनी की अनुपम छुटा पर स्वयं भगवान् शंकर, जिन्होंने कामदेव को जलाकर खाक कर दिया था, न केवल आसक्त हो गए, बल्कि उस त्रिभुवन मुन्दरी को पकड़ने के लिए इस प्रकार कामान्ध होकर उसके पाछे-पीछे दीड़े कि जहाँ-जहाँ वे गये वहाँ-वहाँ उनका वीर्य, ऋतुमती हथिनी के पीछे-पीछे दाँड़नेवाले कामोन्मत्तगजराज की तरह, स्वलित होता गया, उसी विशाल नितमिथनी तथा पीनस्तनी सर्वाङ्ग सुन्दरी नारी के सामने बेचारे दैत्यगण किस खेत की मूली थे, और विष्णु ने तो देवताओं की ही स्वार्थ सिद्धि के लिए यह माया रची थी, अतः उन पर उसका प्रभाव कुछ भी न हुआ। वे उसके जादू से बाल-बाल बच गए।

विष्णु ने अपनी काली करतूतों का सर्वशेष नमूना उस समय दिखलाया जब वे असुरेन्द्र जलनधर को खो बूँदा का सतीत्व अपहरण करने में तरनिक भी नहीं हिचके। उसको वरदान था कि जब तक उसकी खींच का सतीत्व अनुराग बना रहेगा, तब तक उसे कोई भी मार नहीं सकेगा। पर वह इतना अत्याचारी निकला कि उसके वध के लिए विष्णु को परस्तोगमन जैसे वृग्नित उपाय का आभ्य लेना पड़ा। रुद्र-संहिता, युद्ध संड, अध्याय २०, में लिखा—

विष्णु गौलन्धर गत्वा दैत्यस्य पुटमेदनम् ।

पातिब्रतत्वं भंगाय बूँदामाश्चाकरोन्मतिम् ॥

**अर्थ—**विष्णु ने जलनधर दैत्य की राजधानी जाकर उसकी खो बूँदा का पातिब्रतत्व नष्ट करने का विचार किया।

इधर शिव जलनधर के साथ युद्ध कर रहे थे और उधर विष्णु महाराज ने जलनधर का वेष धारणकर उसकी खींच बूँदा का सतीत्व नष्ट कर दिया, जिससे वह दैत्य मारा गया। जब बूँदा को विष्णु का यह छुल मालूम हुआ, तो उसने विष्णु से कहा—

धिक् तदेवं हरे शीलं परदाराभिगामिनः ।

ज्ञातोऽसि त्वं मयासम्यङ् मायी प्रत्यक्ष तापमः ॥

**अर्थ—**हे विष्णु ! पराई खींच के साथ व्यभिचार करनेवाले तुम्हारे ऐसे आचारण पर विकार है। अब तुमको मैं भली भाँति जान गाँ। तुम देखने में तो महासाधु जान पड़ते हो; पर हो तुम मायानी, अर्थात् महाब्रह्मी । । पुनर्श्च—

रे महाधम ! दैत्यारे ! परधर्मविदूषक ।

यज्ञोष्ठ शठ ! महत्त्वं शापं सर्वविषयोल्वणम् ॥

**अर्थ—**अरे दैत्यों के शत्रु तथा दूसरे का धर्म विगाड़नेवाले महानीच शठ ! मेरे द्वारा हुए परम विषाक्त शाप को अंगीकार कर ।

शाप का विवरण सभी को मालूम है। इसी शाप के बश सम्बन्धित कल्प के रामावतार में जलन्धर ने रावण होकर राम (विष्णु) का खी साता का हरण किया था। यह है करनूत हिन्दुओं के परमार्थ देव परमात्मभूत श्रीविष्णुजी महाराज का, जिनसे बढ़कर छली, कपटी, मायावी तथा दुराचारी मानव-कल्पना के बाहर है। यदि विष्णु को बचाव में यह कहा जाए कि यदि उन्होंने नित्य-नित्य अनेक खियों के सतीत्व लूटनेवाले जलन्धर जैसे आततायों का वध करने के लिए उसकी खी का सतीत्व नष्ट कर ही दिया, तो इसमें कौन-सा पाप किया? बल्कि ऐसाकर उन्होंने तो एक महापुण्य का काम किया; क्योंकि एक खी का सतीत्व नष्टकर उन्होंने असंख्य खियों के सतीत्व को सुरक्षित कर दिया। पर प्रश्न यह उठता है कि क्या विष्णु के पास कोई दूसरा उपाय न था? यदि विष्णु सचमुच घटघट व्यापी सर्वशक्तिमान् परमात्मा रहते, तो वे अपनी प्रेरणा-मात्र से ही जलन्धर का अन्तःकरण शुद्धकर उसे दुर्जन से महासज्जन बना देते। उन्हें इस प्रकार की लम्पटता करने की ज़रूरत न होती। आश्चर्य और शोक तो इस बात पर है कि हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, जलन्धर, रावण, वाणासुर, तारक आदि जिन्हें प्रसिद्ध असुर हो गए हैं उन्हें वरदान देकर उद्धत तथा दुर्दृष्ट बनानेवाले ये त्रिदेव महाराज ही थे और फिर इन्हीं लोगों को उन असुरों के असह अत्याचारों से संजुब्ध होकर उन्हें किसी न किसी उपाय से, नहाए वह उपाय भले ही वृशित क्यों न हो, मारना पड़ता था। यदि सचमुच ये त्रिदेव विकालज्ञ परमात्मा के रूप होते तो उन्हें अपनी विकालज्ञता के कारण इस बात का पूर्वज्ञान अवश्य हो जाता कि ये असुर जिन्हें वे वरदान देने चले हैं उनके वरदान का असदुपयोग भविष्य में अवश्य करेंगे और ऐसा जानकर, यदि उनके दिमाग मुशारक में कुछ भी अक्षल होती, तो उन्हें इस प्रकार के अजेय तथा

महादृष्ट वनानेवाले वरदान कभी न देते, जिनसे लाचार होकर अन्त में उन असुरों का वध करने के लिए उन्हें किसी पापमय उपाय का आश्रय लेना पड़ता। यदि विदेशी की इच्छामात्र से वे असुरगणा दुर्दर्श हो सकते थे तो उनको इच्छामात्र से ही ये सदाचारी भी हो सकते थे।

विदेशी में प्रधानता को दृष्टि से विष्णु के बाद शिव का ही स्थान है; कारण कि मारतवर्ध में विष्णु के बाद शिव के ही भक्तो, तीर्थस्थानों तथा मन्दिरों की संख्या देखने में आती है। पर बुढ़ऊ बाबा ब्रह्माजी से विशेष सम्बन्ध रखनेवाला न कोई भक्त ही दीख पड़ता, न कोई मन्दिर ही तथा न कोई तीर्थस्थान ही। यदि ब्रह्माजी से सम्बन्ध रखनेवाला कोई तीर्थस्थान (जैसा कि पुष्कर) ही भी, तो वह अप्रसिद्धि के कारण किसी गणना के योग्य नहीं। अतः विदेवसामर्थ्य-वर्गान् प्रसंग में वे फीसी में रखे गए।

अब शिव के सामर्थ्य पर ज़रा गौर कीजिए। जैसा कि इस परिच्छेद में कहा गया है, बाबा मोलानाथजी के सामर्थ्य की कलाई तो तभी खुल गई जब वे दैत्यों से छुल करके अमृत ले लेनेवाली मोहिनी के कामीजनों को पागल बना देनेवाला रूप-लावण्य पर अपना सारा विवेक स्वी दिया। यदि पाठकों को भगवान् शङ्कर की तत्कालीन दयनीय अवस्था का चित्र देखना हो तो श्रीमद्भागवत, स्कन्द ८, अध्याय १२, देखने का कष्ट करें। जब बाबा विश्वनाथ ने सुना कि विष्णु ने मोहिनी का रूप धारणकर दैत्यों से अमृत ठग लिया है, तो उन्हें उनका रूप देखने की इच्छा हुई और वे चट नन्दीश्वर की पीठ पर सख्तीक सवार होकर सीधे वैद्युषठ लोक में पहुँच गए और विष्णु से अपनी इच्छा प्रकट की। विष्णु शिव की

अभिलाषा पूरी करने के अभिप्राय से शीघ्र अदृश्य हो गए और एक उपवन में गेंद उछाल-उछालकर कीड़ा करती हुई मोहिनी दीख पड़ी। उस कामिनी के तीर जैसे तीक्ष्ण कटाक्षों की विषम चोट स्वाकर महादेव हतुर्बुद्धि हो गए और दौड़कर उसे पकड़ा और अपने हृदय से लगा लिया। पर वह उनके बाहु-पाश से अपने को छुड़ाकर भाग निकली। श्रीमद्भागवत के उक्त स्थान पर लिखा है—

आत्मानं मोचयित्वाङ्गं सुर्पभभुजान्तरात् ।

प्राद्रवत्सापुषु शोणी माया देवविनिर्मिता ॥३०॥

तस्यासौ पद्मां रुद्रो विष्णोरमृदुतकर्मणः ।

प्रत्यपहतकामेन वैरिणेव विनिर्जितः ॥३१॥

तस्यानुधावतो रेतश्चस्कन्दामोघरेतसः ।

शुभ्यिणां युथपस्येव वासितामनु धावतः ॥३२॥

अर्थ—हे महाराज ! तदनन्तर देवों में शेष शंकर के दोनों हाथों के बीच से अपने को छुड़ाकर वह नारायणनिर्मिता विपुल नितविनी माया ( मोहिनी ) भाग चली ॥३०॥ अपने बैरी कामदेव से मानो परास्त होकर महादेवजी भी विचित्र चरित्रवाले विष्णु के मायामय मोहिनी रूप के पीछे पीछे दौड़ने लगे ॥३१॥ पीछा करते-करते ऋतुमर्ती हथिनी के अनुगामी हाथी की तरह अमोघ बायं महादेव का बीर्य स्वलित होने लगा ॥३२॥

बीर्य के स्वलित होने के बाद महादेव का नित शान्त हुआ और उन्हें अपनी दशा पर पश्चात्ताप हुआ। ठीक है; यह तो प्राकृतिक नियम ही है कि वीर्यस्वलित के बाद काम का वेग निवृत्त हो जाता है और चित्त स्थिर हो जाता है। शोक और आश्चर्य तो इस बात को देखकर होता है कि महर्षि व्यास की जिस अमर लेखनी ने इन विदेवों की बड़ाई गाते-गाते इनकी ईश्वरीय महिमा का पुल बीध

दिया, फिर उसी लेखनी ने उन्हें वैतिक पतन के एक महागर्च में ढकेलकर उन्हें रसातल तक पहुँचा भी दिया। धन्य है रे व्यास तेरी लेखनी जो इन विदेशों के पूर्णतः परस्पर विरोधी दो प्रकार के चरित्रों का चित्रण करते समय तनिक भी नहीं हिचकी !! यदि ये सचमुच एक ही परमात्मा के कार्यवश तीन भिन्न-भिन्न रूप मात्र हैं, तो वे पापमर जीवों की तरह कामादि चित्र-विकारों के गुलाम कैसे बन गए ? यदि ये वस्तुतः समर्थ हैं, तो उनमें मनोनिग्रह की शक्ति क्यों नहीं ? ये कुछ ऐसे प्रश्न हम लोगों के हृदय में आपसे आप उठ जाते हैं जिनका सन्तोषजनक उत्तर मिलना कठिन हो जाता है।

पर विदेशों में बाजी मार ली फीसी में रखे गए हमारे बृद्ध पिता-मह ब्रह्मा बाबा ने ही, जब उन्होंने कामोन्मत्त होकर आपनी ही पुत्री

पर धावा बोल दिया और तभी से रतिनाथ कुमुमायुध

**ब्रह्मा** को 'कंदर्प' नाम का भासी भी बना दिया; क्योंकि व्याकरणानुसार 'कंदर्प' शब्द की व्युत्पत्ति यो होती है—क (ब्रह्माण्) दर्पयति (उन्मादयति) इति कन्दर्पः, अर्थात् जो ब्रह्मा को भी पागल बना देता है वह कन्दर्प है। कंदर्पः=क+हृप्+गिर्च+लच+मुम्। आप्टे महाशय के संस्कृत-अंग्रेजी कोष में 'ब्रह्मन' शब्द के विविध अर्थ देते हुए लिखा है—

Mythologically Brahman is represented as being born in a lotus which sprang from the navel of Vishnu, and as creating the world by an illicit connection with his

---

कंदर्प शब्द की व्युत्पत्ति कई प्रकार से की जाती है। यहाँ को हुई व्युत्पत्ति अन्या को अपेक्षा व्याकरण का कुछ व्यतिक्रम होते हुए मी, अधिक सुनोध तथा सुक्षियुक्त है। यह निपातन-सिद्ध है।

own daughter Saisawati. Brahman had originally five heads, but one of them was cut down by Siva with the ring-finger or burnt down by the fire from the third eye.

**अर्थ—**पुराणानुसार ब्रह्मा की उत्पत्ति विष्णु की नाभि से निकले कमल से हुई चन्द्रलाई गई है। इन्होंने अपनी ही पुत्रों सरस्वती के साथ अनुचित सम्बन्धकर इस जगत् की रचना की। पहले ब्रह्मा के पाँच तिर थे; किन्तु शिव ने उनमें से एक को अपनी अनामिका अङ्गुली से काट डाला वा अपनी तीसरी शांख से निकली हुई चवाला में डाला दिया।

प्रियपाठक बृन्द ! ये ही हमारे दाढ़ीवाले वृद्ध पितामह ब्रह्मा वाचा के करिश्मे ! अब आप ही लोग कृपा करके चतलाएँ कि ब्रह्माजी जगत् के पिता है वा मातामह; अथवा दूसरे शब्दों में यो कहिए, कि हम लोग ब्रह्माजी के पुत्र हैं वा दौड़ित्र !! श्रीमद्भगवत्, तृतीय ऋक्ष, अथाय १२, में लिखा है—

वाचं दुहितरं तन्नीं स्वयंभूर्हती मनः ।

आकामां चकमं त्ततः सकाम इति नः श्रुतम् ॥२८॥

तमधमें कृतमति विलोक्य पितरं सुताः ।

मरीचि मुख्या मुनयो विश्वंभात् प्रस्य चोधयन् ॥२९॥

**अर्थ—**मैत्रेय कहते हैं कि हे वृत्ता ( विदुर ) ! हम लोगों ने सुना है कि ब्रह्मा ने अपनी कामरहित मनोहर कन्या सरस्वती की कामना कामोन्मत्त होकर की ॥२८॥ पिता की इस अधमंडुदि को देखकर मरीच्यादि पुत्रों ने उन्हें विनयपूर्वक समझाया ॥२९॥ यहाँ किसी प्रकार का रूपक मानने पर ब्रह्मा आदि सभी के वास्तविक

अस्तित्व से हीन हो जाने के कारण सुष्ठिमात्र रूपक हो जाएगी; कारण कि यहाँ सुष्ठि-प्रसंग है; अतः यहाँ कोई रूपक नहीं है। इसके अतिरिक्त यदि रूपक होता तो ब्रह्मा के विषय में 'अथमें कृत मतिम्' ऐसा कहने तथा मरीचादिकों को उन्हें समझाने की क्या जल्हरत पड़ती ? विदुर के दासों-पुत्र होने के कारण उन्हें ज्ञान कहते हैं।

विश्वादि देवों के सामर्थ्य को समीक्षा इस प्रकार कर अथ अन्यान्य देवों के, और तिनमें सर्वप्रथम उनके परमपूज्य गुरु श्री वृहस्पति जी के आचरण पर विचार किया जाता वृहस्पति है। ये इन्द्रादि देवताओं के गुरु हैं। 'गुरु' शब्द का अर्थ है 'गृणाति धर्ममुपदिशतातिगुरुः' (गृ × कु, वे), अर्थात् जो धर्म का उपदेश करता है, वह गुरु है। ये वृहस्पति स्वयं धर्म शास्त्रों के प्रवर्तनकों में से हैं; क्योंकि इन्हीं की रची हुईं एक स्मृति भी है जो वृहस्पति-स्मृति के नाम से प्रसिद्ध है। अब इनका दाल सुनिए। ये अपने वडे भाई उत्थय की गर्भवती लौ ममता के रूप माधुर्य को देखकर इस प्रकार कामोन्मत्त हो गए कि ये अपना सारा धर्म-कर्म भाइ में भोक, ममता के लास मना करने पर भी, उस पर चढ़ देंठे, जिस कुकर्म से भरद्वाज नामक एक बालक का जन्म हुआ, जिसे महत् देवों ने शकुनतला-पुष्पन् पुत्र राजा भरत को, जिन्होंने पुत्रीन होने के कारण पुत्र-प्राप्त्यर्थ महत्सोम यज्ञ किया था, पुत्रवत् प्रदान कर दिया। श्रीमद्भागवत, स्कन्ध ६, अध्याय २०, पद्धति—

तस्यैव विनये वेशे तदर्थे यजतः सुतम् ।

महत्सोमन महतो भरद्वाजमुपाददुः ॥३५॥

अन्तर्वन्यां भ्रातृपत्न्यां मैथुनाय वृहस्पतिः ।

प्रवृत्तो वासितो गर्भं शप्त्वा वीर्यमवासुजत् ॥३६॥

यज्ञकामा ममता भर्तुत्यागविशंकिताम् ।  
नाम निर्बचनंतस्य श्लोक मेनं सुराजगुः ॥३७॥  
मूढे भरद्वाजभिर्भरद्वाजं वृहस्पते ।  
याती यदुत्त्वा पितरी भरद्वाज स्ततस्त्वयम् ॥३८॥  
चोद्यमाना सुरैरेव मत्वावितयमात्मजम् ।  
व्यासुजन्मद्वतो विभ्रन्दत्तोऽयं वितयेऽन्यये ॥३९॥

**अर्थ—**स्ववंश के इस प्रकार नष्ट हो जाने पर राजा भरत ने महर्षसोम नामक यज्ञ का अनुष्ठान किया । उस यज्ञ में मष्ट-देवों ने राजा को भरद्वाज नामक पुत्र दिया ॥३५॥ एक समय वृहस्पति जी का मातुर होकर अपने भाई की गर्भवती लड़ी के साथ, मना किए जाने पर भी, मैथुन करने में ग्रहण हुए और गर्भ को शाप देकर अपना वीर्य छोड़ दिया ॥३६॥ जब ममता ने पति के द्वारा त्यागी जाने के भय से वृहस्पति के वीर्य से उत्पन्न हुए बालक को छोड़ देना चाहा तो, उस बालक के नामकरण का निकापण करते हुए देवगण ने यह श्लोक गाया ॥३७॥ चौकि वृहस्पति ने ममता से कहा कि हे मूढे ! इस दो के द्वारा अर्थात् एक के ज्ञेत्र में दूसरे के वीर्य से उत्पन्न पुत्र का पालन कर और ममता ने भी वृहस्पति से कहा कि हे वृहस्पति तुम इस 'द्वाज' पुत्र का पालन करो और ऐसा कहकर माता (ममता) और पिता (वृहस्पति) दोनों चले गए; अतः इस बालक का नाम 'भरद्वाज' है ॥३८॥ हे महाराज ! देवताओं के ऐसा कहने पर भी उत्तर्य ने उस बालक को 'वितय' अर्थात् व्यय (क्योंकि व्यभिचारजात पुत्र का पिण्डदान ज्ञेत्री पिता को नहीं मिलता) जानकर वहीं छोड़ दिया तब मष्ट-देवों ने उसका पालन किया और जिस समय राजा भरत का वंश वितय (व्यय अर्थात् विनष्ट) हो रहा था, उस समय उसको उन्हें दे दिया ॥३९॥

ये भरद्वाज उन भरद्वाज से भिन्न मालूम होते हैं जो शहद्री पुत्र होते हुए भी अपने उत्तम ज्ञानविशेष के कारण ब्रह्मार्थियों में परिगणित हो गए; क्योंकि ये भरद्वाज तो एक ज्ञात्रिय-नरेश के द्वारा पुत्रवत् स्वीकृत हो जाने के कारण सदा के लिए ज्ञात्रिय कुल में लिए गए और वित्त नाम से प्रसिद्ध हुए।

सामर्थ्य की जाँच, आग में सोना तपाने की तरह, आति ही कठोर है। इस जाँच में उत्तीर्ण होना कुछ लड़कों का खेल नहीं है। मनुष्य की इन्द्रियाँ तूफान मचाकर कभी-कभी उसके चित्त को ढाबाँडोल कर देती हैं और वह उन पर अपना काढ़ खो वैठता है। जो व्यक्ति ऐसी विपक्षावस्था में भी अपनी इन्द्रियों पर शासन करने में समर्थ हुआ वही वास्तव में समर्थ है; अन्यथा कोई भी नहीं चाहे वह मनुष्य हो वा देवता।

देवगुरु वृहस्पति महाराज के सामर्थ्य का कच्चा चिट्ठा इस प्रकार खोलकर आव उनके प्रमुख शिष्य देवराज इन्द्र इन्द्र के आचरण पर विचार किया जाता है। यह पहले ही लिख आए है कि इन्द्र ने महर्षि गौतम की लड़ी अहल्या का सतीत्वापहरण-रूपी कैसा धोर कुर्कम किया या। साधारणतः लोगों की यही धारणा बनी रहती है कि इस पाप-कर्म में अहल्या विलकुल निरपराध थी और उसका सतीत्व गौतम वेषधारी इन्द्र ने छुल करके ही नष्ट किया या। पर वास्तविक बात वैसी न थी। यह पाप-कर्म इन्द्र और अहल्या दोनों की ही सम्मति से हुआ था। अहल्या ने मुनिवेषधारी इन्द्र को पहचानकर ही उसके हाथ अपना सतीत्व सौंप दिया थ। वाल्मीकीय रामायण, वालकाएङ्ग, सर्ग ४८, देखिए....

तत्पान्तरं विदित्वा च सहस्राद्धः शर्चपतिः ।

मुनिवेषभरो भूत्वा अहल्यामिदमब्रवीत् ॥१७॥  
 ऋतुकालं प्रतीक्षन्ते नार्थिनः सुममाहिते ।  
 संगमंत्वहमिच्छामि त्वया सह सुमध्यमे ॥१८॥  
 मुनिवेषं सहस्राच्च विज्ञाय रघुनन्दन ।  
 मति चकार दुर्मेषा देवराज कुतुहलात् ॥१९॥  
 अथाब्रवीत् सुरभेष्टुं कृतार्थेनान्तरात्मना ।  
 कृतार्थस्मिसुरभेष्टुं गच्छशीघ्रमितः प्रभो ॥२०॥  
 आत्मानं मां च देवेश सर्वथा रक्ष गौतमात् ।  
 इन्द्रस्तु प्रहसन वाक्यमहल्यामिदमब्रवीत् ॥२१॥  
 मुश्मोश्चि परितुष्टोऽस्मि गमिष्यामि यथागतम् ।  
 एवं संगम्य तुतदा निश्चकामोटजात्तः ॥२२॥

**अर्थ—** शान्तीपति इन्द्र ने आश्रम से मुनि की अनुपस्थिति जानकर और मुनि का वेष धारण कर अहल्या से कहा ॥१७॥ हे अति सुन्दरी ! कामीजन भोग-विलास के लिए ऋतुकाम की प्रतीक्षा नहीं करते; अर्थात् इस बात का इन्तिजार नहीं करते कि जब खो भासिक धर्म से निवृत्त हो जाए, तभी उसके साथ समागम करना चाहिए; अतः हे सुन्दर कमर वाली ! मैं तुम्हारे साथ प्रसंग करना चाहता हूँ ॥१८॥ विश्वामित्र कहते हैं कि हे रामचन्द्र ! वह मूर्खा मुनिवेषधारी इन्द्र को पहचानकर भी इस विचार से कि देखें देवराज के साथ रति करने से कैसा दिव्य आनन्द प्राप्त होता है, इस पापकर्म के करने में सहमत हो गई ॥१९॥ तदनंतर वह कृतार्थ हृदय से देवताओं में अष्ट इन्द्र से बोली कि हे सुरोत्तम ! मैं कृतार्थ हो गई अर्थात् दिव्य-रति का आनन्दोपभोग करने से सुझे अपनी तपस्या का फल मिल गया; अब हे प्रभो ! आप यहाँ से शीघ्र चलो जाइए ॥२०॥ हे देव-राज ! आप गौतम से अपनी और मेरी रक्षा सब प्रकार से करें ।

इन्द्र ने हँसकर अहल्या से यह वचन कहा ॥२१॥ हे सुन्दर नितम् च  
वालो ! मैं पूर्ण सन्तुष्ट हूँ; अब जहाँ से आया हूँ, वहाँ चला जाऊँगा ।  
इस प्रकार अहल्या के साथ संगमकर वह कुटिया से निकल  
गया ॥२२॥

पाठकवृन्द ! कृष्णराज गौतम की पत्नी अहल्या के आचरण के साथ दैत्यराज जलन्धर की पत्नी वृन्दा के आचरण को ज़रा मिला-है । कहाँ वह वृन्दा है जो विष्णु द्वारा छुल से अपने सतीत्व का अपहरण जानने पर मारे क्रोध के तिलमिला उठती है और उन्हें शठ, महानोच आदि पृणित सम्बोधनों से सम्भोवितकर एक कठोर शायद देती है और कहाँ यह अहल्या है, जो अपनी स्वेच्छा से इन्द्र के साथ पाप-कर्मकर अपना सतीत्व, जो खियों का एक अमूल्य रख है, खो देती है, और उसे खोकर भी किसी प्रकार खलानि अनुभव करने के बदले अपने को कृतार्थ मानती है । धन्य है री अहल्ये ! तू ब्राह्मणी होती हुई भी राजसी वृन्दा के पैरों की घूलि की भी समता नहीं कर सकती ? 'पञ्च कन्याओं पर' लिखते समय अहल्या पर पुनः विचार किया जाएगा ।

जैसा कि मैं पूर्व में कह आया हूँ, इन्द्र एक महाछली, कपटी तथा इधर्मालु व्यक्ति है । उसको सर्वदा यह डर बना रहता है कि कोई अश्वमेव यश वा तपस्या के द्वारा उसका इन्द्रासन न छीन ले; अतः वह तपस्वियों को तपस्या तथा राजाओं के अश्वमेवादि यज्ञों में सदा विष्णु डाला रहता है । बसन्त के साथ अप्सराओं को भेजकर तपस्वियों की तपस्या में, तथा आश्वमेविक धोड़ों को चुराकर अश्वमेव यज्ञों में विष्णु डालना उसका काम है । यज्ञों में विष्णु डालने के लिए बेचारे भारीच-सुवाहु आदि राज्यसमग्र नाहक बदनाम थे । भारी राज्य तो इन्द्र था जो सतियों का सतीत्व, तपस्वियों की तपस्या, तथा वैद धर्मालम्बियों के यज्ञादिक वैदिक कृत्यों का सत्यानाश करना अपना परम

धर्म मानता था। इसने एक बार राजा सगर का आश्वमेधिक शोड़ा चुराकर समाधिस्थ कपिल मुनि के आश्रम में, उसके बिना जाने हुए, बाँध दिया जिसका परिणाम यह हुआ कि उक्त राजा के साठ हजार पुत्र उक्त मुनि के कोधानल के शिकार होकर भस्मसात् हो गए। यदि इन्द्र सचमुच एक समर्थ व्यक्ति था तो उसे विश्वरूप तथा वृत्रासुर के मारने पर ब्रह्महत्या दोष क्यों लगा? जब देवताओं और ऋषियों ने वृत्र के उपद्रवों से घबड़ाकर उसे मारने के लिए इन्द्र से प्रार्थना की तो इन्द्रने कहा—

ख्यभूजलद्रुमैरेनो विश्वरूपवधोद्वम् ।

विभक्तमनुग्रहद्विर्वन्हत्यां क्षमाज्यद्वम् ॥

( श्रीमद्रागवत, स्कन्ध ६, अध्याय १३, श्लोक ५ )

अर्थ—विश्वरूप को मारने से जो एक बार ब्रह्महत्या लगी थी उसे तो स्त्री, पृथ्वी, जल और वृक्षों ने अनुग्रहपूर्वक चौट लिया, जिससे मैं निष्पाप हुआ, अब वृत्र को मारने से जो ब्रह्महत्या लगेगी उसे कहाँ मिटाऊँगा?

वृत्रासुर का वध करने पर सचमुच ब्रह्महत्या ने एक विकराल रूप धारणकर, उससे अपनी रक्षा के निमित्त भयमीत होकर भागते हुए इन्द्र का पीछा किया। वह बेचारा आकाश-पाताल—तमाम मारा मारा फिरा और जब कहाँ पर उसे शरण न मिली तो वह लाचार होकर मानसरोवर में जा छिपा। वह एक सदृश वर्ष तक मानसरोवर में ही छिपा रहा, तदनन्तर ब्राह्मणों ने वहाँ से उसे बुलाकर स्वर्ग में पहुँचाया और वहाँ उससे अश्वमेध यश करवाया जिससे वह ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त हुआ—

स वाजिमेवेन यथोदितेन वितायमानेन मरीचिमिश्रैः ।

इष्टवाधियशं पुरुषं पुराणमिन्द्रो महानास विधृत पापः ॥

( पूर्वोक्त पते पर श्लोक २१ )

**अर्थ**—मरीच्यादि महर्षियों के द्वारा अनुष्ठित यथोक्त आश्वमेध यज्ञ से यज्ञपति पुराणपुरुष (विष्णु) की आराधनाकर इन्द्र पापमुक्त हुए और वे किंव पूर्ववत् महान् हो गए।

यह तो हाल है देवगुरु वृहस्पतिजी के एक चेले का। अब उनके दूसरे चेले चन्द्र का हाल सुनिए। इस चन्द्र ने 'गुरु गुड़ ही रह गए, चेला चीनी हो गया' इस कहावत को अपने चन्द्र आचरण से पूर्णतः चरितार्थ करके दिखा दिया; क्योंकि गुरु ने तो आक्रमण किया था केवल अपनी मौजाई पर; पर चेले ने हाय साफ़ किया खुद अपनी गुह्यत्वी पर। चन्द्र महर्षि अत्रि के पुत्र है। उन्हें सर्वगुण-सम्पन्न जानकर ब्रह्माजी ने निःशेष ब्राह्मणी, श्रीष्ठियों तथा तारागणों का अधिपति बनाया। चन्द्र ने विभुवन को जीतकर राजसूय नाम महायज्ञ किया। बल-गर्वित चन्द्र ने उस यज्ञ में आई हुई विभुवन-मुन्दरी तारा को, जो देवगुरु वृहस्पतिजी की ही पत्नी थी, बलपूर्वक अपने घर में रख लिया और उन्होंके बीर्य से वह गर्भवती भी हो गई। श्रीमद्भागवत, स्कन्ध ६, अध्याय १४, पद्धिए—

सोऽयतदाजस्येन विजित्य भुवनत्रयम् ।

पत्नीं वृहस्पतेदर्पात् तारा नामाहरद्वलात् ॥४॥

यदा स देवगुरुणा याचितोऽभोद्धणशो मदात् ।

नात्यजत् तत्कृते यज्ञे सुरदानवविग्रहः ॥५॥

**अर्थ**—चन्द्र ने विभुवन जीतकर राजसूय यज्ञ किया और घमंड से वृहस्पति की पत्नी तारा को बलपूर्वक हर लिया ॥४॥ यज्ञ देवगुरु के बार-बार माँगने पर भी चन्द्र ने अपने मद से उसे नहीं छोड़ा तो उसके लिए देवताओं और दानवों में संग्राम हुआ।

वृहस्पति के साथ द्वेषभाव रखने के कारण शुकाचार्य ने असुर-

सेना के साथ चन्द्र का पक्ष लिया तथा वृहस्पति के पक्ष में हुए भूतगणों के साथ शिव और देवताओं के साथ इन्द्र। जब ब्रह्मा को यह सब हाल मालूम हुआ, तो उन्होंने चन्द्र को डॉट-डपटकर उनसे तारा को वापस दिला दिया। तारा को चन्द्र के वीर्य से दुष्ट नामक पुत्र जन्मा, जिसको शृंगियों और देवताओं ने वीर्यप्रधानता के न्याय से चन्द्र को ही दिलवा दिया।

चन्द्र की दूसरी काली करनूत का व्यान सुनिए। इन्द्र ने अहल्या के साथ जो जार-कर्म किया था, जिसका उल्लेख अभी पूर्व में कर आया है, उसमें इस चन्द्र ने इन्द्र की पूरी सहायता की थी। यह आधी रात को मुनिराज गौतम की कुटिया के समीप गया और मुर्गा बनकर वाँग देने लगा जिससे उनको धोखा हुआ। मुर्गे की घनि सुनकर उन्होंने समझा कि अब भीर हो गया। ऐसा समझकर वे प्रातःकालीन कृत्य करने के लिए उसी समय अपनी कुटिया के बाहर चले गए और इन्द्र जो इसी मौके की ताक में या मुनि का वेष धारण कर कुटिया के मीतर धुस गया और अहल्या की अनुमति से ही उसका सतीत्व नष्ट कर दिया।

अब चन्द्र के साथी सूर्य का हाल सुनिए। इन्होंने कुन्ती के साथ, जो श्रीकृष्ण की फुआ थी और जिसका विवाह आगे चलकर

राजा पाण्डु से हुआ, उसकी कौमारावस्था में ही सूर्य उसके साथ कुकर्मकर कर्ण को उत्पन्न किया।

इसका विवरण श्रीमद्भागवत, स्कन्ध ६, अध्याय २४, में इस प्रकार दिया है—कुन्ती ने दुर्वासा शृंगि को प्रसन्न करके उनसे 'देवहृती' नाम विद्या प्राप्त की। इस विद्या के प्रभाव से वह किसी भी देवता को अपने पास बुला सकती थी। तदनन्तर कुन्ती ने उस विद्या की परीक्षा के लिए सूर्यदेव का आवाहन किया। उनको उसी जगे आकर उपस्थित हुआ देखकर कुन्ती को विसमय हुआ

और विनयपूर्वक उसने सूर्य से निवेदन किया कि हे देव ! मैंने केवल परीक्षा के ही लिए इस विद्या का प्रयोग किया था; अतः इस समय आप जाइए और मुझे ज्ञान कीजिए। इस पर सूर्यदेव ने अपनी कृत्स्निका कामवासना को परितृप्त करने के लिए जो बहानाबाजी तथा सुलावे की बात कुन्ती से कही थी वह मनन करने योग्य है—

अग्नोघदर्शनं देवि आघ्रत्सेत्वयिन्नात्मजम् ।

योनिर्यथा नदुष्येत कर्त्ताऽहंते सुमध्यमे ॥३४॥

इति तस्यां स आधाय गर्भं सूर्यो दिवंगतः ।

सथः कुमारः संज्ञे द्वितीय इव भास्करः ॥३५॥

तं साऽत्यजन्मदीतोये कृच्छ्रालोकस्य विभ्यती ।

प्रपितामहस्तामुवाह पाशहुँसत्यविक्रमः ॥३६॥

अर्थ—हे देवि ! देवताओं का दर्शन व्यर्थ नहीं जाता। मैं तुम्हारी में पुत्र का गर्भाधान करूँगा। किन्तु हे सुन्दर कमरवाली ! तुम्हारी योनि जिस प्रकार दूषित न हो वैसा ही मैं करूँगा ॥३४॥ इस प्रकार सूर्यदेव कुन्ती में गर्भाधानकर स्वर्गलोक को चले गए। और तत्काल ही दूसरे सूर्य के समान एक बालक उत्पन्न हुआ ॥३५॥ कुन्ती ने उस बालक को लोकापवाद के डर से नदी की धारा में फेंक दिया। हे परीक्षित ! तुम्हारे प्रपितामह सत्य-विक्रम राजा पाशहु ने उसके साथ विवाह किया ॥३६॥

सूर्यदेव अवश्य ही कुन्ती की रूप-राणि पर लट्ठ हो गए थे और उनका यह कथन कि देवताओं का दर्शन विफल नहीं होता, केवल अपनी काम पिपासा की तृप्ति के लिए एक बहानाबाजी तथा भुलावे की बात थी। या देवताओं के दर्शन का यही फल है कि किसी कुमारी कन्या के साथ व्यभिचार किया जाए ? और सूर्य ने कुन्ती को जो यह आश्वासन दिया था कि तुम्हारी ' दूषित न होगी,

तो इससे क्या हम लोग यही समझ लें कि सूर्य के साथ कुन्ती का योन-सम्बन्ध नहीं हुआ था और न उक्त बालक ही कुन्ती के योनिद्वार से उत्पन्न हुआ था। यही बालक कर्ण था। लोगों की यह धारणा है कि कर्ण कुन्ती के कान से उत्पन्न हुआ था और इसीसे उसका नाम भी कर्ण पड़ा था। पर श्रीमद्भागवत के उक्त मूल श्लोकों में कान से उत्पत्ति का कहीं भी ज़िक्र नहीं है। भागवतकार ने ‘योनिर्यथानदुष्येत’ लिखकर कर्ण की पापमयी उत्पत्ति पर केवल एक पदांडल दिया है; और कुन्ती ने अपने इसी पापकर्म के भंडाफोड़ हो जाने के डर से अपने सद्योजात शिशु को गंगा नदी में फेंक दिया था, जैसा कि आजकल भी इस प्रकार से उत्पन्न बच्चे फेंक दिए जाते हैं। यदि सूर्य और कुन्ती दोनों समर्थ व्यक्ति थे तो उनमें दोष किस बात का था, जिसकी वजह से कुन्ती लोकापवाद से इतना डरी कि उसने सद्योजात शिशु को फेंक देने में ही अपना कुशल समझा? क्या कुन्ती के इस शिशुत्याग रूपी आचरण से यह बात सिद्ध नहीं होती कि तत्कालीन समाज कुन्ती या सूर्य को ही किसी प्रकार के विशेष सामर्थ्य से सम्पन्न नहीं मानता था? सामर्थ्य सिद्धान्त केवल एक मनगढ़न्त बात है जिसे आधुनिक पाखंडियों ने अपने पूर्वजों के कुर्तस्त कर्मों को छिपाने के लिए गढ़ लिया है। कुन्ती ने शिशु कर्ण को एक सन्दूक में बन्दकर गंगा में फेंक दिया था, जिसे अंगदेश के राजकुमार अधिरथ ने जो केवल सूत-कर्म करने से ही सूत कहलाता था, पाकर अपना पुत्र मान लिया था। श्रीमद्भागवत के उक्त स्कन्ध के २३ वें अध्याय में लिखा है—

योऽतीं गंगातटे क्रीडन् मञ्जूषान्तर्गतं शिशुम्।

कुन्त्यापविद्धं कानीन मनपत्योऽकरोत्सुतम् ॥१३॥

अर्थ—गंगा के तट पर क्रीड़ा करते हुए जिस अधीरथ ने कुन्ती द्वारा सन्दूक में बन्द करके फेंके हुए बच्चे को, जो एक कुमारी कन्या

से उत्पन्न हुआ था, पाकर स्वयं पुत्रहीन होने के कारण अपना पुत्र मान लिया था ॥१३॥

सूर्य के एक कुमारी कन्या के साथ किए हुए कुकर्म पर पदां डालने के लिए एक पास्तंडी कहता है कि सूर्य ने कुमारी कुन्ती के साथ कुछ भोग करके कर्ण को उत्पन्न नहीं किया था, उन्होंने तो केवल अपने आशीर्वाद वा कृपा-दृष्टि से ही कुन्ती को पुत्र-प्रदान कर दिया था । देवताओं के केवल आशीर्वाद, कृपादृष्टि तथा पूजापाठ से सन्तानोत्पत्ति का सविस्तर खंडन तृतीय परिच्छेद में नियोग विषय पर लिखते हुए कर आया हूँ । पाठक उसे बहाँ देख लें । वहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि कुन्ती ने पाशहु के कहने से इसी देवहृती विद्या के द्वारा धर्मराज, वायु और इन्द्र का आवाहनकर तीन पुत्र उत्पन्न किये और जब पाशहु ने उसे और पुत्र उत्पन्न करने को कहा, तो उसने वैषा करने से वह कहकर साफ-साफ इन्कार कर दिया कि चौथे पुत्र को पुरुषान्तर द्वारा उत्पन्न करने से स्त्री व्यभिचारिणी और पाँचवें पुत्र को उत्पन्न करने से वह वेश्या हो जाती है, जिससे सिद्ध है कि देवताओं के भी द्वारा पुत्रोत्पादन में मैथुन अनिवार्य है ।

विष्णु-आदि कतिपय मुख्य-मुख्य देवताओं के आचरणों पर विचारकर अब कुछ ऐसे महापुरुषों के आचरणों पर विचार किया

जाता है जिन्हें सनातनी हिन्दू ईश्वर के अवतार मानते हैं । अवतारों में सर्वश्रेष्ठ श्रीकृष्ण माने जाते हैं, जिनके विषय में कहा जाता है कि—“आन्ये चांश कलाः प्रोक्ताः कृष्णस्तु भगवान् स्वयम्”; अर्थात् अन्य अवतार तो विष्णु (ईश्वर) के आशिक अवतार कहे गए हैं; पर श्रीकृष्ण तो स्वयं भगवान् ही है । कहने का तात्पर्य यह कि अन्य अवतार विष्णु की पूर्णकला से न होकर केवल उनके अंश-मात्र हैं;

पर श्रीकृष्ण समूर्गी कला से युक्त स्वयं विष्णु ही है। ये यदुवंशीय द्वाजिय वधुदेव तथा उनकी पत्नी देवकी के पुत्र थे, जिन्हें उनके उत्क-  
माता-पिता ने मधुरा के राजा कंस के भय से सजोआतावस्था में ही  
अपने परम मित्र ब्रजवासी नन्द गोप के घर रक्षार्थ भेजवा दिया था।  
इनका लालन-पालन नन्दगोप तथा उनकी पत्नी यशोदा ने प्रेम से  
किया था। श्रीकृष्ण के चरित्र का सविस्तर वर्णन महाभारत, विष्णु  
पुराण, श्रीमद्भागवत् तथा हरिवंश में मिलता है; पर भागवत्-कार  
ने इस ग्रन्थ के दरमान स्कन्ध में श्रीकृष्ण की ब्रजवासिनी गोपियों के  
साथ जो प्रेम-लीलाएँ वर्णन की है उन्हें पढ़कर कोई भी निष्पत्ति  
आलोचक श्रीकृष्ण को एक महालभट्ट कहे चिना नहीं रह सकता।  
कहा जाता है कि जब महर्षि व्यास को अन्य सब पुराणों तथा महा-  
भारत की रचना से सन्तोष न हुआ, तो उन्होंने देवर्षि नारद के उपदेश  
से श्रीमद्भागवत् की रचना का, जिसमें उन्होंने सभी पुराणों का सार  
संग्रहकर उसे पुराण-शिरोमणि बना दिया। इस ग्रन्थ के प्रथम  
स्कन्ध के ७५वें अध्याय में लिखा है—

अनर्थोपशमं साक्षाद् भक्तियोगमधोक्षजे ।  
लोकस्या जानतः विद्वांश्चक्रे सात्यतं संहिताम् ॥६॥  
यस्यां वेश्यमाणायां कृष्णे परमपूर्वे ।  
भक्तिरूपवत्तं पुंसः शोकमोहनरापहा ॥७॥  
सं संहितां भागवतीं कृत्वा ऽनुकृत्य चात्मजम् ।  
शुकमध्यापयामास निवृत्तिनिरतं मुनिः ॥८॥

**अर्थ—**सूत ने शीनक से कहा कि अज्ञानियों के कल्याण के  
लिए इस भागवत-संहिता को, जिसके पठन तथा अवश्य से नाना  
प्रकार के अनर्थ नष्ट हो जाते तथा श्रीकृष्ण में भक्ति उत्पन्न होती है,  
विद्वान् व्यास जीने बनाया ॥६॥ जिसके सुनने से परमात्मा कृष्ण

में शोक, मोह तथा भय को दूर करनेवाली भक्ति उत्पन्न होती है ॥७॥ व्यास जी ने उस भागवत संहिता को बनाकर और शुद्ध करके उसे नवृत्ति मार्ग में निरत अपने पुत्र शुकदेव को पढ़ाई ॥८॥

किसी-किसी का मत है कि भागवत व्यास की रचना नहीं है, कारण कि उसकी रचना शैली अन्य पुराणों की रचना शैली से विलक्षण नहीं मिलती तथा इसके श्लोक अन्य पुराणों के श्लोकों की अपेक्षा अधिक कठिन हैं। मागवत के श्लोकों में वह सरलता तथा सुगमता नहीं देख पड़ती जो अन्य पुराणों की विशेषता है, जिन्हें सर्वसाधारण व्यास-कृत वा शृंखिप्रणीत मानते हैं। इस मत के माननेवालों का कथन है कि भागवत के बनानेवाले पंडित वोषदेवजी हैं जो गीत-गोविन्दकार जयदेवजी के भाई थे। इस पुराण का लिखनेवाला चाहे जो कोई हो वह अवश्य हिन्दू था। वह कोई मुसलमान वा इसाई न था। अतः यह कैसी शोक की चात है कि एक हिन्दू की लेखनी से हिन्दू जाति के परमाराध्य देवता श्रीकृष्ण का चरित्र एक ऐसी काली स्याही से अंकित किया जाए जो अन्य धर्मावलम्बियों के सामने अपनी प्राचीन सम्पत्ता तथा संस्कृति की ढींग हाँकनेवाली इस हिन्दू जाति को लड्जा-भार से नतमस्तक बना दे ! यहाँ पर प्रसंगवश श्रीकृष्ण चरित्र के नमूने लिखे जाते हैं, जिन्हें पढ़कर निष्ठक्ष पाठक-बृन्द श्रीकृष्ण विषयक अपना स्वतंत्र विचार कर लें—

ये लड़कपन में ब्रजगोपियों के घर में चोर की तरह छुसकर उनके दूध, दही, मक्कलन आदि चुरा-चुराकर स्वयं खाते तथा उन्हें अपने साथी अहीर के छोकरों तथा बन्दरों को भी खिलाया करते थे। जब कुछ सयाने हुए तो ये उक्त वस्तुओं को बेचने के लिए ले जानेवाली गोपियों से जबर्दस्ती छीन-छीनकर खाते तथा उनकी मटकियाँ भी लोड दिया करते थे। लड़कपन में बहुत ही दुष्ट, अवशाकारी तथा किंदी थे। आगे चलकर ये एक महापुरुष होंगे, इसका कोई भी पूर्व-

लक्षण इनकी बाल्यावस्था में नहीं देख पड़ा, जैसा कि महात्मा गौतम चुद, महाबीर, जिन, ईसा मसीह आदि संसार के अन्य महापुरुषों के विषय में हम लोग ऐतिहासिक ग्रन्थों में लिखा पाते हैं। इन महास्माशों ने अपने-अपने बाल्यकाल में ही अपनी भावी महानता का पूर्वपरिचय दे दिया था। ये लोग उस काल में ही गंभीर-प्रकृति, शान्त-स्वभाव तथा विचार-शील देख पड़ते थे। पर यह बात श्रीकृष्ण में लेश-भाव भी न थी। ये उस काल में पूरे नटखट थे। श्रीकृष्ण की बाल्यकालीन उक्त उद्देश्यता की उपेक्षा, उन्हें एक अबोध बालक समझकर हम लोग भले ही कर दें; पर जब नवयुवक होकर उन्होंने गोपियों के साथ जो महाश्लीलतापूर्ण व्यवहार तथा जार-कर्म किया था वह कम्य तथा उपेक्षा योग्य नहीं है। उनके आपत्तिजनक तथा लज्जापूर्ण व्यवहारों में चीरहरण-लीला तथा रास-नृत्य मुख्य है, जिनसे भागवत के सभी पाठक परिचित हैं। गोपियों श्रीकृष्ण को पति-रूप में पाने की अभिलाषा से काल्यायनी देवी का ब्रत करती थीं और उसी प्रसंग में प्रतिदिन सबेरे यसुना नदी में, उसके तट पर अपने सभी वस्त्र उतारकर, स्नान किया करती थीं। एक दिन श्रीकृष्ण चुपके से आए और उनके कुल वस्त्र चुराकर पास के एक कदम्ब वृक्ष पर चढ़ गए और उनके लाख गिड़गिड़ाने पर भी उन वस्त्रों को तब तक नहीं लौटाया जब तक उन्होंने पूर्णतः नङ्गी होकर अर्चात् इस प्रकार नङ्गी होकर कि शरीर के सभी गोपनीय अंग भी देख पड़े, और दोनों हाथों की अंचलि माथे पर बैठकर नदी में नङ्गी होकर स्नान करने के अपराध के लिए क्षमा नहीं माँगी। श्रीकृष्ण कहते हैं—

यूयं विवस्त्रा यदपोचृतवता व्यगाहतैतत्तदुदेवहेलनम् ।  
वदृष्ट्वाऽन्तिमूर्ध्यपनुज्ञयेऽहसः कृत्वा नमोऽयोवसनं प्रगृहताम् ॥  
भाग १०१२११॥

अर्थ—हे सखियो ! तुम लोगों ने निष्ठ नंगी होकर जल में जल के भीतर जाकर स्नान किया तो वहाँ ही अनुचित किया; क्योंकि इस कर्म से जल के देवता वृद्ध का अपमान हुआ। अतः इस अपराध को ज्ञाम कराने के लिए माथे पर अंजलि बधकर और मुक्कर प्रणाम करो और फिर अपने-अपने वस्त्र लेकर पहनो।

अब यहाँ पर यह विचारना है कि गोपियों ने यमुना में नंगी स्नानकर क्या सच्चमुच्च कोइ अपराध किया था तथा उस अपराध का क्या यही प्रायश्चित्त था कि वे किसी परपुरुष के सामने सर्वाङ्गीन नंगी होकर, माथे पर अंजलि बधकर तथा मुक्कर प्रणाम करें और ज्ञाम मार्गे। शाखों में सा कोइ ऐसी व्यवस्था नहीं मिलती। यदि ममन्त्रले कृष्ण को यह निजी व्यवस्था थी तो बात दूसरी है। कहा जाता है कि जल में वृद्धदेव रहते हैं; अतः उसमें नंगी होकर स्नान करने से गोपियों ने उक्त देवता का अपमान किया। पर मैं यह जानना चाहता हूँ कि हिन्दुओं के चिरबंदमूल अन्धविश्वासानुसार इस विपुल विश्व में कौन ऐसा स्थान है जो देव-स्थ्य है। हमारी यह धरती माता भी स्वयं एक देवता मानी जाती है जिसके ज्ञामाशील बद्धःस्थल पर अहनिर्श करोड़ों हिन्दू मलमूत्र का स्थान किया करते हैं। पर ऐसा करने से वे किसी भी अपराध के भागी नहीं समझे जाते। तब वेचारी गोपियों ने ही कौन-सा ऐसा अपराध किया था कि जिसके कारण उनकी यह दुर्दशा की गई। यह निश्चय है कि गोपियों ने अपने स्थान की चलन के अनुसार ही नंगी होकर स्नान किया होगा। अब भी किसी-किसी खण्ड में ऐसा चलन देखा जाता है। यदि श्रीकृष्ण को यह प्रथा सार्वजनिक सुशीलता के विरुद्ध होने के कारण तुरी मालूम हुई, तो वे इसका सुधार किसी अन्य सम्मतापूर्ण तरीके से कर सकते थे। पर वे वैसा करने ही क्यों जाएं? वे तो एक रसीले छैले थे। उन्हें गोपियों के साथ इस प्रकार के अश्लील

ठड़ा करने में ही मज्जा आता था। बख्श देवता का अपमान बतलाना केवल उनकी बहाना-वाजी थी। और गोपियाँ भी उनके प्रति इस प्रकार प्रेम-गंगल हो रही थीं कि उन्होंने उक्त श्रीकृष्णीय व्यवस्था के सामने सिर झुका देने में ही अपना गंगल समझा।

अब रास-लीला का हाल सुनिए। चारहस्त-लीला के समय गोपियों को बख्श लौटाते हुए श्रीकृष्ण ने उनको बचन दिया था कि आगामी शरद ऋतु में मैं तुम लोगों के साथ रास-नृत्य कर तुम्हारी अभिलाषा को पूरी करूँगा, सो वह ऋतु आ गई—

भगवानपितारत्रीः शरदोत्कृष्णमल्लिकाः ।

वीक्ष्यरन्तु मनश्चके योगमायामुपाधितः ॥

भाग० १०२६।६

अर्थ—भगवान् ने भी शरत्काल की उन रात्रियों को देखकर जिनमें मल्लिका-पुण्य स्थिले हुए ये और योगमाया को अंगीकार करके विहार करने की इच्छा की।

बस श्रीकृष्ण ने अपनी भुवन-मोहिनी वाँसुरी फूँक दी। वाँसुरी की सुरीली तान सुनते ही सभी गोपियाँ जिस दशा में थीं उसी में घर का काम-काज छोड़कर, श्रीकृष्ण के पास दौड़ी चली आईं। यहाँ पर पाठकों को मैं यह बता देना चाहता हूँ कि ये सभी ब्रजाङ्गनाएँ कुछ कुमारी कन्याएँ न थीं; बल्कि उनमें पत्ती पुत्रवती गोप

“रास शब्द की व्याख्या भीधर स्वामी इस प्रकार करते हैं—

“अन्योन्य-व्यतिष्ठत-हस्तानां ज्वी-पुंसां गायतीं मण्डली रूपेण अमतो नृत्यविनोदो रासोनाम ।”

अर्थ—ज्वी पुरुष परस्पर हाथ पकड़कर गाते और मण्डली बनाकर बूमते हुए जो नृत्य करते हैं उसका नाम रास है।

वधुएँ भी भी तथा ये श्रीकृष्ण के प्रति कुछ 'ब्रह्म' भाव नहीं बल्कि केवल एक 'जार' भाव रखती थीं—

परिवेषयन्त्यस्तदित्वा पाययन्त्यः शिशून्पयः ।

शुश्रूपन्त्यः पतीन् काश्चिदश्वन्त्योऽपास्य मोजनम् ॥

भाग० १०।२६।६

अर्थ—कोई-कोई रसोईघर में परिवार के लोगों को भोजन करा रही थीं, कोई बालकों को दूध पिला रही थीं, कोई पतियों की सेवा कर रही थीं, कोई भोजन कर रही थीं—वे सब अपना-अपना काम छोड़कर कृष्ण के पास दौड़ गईं। इससे स्पष्ट है कि गोपियों में पति-पुत्रबाली कतिपय वधुएँ भी थीं। पुनरुच—

तमेव परमात्मानं जारबुद्ध्यापि सञ्चातः ।

जहुरुण्गमयं देहं सद्यः प्रदीणवन्धनाः ॥

भाग० १०।२६।११॥

अर्थ—जो गोपियाँ घर के बाहर न निकल सकीं, उन्होंने वहीं पर अपनी आँखें मूँदकर श्रीकृष्ण में अपना मन लगा दिया। श्रीरायद्यपि उन्होंने 'जार'-बुद्धि से ही अपना मन श्रीकृष्ण में लगाया, तथापि उन्होंने कर्मवन्धन से मुक्त होकर इस त्रिगुणात्मक शरीर का परित्याग कर दिया।

श्रीकृष्ण ब्रजबालाओं को अपने पास आई हुई देख उन्हें वाक्-चाहुरी से बार-बार घर लौट जाने के लिए कहने लगे, क्योंकि—

अस्त्वर्वमयशास्यं च फलगु कृच्छ्रं भयावहम् ।

जुगुप्सितं च सर्वत्र श्रीपपत्यं कुलस्त्रियाः ॥

भाग० १०।२६।२६॥

अर्थ—कुल-कामिनियों के लिए श्रीपपत्य श्र्यांत् उपपति (जार)

ततश्चकुश्छोपवने जलस्थल-प्रवृत्तगान्धानिलजुष्टदिक्षटे ।  
 चचारभृङ्गप्रमदागणावृतो यथा मदच्युद्दिरदः करेणुभिः ॥  
 एवं शाशांकाशुविराजितांनशाः स सत्य-कामोऽनुरतावलागणः ।  
 सिषेव आत्मन्यवरुद्धसौरतः ॥ सर्वाः शरत्काव्यकथा रसाश्रयाः ॥

भाग० १०।३।२५-२६ ॥

अर्थ—तदनन्तर भौंरो तथा गोपियों के मुख्य से घिरे हुए श्रीकृष्णचन्द्र, यमुना के उपवन में जहाँ जल और स्थल में उत्पन्न होनेवाले फूलों की सुगन्ध को लिए हुए वायु वह रही थी, हथिनियों के मुख्य को साथ में लिए हुए मदमाते गजराज के समान विचरने लगे ॥२५॥ इस प्रकार सत्यसंकल्प श्रीकृष्णचन्द्र ने, जिनमें गोपियाँ अनुरक्त हो गई थीं, चन्द्रमा की किरणों से सुशोभित एवं काव्य-वर्णित शरद ऋतु सम्बन्धी सभी रसों से परिपूर्ण रात्रियों में रमण किया ; पर इतना होने पर भी वे अपने वीर्य को अपने में ही रोके रहे ; अर्थात् उसका पतन नहीं होने दिया ॥२६॥

अर्थ स्पष्ट है । श्रीकृष्ण ने शुक्र का पतन न होने दिया तो नहीं सही ; उन्होंने गोपियों के साथ वाक्की क्या रखा ! जहाँ परनारियों की ओर केवल बुरी निगाह से ताकना ही सभी धर्मों में महापाप समझा जाता है, वहाँ हमारे कन्हैयाजी ने परनारियों के साथ प्रायः सभी कुछ कर डाला । उन्होंने वाहु फैलाकर उनका प्रेमालिंगन किया ; उनकी जाँध, नोंबी तथा स्तनों तड़ को छुआ ; उन्हें नखज्ञत दिया और जाते-जाते अन्त में उनके साथ भयुन भी कर डाला । क्या ये सब व्यापार उनका सतीत्व नष्ट करने के लिए पर्याप्त न थे जो श्रीकृष्ण के चचाव में यह कहा जाता है कि उन्होंने वीर्यपात नहीं होने दिया ।

अवरुद्धः सौरतश्चरम धातुर्नंतु स्वलितो यस्येति कामजयोक्तिः  
 ( भावार्थ-दीपिका )

उनके इन कुत्सित आचरणों पर राजा परीक्षित ने जो शंका की और उस शंका का जो विचित्र समाधान श्रीशुकदेव ने किया वह केवल एक भुलावा-मात्र है। राजा परीक्षित ने शुकदेव से कहा कि हे ब्रह्मन् ! धर्म का संस्थापन और अधर्म का समूलोच्छेद करने के ही लिए भगवान् का कृष्णावतार हुआ था ; सो उन्होंने परनारी-भग्न रूप अधर्म क्यों किया ? इस शंका का समाधान शुकदेवजी ने यह कह कर किया कि हे राजन् ! कभी-कभी तेजस्वी तथा समर्थ पुरुष धर्म की अवहेलना भी कर देते हैं ; पर तब भी वे उसी प्रकार दूषित नहीं होते जिस प्रकार शुद्ध वा अशुद्ध सभी चीजों को जलानेवाली अग्नि । अतः हम लोगों को उचित है कि हम लोग उनके विपरीताचरणों का अनुकरण न कर उनके वचनों के अनुसार चलें । कालकृष्ट विष पी लेने से भी शिव का कुछ नहीं बिगड़ा ; किन्तु असमर्थ व्यक्ति शिव का अनुकरण करे तो वह तुरंत मर जाए—

धर्मव्यतिक्रमोदृष्ट ईश्वराणां च साहसम् ।

तेजीयसां न दोषाय वद्धेः सर्वभुजो यथा ॥

नैतत्समानरेजातु मनसापिहनीश्वरः ।

विनश्यत्याचरन्मौक्याच्यथारुद्रोऽविघञ विषम् ॥

ईश्वराणांवचः सत्यं तथैवाचरित क्वचित् ।

तेषां यत्स्ववचोयुक्तं बुद्धिमास्तत्समाचरेत् ॥

मात्र १०३३।३०-३२॥

अथं—समर्थ पुरुष धर्म का अतिकरण रूप साहस करने से भी सर्वनोगों अग्नि की तरह दूषित नहीं होते ॥३०॥ पर जो असमर्थ है उन्हें मन से भी कभी वैसा नहीं करना चाहिए । यदि मूर्खतावश वैसा करे तो शिव के अनुकरण में कालकृष्ट निष पी लेनेवाले की तरह वह शीघ्र नष्ट हो जाता है ॥३१॥ समर्थ पुरुषों के वचन सत्य होते हैं; पर उनके आचरण कहीं सत्य तो कहीं असत्य

होते हैं। अतः बुद्धिमानों को उचित है कि वे समर्थ पुरुषों के वचनों के अनुसार चलें और केवल उनके उचित आचरणों का ही अनुकरण करें ॥३२॥

शुकदेव के इस समाधान से राजा परीक्षित जैसे सीधे-सादे, शीघ्र विश्वासी तथा केवल सात दिनों में ही सम्पूर्ण श्रीमद्भागवत की कथा अवगत-मात्र से मुक्ति प्राप्ति के लिए लालाग्नि जीव को भले ही सन्तोष हो जाए; पर इससे एक निष्पत्ति तथा स्वतंत्र समालोचक को कुछ भी सन्तोष नहीं हो सकता। क्या शुकदेव के इस समाधान का सन्तोष-जनक माननेवाले महानुभाव, जो कापालिक नहीं है, उचिता की आग से वनी हुई रमोई को ग्रहण कर सकते हैं? क्या शिव की तरह आज भी ऐसे नशाबाज देखने में नहीं आते जो गाँजा, घाँग-चरस, अफीम, कोकेन आदि विषेली द्रव्यों के व्यवहार में इस प्रकार अभ्यस्त हो गए हैं कि वे संखिया तक को खाकर पचा जाते हैं? समर्थ माने जानेवाले इन शिव का सामर्थ्य कहाँ चला गया था जब वे मोहिनी को पाने के लिए पागल हो गए थे? क्या यह एक प्राकृतिक नियम-सा नहीं है कि बड़ों के आचरण का प्रभाव छोटों पर पड़ता है; अतः उन्हें सम्हलकर चलना चाहिये? यदि नहीं तो फिर इन्हीं श्रीकृष्ण ने जिनके आचरण समलोचनाधीन हैं, अपनी गीता में क्यों कहा?—

यद्यदाचरति शेषस्तत्त्वदेवेतरोजनः ।

स यत्प्रमाणं कष्टे लोकस्तदनुवर्त्तते ॥३२१॥

**अर्थ—**एक माननीय व्यक्ति जो कुछ करता है उसीको दूसरे लोग भी करते हैं और जिस आदर्श को वह खड़ा करता है उसी-का अनुसरण जनता करती है। तात्पर्य यह कि बड़ों के आचरण छोटों के लिए अनुकरणीय उदाहरण बन जाते हैं।

एक बात और भी विचारने योग्य है। यदि उपदेश्टा अपने आचरणों को अपने उपदेशों के अनुकूल नहीं बनाए रखे, तो उसके उपदेशों का कुछ भी प्रभाव दूसरों पर नहीं पड़ता। यदि मदिरापान के विरुद्ध आनंदोलन करनेवाला व्यक्ति स्वयं मदिरा सेवन करे तो उसे लोग दंभी तथा पाखंडी कहकर उसके आनंदोलन की उपेक्षा कर देते हैं। इसी प्रकार अन्य दुराहृतियों के विषय में भी समझना चाहिए। अतः यह आवश्यक है कि बड़ोंको सन्मार्ग से एक बाल बराबर भी विचलित नहीं होना चाहिए; क्योंकि साधारण जनता उन्हें अपना आदर्श मानती है तथा कुपथ चलने पर उनके अपराध, साधारण व्यक्तियों की अपेक्षा, गुरुतर समझी जाती है; भले ही उन्हें दंड देनेवाला कोई न हो। यदि कहो कि परमात्मा के सम्बन्ध में उसके देहाभिमानशृण्य तथा अपने शुभाशुभ कर्मों का फलाकांक्षा नहीं होने के कारण, पुण्य-पाप का प्रश्न नहीं उठता, तो यह भी ठीक नहीं; कारण कि नर-तनु धारण करने पर उसको मानवता के सम्मुख एक उच्च आदर्श रखना चाहिए।

कितने महाशय श्रीकृष्ण की चीरहरण-लीला तथा रासलीला जैसी काली करतूतों पर पद्मी डालने के लिए उस पर रूपक की कलई चढ़ाया करते हैं और कहते हैं कि उन्हें लीलाएँ कोई वास्तविक घटनाएँ नहीं हैं; बल्कि वे कल्पित हैं तथा उनका वर्णन एक गूढ़ार्थ से भरा छूट है। कवि ने उन कल्पित लीलाओं के वर्णन द्वारा ब्रह्मज्ञान-संबंधी एक दार्शनिक सिद्धान्त का निरूपण किया है। मन की विविध दृच्छियाँ ही गोपियाँ हैं जो कृष्णरूपी परमात्मा में लीन होकर ही अन्तिम विश्राम पाती हैं; अथवा जीवात्मा ही राधा है जो कृष्णरूपी परमात्मा में लीन होना चाहती है; अथवा चीरहरण-लीला द्वारा वह बतलाया गया है कि गोपीकृप जीव यदि मुक्त हो जाना चाहे तो वह वस्त्र के समान उसमें लिपटी हुई सांसारिक माया को दूर केकर कृष्णरूपी

परमात्मा को बिना किसी शर्त के आत्म-समर्पण कर दे इत्यादि । पर यदि उक्त लीलाएँ रूपक-मात्र रहतीं, तो न राजा परीक्षित को ही किसी प्रकार की शंका होती और न शुकदेव को ही श्रीकृष्ण के बचाव में अपने एक निराले ढंग से उसका समाधान करने की आवश्यकता होती । श्रीमद्भागवत् को बने आज कई शताब्दियाँ बीत गईं । इस सुदीर्घ काल में न जाने इस भारत में कितने विद्वान् हो गएः पर उनमें से किसी ने भी नहीं श्रीकृष्ण की उक्त लीलाओं पर आक्षेप किया और न उन्हें रूपक बताया । सभी शुकदेव के समाधान को ही पर्याप्त मानकर सन्तुष्ट बैठे रहे । इसका कारण यह था कि परम्परागत अन्धविश्वास के कारण उनमें वह साहस न था कि वे अपने पूज्य पूर्वजों की करतूत तथा आचार-व्यवहार पर निर्भीक होकर स्वतंत्र रूप से विचार कर सकें । इसके अतिरिक्त एक और भी कारण है । मनुष्य को ममता के कारण अपना और अपने आत्मीयों का दोष तब तक नहीं मालूम होता जब तक उस दोष का उद्घाटन कोई निर्भीक विपक्षी नहीं करता । विपक्षी द्वारा उस दोष का उद्घाटन होने पर भी पहले तो वह उस पर रूपक आदि का पर्दा देने की कोशिश करता है; पर जब उसकी सारी कोशिशें विफल हो जाती हैं और उसकी सभी चौकड़ियाँ बन्द हो जाती हैं, तो अपने आक्षेपकों को नास्तिक आदि कहकर एक मूर्खतापूर्ण सन्तोष कर लेता और विवाद-विरत हो जाता है; पर अपना विचार-सुधार नहीं करता । और यदि वह अपनी हार अपने हृदय में महसूस भी करता है तो वह उसे स्वार्थवश खुल्ला खुल्ला मान लेने को तैयार नहीं होता । यही दशा हिन्दू जाति की है । ऐसे स्वार्थपरायण जीव दो श्रेणियों में रखे जा सकते हैं—एक श्रेणी तो उन लोगों की है जो तीर्थों के पंडों, देव-मन्दिरों के पुजारियों, घर-घर धूमनेवाले पुरोहितों तथा कथकड़ों की हैं सियत से अन्धविश्वासिनी हिन्दू जनता में श्रीकृष्ण के प्रति अन्धी भक्ति को

स्वजीविकारकृणार्थं चिरस्थायिनी बनाने के उचोग में पूरी सावधानी के साथ सदा तत्पर रहते हैं। ऐसे जीवों को सदा यही भय बना रहता है कि कहीं आँख की अन्धी तथा गाँठ की पूरी हिन्दू जनता की आँखें खुलीं, तो उनका दूसरों को ठगकर गुलब्जरें उड़ाना बन दी जाएगा। अतः उनकी सदा यही नोयत बनी रहती है कि उनकी ठग-विद्या की शिकारभूत हिन्दू जनता अन्धविश्वासों के दुर्भेद्य जंजीरों में खूब जकड़कर बौंधी रखी जाए। तथा दूसरी श्रेणी उन लोगों की है जो विदेशियों तथा विद्विमियों के सामने अपनी प्राचीन सम्पत्ता की केवल ढींग हाँकना ही अपना कर्तव्य समझते हैं; चाहे वह सम्पत्ता भले ही स्वाक्षरी क्यों न हो। ऐसे लोग अपनी उक्त सम्पत्ता पर उचित से भी उचित आक्षेपों के प्रति अतिहिष्टु तथा इस प्रकार नैतिक साइर (Moral Courage) से हीन होते हैं कि वे विवाद में हार मानकर भी अपनी हार क्रूरू करना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं और महाकवि गोल्डस्मिथ (Goldsmith) रचित 'Deserted Village' (क़ज़ड़ ग्राम) नामक कविता की निम्न-लिखित पंक्तियों का स्मरण दिलाते हैं—

In arguing, too, the parson owned his skill;  
For e'en though vanquished he could argue still;

अर्थ—वाद-विवाद में भी उसकी (गाँव के स्कूल-मास्टर की) वाकचातुरी को गाँव का पादही स्वीकार कर लेता था; क्योंकि पराजित होने पर भी वह अपनी वहस जारी रखता था।

ओहण के काले कारनामों पर पर्दा ढालने के लिए रूपक की शरण लेनेवाले इन महाशयों को मैं एक और बात चेतावनी-स्वरूप बतला देना चाहता हूँ कि यदि उनके कुछ चरित्रों को रूपक

का बाना पहनाकर उनकी वास्तविकता का उच्छेद कर दिया जाए तो कितने ऐसे भी उनके चरित्र हैं; जैसे शैशवकाल में ही उनका शक्ट-भंजन, यमलाञ्जुन-भंजन, पूतना, तृणवर्त, वत्स, वक, अघ, अरिष्ठ, केशी, व्योम आदि असुरों का वध, कालियन्दमन, गोवद्धन-धारण आदि, जिन्हें हम अतिप्राकृतिक तथा अतिमानुषिक होने के कारण वास्तविकता की कोटि से अनायास ही निकाल सकते हैं और इस तरह जब श्रीकृष्ण के सभी चरित्र एक-एक करके काल्पनिक तथा असत्य सिद्ध हो जाते हैं, तो स्वयं श्रीकृष्ण का भी कहीं पता नहीं रहता। वे एक काल्पनिक व्यक्ति होकर हमारे प्राचीन इतिहास के राजनैतिक, धार्मिक, तथा सामाजिक रंगमंच से न केवल स्वयं ही गायब हो जाते हैं; वल्कि 'बाँड़-बाँड़ गण' और नव द्वाय का पगड़ा भी अपने साथ लिए गए, इस कहावत को चरितार्थ करते हुए वे कौरव, पांडव आदि महाभारत के सभी पात्रों को भी कल्पना के एक अर्थाह तथा अन्वकारपूर्ण कुएँ में ढकेलकर उनके भी अस्तित्व को मिट्टी में मिला देते हैं। याद रहे कि महापुरुषों के चरित्रों की व्याख्या रूपक का आश्रय लेकर करने से हमारे रामायणादि अन्य ऐतिहासिक घन्यों के पात्र राम, सीता, आदि भी कोई वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्ति न होकर केवल वाल्मीकि आदि कवियों के उर्वर मस्तिष्क की उपजमात्र हो जाएंगे। जिसके फलस्वरूप हमें अपने सारे प्राचीन इतिहास से द्वाय धो बैठना पड़ेगा। ऐसी परिस्थित में हमारे समुख केवल दो ही पक्ष उपस्थित होते देख पड़ते हैं—(१) या तो अपने तथा कथित महापुरुषों तथा देवताओं के सभी चरित्रों को सत्य मान लेना, जिस दशा में श्रीकृष्णादि असीम शक्तिशाली होते हुए भी महादुराचारी प्रतीत होते हैं; (२) अथवा नहीं तो उनके सभी चरित्रों को रूपक तथा काल्पनिक मान लेना, जिस दशा में वे स्वयं भी काल्पनिक तथा अस्तित्वहीन हो जाते हैं। हमें अपने स्वार्थवश उनके

कुछ चरित्रों को रूपक तथा कुछ चरित्रों को वास्तविक घटनाएँ मान-  
कर दोनों पक्षों से काम निकाल लेने का कोई भी अधिकार नहीं है।  
महाशोक की बात तो यह है कि कथकड़ि हिन्दू सदृगदस्थों के यहाँ  
श्रीकृष्ण को इन अश्लील कथाओं को सुनाते हैं और हमारी बहु-  
बेटियाँ भी पढ़ें के भीतर बैठकर उन्हें बड़े चाव से, क्योंकि वह तो  
भगवान् का यश-कीर्तन है, सुना करती हैं। क्या इसे रोकने का  
कोई उपाय नहीं है ?

श्रीकृष्ण के चरित्र की समीक्षा इस प्रकार कर अब उनके बड़े  
तथा सौतेले भाई बलराम के चरित्र पर विचार किया जाता है।

इनको बलदेव, बलभद्र, तथा केवल बल वा केवल  
**बलराम** राम भी कहते हैं। ये भी राम-कृष्णादिकों की तरह  
अवतारी पुरुष माने जाते हैं, जैसा कि श्रीमद्भागवत,  
दशाम स्कन्ध, अध्याय द४ में यमुना की, तथा अध्याय द८ में  
कौरबों की स्तुतियों से मालूम होता है। यमुना कहती है—

राम राम महावाहो न जाने तव विकम्म् ।

यस्यैकाशेन विष्वता जगती जगतःपते ॥२६॥

परं भाव भगवतः भगवन् मामजनतीम् ।

मोक्षुमर्हसि विश्वात्मन् प्रपञ्चं भक्तवत्सल ॥२७॥

**आर्थ**—हे राम ! हे महावाहु ! मैं आपके पराक्रम को नहीं  
जानती । हे जगन्नाथ ! आप अपने एक ही श्रंश से इस जगत् को  
धारण किए हुए हैं ॥२६॥ हे भगवन् ! मैं आपको अपार महिमा  
को नहीं जानती । हे विश्वात्मन् ! हे भक्तवत्सल ! मैं आपकी शरण  
में आई हूँ; मुझे छोड़ दीजिए । यही आपके लिए उचित है ॥२७॥  
कौरबगण कहते हैं—

राम रामाखिलाधार प्रभावं न विदामते ।

मूढानां नः कुबुद्धीनां दन्तुमहस्यतिकमम् ॥४४॥

स्थित्युत्पत्यध्ययानां त्वमेका हेतु निराश्रयः ।

लोकान् कीड़नकानीश क्रोड़तस्ते वदन्ति हि ॥४५॥

त्वमेव मूर्धादभन्नत लीलया भूमंडलंविभर्षि सहस्रमूर्धन् ।

अन्ते च यः स्वात्मनिरुद्धविश्वः शेषेऽद्वितीये परिशिष्यमाणः ॥४६॥

कोपस्तेऽखिल शिक्षार्थं न द्वेषाच्च च मत्सरात् ।

विभ्रतो भगवन् सत्त्वं स्थिति-पालन-तत्परः ॥४७॥

नमस्ते सर्वभूतात्मन् । सर्वशक्तिधराव्यय ।

विश्वकर्मन् नमस्तेऽस्तु त्वां वर्यं शरणं गताः ॥४८॥

आर्थ—हे राम ! हे राम । हे सम्पूर्ण जगत् के आधार ! हम आपके प्रभाव को नहीं जानते । हम महामूर्ड और दुक्षि हैं; यही उचित है कि आप हमारे अपराधों को ज्ञामा करें ॥४४॥ आप इस जगत् के सृष्टि, पालन और विनाश के एकमन्त्र कारण हैं । आप निराश्रय (स्वतंत्र) हैं । पांडत लोग कहते हैं कि आप जिस समय कीड़ा करने को प्रवृत्त होते हैं उस समय ये सब लोक आपके खिलौने बन जाते हैं ॥४५॥ हे सहस्रस्तकवाले अनन्त ! आप लीलापूर्वक अर्थात् विना किसी प्रयास के इस भूमंडल को अपने एक मस्तक पर धारण किए हुए हैं । अन्त समय जो अपने में विश्व को लीन करके अकेले अवशिष्ट रह जाते हैं और अनन्त-शश्या पर शयन करते हैं वे शेषशाशी नारायण भी आप ही हैं ॥४६॥ आपका कोप किसी के साथ द्वेष वा ईर्ष्या के बश नहीं होता; वरन् वह संसार-मात्र को शिक्षा देने के लिए होता है । हे भगवन् ! आप लोक-मर्यादा की स्थिति के पालन में तत्पर रहते हुए सर्व गुण को ग्रहण किए हुए हैं ॥४७॥ हे भूतमात्र के आत्मा ! हे सभी शक्तियों के धारण करने-वाले ! हे अविनाशी ! हे विश्वकर्म ! आपको प्रणाम है । हम लोग आपकी शरण में आए हैं ॥४८॥

श्रीमद्भागवत के उक्त उद्धरणों से स्पष्ट है कि आस्तिक हिन्दुओं की हाइ में वलराम का महस्त्र विष्णु के किसी भी अवतार की अपेक्षा कम नहीं है और सच पूछिए, तो भागवतकार ने इनका चरित्र ऐसा कल्पित नहीं अंकित किया है जैसा कि परमात्मा के पूर्ण अवतार माने जाने वाले श्रीकृष्ण का। इन्होंने भी एक बार द्वारका से ब्रज में जाकर गोपियों के साथ रास किया था; पर उन स्त्रियों के साथ इनका व्यवहार जैसा आपत्ति-जनक तथा अश्लील नहीं मालूम पड़ता जैसा श्रीकृष्ण का पर इनमें एक मारी दोष यह था कि वे घोर पियङ्कड़ थे। चतुर्थ परिच्छेद में भागवत का हवाला देते हुए जिख आया हूँ कि द्विविद वानर ने उन्हें सुन्दर रमणियों के बीच में बैठकर मदिरा पीते और मतवालों की तरह गाते हुए देखा था। पुनः ब्रज-सुन्दरियों के साथ रास-विलास करते हुए वे मदिरा पान करके पूरे मतवाले हो रहे थे। भागवत, दशम स्कन्ध, अध्याय ५, श्लोक २१, देखिए—

उपगीयमानन्तरितो वनिताभिर्हलायुधः ।

वनेषु व्यचरत् जीवोमदविह्ललोचनः ॥२१॥

अर्थ—बलदेव वन में विचरने लगे। मदिरा के नशे से उनकी आँखें चिह्नित तथा वे स्वयं उन्मत्त हो रहे थे और स्त्रियों उनके चरित गा रही थीं।

महाकवि माध ने अपने शिशुपाल-वध नामक महाकाव्य में बलदेव के मद्य-पान के विषय में लिखा है—

पूर्णयन् मदिरास्वाद-मदपाटलितद्यती ।

रेवती-वदनोच्छ्रुष्ट-परिषूत-पुटे दशौ ॥

॥ सर्ग २, श्लोक १६ ॥

अर्थ—बलदेव अपनी आँखों को, जिनकी नमक मद्यपान जनिती

मद से लाल हो गई थी तथा जिनकी पलकें रतिकालीन चुम्बन के कारण रेवती के मुँह के जटन से पांवत्र हो गई थीं, नचाते हुए बोले । पुनश्च—

ककुन्दि कन्या-वक्त्रान्तर्वास-लब्धादिवासया ।

मुख्यामोद मदिरया कृतानुव्याधमुद्भमन् ॥

॥ सर्ग ४, श्लोक २० ॥

अर्थ—बलदेव अपने मुँह में से, राजा ककुन्दी की कन्या रेवती के मुख-कमल में स्थित होने के कारण जो मध्य गंदूष (कुल्ला) सुरभित हो गया था उसे पी लेने के कारण तत्सम्पर्कजनित मुगन्व को, निकालते हुए बोले । कहने का अभिप्राय यह कि बलराम इतने भारी शारीर के कि उन्हें पेय-अपेय का कुछ भी विचार न था; वे अपनी ऊंठ रेवती के मुँह में से निकले हुए शराब के कुल्ले को भी सानन्द घोट जाया करते थे । वे ऐसे धृग्णित पेय को पी लेने में जरा भी आगा-पीछा नहीं करते थे । माघ के समय में हिन्दू-समाज का धार नैतिक पतन अवश्य हो गया होगा; क्योंकि तभी तो उसने अपने इस महापुरुष के विषय में उनकी मर्यादा के विरुद्ध लिखी गई ऐसी अपमानजनक बातों को चुपचाप सह लिया ।

यदि कहा जाय कि बलदेवजी एक अवतारी पुरुष थे; उन्हें समर्थ होने के कारण खाद्य; अखाद्य, पेय, अपेय आदि का कुछ भी भेद न था । सर्वभक्त ग्रामी की तरह वे सर्वथा निर्दोष थे । यदि ऐसी बात थी तो उन्हें सूत-बध के कारण ब्रह्महत्या का दोष क्यों लगा तथा इसके प्रायश्चित्त-स्वरूप उनको तीर्थ-पर्यटन क्यों करना पड़ा । इसकी कथा श्रीमद्भागवत, दशम स्कन्ध, ७२५ अध्याय में आई है । जब बलदेव ने सुना कि कौसल्या और पांडवों के बीच युद्ध अवश्यम्भावी है, तो उन्होंने यह विचारकर कि दोनों मेरे सम्बन्धी हैं; अतः फक्सी का भी पक्ष ग्रहण करना मेरे लिए अनुचित होगा, तीर्थयात्रा के बहाने

द्वारका छाड़ दिया और विविध तीर्थों में स्नान करते हुए वे नैमित्यारस्य पहुँचे। वहाँ उन्होंने मुनियों के दिए हुए व्यासासन पर बैठकर उन लोगों को कथा मुनाते हुए रोमहर्षण सूत को देखा। बलदेव को देखते ही मुनिगण उठ खड़े हुए और यथाविधि उनका सत्कार किया; किन्तु रोमहर्षण अपने आसन पर बैठा ही रह गया। यह देखकर बलदेव के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने कहा कि यह प्रतिलोमज संकर होता हुआ भी बैबल, विद्याध्ययन के कारण अपने को सर्वोच्च मान रहा है। इसमें शिष्टाचार और विनय लेश-मात्र भी नहीं है; अतएव यह मार डालने योग्य है। ऐसे अधर्मी लोगों को मारने के लिए ही मेरा श्रवतार हुआ है—

एतायदुक्त्वा भगवान् निवृत्तोऽसद्वधादपि ।

भावित्वात् तं कुशाग्रेण करस्थेनाहनत् प्रभुः ॥२८॥

**अर्थ—**ऐसा कहकर भगवान् बलदेव प्रभु ने, जो दुष्टों को भी मारने से निवृत्त हो चुके थे, उस सूत को स्वकरस्थ कुश के अग्र भाग से मार डाला। होनी होकर ही रहती है। इस पर मुनियों ने उन पर व्याहत्या का दोष लगाया जिसके प्रायशिंचत्त के लिए उनके पूछने पर उन्होंने यह व्यवस्था दी—

इल्ललस्य सुतो धोरो बल्वलो नाम दानवः ।

सदूपयति नः सत्रमेत्य पर्वशिं पर्वशिं ॥३८॥

तं पापं जहि दाशाहं तवः शुशृपर्णं परम् ।

पूयशोग्नित विग्नूत्र-सुरामासाभिवर्षिण्यम् ॥३९॥

ततश्च भारतं वर्षे परीत्य सुसमाहितः ।

चरित्वाद्वादशान्मीसा स्तीर्थस्नायी विशुद्धसे ॥४०॥

**अर्थ—**मुनियों ने कहा कि ( हे भगवन् ) इल्लल का पुत्र बल्वल नामक एक भयंकर दानव प्रत्येक पर्व में आ-आकर इमारे

यज्ञ को दूषित करता है ॥३८॥ हे दाशाह ! पीव, रघिर, विष्णा, मूत्र, मदिरा, मांतादि की वर्षा करनेवाले उस पापी का बध कीजिए । यही हम लोगों की परम सेवा होगी ॥३९॥ तदनन्तर अत्यन्त सावधान होकर भारतवर्ष की परिक्रमा कीजिए और वारह महीनों तक ब्रतोपवासादि करते हुए तीर्थों में स्नान कीजिए तो आप शुद्ध होगे ॥४०॥ यदुवंश में दशाह नामक एक राजा ही गए हैं जिनकी सन्तान होने के कारण कृष्ण, बलरामादिकों को दाशाह कहते हैं ।

इस पर एक प्रतिवादी कहता है कि बलरामजी ने सूत-बध करने पर मुनियों के कहने से प्रायश्चित्त किया तो अवश्य; किन्तु वह प्रायश्चित्त कुछ आत्मशुद्धि के लिए नहीं; प्रत्युत लोक-शिद्धा के लिए उन्होंने किया था जैसा कि उसी प्रसंग के निम्नलिखित श्लोकों से पता चलता है—

अजानतैवाचरितस्त्वया ब्रह्मबधो यथा ।  
योगेश्वरस्त्वं भवतो नाम्नायोऽपि नियामकः ॥३९॥  
यद्येतद् ब्रह्महत्यायाः पावनं लोकपावन ।  
चरिष्यति भवाँल्लोक संग्रहोऽनन्यचोदितः ॥३२॥

अर्थ—मुनियों ने कहा कि है भगवन् ! आपने बिना जाने हुए सूत का बध करके ब्रह्महत्या के समान पाप कर डाला । आप योगेश्वर हैं; वेद भी आपको आपने नियम के अनुकूल चलने के लिए बाध्य नहीं कर सकते ॥३९॥ तथापि है लोकपावन ! यदि आप दूसरों से प्रेरित न होकर स्वयं ही लोगों को शिद्धा देने के लिए इस ब्रह्महत्या का प्रायश्चित्त करें, तो अत्युत्तम हो ॥३२॥ इस पर बलभद्र जी ने कहा—

करिष्ये वधानदेशं लोकानुग्रहकाम्यया ।  
नियमः प्रथमे कल्ये यावान् स तु विधीयताम् ॥३३॥

**अर्थ—**मैं लोगों पर अनुभ्रह करने के लिए अर्थात् उनको शिक्षा देने के लिए इस हत्या का प्रायशिच्चत करूँगा। आप लोग मुख्य पक्ष में प्रायशिच्चत के जो कुछ नियम हो उन्हें बतायें ॥३३॥

इन श्लोकों से स्पष्ट है कि बलदेवजी ने जो कुछ प्रायशिच्चत किया था वह आत्मशुद्धि के लिए नहीं; वे तो सर्वथा शुद्ध और निष्ठाप हैं; बल्कि लोगों को ब्रह्महत्या रूपी पाप से बचने की शिक्षा देने के लिए ही किया था; क्योंकि यदि वे प्रायशिच्चत नहीं करते तो जनता यही समझती कि ब्रह्महत्या कोई पाप नहीं है; वह पाप रहती तो बलदेवजी उसे कभी नहीं करते; और यदि किया तो उसके लिए वे प्रायशिच्चत अवश्य करते; अतः हम लोग भी निःशंक होकर ब्रह्महत्या कर सकते हैं इत्यादि। यह पूर्व पक्ष हुआ; अब उत्तर पक्ष सुनिए—

प्रतिवादी ने कहा तो बहुत ठीक; किन्तु बलदेव और मुनियों के बीच उक्त कथोपकथन से जो ध्वनि निकलती है उसे उसने समझने की कोशिश नहीं की। उक्त कथोपकथन से दो बातें ध्वनित होती हैं—(१) यदि बलदेवजी जैसे महापुरुष को लोकशिक्षा के लिए प्रायशिच्चत करना ज़रूरी है, तो उसी लोकशिक्षा के लिए उन लोगों को सन्मार्ग से कभी विचलित न होना भी ज़रूरी है। उन्हें वैसा काम कभी नहीं करना चाहिए जिसका जनता पर बुरा प्रभाव पड़े और जिसके लिए उनको प्रायशिच्चत का ढोग रचना पड़े और (२) वेद, शास्त्र आदि के कायदे-कानून केवल निर्बलों के लिए हैं सबलों के लिए नहीं, क्योंकि पूर्वोक्त श्लोकों में ‘नाम्नायोऽपि नयामकः’ (अर्थात् आपके लिए स्वयं वेद भी नियामक नहीं है), ये शब्द आए हैं। यदि कोई निर्बल आदमी कोई अनुचित कार्य करे तो उस पर सभी लोग चारों ओर से ‘मारो-न्मारो’ चिङ्गाते हुए लाठी लेकर टूट पड़ते हैं। पर वही काम कोई ज़बर्दस्त आदमी करे

तो किसी का चीं करने का भी साहस नहीं रहता। सभी यहीं कहकर सन्तोष कर लेते हैं कि भाई जाने दो; बड़ों का कमर नहीं होता। लिखा भी है—‘समरथ को नहीं दोष गुसाइ’ इत्यादि। इस चौपाई का यह भाव कदापि नहीं है कि समर्थों को दोष होता ही नहीं, दोष तो होता है जरूर; पर जनसा अपनी आसमर्थता के कारण उनके दोषों के प्रति अपनी आँखें बन्द कर लेती है। उन्हें वह किसी प्रकार का दण्ड नहीं दे सकती। बस, उन्हें चौपाई का केवल यही भाव है। सुनिगगा जानते थे कि बलदेव का ब्रह्महत्या का दोष अवश्य लगा है; पर वे ढरते थे कि वे एक ज़बर्दस्त आदमी हैं और साथन्साथ एक भारी पियकड़ भी है। यदि उन पर सामाजिक बहिकार आदि का दबाव डॉलकर उनसे प्रायश्चित्त कराया जाए, तो यह उपाय सफल न हो सकेगा और वे और भी उपद्रव मचाने लगेंगे; अतः मुनि लोगों ने उन्हें प्रशंसात्मक बातें सुनाकर उनको प्रायश्चित्त करने पर राजी किया और उनसे प्रायश्चित्त करवा करके ही छोड़ा। चाहे जिस पहलू से इस प्रश्न पर विचार कीजिए, आप इसी निर्णय पर पहुँचेंगे कि सूत-बध करने से बलदेव अवश्य दोषी हुए थे, जिसके लिए उनको प्रायश्चित्त करना पड़ा। यदि लोक-शिक्षा के ही लिए उन्हें प्रायश्चित्त करना ज़रूरी था तो उसी शिक्षा के लिए उन्हें अपेय तथा अखाद्य वस्तुओं से परहेज़ करना भी ज़रूरी था।

मुख्य-मुख्य देवताओं तथा ईश्वरावतारों के आचरणों की आलोचना इस प्रकार कर अब बड़-बड़े महापियों

पराशर के आचरण पर विचार किया जाता है। वेदव्यास के पिता महर्षि पराशर मसिद्ध ब्रह्मपियों में एक हैं।

ये पराशर-मृति नामक धर्मशास्त्र के प्रवर्चक भी हैं जो कलियुग के लिए मान्य हैं। इन्होंने केवटराज्ञ-कन्या सत्यवती के गर्भ से व्यास को किस परिस्थिति में उत्पन्न किया, इसकी कथा महाभारत,

आदि पर्व; अथवाय द३ में आई है। वे महाराज एक बार तीर्थयात्रा को निकले कि अकस्मात् यमुना नदी को इन्हें नाव के द्वारा पार कराती हुई सत्यवती से इनकी चार आँखें हो गईं। चले थे तीर्थयात्रा का पुण्य कराने, पर यहाँ तो उन्होंने एक दूसरे ही तीर्थ में गोता लगाने को ठाना। वे उसके अतुल रूप-यौवन को देखते ही कामान्ध हो उठे और उसके लाख मना करने पर भी अपने सारे ब्राह्मतेज तथा योगबल को भाड़ में झोक अपनी कामपिपासा परितृप्त का। महर्षि का मैथुन-विषयक प्रस्ताव सुनकर सत्यवती ने कहा कि हे भगवन्! नदी के दोनों किनारों पर ऋषियों के आश्रम हैं। वहाँ पर ऋषि लोग खड़े हैं; उन लोगों के सामने हम दोनों का मिलन किस प्रकार हो सकता है। इस पर ऋषिराज ने निहार (कुहेसा) उत्पन्न कर दिया जिससे संपूर्ण देश अनधकारमय हो गया। जब सत्यवती ने देखा कि उसकी पहली आपत्ति खाली गई तो उसने एक दूसरी अड़चन डालकर इस पाप-कर्म को रोकना चाहा—

विद्धि मां भगवन्! कन्या सदा पितृवशानुगाम् ।

त्वंतसं योगच दुष्येत कन्याभावो ममानव ॥७५॥

कन्यात्वे दूषिते वापि कथं शक्ष्ये द्विजोत्तम् ।

यहं गन्तुमृषे चाहं धीमन् ! नस्थातु मुत्सवे ॥

एतत् संचिन्त्य भगवन् ! विधत्स्व यदनन्तरम् ॥७६॥

अर्थ—सत्यवती ने कहा कि हे भगवन्! मुझे अपने पिता की वशवर्त्तिनी एक कन्या जानिए। हे पाप-रहित महर्ष! आपके समागम से मेरा कन्या-भाव नष्ट हो जाएगा ॥७५॥ कन्या भाव के इस प्रकार नष्ट हो जाने पर, हे द्विजश्रेष्ठ! मैं अपने घर कैसे जा सकूँगी और किस प्रकार जी सकूँगी। हे चुदिसम्पन्न इन सब बातों पर विचारकर जो करना हो उसे करेंजिए ॥७६॥

पर महर्षि सत्यवती की इस उचित आपत्ति को भी कब मानने वाले थे ! वे तो उस समय सातवें आसमान पर सवार हो रहे थे ! उन्होंने बेचारी सरलहृदया उस धीवरकन्या को अपने माया-जाल में फँसाकर अपनी मनःकामना पूरी करके ही छोड़ी ! अपनी जिस अलौकिक शक्ति के द्वारा महर्षि ने नीहार उत्पन्न कर दिया था तथा जिसके द्वारा सत्यवती की शारीरिक दुर्गन्ध को दूरकर उसकी जगह एक विलक्षण सौरभ का संचार कर दिया था वह शक्ति कुसुमायुध के किसलय-कोमल शराघातों के सहने में असमर्थ सिद्ध हुई ! आश्चर्य है कि जो अपनी इन्द्रियों के इस प्रकार दास है कि तीर्थ-पर्वटन जैसे धार्मिक कृत्य करते समय पुण्यसलिला कालिन्दी में भी अपने मन को शुद्ध बनाए रखने में अक्षम हो उन्हें भी अन्ध-विश्वासिनी यह हिन्दू जाति समर्थ मानने में तनिक भी नहीं हिचकती !

महर्षियों के पतन के दूसरे उदाहरण विश्वामित्र है, जिन्होंने मेनका की रूपराशि पर एकदम मोहित होकर अपनी सारी तपस्या

को एकवारगी मिट्ठी में मिला दिया और जिसके फल-विश्वामित्र स्वरूप दुष्यन्त की प्रेमिका शकुन्तला का जन्म हुआ।

इस घटना का विवरण महाभारत, आदि पर्व, अर्थाय ७२ में आया है। महर्षि विश्वामित्र की उम्र तपस्या देखकर देवराज इन्द्र को यह भय हुआ कि कहीं महर्षि अपनी तपस्या से इन्द्रपद न छीन लें। अतः उसने उनका तप भङ्ग करने के लिए मेनका अप्सरा को उनके समीप भेजा। वह महर्षि के सामने जाकर कीड़ा करने लगी कि इतने में पवन देव ने उस सर्वाङ्ग सुन्दरी के शरीर से उसके चंद्रिका-शुभ्र वस्त्र उड़ा दिया। महर्षि का विवेक उसके नग्न शरीर पर दृष्टि पड़ते ही उड़ गया और उन्होंने अपने पास बुलाया—

तस्या रूपगुणान् दृष्ट्वा स तु विग्रह्यमस्तदा ।

चकार भावं संसर्गात् तथा कामवशं गतः ॥७॥

न्यमंत्रयत् चाप्येनां सा चाप्यैच्छुद् निन्दिता ।

तौ तत्र सुचिरं कालमुभौव्याहरतां तदा ॥८॥

रममाशौ यथाकामं यथैकन्दिवसं स तथा ।

जनयामास स मुनिमेनकायां शकुन्तलाम् ॥९॥

**आर्थ**—ब्रह्मिष्यों में श्रेष्ठ विश्वामित्र ने, उसके रूप और गुणों को देखकर काम के वश में होते हुए उसके साथ समागम की इच्छा की ॥७॥ और उन्होंने उसे अपने पास चुलाया और अनिन्दित सुन्दरी वह भी कामोपभोग के लिए इच्छुक हो गई । उन दोनों ने वहाँ पर बहुत दिनों तक मनमाना विहार किया ॥८॥ मनमाना विहार करने से वह सुदीर्घ काल उन दोनों को एक दिन की तरह मालूम हुआ । उन मुनि ने मेनका में शकुन्तला को उत्पन्न किया ॥९॥

पुराणों एवं महाभारतादि ऐतिहासिक ग्रन्थों में कितने महर्षियों के विषय में यह लिखा मिलता है कि उनका वीर्य आमुक अप्सरा को देखते ही स्वलित हो गया, जिसके फलस्वरूप

**भरद्वाज** आमुक व्यक्ति की उत्पत्ति हुई । कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध वीर द्रोणाचार्य का जन्म-वृत्तान्त महाभारत, आदि पर्व, अध्याय १३१ में इस प्रकार लिखा है कि महर्षि भरद्वाज एक वार गंगा-स्नान को गए, वहाँ पर भृताची नामक अप्सरा के अलौकिक सौन्दर्य को देखते ही उनका मन डिग गया और उनका वीर्य स्वलित हो गया । उस वीर्य को उन्होंने द्रोण नामक यज-पात्र में रख दिया जिससे उस पात्र से जन्मे हुए बालक का नाम द्रोण पड़ा—

सोऽभिषेकु ततो गंगा पूर्वमेवागमज्जर्दीम् ।

महर्षिभिर्भरद्वाजो हविर्दर्शने चरन् पुरा ॥१०॥

ददर्शाप्सरसं साहाद् भृताचीमाप्लुतामूर्धिः ।

स्वप्नौवनसम्पन्नां मददसां मदालसाम् ॥११॥

तस्याः पुनर्नदीतीरे वसनं पर्यवर्तत ।,  
व्यपक्षग्राम्बरां दृष्ट्वा तामृषिकमेततः ॥१२॥  
तत्र संसक्तमनसो भरद्वाजस्यधीमतः ।  
ततोऽस्य रेतश्चत्कन्द तद्विद्रोण आदये ॥१३॥  
ततः समभवद द्रोणः कलशे तस्य धीमतः ।  
अथगांष स वेदांश्च वेदाङ्गानि च सर्वशः ॥१४॥

**अर्थ—**पूर्वकाल में महर्षि भरद्वाज अग्निहोत्र करने कि अभिग्राय से अन्य महर्षियों के साथ गंगा-स्नान को गए ॥१०॥ वहाँ पर उन्होंने रूप-यौवन-सम्पन्न साक्षात् धृताची अप्सरा को, जो यौवन-मद से माती हुई भूम रही थी, नहाकर उठते हुए देखा ॥११॥ पुनः नदी के तट पर उसका वस्त्र खिसक गया । नमावस्था में उसे देखकर महर्षि काम के वश में हो गए ॥१२॥ बुद्धिमान् भरद्वाज का मन उस रमणी में आसक हो गया और उनका वीर्य स्वलित हो गया । उस वीर्य को उन्होंने द्रोण में रख दिया ॥१३॥ बुद्धिमान् महर्षि के उस द्रोण से द्रोण का जन्म हुआ, जिन्होंने सभी वेदों तथा वेदांगों का अध्ययन किया ॥१४॥

महाभारत के अन्य पात्र कृप और कृष्ण का भी जन्म इसी प्रकार हुआ था जिसकी कथा आदि पर्व के १३०वें अध्याय में लिखी है ।

**महर्षि गौतम के पुत्र शरद्वान् ये,** जिनकी धनुर्विद्या  
**गौतमपुत्र** की प्रतीणता तथा उग्र तपस्या से हन्द्र इतना भयभीत  
**शरद्वान्** हुआ कि उसने उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए  
जानपदी नाम की अप्सरा को भेजा । जानपदी की  
अपच्छुटा देखकर महर्षि शरद्वान् की सुध-नुध इस प्रकार जाती रही  
कि उनका वीर्य स्वलित हो गया और उनको मालूम तक न हुआ ।  
वह वीर्य सरकांडे की चड़ पर गिरा, जिससे दो बच्चे, एक पुत्र  
और दूसरी कन्या, एक साथ उत्पन्न हुए । ये दोनों बच्चे शिंकार

खेलने को निकले राजा शान्तनु के हाय लगे और उन्होंने कृपा-पूर्वक इनका लालन-पालन किया जिससे वे कमशः कृप और कृषी कहलाएं—

कृपया यन्मया बालाविमौसंबद्धिताविति ।

तस्मात्तयोर्नामं चक्रे तदेव स महीपतिः ॥१६॥

**अर्थ—**उन राजा शान्तनु ने, यह विचारकर कि मैंने ही इन दोनों बच्चों को कृपापूर्वक पाल-पोषकर बड़ा किया है, अपनी कृपा से पालित उन दोनों का नाम उन्होंने कृप और कृषी रख दिया ।

महर्षि ऋष्यशृंग की उत्पत्ति प्रथम परिच्छेद में लिख आया है कि ये हरिणी के गर्भ से हुए थे, ये महर्षि विभाषणक के पुत्र हैं ।

इनकी उत्पत्ति ऋध्यात्म-रामायण, बालकाशड, सर्ग ३ विभाषणक में इस प्रकार लिखी है कि एक बार महर्षि विभाषणक किसी बड़े भील में स्नान कर रहे थे कि उर्वशी अप्सरा उनकी नज़रों के सामने से गुजरी । उसको देखते ही मुनि का वीर्य जल में स्वलित हो गया, जिसे किसी प्यासी मृगी ने जल के नाय ही पी लिया और वह गर्भिणी हो गई—

तस्यां मूर्यां समभवत् तस्य पुत्रो महाशृष्टिः ।

ऋष्यशृंगो तपोनिष्ठो बनएवाभ्यवर्द्धते ॥१०॥

तस्यथेः शृंगांशिरसि राजन्नासोन्महात्मनः ।

तेनर्थ्यशृङ्ग इत्येव सदा सप्रयितोऽभवत् ॥११॥

**अर्थ—**उन्हीं विभाषणक के पुत्र तपत्वी महर्षि ऋष्यशृङ्ग उसी हरिणी में उत्पन्न हुए और वन में ही स्थाने हुए ॥१०॥ उन महात्मा शृष्टि के सिर में एक सींग था; अतएव हे राजन् ! वे सदा ऋष्यशृङ्ग नाम से प्रसिद्ध हुए ॥११॥ इस कथा को वशिष्ठ ने दरारथ से कहा है ।

पुराणों के पन्ने उलटने पर इस प्रकार की और भी अनेक पैदाइशें मिलेंगी जहाँ पर किसी महर्षि का वीर्य किसी आप्सरा को देखते ही स्खलित हो गया जिससे अमुक व्यक्ति की उत्पत्ति हुई। यहाँ पर स्थानाभाव के कारण केवल कुछ व्यक्तियों की ही उत्पत्ति उदाहरण-स्वरूप उद्भृत कर दी गई। इन पैदाइशों के विषय में एक विचारणीय बात तो यह है कि पुरुष का वीर्य स्त्री-गर्भाशय भिज्र किसी अन्य स्थान में स्खलित होने पर कभी भी बचा उत्पन्न नहीं कर सकता। उसका ऐसा करना केवल असंभव ही नहीं, आपतु प्राकृतिक नियम के विरुद्ध भी है। यदि कहें कि ये ऋषिगण साधारण श्रेणी के मनुष्य नहीं थे कि वे प्रकृति के नियमों के अधीन होकर रहें। उनमें वह योगबल था, वह अलौकिक शक्ति थी कि वे असंभव को भी संभव कर दिखावें; रजोवीर्य क्या, विना इनके भी बच्चे उत्पन्न कर दें। पर मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि देवताओं तथा ऋषियों की यह विलक्षण शक्ति केवल धूतों की कपोत कल्पना है। उनका हृदय साधारण मनुष्यों की ही तरह कामकापादि विकारों से परिपूर्ण था। वे नितान्त दुर्बल चित्त थे; क्योंकि तभी तो वे किसी सुन्दर स्त्री को देखने पर अपने को रोक नहीं सकते थे और उनका वीर्य स्खलित हो जाया करता था। पुराणकारों ने अपने पाठकों को निरा तुदू समझा हाया; क्योंकि तभी तो उन्होंने अपने पाठकों से असंभव तथा अप्राकृतिक बातों का मनवाने की आशा की होगी। पर जादू वह जो शिर पर चढ़कर बोले। धूर्त-समुदाय अपने पाठकों को बहकाने की धून में इतना बेसुध हो गया कि उसने अपनी इस बहक में अपने तथा कथित अलौकिक शक्तिशाली ऋषियों के विषय में परस्पर विरोधी बातें, एक और विलक्षण योग-बल और दूसरी ओर असीम आत्मिक दौर्बल्य, दिखाकर उन विचारों का भंडा-फोड़ कर दिया! भरद्वाजादि ऋषियों का बृतान्यादि-

अप्सराओं के साथ अवश्य ही समागम हुआ होगा, जिससे द्रोणादिक उत्पन्न हुए। यह केवल उनके कुकर्मों को छिपाने के ही लिए लिख दिया गया है कि द्रोणाचार्य द्रोण-पात्र से तथा कृप-कृष्ण सरकड़े से उत्पन्न हुए। वास्तविक बात तो यह मालूम होती है कि इनके जननी-जनक इन्हें अवैध मैथुन द्वारा उत्पन्न कर और द्रोणपात्र तथा सरकड़े की भाड़ी में रखकर चले गए थे। आजकल भी अवैध सन्तान अपने माता-पिताओं द्वारा इसी प्रकार फेंक दी जाती है। ऋष्यशृंग की उत्पत्ति के विषय में वह भी जान लेना चाहिए कि देवकन्या उर्वशी ही शापवश मृगी (तन्नामधारिणी कोई अनार्थ जाति की न कि पशु-विशेष) ही गई थी जो उनकी जननी बनी। अध्यात्म रामायण के पूर्वोक्त स्थान पर देखिए—

देवकन्ये ! मृगीभूत्वा मुनि सूय विमोद्यसे ।  
अमोघत्वादपेशचैव भावित्वाहै वनिर्मितैः ॥६॥

अर्थ—ब्रह्मा न उर्वशी से कहा कि हे देवकन्ये ! तुम मुनि को पैदाकर शाप मुक्त होओगी। ऋषि के अमोघत्व तथा देव-विधान के अवश्यंभावित्व के कारण उस मृगी में ऋष्यशृंग उत्पन्न हुए।

अब महर्षि वशिष्ठ की उत्पत्ति-कथा सुनिए। वे पूर्व जन्म में ब्रह्मा के मानस पुत्र कहलाते थे; अर्थात् वे कुछ ब्रह्मा के औरस पुत्र न थे; वरन् ब्रह्मा ने इन्हें अपने मन से पुत्र मान लिया था; क्योंकि 'मानस' शब्द का अर्थ संस्कृत व्याकरणानुसार 'मनसाकृतः' (मनस-अण्) इति मानसः होता है। ब्रह्मा के और भी कई मानस पुत्र हैं। पुनः वे ही वशिष्ठ दसरे जन्म में विवादहरणी के वीर्य से उर्वशी अप्सरा में उत्पन्न हुए। अप्सराएँ कुछ कुलवधुएँ नहीं थीं। वे देवलोक की वेश्याएँ थीं; कारण कि वे किसी पुरुष-विशेष की पक्षी बनकर नहीं रहती थीं।

जब जिसके साथ चाहा उसके साथ वे रहा करती थीं। यही उर्वशी ही बहुत काल तक चन्द्रवंशीय राजा पुरुस्वा के साथ रह चुकी थी। अतएव महर्षि वेश्यापुत्र कहे गए हैं।

वशिष्ठ उर्वशी के पुत्र कैसे हुए, इसकी कथा श्रीमद्भागवत, स्कन्ध ६, अध्याय १ तथा वाल्मीकीय रामायण, उत्तरकाण्ड, सर्ग ५५-५७ में आई है। भागवत की कथा संक्षिप्त, पर उक्त रामायण की कथा कुछ विस्तृत है; अतः रामायण की ही कथा का यहाँ सार दिया जाता है। प्रसिद्ध सूर्यवंशीय नरेश इच्छाकु के बारहवें पुत्र राजा निमि थे। निमि ने गौतम मुनि के आश्रम के सभीप वैज्ञानिक नामक एक नगर बसाया और वहीं पर राज्य करते हुए दीर्घसत्र नाम यज्ञ करने का विचार किया। इस कार्य के लिए राजा ने महर्षि वशिष्ठ को पुरोहित बसाया किया। परन्तु वशिष्ठ के यहाँ इन्द्र का निमंत्रण यज्ञ कराने के लिए पहले से ही आ चुका था। अतः वे निमि को इन्द्र के यहाँ से अपने लौट आने तक ठहर जाने का आदेश देकर देवराज के यहाँ यज्ञ कराने चले गए। निमि ने वशिष्ठ का आदेश न मानकर उनकी अनुपस्थिति में गौतम ऋषि को अपना पुरोहित बनाकर अपना यज्ञ पूरा किया। जब वशिष्ठ इन्द्र के यहाँ से लौटे, तो वे राजा के इस व्यवहार पर बहुत कुछ हुए। निदान दोनों में झगड़ा यहाँ तक बढ़ा कि दोनों ने एक दूसरे को शरीर-पात का शाप दे दिया। शाप के परिणाम-स्वरूप दोनों शरीर-हीन होकर वायु-रूप हो गए। तत्पश्चात् उर्वशी अप्सरा को वरुणालय में कीड़ा करती हुई देखकर मित्र, जो उस समय वहीं पर आए हुए थे, और वरण, वे दोनों देवता इस प्रकार कामीहित हुए कि दोनों ने एक घड़े को ही उर्वशी की योनि कल्पनाकर उसमें अपना-अपना वीर्य-पात कर दिया जिससे अग्रस्त्य और वशिष्ठ उत्थन हुए—।

यःसकुम्मो रघुश्रेष्ठ ! तेजःपूर्णो महात्मनोः ।

तस्मिस्तेजोमयी विश्रीं संभूतावृष्टिसत्तमौ ॥४॥  
 पूर्वं समभवत्तत्र अगस्त्यो भगवानृषिः ।  
 नाहं सुतस्तवेत्युक्त्वा मित्रं तस्मादपाक्रमत् ॥५॥  
 कस्यचित्स्वयं कालस्य मित्रावरुण-संभवः ।  
 वशिष्ठस्ते जसा युक्ता जगे इद्वाकु-देवतम् ॥६॥ सर्ग ॥५७॥

**अर्थ—**रामचन्द्र लक्ष्मण से कहते हैं कि हे रघुवंशियों में श्रेष्ठ ! उस घड़े में, जो दो महात्माओं के, अर्थात् मित्र और वरुण के, तेज से पूर्ण था, दो तेजस्वी ऋषिवर उत्पन्न हुए ॥४॥ उसमें पहले भगवान अगस्त्य ऋषि उत्पन्न हुए जो मित्र से यह कहकर वहाँ से चले गए कि मैं केवल आपका ही पुत्र न हूँ ॥५॥ कुछ काल के बाद उन्होंने मित्रावरुण से तेजस्वी वशिष्ठ उत्पन्न हुए जो इद्वाकुवंशीय राजाओं के कुलपूज्य देवता हुए ॥६॥

अब ‘पञ्चकन्याओं’ के चरित्र पर अपना विचार प्रकटकर इस परिच्छेद को समाप्त करता हूँ । पञ्चरुन्या विषयक जिस श्लोक का प्रचार सबसाधारण में देखा जाता है उसका स्वरूप यह है—

अहल्या द्रौपदी तारा कुन्ती मन्दोदरी तथा ।

पञ्चकन्याः स्मरेन्नित्यं महापातक-नाशिनीः ॥

**अर्थ—**अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुन्ती और मन्दोदरी, इन पंचकन्याओं को, जो महापातकों का नाश करने वाली हैं, नित्य स्मरण किया करे ।

पर इस श्लोक में ‘पञ्चकन्या’ शब्द पर किसी-किसी की यह आपत्ति है कि उक्त सभी स्त्रियाँ विवाहिता थीं; अतः उनको कन्या कहना अनुचित है । कन्या तो कुमारी लड़की को कहते हैं । अमरकोष, द्वितीयकाण्ड, मनुष्यवर्ग, श्लोक ८ में लिखा है—‘कन्या, कुमारी, गौरीतु, नविकाऽनामतार्चवा’ इत्यादि । मेदिनीकोष में लिखा

है—‘कन्या, कुमारिकागौयोरोपधीराशिभेदयोः’; अर्थात् कन्या शब्द कुमारी ( अविवाहिता ), गौरी ( अष्टवर्षीया, औपधी विशेष ( घिकु-आर ) और कन्या-राशि, इन अर्थों में प्रयुक्त होता है। पाणिनीय अष्टाध्यायी के इस ‘कन्यायाः कनीन च’ ( ४।१।११६ ) सूत्र पर महाभाष्यकार पतञ्जलि मुर्नि, काशिकाकार, कौमुदीकार, तत्वबोधिनी आदि सब टीकाकारों का यही मत है कि कुमारी अर्थात् अविवाहिता का नाम कन्या है। अतः ‘पञ्चकन्याः स्मरेन्नित्यं’ की जगह ‘पञ्चकं ना स्मरेन्नित्यं’ पाठ होना चाहिए, जिसका अर्थ है अहल्यादि इस पंचक को ना अर्थात् मनुष्य नित्य स्मरण किया करे। यहाँ ना शब्द न शब्द का प्रथमा एक वचन है जिसके रूप ना नरौ नरः इस प्रकार चलते हैं।

चाहे जो पाठ शुद्ध हो, हमें तो केवल इन स्त्रियों के आचरण पर विचार करना है और वह देखना है कि सचमुच ये स्त्रियाँ इस प्रकार पूताचरणा यीं कि इनके नाम स्मरण करने से हमारे सब पाप कट जाते हैं। कोई-कोई महाशय पूर्वोक्त स्त्री-पंचक में कुन्ती का नाम न लेकर उसकी जगह सीता का नाम लेते हैं। पर मुझे यह अनुचित जान पड़ता है; कारण कि बहुपतिकाओं की मंडली में एक-यतिपरायणा सीता को बैठालना धोर अन्याय है। अतः उक्त श्लोक में जिनके नाम आए हैं उन्हीं के आचरण पर विचार किया जाएगा।

(१) अहल्या—अहल्या की कथा इसी परिच्छेद में पहले लिख उका हूँ जिससे पाठकों को भली भाँति मालूम हो गया होगा कि वह परपुरुष इन्द्र को पहचानकर भी उसके साथ अहल्या कुकर्म करने पर सहमत हो गई। यदि धोखे में आकर वह अपना सतीत्व खोए होती, तो गौतम केवल इन्द्र को ही शाप देते; अहल्या को नहीं; पर वे जानते थे कि

अहल्या इन्द्र के तुल्य ही अपराधिनी है; अतः उन्होंने उसको भी शाप दिया। वाल्मीकीय रामायण में लिखा है कि इन्द्र ने महर्षि गौतम की कोधाग्रि भड़काकर उनका तपोभंग करने के लिए ही उनकी खीं का सतीत्व नष्ट किया था। पर चाहे जिस अभिप्राय से इन्द्र ने यह कुकर्म किया हो, इसमें अहल्या भी कसरवार अवश्य थी। कोई न कोई कहते हैं कि इन्द्र एक सूक्ष्म तथा दिव्य शरीरधारी देवता था। उसका भौतिक शरीरधारी मनुष्यों की तरह मैथुन करना नहीं माना जा सकता; अतः अहल्या केवल भाव दोष से दूरीत थी; मैथुन-जन्य व्यभिचार दोष से नहीं। पर ऐसा मान लेने पर भी अहल्या का हुटकारा होते नहीं देख पड़ता; क्योंकि जो खियाँ पक्की पतिव्रता होती हैं उनका मन सुन्दर से भी सुन्दर परपुरुष को देखकर नहीं छुच्च होता; अतः इससे यह सिद्ध होता है कि अहल्या एक मनचली झीं थी; पक्की सती नहीं। इसके अतिरिक्त यह भी जान लेना चाहिए कि देवताओं को सभी सिद्धियाँ स्वतः प्राप्त रहती हैं। वे आवश्यकतानुसार स्थूल, सूक्ष्म आदि सभी प्रकार के शरीर धारण कर सकते हैं। अतः संभव है कि इन्द्र ने अहल्या के साथ संगम करने के लिए भौतिक शरीर धारण कर लिया हो; क्योंकि तभी तो अहल्या ने इन्द्र के साथ कामोपभोग से संतुष्ट होकर स्वचिययक 'कृतार्थाऽस्मि', अर्थात् मैं कृतार्थ हूँ, ऐसा बचन कहा। और सबसे भारी बात तो यह है कि क्या गौतम पागल थे जो उन्होंने निरपराध अवला पर अपने शाप-रूपी वज्र का प्रहार किया? अहल्या केवल भाव दूषित नहीं थी।

यदि ऐसी बात है तो विष्णु के प्रसंग से वृन्दा का सतीत्व कैसे नष्ट हुआ? और यदि नष्ट नहीं हुआ तो जलन्धर कैसे मारा गया? अतः यह निर्विवाद है कि इन्द्र के साथ प्रसंग करने से अहल्या का भी सतीत्व अवश्य नष्ट हुआ।

उसका हन्त्र के साथ वास्तविक कामोपभोग उसके 'कुतार्थाऽस्मि' इसे वचन से सिद्ध होता है।

(२) द्रौपदी—यह पाञ्चाल देश के राजा द्रुपद की कन्या थी जो यज्ञ की वेदी से उत्पन्न हुई थी। इसे अर्जुन ने स्वयम्भर में लक्ष्य-वेघ द्वारा जीतकर प्राप्त किया था; पर बाद में इसको

**द्रौपदी** युधिष्ठिर आदि पाँचों ही पाण्डवों की स्त्री बनना पड़ा।

द्रौपदी के एक साथ पाँच पुत्रों के द्वारा व्याही जाने के निम्नलिखित कारण बताए जाते हैं जिनमें कोई भी सन्तोषजनक नहीं मालूम पड़ता—

(क) माता कुन्ती का आदेश। पाँचों पाण्डव अपनी माता कुन्ती के साथ बारणावत से भागकर द्रौपदी का स्वयम्भर देखने पाञ्चाल-नगर गए थे और वहाँ वे एक कुम्हार के घर में ब्राह्मण-वेष धरकर छिपे रहते थे। महाभारत, आदि पर्व, अध्याय १६२, में लिखा है—

गत्वा तु तां भार्गव कर्मशालां पार्थीं पृथां प्राप्य महानुभावौ।

तां याज्ञसेनां परम प्रतीतौ भिन्नेत्यथावेदयतां नराग्रयौ ॥१॥

कुटीं गता सा त्वनवेद्य पुत्रौ, प्रावाच्च भुद्भृति समेत्य स्वैः।

पश्चाच्च कुन्ती प्रसमीक्ष्य कुष्ठणां कष्टं मया भाषितमेत्युवाच ॥२॥

**अर्थ—**महानुभाव तथा नरश्चेष्ट भीम और अर्जुन परम प्रसन्न भिन्न से उस कुम्हार के घर में कुन्ती के पास पहुँचकर द्रौपदी के विषय में बोले कि आज यह भिन्ना मिला है ॥१॥ कुन्ती, जो उस तमय कुटी के भीतर थी, कुछ न देखकर अपने दोनों पुत्रों से बोली कि तुम् सभी भाई मिल करके उस भिन्ना को भेंगो। पर पीछे द्रौपदी को देखकर उसने कहा कि हा! मैंने कैसी अनुनित चात कह डाली! ॥२॥

कुन्ती के मुँह से उत्त अघमं की चात वस्तुस्थिति को चिना

जाने हुए निकली थी। अतः उसके लिए वस्तुस्थिति के मालूम हो जाने पर अपनी वात को वापस ले लेना ही उचित या जिसमें धर्म की अवहेलना न होने पावे। पर उसने वैसा नहीं किया। वह द्रौपदी को पकड़े सुधिष्ठिर के पास गई और उनसे वह उपाय पूछा जिससे उसकी वात भी न झूठी होने पाए और द्रौपदी को एक साथ पाँच पतियों को यहण करने में न कोई अधर्म हो और न कोई दुःख हो। पर सुधिष्ठिर जानते थे कि कुन्ती यदि अपनी वात पर अड़ी रहेगी तो धर्म की रक्षा न हो सकेगी; पहले तो उन्होंने अर्जुन से कहा कि द्रौपदी का विवाह केवल तुम्हारे ही साथ होना ठीक है; क्योंकि तुम्हाँ ने उसे जीता है। पर जब उन्होंने देखा कि द्रौपदी की अलौकिक रूपराशि को देखते ही उनके सभी भाई मोहित हो रहे हैं तो उन्हें भय हुआ कि कहीं ऐसा न हो कि द्रौपदी का विवाह किसी एक के साथ कर देने पर सभी भाई आपस में लड़ने लगें। अतः इन सब वातों को सोच-विचार-कर तथा व्यास को यह कथा स्मरणकर कि द्रौपदी पूर्व जन्म की एक सूषिनीन्या है, जिसको शिवजी से एक साथ ही पाँच वर मिलने का वर मिला है, उन्होंने यह व्यवस्था दी कि द्रौपदी सभी भाइयों की स्त्री होगी—

तेषां तु द्रौपदीं दृष्ट्वा सर्वेषाममितौ जसाम् !

सम्प्रमथ्येन्द्रियग्रामं प्रादुरासीन्मनोभवः ॥१३॥

काम्यं हि रूपं पाञ्चाल्याः विधात्रा विहितं स्वयम् ।

वभूवाधिकमन्यायाभ्यः सर्वभूतमनोहरम् ॥१४॥

तेषामाकारभावशः कुन्ती-पुत्रो सुधिष्ठिरः ।

दैपायन-वचः सर्वं सस्मार मनुजर्घमः ॥१५॥

अत्रवीत् सहितान् भ्रातृन् मिथो भेदभयान्तृपः ।

सर्वेषां द्रौपदी भार्या भविष्यति हि नः शुभा ॥१६॥

अर्थ—वडे भाई तेजस्वी पाण्डवों ने ज्यों ही द्रौपदी को देखा

त्यो ही कामदेव ने उनके इन्द्रिय-समूह को छुब्बकर उन पर अपना प्रभाव जमा दिया ॥१३॥ विधाता ने द्रौपदी के सुहावने स्वरूप को दूसरी जियों की अपेक्षा अधिक सुन्दर तथा सभी जीवों के मन को इरने वाला बनाया था ॥१४॥ मनुष्यों में श्रेष्ठ तथा कुल्ती के पुत्र सुधिष्ठिर ने अपने भाइयों का रंग-दंग देखकर उनके जी की बात जान ली और साथ-साथ व्यास की कही हुई सारी बातें भी उनको स्मरण हो गई ॥१५॥ वे राजा सुधिष्ठिर यह सोचकर कि कहाँ भाइयों में परस्पर कलह न हो, उन इकट्ठे हुए भाइयों से बोले कि शुभ-लक्षण द्रौपदी हम सब की ज्यो होगी ॥१६॥

यह है व्यवस्था महाराज सुधिष्ठिर की जो धर्म के अवतार माने जाते थे ! वे द्रौपदी जैसी अपूर्व सुन्दरी का अधरामृत पान करने के लिए स्वयं भी इतने लालायित हो रहे थे कि उन्होंने इस बात का तनिक भी निचार न किया कि उनके छोटे भाइ अर्जुन के द्वारा जीतकर लाई हुई द्रौपदी उनकी अनुज-वधु थी; अतः उसके साथ उनका विवाह करना एक धोर अधर्म था । आगे चलकर जब उनके भावी श्वसुर राजा द्रुपद ने एक ज्यो का पाँच पतियों के साथ एक ही समय में विवाह होने के प्रस्ताव पर आपत्ति की, तो सुधिष्ठिर ने उनसे यहाँ तक झुठ बोल दिया कि हम लोग पाँचों भाइयों ने यह एक नियम बना रखा है कि किसी भी रक्त का सभी भाइ बाँटकर भोग करें—

एष नः समयो राजन्, रक्तस्य सहभोजनम् ।

न च तं हातु मिच्छ्रामः समयं राज-सत्तम ॥२५॥

अर्थ— हे राजन ! रक्त का एक साथ भोग करना हम लोगों का नियम है । हे राजाओं में श्रेष्ठ ! हम लोग इस नियम को छोड़ना नहीं चाहते ॥ आदि पर्व, अध्याय १६६, स्लोक २५॥

युधिष्ठिर की उक्त नियम वाली बात सरासर सलत थी। यदि पाराडवों में वस्तुतः ऐसा कोई नियम रहता, तो अर्जुन के ही द्वारा बदुबंशियों को जीतकर लाइं हुई सुभद्रा का विवाह पाँचों ही पाराडवों के साथ न होकर केवल अर्जुन के ही साथ क्यों हुआ? हिंदूमें विवाह केवल भीमसेन की पक्षी क्यों बनी? उलूपी का विवाह अर्जुन के साथ-साथ अन्य माझियों के भी साथ क्यों नहीं हुआ? आखिर सभी माझियों का अपनी-अपनी अलग-अलग स्त्रियाँ थीं; वे सभी स्त्रियाँ सभी माझियों की समान सम्पत्ति क्यों नहीं हुई? अतः यह निर्विवाद है कि युधिष्ठिर की उक्त नियम वाली बात कोरी झूठ थी।

द्रौपदी के निरुपम यौवन का रसास्वादन करने की उत्कट आकांक्षा के वर्णभूत होकर धर्मराज के सपूत्र पाराडवाग्रगण्य युधिष्ठिर महाराज ने द्रुपद के साथ और भी जो अन्यथायोगी के खेल खेले थे, उन्हें भी पाठकों की सेवा में पेश कर देना उचित जान पड़ता है। युधिष्ठिर ने द्रुपद से केवल उक्त मिथ्या नियम की ही बात नहीं कही; पर यह भी कहा कि माता कुन्ती की भी आज्ञा है कि द्रौपदी का उपभोग पाँचों ही माझ करें तथा मैंने आज तक कभी भी सूठ नहीं कहा आर न मेरी मति अधर्म में प्रवृत्त हुई। आदि पर्व का उत्तराध्याय ही देखिए—

सूक्ष्मो धर्मो महाराज ! नास्य विद्वां वयं गतिः ।

पूर्वेषा मानुषवैर्यं यातं वर्त्मनुवामहे ॥२६॥

न मे वागनृतं प्राह, नाधर्मे धीयते मतिः ।

एवं चैव वदत्यम्बा मम चेतन्मनो गतम् ॥२७॥

एष धर्मो द्वयो राज्यचरेनमविचारयन् ।

मा च शंका तत्र ते स्यात् कथं चिदपि पार्थिव ॥२८॥

अर्थ—युधिष्ठिर ने द्रुपद से कहा कि हे महाराज! धर्म एक

सूक्ष्म वस्तु है। उसकी गति हम लोग जान नहीं सकते। पर पहले के लोग जिस मार्ग से गए हैं; उसी मार्ग से हम लोग चलते हैं॥२६॥ मैं कभी भूठ नहीं बोलता और न मेरा मन अधर्म में प्रवृत्त हुआ। माता कुन्ती ने भी यही आज्ञा दी है और यही वात मेरे मन में भी बैठ गई है॥३०॥ हे राजन्! यही सनिश्चित धर्म है; जिना विचारे आप इस धर्म का पालन करें। हे पृथ्वीनाथ! आप इस वारे में किसी प्रकार की शंका न करें॥३१॥

प्रिय पाठक-बृन्द! आपने देखा कि किस सफाई के साथ युधिष्ठिर ने चालवाजी से भरी हुई अपनी सारी वातें राजा दुपद से कह डालीं! यदि धर्म की सूक्ष्मता के कारण उसकी गति किसी को मालूम नहीं, तो युधिष्ठिर को कैसे मालूम हो गया कि एक कन्या का युगपत् पति-पञ्चक-ग्रहण एक सुदृढ़ धर्म है जिसका पालन राजा दुपद को निःशंक होकर करना चाहिए। यदि पूर्वजों के चले हुए मार्ग का अनुसरण करना ही धर्म था, तो उदालक के पुत्र श्वेनकेतु ने स्त्रियों के उस पुरातन पशु-धर्म को, जिसके अनुसार वे गाय आदि पशुओं की तरह स्वच्छन्द रहकर चाहे जिस किसी भी पुरुष के साथ मन-माना विहार किया करती थीं; न सहकर उस पर प्रतिबन्ध क्यों लगा दिया? कुन्ती ने तो वैसी आज्ञा अवश्य दी थी; पर जिस परिस्थिति में उसने वह पापमयी आज्ञा दी थी, उसे युधिष्ठिर ने राजा दुपद से छिपा ली। सत्य का छिपाना भी एक प्रकार का भूठ बोलना है॥ युधिष्ठिर ने भूठ को झड़ी-सी लगा दी है; तथापि वे कहते हैं मैं कभी भी भूठ नहीं बोला! वे अपनी अनुज-वधु के साथ विवाह करने पर दुले हुए हैं; पर कहते हैं कि मेरा मन पाप की ओर कभी नहीं सुका! वाह रे आदर्श सत्यवादी तथा आदर्श धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर!!

(ख) ऋषिकन्योपाख्यान। द्रौपदी को एक साथ पाँच पतियों के मिलने का दूसरा कारण यह बताया जाता है कि वह पूर्व जन्म

में कोई ऋषि-कन्या थी जो रूपवती तथा गुणवती होने पर भी योग्य वर को पाने में असफल हुईं। तब उसने अपनी तपस्या से शिव को प्रसन्नकर उसने पति पाने का वरदान माँगा। परं चूँकि उसने शिव से 'पति देहि' इस वर को पाँच बार माँगा था, अतः उन्होंने उसके लिए उसके दूसरे जन्म में पाँच पतियों के मिलने का वरदान दे दिया। वाह रे श्रीदरदानी शिव ! माँगा उसने एक और दिया आपने पाँच ! यद्यपि ऋषि-कन्या ने शिव से स्पष्ट शब्दों में कहा था कि वह केवल एक ही पति चाहती है, पाँच नहीं, तथापि उन्होंने उसके पाँच बार माँगने का बहानाकर उसे पाँच पति दे दिए। मालूम होता है कि वर देने के समय वंभोला शंकरजी ने गहरी भाँग छान ली थी तथा गाँजे का एक लम्बा दम लगा लिया था, जिससे उनको एक खो के लिए पाँच पतियों की व्यवस्था अधरमं नहीं मालूम हुई ! इस उपाख्यान को व्यासदेव ने पारदर्शी से उनके पाञ्चाल नगर जाने के पहले, उस ब्राह्मण के घर में जहाँ वे अपनी माता के साथ टिके हुए थे; कहा था। आदि पर्व का १७० अध्याय पढ़िए—

द्रुपदस्य कुले जग्ने सा कन्या देवरूपिणी ।

निर्दिष्टा भवता पत्रो कृष्णा पार्षत्यनिन्दिता ॥१८॥

आर्थ—वह ऋषि-कन्या राजा द्रुपद के कुल में जन्मी है। वह देव-कन्या की सी रूपवाली है। उसमें कोई भी निन्दनीय बात नहीं है। उसका नाम कृष्णा है और वही आप लोगों की पत्नी ठहराइ गई है ॥१८॥ आगे चलकर यह दिखलाया जाएगा कि यह उपाख्यान एक कपोल-कल्पना-मात्र है जो मानने योग्य नहीं है। इस उपाख्यान को व्यास ने द्रुपद से भी पीछे कहा था।

(ग) पञ्चेन्द्रोपख्यान। राजा द्रुपद द्रीपदी के विवाह-विषयक इसी भारी उच्चेष्ठुन में पड़े हुए थे कि एकाएक वेदव्याख्याती उनके घर आ घमके। व्यासजी भी एक अजीव जीव मालूम

होते हैं। नारककी तरह वे गाहे-बे-गाहे हर जगह मौजूद हो जाते हैं। पर उनकी अमलदारी नारद की तरह तीनों लोक न होकर केवल पारहडव-संसार ही या जिसे वे अपने दिव्य दर्शन से रह-रह-कर पवित्र किया करते थे। व्यास के आने पर श्रीमान् युधिष्ठिर जी ने फिर वही अपना पुराना राग अलापना शुरू कर दिया ! वे कहने लगे कि मैं आज तक कभी भी झूठ नहीं बोला, मेरा मन कभी भी अधर्म की ओर नहीं मुक्ता, मेरे मन में तो ऐसा भासता है कि द्रौपदी का विवाह हम पाँचों माझों के साथ कर देना कोई अधर्म नहीं है और सबसे बढ़कर तो यह बात है कि सभी गुरुओं में अप्त माता का भी यही आज्ञा है। मालूम होता है कि युधिष्ठिर द्रौपदी जैसी अद्वितीय सुन्दरी को पाने के लिये अपने माझों से भी अधिक व्याकुल हो रहे थे। युधिष्ठिर के अपनी माता को दुहाई देने पर कुन्ती ने भी उनके साथ हाँ में हाँ मिलाया। पाठकवृन्द ! ये वही कुन्ती जो है जिन्होंने अपने विवाहित पति राजा पारहु के द्वारा नहीं बहिक पराए पुरुषों के द्वारा अपने कर्णादि चारों पुत्रोंको उत्पन्न किया था ? उनको इस्टि में नारी जाति के सतीत्व का महस्त ही क्या था ? वे तो चाहती ही थीं कि सभी जियाँ उनकी-सी ही होकर रहें; जिनमें उनको कोई जी इंसने न पावे। वडे गीदड़ का अन्य सभी गीदड़ों की पूँछ कटवा लेने की इच्छा रखना स्वाभाविक ही है; अन्यथा उन्होंने अनजान में दी हुई अपनी आज्ञा को वापस क्यों नहीं ले लिया जिसमें धर्म की अवहेलना न होने पावे ? उनका अपनी बात के मिथ्या हो जाने का बार-बार भय प्रकट करना केवल नस्वरावाज़ी या और तिस पर मिल गए दही में चीनी मिलाने वाले महात्मा वेदव्यास ? व्यास ने उक्त प्रस्तावित विवाह के समर्थन में राजा द्रुपद को दो उपाख्यान कह सुनाए। एक उपाख्यान तो वही ऋषि-कन्या वाला या जिसका उल्लेख पूर्व में हो चुका है और जिसे उन्होंने पारहडवों से पहले ही कह दिया था और दूसरा उपाख्यान

पाँच इन्द्रों का था। इस उपाख्यान के अनुसार पाँचों पाराइव पूर्व जन्म के पाँच इन्द्र थे और द्वौपदी उन इन्द्रों की स्वर्ग-लक्ष्मी थी जो उनकी समान पत्नी बनने के लिए उसी जन्म में महादेव द्वारा निश्चित हो चुकी थी। महादेव ने उन इन्द्रों को उनकी उद्दाइता तथा पदाभिमान से कुपित होकर उन्हें इस मर्यालोक में पाराइवों के रूप में दशड़-स्वरूप जन्म लेने की आशा दी थी। पर यहाँ प्रश्न यह उठता है कि पाँच इन्द्र समकालीन कैसे हो गए? कुल मिलकर प्रत्येक कल्प में चौदह मनुओं के मुताबिक चौदह इन्द्र होते हैं; पर एक काल में एक से अधिक इन्द्र नहीं हुआ करते। अतः एक काल में पाँच इन्द्रों का उपस्थित होना विना विवरण जाने, विश्वास-योग्य नहीं मालूम पड़ता। इसके अतिरिक्त एक बात और भी विचारने योग्य है कि पाँचों इन्द्रों ने तो शिव के प्रति अपनी उद्दाइता दिखाकर उनका अनादर किया था जिसके दशड़-स्वरूप वे पाँचों मनुष्य योनि में फैले गए; पर वेचारी स्वर्ग की लक्ष्मी ने शिव के साथ कौन-सा अपराध किया था जिसके कारण वह भी मर्यालोक में गिरा दी गई। इन सब बातों पर निष्पक्ष होकर विचार करने से यह पंचेन्द्रोपाख्यान भी असत्य ही मालूम होता है। इसपर तुरा यह कि व्यास ने द्वौपदी की पंचपतित्व सम्बन्धिनी राजा द्रुपद की शङ्का के समाधान में एक नहीं; बल्कि दो भिन्न-भिन्न उपाख्यान कहे; अतः दोनों का एक साथ सत्य होना असंभव है; यदि ऋषिकन्योपाख्यान सत्य है, तो पंचेन्द्रोपाख्यान नहीं; और यदि पंचेन्द्रोपाख्यान सत्य है तो ऋषिकन्योपाख्यान नहीं। इस निष्पक्ष तर्क के द्वारा दोनों ही उपाख्यानों की सत्यता संदिग्ध हो जाती है। यदि कहो कि कल्पभेद से दोनों ही उपाख्यान सत्य हो सकते हैं तो इस बात का निर्णय होना कठिन है कि जिन द्वौपदी तथा पांडवों के चरित्र पर विचार हो रहा है वे किस कल्प के ये तथा उस कल्प के साथ सम्बन्ध रखने वाला पूर्व

कथित दोनों उपाख्यानों में से कौन-सा उपाख्यान है और कौन-सा उपाख्यान नहीं है। इस तरह यदि हम एक गुत्थी को किसी भी रूप में सुलझाने में समर्थ होते हैं तो दूसरी गुत्थी उलझो ही रह जाती है। अतः जिन बातों की सत्यता स्वीकार करने में बुद्धि को इतना मरोड़ना पड़े, उन्हें नितान्त निर्मूल समझकर अस्वीकार कर देना ही बुद्धिमत्ता है।

द्रौपदी के पंचपतित्व के विषय में ब्रह्मवैवर्त पुराण, श्रीकृष्ण जन्मखण्ड, अ० ११५, में ऋषिकन्योपाख्यान से मिलती-जुलती एक दूसरी ही कथा लिखी है उस कथा के अनुसार छाया सीता ही ने, जिसे रावण हर ले गया था, शिव के वरदान से विष्णु के अंशभूत पाँच इन्द्रों को ही पति-स्वरूप पाया था। द्वापर में यही छाया सीता, पांचाली द्रौपदी के रूप में और पाँचों इन्द्र पञ्च-पाशद्वारों के रूप में उत्पन्न हुए थे—

साध्वि ॥ त्वं पञ्चधा ब्रूये पति देहीतिव्याकुला ।

पञ्चेन्द्राश्च हरेरंशा भविष्यन्ति प्रियास्तव ।

अर्थ—हे साध्वि ! तुमने 'पति देहि'; अर्थात् पति दीजिए, इस बात को पाँच बार कहा है; अतः विष्णु के अंशभूत पाँच इन्द्र तुम्हारे पति होंगे। पर यहाँ यह शंका होती है कि छाया सीता तो सीता से भिन्न कोई वास्तविक लौ न थी जो पति-प्राप्ति के लिए तार करे। उसके लिए भी असली सोता की तरह रामचन्द्र ही पति थे। अतः यह उपाख्यान विश्वास योग्य नहीं है।

मार्करडेय पुराण, अध्याय ५, में लिखा है कि एक ही इन्द्र पाँच रूपों में अवतीर्ण होकर पंचन्पाशद्व द्वापर हुए थे; अतः द्रौपदी वस्तुतः पाँच पतियों की पत्नी न होकर केवल एक ही पति की पत्नी थी—

पञ्चधा भगवानित्यमवतीर्णः शतकतुः ।

तस्योत्पन्ना महाभागा पत्नी कृष्णा हुताशनात् ॥२३॥

शक्त्यैकस्य सापत्नी कृष्णनान्यस्य कस्यचित् ।

योगीश्वराः शरीराणि कुवन्ति वहूलान्यपि ॥२४॥

अर्थ—इस प्रकार भगवान् इन्द्र पाँच प्रकार से अवतीर्ण हुए और उनकी महाभागा पत्नी कृष्णा यज्ञामि से उत्पन्न हुई ॥२३॥ कृष्णा केवल एक ही इन्द्र की पत्नी थी; किसी दूसरे की नहीं। योगीश्वर लोग अनेक शरीर धारण कर लेते हैं; कहने का तात्पर्य यह है कि एक ही इन्द्र ने पाँच शरीर धारण कर लिए थे; क्योंकि देवता होने के कारण उनकी योग-सिद्धि स्वाभाविक थी ॥२४॥

पर यदि एक ही विष्णु पाँच इन्द्रों, वा एक ही इन्द्र पाँच पारदवी के रूप में प्रकट हो सकते थे तो उग्र-तपस्विनी विचारी छाया सीता अथवा पूर्वकथित स्वर्ग-लक्ष्मी में कौन-सी त्रुटि थी जिसने उसे पाँच नारी रत्नों के रूप में अलग-अलग प्रकट होने नहीं दिया। यदि इन्द्र को तरह छाया सीता वा स्वर्ग-लक्ष्मी भी पाँच रूपों में प्रकट हुई रहती, तो राजा द्रुपद को इतने बखेड़ों का सामना नहीं करना पड़ता। पुराणाकारों के लिए इस प्रकार की कहानी की रचना उनके बाएँ हाथ का खेल था। पर प्रमादवश वे इस काम में चूक गए और केवल इन्द्र को ही पाँच से गुणा करके छोड़ दिया और छाया सीता वा स्वर्ग-लक्ष्मी को ज्यों की त्यो रहने दिया। असल बात तो यह थी कि अति प्राचीन काल में एक खो का एक ही समय में अनेक पुरुषों के साथ विवाह होने की प्रथा प्रचलित थी जिसके कुछ उदाहरण भी, जैसे जटिला आदि के, युधिष्ठिर ने द्रुपद को दिये थे। पर कालक्रम से यह प्रथा द्रुपद के समय में लुप्तप्राय हो गई थी, जिससे उन्हें ऐसे विवाह की धर्मानुकूलता में सन्देह हुआ, जिसे दूर करने के लिए व्यास को पूर्वोक्त ऋषि-कन्या वा पञ्चेन्द्र से सम्बन्ध रखने वाली दो मिथ्या पौराणिक कहानियों का आश्रय लेना पड़ा। पर व्यास ने तो अपने को ऐसी तरदुद में नाहक फँसाया। वे तो

सिर्फ़ यही कहकर अपने कूर समालोचकों से अपना पीछा छुड़ा सकते थे कि और भाई ! संसार में जितने पुरुष हैं वे विष्णु के तथा जितनी ख्लियाँ हैं वे लद्धी के ही रूपान्तर हैं; अतः सभी पुरुष सभी ख्लियों के साथ भोग-विलास कर सकते हैं; इसमें कोई भी पाप नहीं है। पाठकों को यह कभी भी भूलना नहीं चाहिए कि यह वही हिन्दू जाति है जिसमें किसी काल में पंचमकारी तथा सप्तमकारी जीवों तक का प्रादुर्भाव हो चुका है, जिनकी विमल कार्तिं को श्रीपुरी धाम के देव मन्दिरों की पवित्र दीवारों पर बनी हुई तथा ‘अपने मुँह मिथ्यां मिछ’ वाली कहावत को चरितार्थ करने वाली इस सम्बन्ध-मन्य जाति के मुँह कालिक्षण पोतने वाली अश्लील चित्रावलियाँ कराल काल के प्रबल थपेड़ों से बचाती हुई सदा के लिए अटल बना दिया है तथा जिनका मूलमन्त्र या ‘अहं भैरवस्त्वं भैरवी ख्यावयोरस्तु सङ्घमः’; अर्थात् मैं शिव हूँ और तुम पार्वती हो; हम दोनों का संगम हो। इस मंत्र का उच्चारणकर कोई भी पुरुष किसी भी खा के साथ व्यभिचार कर सकता था। अतः व्यास ने दो मिथ्या कहानियाँ गढ़ने का प्रयास किया।

अब जरा इसी प्रसंग में युधिष्ठिर के जुआ-सम्बन्धी आनंदगा पर भी विचार कीजिए जिसके अन्तिम परिणाम में अद्वाह अद्वौ-हिणों सेनाएँ कुरुक्षेत्र के रक्षावित धरातल पर युधिष्ठिर का मर मिटी। जब धृतराष्ट्र की आशा से विदुर युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए बुला लाने इन्द्र-प्रस्थ गए, तो युधिष्ठिर ने विदुर से जुआ की बड़ी निन्दा की; तथापि उन्होंने कहा कि जुआ खेलने के लिए ललकारे जाने पर मैं कभी भी सुँह नहीं मोड़ता। महामारत, सभापर्व, ४८-अध्याय, देखिए—

द्यूते द्वन्द्वः कलहो विद्यते नः को वै द्यूतं रोचते बुध्यमानः ।

किया भवान् मन्यते युक्तरूपं भवद्वाक्ये सर्वं एव स्थिताःस्म ॥१०॥

अर्थ—युधिष्ठिर ने कहा कि है जूता ! जुआ खेलने से हम लोगों में झगड़ा होना निश्चय है । ऐसा जानकर जुआ किसको अच्छा मालूम हो सकता है ? वा आपही कहें कि क्या करना उचित है । हम लोग सर्वथा आपके ही वचनानुसार चलने वाले हैं ॥१०॥

आगे चलकर युधिष्ठिर ने फिर कहा—

'न चाकामः शकुनिना देविताहं न चेन्मा जिघ्णु गाहृयति सभायाम् ।  
आहूतोऽहं न निवर्त्ते कदाचित् तदादितं शाश्वतं वैत्रतमे' ॥१॥

अर्थ—यदि शकुनि मुझे जीतने के लिए सभा में न ललकारेगा तो मैं अनिच्छु होने से उसके साथ जुआ कदापि न खेलूँगा । पर मेरा यह सनातन व्रत है कि ललकारे जाने पर मैं कभी भी मुँह नहीं मोड़ता ॥१६॥

हस्तिनापुर पहुँचने पर युधिष्ठिर ने शकुनि से भी जुए की बड़ी निन्दा की; और उससे भी डींग हाँकी कि ललकारे जाने पर मैं मुँह नहीं मोड़ता । सभा पर्व, ५६ अध्याय, पद्धिए—

निकृतिदेवनं पापं न ज्ञात्रोऽत्र पराक्रमः ।

न च नीतिष्ठ्रुंवा राजन् किंत्वं यूतं प्रशंससि ॥५॥

नहि मानं प्रशंसन्ति निकृतौ किंतवस्य हि ।

शकुने मैव नो जैषी रमागेण नशंसवत् ॥६॥

अर्थ—युधिष्ठिर शकुनि से कहते हैं कि है राजन् ! छुल से जुआ खेलना पाप है । इसमें न तो ज्ञात्रिय का पराक्रम ही है और न कोई स्थिर नीति है । आप जुए की ज्यों प्रशंसा करते हैं ! ॥५॥ जुआड़ी कपट में जैसी बड़ाई मानते हैं, जुदिमान् लोग उसकी तनिक भी प्रशंसा नहीं करते । है शकुनि ! कूर एवज के समान अनुचित मार्ग से तुमें मुझे न जीतो ॥६॥ पुनर्ब्र—

आहूतो न विवत्तेयमिति में व्रतमाहितम् ।

विधिश्च वलवाब्रजन् दिष्टस्यात्मि वशेस्थितः ॥१८॥

**अर्थ—**युधिष्ठिर ने फिर शकुनि से कहा कि हे राजन् ! जुआ खेलने के लिए किसी के द्वारा ललकारे जाने पर मुँह न मोड़ना यही मेरा निश्चित व्रत है । दैव वलवान् है । मैं उसी के वश में स्थित हूँ ॥१८॥

अब यहाँ यह विचारना है कि जब युधिष्ठिर जानते ही थे कि जुआ एक बड़ी बुरी चीज़ है तो उन्होंने इसे खेला ही क्यों ? इसके कुपरिणामों को जानते हुए भी उनका जुआ खेलना अद्वय था । उनका यह ढींग-हँकिना कि ललकारे जाने पर वे जुए से मुँह नहीं मोड़ते, और भी अनुचित तथा हास्यजनक मालूम होता है और यदि वे इसमें अपनी प्रतिष्ठा समझ बैठे हों, तो उनकी सरासर भूल थी; क्योंकि उनकी यह ढींग उस व्यक्ति की ढींग-सी मालूम होती है जो यह कहा करता हो कि शराब बहुत ही बुरी चीज़ है; मुझे उसका कभी पीना पसंद नहीं; पर यदि कोई मुझे शराब पीने के लिए ललकारे तो मैं घर-द्वार सब कुछ बेंचकर मट्ठी की मट्ठी भी चट कर सकता हूँ इत्यादि । पर बुरे काम के लिए किसी गुण्डे की ललकार स्वीकार करने में जो अपनी शान समझते हैं उन्हें निरे मूर्ख समझना चाहिए । युधिष्ठिर को साहस होना चाहता था कि शकुनि की ललकार को स्वीकार करने के बदले उसे कड़ी फटकार सुनाते, जिससे यह सर्वनाशी जुआ न होने पाता । पर उसके सामने उनका साहस दिखाना तो दूर रहा; वे लगे उसकी शिकारिश करके कहने कि हे राजन् ! मुझे धोखा देकर न जीतिए । उनका यह बुद्धूपना देख तरस आता है कि उन्हें जुआड़ियों का चालबाज़ होना मालूम न था । वे जुआड़ियों तथा गुण्डों की कपट-लीला से पूर्णतः अनभिज्ञ थे ।

आखिरकार धूर्तराज शकुनि ने युधिष्ठिर के कायरपने तथा

बुद्धपने का अनुचित लाभ उठाकर उन्हें जुआ खेलने पर राजी कर लिया और वे भी दैव-पाश-वद्ध एक मूक पशु की तरह अपने भविष्य को भाग्य पर छोड़कर शकुनि के झाँसे-पट्टी में आ गए और जुआ शुरू हो गया। खेलते-खेलते युधिष्ठिर एक एक करके अपना राज-पाट, धन-जन सब कुछ हार गए। जब दाँव पर रखने के लिए उनके पास कोई सम्पत्ति न रह गई तो वे पहले तो एक-एक करके अपने भाइयों को, फिर अन्त में स्वयं अपने को भी दाँव पर रखकर खो देठे और प्रत्येक बार जीतते समय शकुनि के मुँह से यही बात निकलती थी कि यह भी मैंने जीता—

एतच्छुत्वा व्यवसितो निकृतिं समुपाश्रितः ।  
जितमित्येव शकुनियुधिष्ठिरमभाषत ॥

अर्थ—युधिष्ठिर अपनी चोजों को दाँव पर रखते हुए प्रत्येक बार यही कहा करते थे कि ‘एतद्राजन् यम धनं तेन दीव्याम्यहंत्वया’ अर्थात् हे राजन्! यह मेरा धन है; इसको दाँव पर रखकर मैं आपके साथ जुआ खेलता हूँ। इसको सुनकर छली शकुनी पाश फेंककर युधिष्ठिर से यह कहता था कि यह भी मैंने जीता।

सब कुछ हार जाने के बाद युधिष्ठिर के पास केवल एक द्रौपदी बच गई। निदान उसको भी उन्होंने शकुनि के बहकाने पर दाँव पर रख दिया और कहा—

तथैवंविधया राजन् पांचाल्याहं सुनध्यया ।  
मलहं दीव्यामिन्नावंक्षया द्रौपद्या हन्त ! सौवल ॥

समा, ६४३६॥

अर्थ—हे सुवल राजपुत्र शकुनि! यद्यपि पूर्वोक्त प्रकार के गुणों से युक्त तथा सुन्दर अंग और सुन्दर कमर वाली द्रौपदी को दाँव पर

रखना बड़े दुःख की बात है; तथाति में उसी को दाँव पर रखकर खेलता हूँ।

युधिष्ठिर के मुँह से उक्त वचनों के निकलते ही उस सभा में बैठे हुए वृद्धजन उनको बारबार घिक्कारने लगे। पर इन घिक्कारों का उन पर कुछ भी असर न हुआ और वे द्रौपदी जैसी अद्वितीय सुन्दरी को आस्तिर खोकर ही स्थिर हुए। मालूम होता है कि युधिष्ठिर जुआ खेलने के लिए इतने पागल हो गए थे कि उन्हें उचितानुचित का कुछ भी ज्ञान न था। यह है हालत हिन्दू जाति के धर्मावितार तथा पुण्यश्लोक महाराज युधिष्ठिर की! इनसे तो कहीं अच्छे थे राजा नल जो पुष्कर के साथ जुआ खेलते खेलते सब कुछ हार गए; पर दमयन्ती को उन्होंने दाँव पर भी न रखा। इसके बाद दुःशासन के द्वारा केश पकड़कर तथा उस राजसभा के बीच घसीटकर लाई हुई रवस्तुला, एकवसना, नगप्राया, करण-कन्दिनी द्रौपदी को जो दुर्गति हुई उसका रोम अकारी वर्णन महाभारत के पाठकों से छिपा नहीं है। उसकी इस हृदयविदारिणी दुरवस्था का एकमात्र कारण युधिष्ठिर की मूर्खता थी। पाठकों के हृदय में शोक, क्रोध और आश्वर्य तो इस बात को देखकर होता है कि द्रौपदी का यह असह्य अपमान उसके पर्चों पतियों के सम्मुख ही हो रहा था; पर वे काठ के उल्लू की तरह यिना कुछ ची-चपड़ किये हुए चुपचाप उसे देख रहे थे। इस घोर अपमान के विरुद्ध अगर किसी ने पारदर्शी में से आवाज उठाई तो केवल भीम ने; पर वे भी अर्जुन के धर्म की मूर्खतापूर्ण दुहाई देने पर रुक गए। सभा पर्व, ६७ अध्याय, पद्धि—

न सकामाः परे कार्या यममेवाचरोत्तमम् ।

भातरं धार्मिकं ज्येष्ठं कोऽतिवर्त्तितुमर्हति ॥८॥

आहूतोऽपिपरै राजा ज्ञात्रंवतमनुस्मरन् ।

दीव्यते परकामेन तजः कीर्त्तिकरं महत् ॥६॥

अर्थ—भीम युधिष्ठिर को द्रौपदी को हार जाने के कारण कोस रहे थे कि इत पर अर्जुन ने उनसे कहा—हे भीम ! तुम्हें शत्रुओं की मनःकामना नहीं पूरी करनी चाहिए । तुम उत्तम धर्म का ही आचरण करो । भला कौन ऐसे हैं जो एक धर्मात्मा वडे भाई का तिरस्कार करे ॥६॥ राजा युधिष्ठिर ने शत्रुओं के द्वारा बुलाए जाने पर ज्ञात्रियों का धर्म विचारते हुए उनकी कामना से जो जुआ खेला है वह भी हम लोगों की कीर्ति का कारण है ॥६॥

न मालूम अर्जुन किस कपोल-कल्पित धर्म की दुहाँ दे रहे थे । यह सर्वशास्त्र-सम्मत सिद्धान्त है कि अधर्म को प्रोत्साहित करना भी अधर्म है । युधिष्ठिर भली भाँति जानते थे कि शकुनि अधर्म का जुआ खेल रहा है । यह बात उन्हें उसकी पहली हो जीत में मालूम हो गई थी और उन्होंने कहा था—

मत्तकैतवकेनै यज्ञितोऽस्मिन्दुरोदरे ।

शकुने हन्त दीव्यामो ग्लहमानाः परस्परम् ॥सभा ६०॥१॥

अर्थ—युधिष्ठिर ने शकुनि से कहा कि हे शकुनि ! तुमने मुझे इस जुए में छुल से जीत लिया है । यह शोक की बात है । तथापि इम लोग परस्पर बाज़ी लगाते हुए जुआ खेलें ।

युधिष्ठिर को ज्यों ही शकुनि की कपट-न्लीला मालूम हुई त्यों ही उनको उसका विरोध करना तथा उसके अपनी चालबाज़ी को नहीं छोड़ने पर उस छलपूर्ण जुए से अलग हो जाना ही उचित था । पर उनमें वह साहस था कहाँ ? वे तो शकुनि के प्रभाव से इस प्रकार प्रभावित हो रहे थे कि वे एक महादब्बू की तरह उसकी खुशामद में अपना धन हार-हारकर उसको इस अधर्म के जुए में बराबर प्रोत्साहन देते चले गए । अतः मेरे इस कथन में तनिक भी अत्युक्ति नहीं है

कि ददि शकुनि अधर्मी या तो उसको प्रोत्साहित करने वाले महाराज युधिष्ठिर कुछ कम अधर्मी तथा तिरस्कार योग्य न थे।

अब इस प्रसंग में द्रौपदी के उस प्रश्न पर भी विचार करना उचित है जिसका उत्तर युधिष्ठिर से पूछ आने को उसने प्रातिकामी से कहा था—

गच्छु त्वं कितवं गत्वा सभायो पृच्छ सूतज ।

किन्तु पूर्वे पराजैयोरात्मान मथवानुमाम् ॥७॥

एतज्जात्वा समागच्छु ततो मां नय सूतज ।

ज्ञात्वा चिकीर्षित महं राशो यास्यामि दुःखिता ॥८॥

अर्थ—द्रौपदी ने प्रातिकामी से ( जो दुर्योधन की आज्ञा से जीती हुई द्रौपदी को सभा में बुलाने के लिए गया था ) कहा कि हे सूतपुत्र ! तुम सभा में जाकर उन खिलाड़ी राजा से पूछ आओ कि उन्होंने पहले अपने को हारा है कि मुझको ॥७॥ इसका उत्तर मालूम करके आओ तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगी । मैं राजा का अभिप्राय जानकर चलूँगी; यद्यपि इसमें मुझे दुःख है ॥८॥

प्रातिकामी के मुँह से द्रौपदी के उक्त प्रश्न को सुनकर युधिष्ठिर ने तो मानो निष्प्राण होकर उसे भला-बुरा कुछ भी उत्तर नहीं दिया; पर दुर्योधन ने उससे कहा कि तुम जाकर द्रौपदी से बोलो कि वह इस सभा में ही आकर जो कुछ उसे पूछना हो पूछे; उसे समुचित उत्तर दिया जाएगा । निदान दुःखासन द्वारा केश पकड़ तथा घसीट कर सभा में लाई जाने पर द्रौपदी ने सभासदों से अपने प्रश्न का उत्तर बार-बार माँगा; पर किसी के भी कान पर जूँ तक नहीं रेंगी । बाबा भीष्म ने जो एक बड़े ही धर्मनिष्ठ और अटल ब्रतधारी व्यक्ति समझे जाते थे, कुछ दुरंगी बातें कहकर द्रौपदी के प्रश्न को, किसी न किसी बहाने, टाल देना ही उचित समझा । उन्होंने कहा—

न धर्मं सौदमात् सुभगे विवेकुं शक्तनोमिते प्रश्नमिमं यथावत् ।

अस्वाम्यशक्तः पणितुं परस्व खियाश्च भत्तुं वंशतां समीक्ष्य ॥

समाप्तम् ६६ । ४६ ।

अर्थ—हे सुभगे ! धर्म की सूचनाता के कारण मैं तुम्हारे इस प्रश्न का ठीक-ठीक उत्तर नहीं दे सकता । जो पुरुष स्वयं स्वामी नहीं है वह पराए धन को बाज़ी पर नहीं रख सकता; पर देखता हूँ कि सबीं आपने पति के वश में रहती हैं ।

पाठकगण ! देखा आप लोगों ने इन पितामह-भीम की दो-तरफ़ी बातें ! पहले तो आपने कहा कि जो पुरुष स्वयं गुलाम है, उसकी कोई भी निजी सम्पत्ति नहीं रहती जिसे वह दौँब पर रख सके । पर पीछे आपने कहा कि खियों के विषय में, उनकी पतिवशता के कारण, इसका ठीक-ठीक निर्णय करना कठिन है कि वे पति के गुलाम हो जाने पर भी उसकी निजी सम्पत्ति पूर्ववत् बर्ना रहती है वा नहीं । यही उनके कथन का तात्पर्य है । पहले वे द्वौपदी के पक्ष में फैसला देकर पीछे गड़बड़ा गए । और आपने इस गड़बड़ाने का कारण उन्होंने उस समय बताया जब द्वौपदी उन्हें बाण-शश्या पर से धर्मोपदेश करते हुए, देखकर इस बात पर मुस्काई कि जब भरी राजसभा में मेरी दुर्गति हो रही थी तो इनकी यह धर्म-बुद्धि कहाँ चली गई थी ? जिस पर उन्होंने द्वौपदी के मन की बात ताङ्कर अपनी सफाई यह कहकर दी थी, कि है पुत्री ! दुरात्मा दुर्योधन का अन्न खाने से मेरी बुद्धि उस समय कलुषित हो गई थी अतः तुम्हारे प्रश्न का धर्मानुकूल उत्तर न दे सका । पर पाठकबृन्द ! दुर्योधन का ही अन्न तो विदुर और विकर्ण भी खा रहे थे; उनकी बुद्धि क्योंकर कलुषित नहीं हुई ? मुख्य प्रश्न तो यह था कि क्या दासी के साथ भी ऐसा कृत्स्नित व्यवहार करना भद्रजनोचित कार्य या ? पर पापी पेट के लिए पितामह जी दुर्योधन के इस प्रकार

अन्नदास हो रहे थे कि उनसे खुलकर विरोध करते न बना। क्या हिन्दुओं के आदर्श धर्मज्ञ ऐसे ही होते थे? भीष्म की अवस्था बानप्रस्थ लेने की थी। वहाँ पर वे कन्द-मूलादि से अपना पेट भरते हुए अपने जीवन का अन्तिम भाग तपस्या में विताते। न मालूम क्यों वे दुयोधन में जोक की तरह अब तक भी चिपके रहे।

निदान उस सभा में वैठे हुए। भीष्म, धृतराष्ट्र, विदुर, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि बड़े-बड़े महानुभावों तथा नाना देश से आए हुए राजाओं ने जब द्रौपदी के प्रश्न का कुछ भी उत्तर नहीं दिया, तो धृतराष्ट्र के पुत्र तथा दुयोधन के अनुज विकर्ण से न रहा गया। वह उस भरी राजसभा में खड़ा होकर यों कहने लगा कि युधिष्ठिर ने द्यूतरूपी व्यसन में मत्त होकर तथा शकुनी आदि जुआँहियों से बहकाए जाने पर द्रौपदी को दाँब पर रखा है, जो केवल एक उन्हीं की छोटी न होकर अन्य सभी भाइयों की भी समान छोटी है, तथा उसको दाँब पर रखने के पहले वे स्वयं अपने को हार चुके थे; अतः उस पर उनका कोई भी अधिकार नहीं था कि वे उसे दाँब पर रख सकें। इन सब बातों पर विचारकर मैं द्रौपदी को जीती हुई नहीं मानता। पर उसे बालक कहकर उसकी बातों पर दुयोधन के दल बालों ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। तत्पश्चात् कर्ण की आज्ञानुसार दुःशासन द्रौपदी की साड़ी खींचकर उसे भरी सभा में नंगी करने लगा और वह निःसहाय होकर कुररी की नाइ आर्त स्वर से विलाप करने लगी। जब उसके प्रश्न का किसी ने उत्तर नहीं दिया, तो दुयोधन ने उसे जीती जाने वा न जीती जाने का निर्णय युधिष्ठिर पर ही छोड़ दिया और आप अपनी चाहौं जाँघ पर से बख्त हटाकर उस पर आकर बैठ जाने के लिए द्रौपदी की ओर संकेत करने लगा। जब ये असह्य अत्याचार उसके ऊपर हो रहे थे कि राजा धृतराष्ट्र के घर तथा अग्निहोत्रशाला में गीदड़, गदहे, पक्की आदि के धोर

शब्दरूपी विविध उत्पात होने लगे, जिनसे भय खाकर उन्होंने द्रौपदी पर अनुग्रह करते हुए उसके युधिष्ठिर आदि पाँचों पतियों एवं उसके पुत्र प्रतिविन्द्य को दास भाव से मुक्त कर दिया और जुए में जाते हुए उनके राज-पाट, धन-दीलत, सब कुछ लौटा दिए।

पर शामत का भूत केवल दुर्योधन के ही सिर पर नहीं नाच रहा था; वह तो इससे भी भयंकर ताण्डव युधिष्ठिर के सिर पर नम होकर कर रहा था। ये धर्मराज के सुपुत्र अपने सम्पूर्ण वैभव को, जिसे वे जुए में हार चुके थे, धृतराष्ट्र के अनुग्रह से वापस पाकर घर ( इन्द्रप्रस्थ ) लौटे जा रहे थे। वे अभी रास्ते में ही थे कि दुर्योधन ने अपने इष्ट-मित्रों की राय तथा पुत्र-स्नेह विहूल अतः कार्याकार्यविमर्शहीन हतमाग्य अन्वे पिता की अनुमति से अपने एक दूत द्वारा उनके पास जुआ खेलने को दुवारा चैलेंज भेजा। युधिष्ठिर भी जो दैव की प्रेरणा तथा अपनी खामख्याली के कारण ललकारे जाने पर जुर से मुँह नहीं मोड़ना ही अपना सनातन ब्रत समझते थे, अपनी सारी विपत्तियों, मानसिक कष्टों तथा अपनी और अपनी प्रिया द्रौपदी की सारी सापमान दुर्गतियों को, जिन्हें वे अभी योड़ा देर पहले जुए के परिणाम-स्वरूप भांग चुके थे, एकबारगी भूल-कर शकुनि के साथ फिर जुआ खेलने के लिए रास्ते में से ही हस्तिनापुर तत्काल लौट आए। अब को बार के जुए का निम्नलिखित शर्त या समापव्र अध्याय ७५ पढ़िए। शकुनि युधिष्ठिर से कहता है—

वयं वा द्वादशाब्दानि युम्माभिर्यूतं निर्जिताः ।

प्रविशेम महारथ्यं रौरवाजिनवासमः ॥१०॥

त्रयोदशं च सज्जने अज्ञाताः परिवत्सरम् ।

शाताश्च पुनरन्यानि वने वर्षाणि द्वादशा ॥११॥

अस्माभिर्निजिता यूं वनेद्वादशवत्सरान् ।

वसध्वं कृष्णया साद्ब्रह्मजिनैः प्रतिवासिताः ॥१२॥

त्रयोदशे च निरुचे पुनरेव यथोचितम् ।

स्वराज्यं प्रतिपत्तव्यमितरैः रथवेतरैः ॥१३॥

**अर्थ—**यदि आपके द्वारा हम जीते जाएँ, तो हम बारह वर्ष तक मृग-चर्म पहने हुए महाजंगल में बास करेंगे ॥१०॥ और एक वर्ष अर्थात् तेरहवें वर्ष मनुष्य देश में गुप्त रूपसे रहेंगे । यदि कोई जान ले तो फिर बारह वर्ष तक बन में बास करेंगे ॥११॥ यदि इमने आपको जीता तो आप पाँचों पाण्डव द्रौपदी के साथ मृगचर्म पहने हुए बारह वर्ष तक बन में रहें ॥१२॥ और तेरहवें वर्ष अज्ञात रूप से रहें; यदि कोई जान ले तो फिर बारह वर्ष तक बन में रहें । इस प्रकार तेरह वर्ष चिताकर जो लौट आवे वह अपना राज्य पावे ॥१३॥

शकुनि के उक्त वचन को सुनते ही सभा में चारों ओर से सभासदों के द्वारा ऐसे जुए पर बारबार धिक्कार दिया जाने लगा; पर युधिष्ठिर सभासदों के दुर्वचनों का कुछ भी न ख्यालकर, नियति की फौंस में फैसे एक मूक तथा किंकर्तव्यविमूढ़ पशु की तरह दौच पर बैठ गए और शकुनि ने एक ही बार पाशे फेंककर उनका सर्वस्व अपहरण कर लिया । क्या युधिष्ठिर जैसे कायर, व्यक्तिलहीन तथा दूसरों के बहकाने पर जान-बूझकर अधर्म के कार्य में उन्मत्त की तरह भाग लेने वाले जीव को धर्मराज की उपाधि देना बुदिसंगत है ? कभी नहीं ।

यहाँ तक महाभारत के मुख्य-मुख्य पात्रों के आचरण पर, जिन्हें अन्वयित्वासी हिन्दू महासमर्थ, अतः सर्वथा निर्दोष मानते हैं, विचार हो चुका । क्या मैं उनसे पूछ सकता हूँ कि यदि वे समर्थ और निर्दोष थे तो मृत्युपरान्त वे सब के सब नरक में क्यों ढकेले गए जैसा कि स्वर्गारोहण-पर्व के अध्याय २ से मालूम होता है ? द्रोणा-चार्य के मृत्यु-विषयक कुछ मुठ बोल देने के दरड़-स्वरूप देवदूत युधिष्ठिर को नरक की हवा स्विला रहा या कि वे वहाँ के असह

दुर्गन्ध से व्याकुल होकर लौटने पर उत्थत हुए। इस पर उनके कानों में ये दुःखपूर्ण वचन सुनाई पड़े कि हर्मपुत्र युधिष्ठिर आप यहाँ से न जाइए। आपकी सुगन्ध से सुगन्धित होकर जो वायु चलती है उससे हम लोगों को सुख मिलता है इत्यादि। इस पर युधिष्ठिर ने पूछा कि आप लोग कौन हैं? तो उत्तर मिला—

इत्युक्तास्ते ततः सर्वे समन्तादावभाष्ये ।

कर्णेऽहं भीमसेनोऽहं मर्जुनोऽहमिति प्रभो ॥४०॥

नकुलः सहदेवश्च धृष्टद्युम्नोऽहमित्युत ।

द्रौपदी द्रौपदेयाश्च इत्येवं ते विचु कुशुः ॥४१॥

**अर्थ—**इस प्रकार पूछे जाने पर वे सब ज्ञारों से चिल्ला उठे कि है प्रभो! मैं कर्ण हूँ; मैं भीमसेन हूँ; मैं अर्जुन हूँ; हम लोग नकुल, सहदेव, धृष्टद्युम्न, द्रौपदी तथा द्रौपदी के पुत्र हैं। क्या इससे यह नहीं मालूम होता कि ये सबके सब दोषी थे? नहीं तो ये नरक में क्यों डाले गए?

(१) तारा। इस नाम की प्राचीनकाल में चार छियाँ हो गई हैं—(१) कपिराज चाल की लड़ी; (२) देवगुरु वृहस्पति की लड़ी; (३)

तारा नाम की एक देवी और (४) राजा हरिश्चन्द्र तारा को लड़ी। ‘पंचकन्या’-सम्बन्धी पूर्वोक्त श्लोक में जिन

पाँच छियों के नाम आए हैं उनमें चार अर्थात् अहल्या, द्रौपदी, कुन्ती और मन्दोदरी, इस मत्त्यलोक की निवासनी थीं; अतः हो न हो तारा भी कोई मत्त्यलोक की ही लड़ी रही होगी। इस तरह से देवलोक की रहने वाली वृहस्पति की लड़ी तथा तारा नाम की देवी छुँट गई और रह गई वाली तथा हरिश्चन्द्र की छियाँ। पूर्वोक्त श्लोक में उक्त चार छियाँ चहुपतिकाएँ थीं? अतः तारा भी कोई चहुपतिका लड़ी होगी; पर यह सभी को मालूम है कि हरिश्चन्द्र

की खी एक पतिका थी। इस तरह इसके भी छुँट जाने पर केवल बालि की खी बँच जाती है, जिसका पहला पति बालि तथा दूसरा पति सुग्रीव था, जैसा कि बाल्मीकीय रामायण, किञ्चिन्धा कांड, संग २६, श्लोक ४, से मालूम होता है—

स्वा च पलीमभिप्रेतां तारां चापि समीप्तिताम् ।

विहरन्तमहोरात्रं कृतार्थं विगतज्वरम् ॥

**अर्थ—**हनूमान् सुग्रीव से बोले जो अपनी व्यारी खी रुमा तथा खूब नाही हुई तारा के साथ रात-दिन विहार कर रहे थे, जिनका मनोरथ पूर्ण हो गया था और जिनके क्लेश मिट चुके थे ॥४॥

नोट—सुग्रीव ने रामचन्द्र को वचन दिया था कि बालि के मारे जाने तथा राज्य के मिल जाने के बाद सीता की खोज के लिए मैं प्रवन्ध करूँगा; पर वे राज्य तथा मुन्दर रानियों के उपभोग में इतने लिप्त हो गए थे कि वे अपना उक्त वचन भूल गए थे। हनूमान् ने उन्हें अपने वचन की याद दिलाने के लिए उनसे उक्त रामायण में लिखी आगे की बातें कही हैं। इसी प्रसंग में आध्यात्मरामायण, किञ्चिन्धाकांड, संग ५, श्लोक ४६, में लिखा है—

राज्ये प्रतिष्ठितोऽसित्वं तारां प्राप्तोऽसिदुर्लभाम् ।

स रामः पवर्तस्याग्रे भ्रात्रा सह वसन् सुधीः ।

त्वदागमनमेकाभ्यन्तरे कार्यंगौरवात् ॥४६॥

**अर्थ—**हनूमान् ने सुग्रीव से कहा कि तुम राजगढ़ी पर बैठ गए और अति दुर्लभ तारा भी तुम्हें भिल गई। और बुद्धिमान् रामचन्द्र अपने भाई के साथ प्रवर्षण शील पर बैठे हुए सीतान्वेषणरूपी कार्य की गुफता के कारण तुम्हारे आने की प्रतीक्षा एकाग्रचित्त होकर कर रहे हैं। हनूमान् के कहने का तात्पर्य है कि है सुग्रीव। रामचन्द्र के कार्य को तुम भले ही भूल जाओ; पर वे स्वयं उसे नहीं भूल सकते।

इन सब प्रमाणों से सिद्ध है कि तारा ने अपने प्रथम पति यालि के मारे जाने के बाद उसको मरवाने वाले अपने छोटे देवर सुश्रीव के साथ विवाह कर लिया था, अतः वह द्विपतिका थी।

(४) कुन्ती। कुन्ती के विषय में तृतीय तथा इस परिच्छेद में पर्याप्त लिखा जा चुका है। देख लीजिए। इसका कुन्ती संसर्ग सूर्य, पारहु, धर्मराज, पवन और इन्द्र, इन पाँच पुरुषों के साथ होने के कारण इसे भी पंचपतिका कह सकते हैं।

(५) मन्दोदरी। यह भुवन-विश्वात लंकेश्वर रावण की मुख्य महिषी तथा राज्ञों के विश्वकर्मा प्रसिद्ध दैत्य मय मन्दोदरा की कन्या थी। रावण के मारे जाने पर इसने अपने लघुदेवर विभीषण के साथ अपना पुनर्विवाह कर लिया था। तुलसीकृत रामायण लवकुश काशड में लव विभीषण से, जो उनसे रामाश्वमेघ के समय लड़ने आए थे, कहते हैं—  
सुनु शठ बन्धुहि समर जुकाई । शत्रुहि मिल्यो परम कदगई ॥१॥  
पिता समान बन्धु बड़ तोरा । त्रिया तासु लै घर वर जोरा ॥२॥  
पापी मातु कहो कै बारा । सो पल्ली यह घरम तुम्हारा ॥३॥  
बूढ़ि मरहु सागर महँ जाई । मरु गर काट अधम अन्याई ॥४॥  
अर्थ—रे शठ ! सुन; तू एक परम कादर की तरह शत्रु से जा

क्यद्यपि तुलसीकृत रामायण का लवकुश काशड एक चैपक-मात्र है; क्योंकि गोसाई जी ने रामाश्वमेघ की कथा नहीं लिखी; तथापि यह चैपक मानने योग्य है; कारण कि प्रामाण्य अन्थों के आधार पर ही इसकी रचना हुई है और गोसाई जी ने भी ‘सोइ करतूत विभीषण केरी’ लिखकर विभीषण का मन्दोदरी को अपनी रानी बना लेना मान लिया है।

मिला और तू अपने भाई की समर में मृत्यु का कारण बना ॥१॥  
 तेरा बड़ा भाई तेरे लिए पिता-तुल्य था । उसकी ली को तूने बल-  
 पूर्वक घर में रख लिया ॥२॥ रे पापी ! जिसे तूने कहै चार माता  
 कहकर पुकारा, उसे अपनी ली बना ली; यही तेरा धर्म है ॥३॥ रे  
 नीच अन्यायी ! तू या तो समुद्र में जाकर द्वंद्व मर या अपनी गर्दन  
 काटकर मर जा ॥४॥

हिन्दू जाति के विशाल पौराणिक साहित्य में वर्णित पूर्वोक्त तथा-  
 कथित पञ्चकन्याओं के आचरण पर निधन एवं सूक्ष्म भाव से  
 विचार करने पर हम लोग इसी निर्णय पर पहुँचते हैं कि वे हिन्दू-  
 धर्मानुसार पतिव्रताओं के एकपतिव्यरूपी मुख्य आदर्श से न्यूनाधिक  
 सभी गिरी हुई थीं; अतः उनके नाम-स्मरण का कुछ भी महत्व  
 नहीं देख पड़ता । इस कपोल-कल्पित महत्व का आधार हिन्दू  
 जाति का वह अन्धविश्वास है जो उन्हें अवनति के रसातल  
 में निरकाल से ढकेले हुए है । यदि पञ्चकन्या-सम्बन्धी पूर्वोक्त श्लोक  
 में अहल्या आदि की जगह सीता आदि के नाम, जैसा कि वे निम्न-  
 लिखित श्लोक के रूप में वद करके लिख दिए गए हैं, लिए जाते  
 तो कहीं अच्छा होता—

सीता शैव्या च सावित्री गान्धारी भीमनन्दिनी ।

पञ्चकं ना स्मरेन्नित्यं महापातकनाशनम् ॥

अर्थ—सीता ( श्रीरामचन्द्र की ली ), शैव्या ( प्रसिद्ध राजा हरिश्चन्द्र की ली जिसने अपने पति की विश्वामित्रकृत कठोर धर्म-परीक्षा में भी उसका साथ नहीं छोड़ा; वल्कि जो आप भी ऋषि-शृणु से अपने पति को मुक्त कराने के लिए दासी के रूप में विक गई ), सावित्री ( जिसने अपने पातिव्रत्य से निश्चुर यमराज को भी दयाद्वितकर अपने मृत पति सत्यवान को जिला लिया ), गान्धारी ( अन्ये धृतराष्ट्र की ली जिसने अपने पति के अन्ये होने के कारण अपने

को उससे अधिक हृष्टिजन्य मुखभोग की अनधिकारिणी समझ अपनी आँखों पर याबज्जीवन एक पट्टी बाँधी रखी ) और दमयन्ती ( जो विदर्भराज भीम की पुत्री होने के कारण वैदमी भी कहलाती है और जिसने राज्यच्युत, कलिग्रस्त तथा देवदुर्विपाकाभिभूत अपने पति नल को उनकी विपत्तियों में भी छोड़ना नहीं चाहा , , इस महापापों के नाश करने वाले नाम-पंचक को मनुष्य वरावर स्मरण करे ।

इस परिच्छेद में हिन्दू जाति के बड़े-बड़े देवताओं, ईश्वरावतारों, महायियों, राजाओं तथा पंचकन्याओं के चरित्र पर बहुत छानबीन के साथ सप्रमाण विचार किया गया और देखा गया कि उनमें भी पामर जीवों की तरह काम क्रोधादि जैसी गन्दी चारित्रिक दुर्बलताएँ भी हुई थीं, जिनके वशीभूत होकर वे अपने चरित्र को समय-समय पर कलंकित कर दिया करते थे । उनकी इन्द्रियाँ इस कदर वेकावू हो जाया करती थीं कि उनका नैतिक पतन होकर ही रहता था, जिसके फलस्वरूप उन्हें प्रायश्चित्त करने तथा नरक की यंत्रणाओं तक भी भोगने पड़ते थे । वास्तविक सामर्थ्य उनमें तभी माना जाता जब कि उनकी इन्द्रियाँ उनके कावू में रहतीं और वस्तुतः निर्दोष वे तभी माने जाते जब कि उन्हें अपनी त्रुटियों के फल नहीं भोगने पड़ते । अतः क्षीरमहोदायमन्थनसंभूता स्वानुरूपपत्यन्वेषणातत्परा एवं सर्वत्र त्रिदर्शयित्री लक्ष्मी की उक्ति को उद्धृत कर इस परिच्छेद का उपसंहार करता हूँ । भागवत, स्कंध ८, अ० ८ देखिए—

नूनं तपो यस्य न मन्यु निर्जयो ज्ञानं क्वचित्तच्चन संग वर्जितम् ।  
कश्चिचन्महांस्तस्य न कामनिर्जयः स ईश्वरः किं परतो व्यपाश्रयः ॥२०॥  
धर्मः क्वचित्तत्र न भूतसौहृदं त्यागः क्वचित्तत्र न मुक्तिकारणम् ।  
वीर्यं न पुंसोऽस्त्यज वेग निष्कृतं नहि द्वितीयो गुण संग वर्जितः ॥२१॥  
क्वचिच्चिरायुनं हि शीलमंगलं क्वचिच्चदप्यस्ति न वेद्यमायुषः ।

यत्रोभयं कुत्र च सोऽप्य मंगलः सुमंगलः कश्चन कांक्षते हिमाम् ॥२२॥

अथ—लद्मी ने देखा कि जहाँ दुर्वासा आदि में तप है, तो वे कोध को नहीं जीत सके हैं। कहीं वृहस्पति, शुक आदि में ज्ञान है, तो वे लंगरहित नहीं हैं अर्थात् वे 'सांसारिक' माया में फँसे हैं। कोई ब्रह्मा, सोम आदिक महान् हैं, तो वे काम को नहीं जीत सके हैं। इन्द्र आदि दूसरे (विष्णु आदि त्रिदेव) के भरोसे पर रहते हैं; अतः वे स्वयं ईश्वर नहीं हैं ॥२०॥ कहीं परशुराम आदि में धर्म है, तो उनमें प्रणियों के साथ सौहाद्र का व्यवहार नहीं है। कहीं शिव आदि राजाओं में त्याग तो है; पर वह मुक्ति का कारण नहीं हो सकता। कहीं सहखार्जुन आदि में वीर्य है; पर वह काल के वेग में टहरने वाला नहीं है। कोई सनकादिक गुण-संग से रहित है; पर वे वर न हो सकेंगे; कारण कि वे सदैव समाधि-निष्ठ रहते हैं ॥२१॥ कोई मार्करेण्यादिक ऋषि चिरंजीवी तो हैं; पर उनमें शील और मंगल का अभाव है। कहीं हिरण्यकशिष्य आदि में शील और मंगल है भी तो उन्हें यह मालूम नहीं कि वे कब तक जीवित रहेंगे। जहाँ शिव में ऊपर कहीं हुईं दोनों बातें हैं तो वे देखने में अमंगल हैं और जो कोई (विष्णु) सब प्रकार से मंगल रूप है, तो उनमें मेरे लिए चाह नहीं है ॥२२॥

श्रीमद्भागवत विष्णु-सम्बन्धी पुराण है; अतः उनकी प्रधानता दिखाने के लिए ही यहाँ पर उन्हें सब प्रकार से मंगल रूप कहा गया है; अन्यथा इस परिच्छेद में तो उनके काले कारनामों का काफी पोल खोला गया है।

इस पुस्तक में 'भगवान्' के कतिपय अवतारों की महिमा गाकर उनके प्रसिद्ध भक्तों की सुधि न लेना उनके साथ धोर अन्याय करना होगा! अवतारों में राम और कृष्ण के ही भक्त मिलते हैं,

जिनमें कुछ ऐसे हैं जिन्हें हम उत्कट भक्त कह सकते हैं। इनकी उत्कट भक्ति तथा इनकी कुछ हरकतों का हाल सुनकर प्रशान्त चित्त समालोचक के हृदय में शंका होने लगती है कि उनकी इस प्रकार की भक्ति कोई मस्तिष्क की बीमारी तो नहीं थी; अथवा उन्माद रोग का कोई अब तक अज्ञात उपभेद मात्र तो नहीं थी। कृष्ण-भक्त चैतन्य का समुद्र को श्यामता देखकर श्यामतोया कालिन्दी के भ्रम से उसमें डूब मरना; कृष्ण के भक्त सूरदास का उन्हें कुएँ में से निकालने वाले आकस्मिक पथिक को अपने इष्टदेव (कृष्ण) के रूप में देखना; कृष्ण-भक्त मीराबाई का कृष्ण-प्रेम में नाचते-नाचते उन्हें भी अपने बगल में बंशी बजा-बजाकर ज्ञाचते पाना तथा तुलसीदास का लद्दमण्ड आदि को खुशामदकर 'विनय-पत्रिका' पर रामचन्द्र से हस्ताक्षर करवा लेना आदि ऐसी घटनाएँ हैं जिसकी सत्यता में केवल विकृत मस्तिष्क ही विश्वास कर सकता है। विज्ञिमों तथा दुर्बल-हृदयों का कल्पना-शक्ति (Fancy) विलक्षण होती है। वह आँखेरे में कमरे की दीवार से लटके हुए कोट-पायजामे, तथा निर्जन मैदान में दूरस्थ हूँठे बूँझ में भूत और पिशाच का प्रत्यक्ष दर्शन करती है। सारे हिन्दू समाज को अपने मधुर पर विषाक्त गीतों, भजनों तथा कविताओं के द्वारा अन्धविश्वास के एक महाअन्धकूप में गिरा देने के सिवा इन भक्त-प्रवरो ने भारत की कौन-सी भलाई की है, यह मैं इनके प्रशंसकों से जानना चाहता हूँ। यदि कोई ज्ञानी भक्त, जैसे मीरा, राम-कृष्ण में पति-पत्नी का माव रखे, तो वह ग्राहकिक होने से ज्ञान्य है। पर आजकल 'सखी'-उपाधिकारी कितने पुरुष-भक्त भी उत्पन्न हुए हैं जो रामचन्द्र में पति-माव रखते, ज्ञान-शुंगार करके उनकी मूर्ति के आगे नाचते और प्रति मास छह-मती होने का अभिनय करते हैं। शोक है कि इस अमागे भारत की न मालूम अमो कौन-सी दुर्गति उस 'नर-कपाल' की तरह बाकी है !!

अथ वर्ण परिच्छेद

## वर्ण-व्यवस्था तथा जाति-भेद

हिन्दू समाज की लोकोत्तर विशेषता उसमें प्रचलित वर्ण-व्यवस्था तथा जातिग्रन्थ है जिनमें संसार का आठवाँ वर्ण-व्यवस्था आश्चर्य कहने में कोई अत्युक्ति नहीं है। हिन्दू की वैदिक समाज की कमर तोड़ने वाली यह वर्ण-व्यवस्था उत्पत्ति हिन्दू जाति के दुर्भाग्यवश उसमें क्यों प्रचलित हो गई, इसका संक्षिप्त इतिहास पाठकों को देना परमावश्यक है। हिन्दू सभ्यता तथा हिन्दू संस्कृति के जन्मदाता वेदकालीन भारतीय आर्य थे। अतः देखना है कि उनमें यह व्यवस्था प्रचलित थी वा नहीं, और यदि थी तो वह किस रूप में थी। हिन्दुओं के आदि धर्म-ग्रन्थ वेद हैं और उन्हीं वेदों के अन्तर्गत जो पुरुष सूक्त के मंत्र हैं, वे ही वर्णव्यवस्थारूपिणी विशाल तथा सुदृढ़ अद्वालिका की आधार-शिला ( Foundation-stone ) हैं।

ऋग्वेद, मण्डल १०, सूक्त ६०, मंत्र ११ तथा १२ देखिए—

यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यक्त्ययन् ।  
मुखं किमस्य को वाहू कावूरु पादाउच्येते ॥११॥

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्वाहू राजत्यः कृतः ।  
ऊरुतदस्य यद्वैश्यः पञ्चायो शुद्रोऽजायत ॥१२॥

अर्थ—प्रजापति ने | मानव-समाज-रूपी जिस पुरुष का विधान किया उसकी कल्पना कितने प्रकार की हुई ? इस पुरुष का मुख

क्या है ? इसके दोनों बाहु कौन है ? कौन इसकी दोनों जाँधें हैं तथा इसके दोनों पैर कौन है ? ॥११॥ इन कतिपय प्रश्नों के उत्तर इसके आगे के मंत्र में मिलते हैं। इस पुरुष का मुँह ब्राह्मण है; बाहु ज्ञात्रिय हैं; जाँधे वैश्य हैं और पैर शूद्र हैं ॥१२॥

यजुर्वेद, अध्याय ३१, मंत्र १० तथा ११, एवं अथर्व वेद का १६।६ में भी पुरुष सूक्त है। इन तीनों ही वेदों के पुरुष सूक्त के मंत्र सब अंशों में मिलते हैं, केवल अथर्व वेद में 'उरु' शब्द के स्थान में 'मध्यं' शब्द आया है; जैसे—‘मध्यं तदस्य यद्वैश्यः’ ऐसा पाठ देख पड़ता है। पर अर्थ में कोई भेद नहीं।

इसी पुरुषसूक्त के आधार पर मनवादि धर्मशास्त्रकारों ने भी अपनी-अपनी कृतियों में चातुर्वर्णर्थ की उत्पत्ति इसी प्रकार की लिखी है। जैसे मनु लिखते हैं—

लोकानां तु विवृद्धयर्थं मुखबाहूरुपादतः ।

ब्राह्मणं ज्ञात्रियं वैश्यं शूद्रं च निरवर्त्तयत् ॥

॥ मनु० १३? ॥

अर्थ—प्रजापति ने लोकों की वृद्धि के निमित्त मुख, बाहु, उरु और चरणों से क्रमशः ब्राह्मण, ज्ञात्रिय, वैश्य और शूद्र को उत्पन्न किया। महाभारत के शान्ति-पर्व में लिखा है—

ततः कृष्णो महाभागः पुनरेव युधिष्ठिर ।

ब्राह्मणानां शतं श्रेष्ठं मुखादेवासृजत्प्रभुः ॥१॥

बाहुभ्यां ज्ञात्रियशतं वैश्यानामूरुतः शतम् ।

पद्म्भ्यां शूद्रशतंचैव केशवो भरतर्षम् ॥२॥

अर्थ—हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर ! फिर महाभाग कृष्ण ने मुख्य से सौ श्रेष्ठ ब्राह्मणों को, दोनों बाहुओं से सौ ज्ञात्रियों को,

दोनों जंघों से सौ वैश्यों को तथा दोनों चरणों से सौ शूद्रों को उत्पन्न किया।

उक्त पुरुषसूक्त के ही बल पर सारे संस्कृत साहित्य में मुख्यज, बाहुज, ऊरुज तथा पञ्च एवं इसी अर्थ के अन्यान्य शब्द क्रमशः

ब्राह्मण आदि शब्दों के पर्वायिवाची बन गए हैं।

पुरुष सूक्त की पर चातुर्वर्ण की इस प्रकार की उत्पत्ति लिखी व्याख्या रहने से हमें यह न समझ लेना चाहिए कि

जगत्खण्डा ब्रह्मा के रूप में परमात्मा वस्तुतः कोई मुख्याद्यवयव-विशिष्ट शरीरधारी व्यक्ति है जिसके मुख्यादि अंगों से ब्राह्मणादिकों की उत्पत्ति हुई। क्योंकि यदि परमात्मा को कोई शरीरधारो पुरुष माना जाए, तो सन्तान उत्पन्न करने के लिए उसके साथ में रहने वाली एक शरीरधारिणी स्त्री की भी कल्पना करनी होगी और जब परमात्मा और उसकी स्त्री दोनों ही इस प्रकार शरीरधारी व्यक्ति माने गए, तो ब्राह्मणादि उनको सन्तानें परमात्मा के मुख्यादि से उत्पन्न हुई न मानी जाकर सृष्टि के अटल नियमानुसार वे सभी ही अपनी माता के जननेन्द्रिय के द्वारा ही उत्पन्न हुई मानी जाएंगी। पर वे सब अड़चने पुरुषसूक्त के मन्त्रों का आचरिक अर्थ लेने से उत्पन्न होती हैं। अतः उनका अर्थ आचरिक न लेकर आलंकारिक लेना चाहिए और उनका यह अभिप्राय समझना चाहिए कि जो अपने बुद्धि-बल से समाज के मुख्यिया बन गए वे ही ब्राह्मण कहलाएँ; जिन्होंने अपने मुज-बल से समाज की रक्षा की वे ज्ञात्रिय कहलाएँ; जिन्होंने अपनी जांध के बूते कृषि-वाणिज्य आदि करके समाज का भरण-पोषण किया वे वैश्य हुए तथा जिन लोगों ने इन तीन प्रकार की योग्यताओं में से किसी भी योग्यता का परिचय नहीं दिया वे नीच ठहल करके समाज की सेवा करने लगे और वे ही समाज के चरण-रूप होकर शूद्र संज्ञा के भागी बने।

ब्राह्मणादि वर्गचतुष्टय को परमात्मा के मुखादि से उत्पन्न मानने में जो पहली अङ्गन है वह पाठकों को अभी दिखाइ गई है। इस अङ्गन को योड़ा और भी स्पष्ट कर देना उचित जान पड़ता है। ब्राह्मणादि वर्णों के सदस्य मनुष्य-प्राणी के अन्तर्गत हैं, अतः यह निर्विवाद है कि इनकी भी उत्पत्ति अन्य मनुष्यों की ही तरह हुई होगी। यह एक मुनिशांत वैज्ञानिक सिद्धान्त तथा प्रकृति का अटल नियम है कि सूर्य के प्रारंभ से लेकर अवावधि मानव-प्राणी के क्रमिक विकास में चाहे जितनी भी अवस्थाएँ (Stages) चौंत गई हों, उन सभी अवस्थाओं में उसकी उत्पत्ति उसकी जननी और जनक के संग्रोग पर ही निर्भर रही है और भविष्य में भी उसी पर निर्भर रहेगी। अतः मानव-जाति के ब्राह्मणादि संज्ञाधारी सदस्यों को परमात्मा वा किसी के भी मुखादि से उत्पन्न मानना नितान्त अनगंत, अवैज्ञानिक तथा कपोल-कल्पित है। अतः यही मानना समीचीन जान पड़ता है कि पुरुषसूक्त में जो वर्गचतुष्टय की उत्पत्ति लिखी है वह केवल आलंकारिक रूप में लिखी है, चाहे वेदों के सम्बन्धित स्थान में भूषित का ही प्रसंग क्यों न आया हो। यदि भूषित को दो अवस्थाएँ, अमैथुनी और मैथुनी, भी मानी जाएँ, तो भी प्रत्येक अवस्था में मनुष्यों की उत्पत्ति में वर्ण के कारण कोई भेद नहीं हो सकता।

इस पर व्यतिवादी कहता है कि परमात्मा सर्वशक्तिमान् है। वह जैसे चाहे वैसे ही सृष्टि कर सकता है। पर याद रहे कि उसने सृष्टि के जो नियम बनाए हैं अथवा यों कहिए कि प्रकृति के जो सृष्टि-सम्बन्धी नियम हैं वे अटल हैं। उसकी अवहेलना हो नहीं सकती। यदि परमात्मा ही अपने नियमों की अवहेलना करने लगे, तो फिर वह वश पर शासन क्या करेगा? नियमों का यदि इस प्रकार उल्लंघन हृआ करे, तो सारे विश्व में निरन्तर उथज-पुथल मच्छी रहेगी।

और उसमें किसी भी प्रकार की व्यवस्था न देख पड़ेगी; अतः यह निश्चय है कि पुरुषसूक्त की चातुर्वर्ण्य उत्पत्ति केवल आलंकारिक है।

ब्राह्मणादिकों की उत्पत्ति सचमुच परमात्मा के मुखादि से हुई मानने से, अथवा यों कहिए कि पुरुषसूक्त की आन्तरिक व्याख्या को ही समीचीन मानने से, एक दूसरी अङ्गत्वं भी उपस्थित हो जाती है। परमात्मा को मुखाद्यवयव विशिष्ट मानना उन अतियों के विरुद्ध जाता है जो उसको निराकार तथा हस्तपादाद्यवयवों से हीन बताती हैं। उदाहरण के लिए इस श्रुति को लीजिए—“अपाणिपादो जवनो ग्रहीता, पश्यत्यं चन्द्रः सशृणोत्यकर्णः”॥ इत्यादि।

अर्थ—वह ( परमात्मा ) जिना और का होता हुआ भी शीघ्रता से चलता है; जिना हाथ का होता हुआ भी पकड़ लेता है; नेत्रहीन होकर भी देखता है और कर्ण-हीन होकर भी शुनता है इत्यादि। अतः फिर भी मुझे कहना पड़ता है कि पुरुषसूक्त में चातुर्वर्ण्य का उत्पत्ति-वर्णन केवल आलंकारिक है।

अब यह देखना है कि प्राचीन वैदिक काल में यह वर्णव्यवस्था किस हालत में थी। वेदों के सूच्म अध्ययन से पता चलता है कि उस

काल में ब्राह्मणादि वर्णों की न अलग-अलग टोलियाँ वैदिक काल में थीं जैसा कि वर्तमान काल में देख पड़ती हैं और वर्ण-व्यवस्था न उनके अलग-अलग परिवार ही थे; बल्कि एक का स्वरूप ही परिवार में सभी वर्णों के सदस्य देख पड़ते थे जैसा कि ऋग्वेद के निम्नोद्धृत मंत्र से प्रमाणित होता है—

॥पूरा मंत्र है—

“अपाणिपादो जवनो ग्रहीता, पश्यत्यन्द्रः सशृणोत्यकर्णः ।

सर्वोत्तमेवं च तस्यानास्ति वेत्ता, तमाहु रग्मयं पुरुषं महान्तम् ॥

श्वेताश्वतर ३।१६ ॥

कारुरहं ततोभिषगुपलप्राक्षणी नना ।  
नानाधियो वसूयवोऽनुगा इव तस्य मेन्द्रायेन्द्रो परिस्वत् ॥

॥ ऋक् ० ६।११२।४ ॥

अर्थ—हे सोम ! मैं मंत्रकर्ता ऋषि हूँ; मेरे पिता चिकित्सक है और मेरी माता पत्थर पर अनाज पीसती है। जिस प्रकार गौरै चारा के लिए नाना चरागाहों में फिरा करती है उसी प्रकार इम लोग भी नाना व्यवसायों के द्वारा धनोपार्जन के लिए तुम्हारा पूजन करते हैं। तुम इन्द्र के लिए प्रवाहित होओ।

इससे यह जान पड़ता है कि किसी भी व्यक्ति का वर्ण-निर्णय उसके निजी कर्मों पर ही निर्भर रहता था और यहीं तक नहीं; बल्कि वर्णव्यवस्था उस सुदूर वैदिक काल में इतनी उदार थी कि एक ही व्याक्ति एक ही अहोरात्र में सभी वरणों में संकरण कर जाता था। इसको स्पष्ट शब्दों में यो समझना चाहिए कि प्राचीन भारतीय आद्यों में किसी प्रकार का जाति-मेदन था। सभी आर्य अपने को एक ही विरादरी के सदस्य मानते थे और गुणकर्मानुभाव उनमें चारों वर्ण के लोग रहते हुए भी वे परस्पर कुछ भी मेद-भाव नहीं रखते थे। एक ही आर्य-परिवार का जो सदस्य वेद मंत्रों को कंठस्थकर अग्न्यादि वैदिक देवताओं की आराधना किया करता था वह ब्राह्मण, जो शब्द धारणकर शत्रुओं का मुकाबला किया करता था वह क्षत्रिय; जो गो-आदि पशुओं तथा कृषि की देख-रेख में लगा रहता था वह वैश्य तथा जो व्यक्ति भाड़-बहारूकर घर का कूड़ा-कक्कट साफ़ किया करता था वा दासोचित कोई अन्य काम जैसे कपड़ा धोना, पशुओं के लिए चारा काटना, उनका मलमूत्र साफ़ करना आदि किया करता था वह शूद्र माना जाता था। अभी तक प्रत्येक वर्ण के लिए अलग-अलग टोली कायम कर लेने की भावना उनके मस्तिष्क में अंकुरित नहीं हो पाई थी। कभी-कभी तो परिवार

का एक ही सदस्य, जैसा अभी कह आए हैं, आवश्यकतावश चारों वर्ण के काम कर लेता और कर्मविशेषानुसार सम्बन्धित वर्ण के रूप में दिखाई देता था। कुछ लोगों की यह धारणा है कि पराक्रमी तथा विजयी आर्य वेदोक्त दस्यु संज्ञाधारी काले-कलूटे जिन अनायों को युद्ध में जीतकर बन्दी बनाते तथा दासता की बड़ी में जकड़ देते उन्हें ही शूद्र संज्ञा दे उनसे दास कर्म कराते थे। पर यह उनका भ्रम है; क्योंकि ऐसा मानने से प्रश्न यह उठता है कि दस्युओं पर विजय प्राप्त करने के पूर्व उनके यहाँ दासोचित कर्म कौन किया करता था? इसका यही उत्तर है कि दास कर्म वे स्वयं कर लेते थे। हाँ, यह हो सकता है कि पश्चात्काल में जब उन्हें दस्यु बन्दी मिल गए तो वे ही दास श्रेणी में ढकेल दिए गए। मनु ने दासों की उत्पत्ति ७ प्रकार की लिखी है—

ध्यजाह्नतो भक्त्नदासो युहजः क्रीत-दधिमौ ।  
पैत्रिको दण्डदासश्च समैते दासयोनयः ॥

॥ मनु दा४१५ ॥

**अर्थ—**जो युद्ध में जीतकर लाया गया हो, जिसने अन्न के लिए दासत्व स्वीकार कर लिया हो, जो घर की सप्ताविध दासी का पुत्र हो, जिसको खरोदा गया हो, जो दास-योनि दान में मिला हो, जिसके पिता आदि भी दास रहे हों और जो राजकीय दण्ड से बचने के लिए दास बन गया हो, ये ७ प्रकार की उत्पत्ति दासों की कही गई हैं।

इस श्लोक से यह स्पष्ट है कि दासों (शूद्रों) की कोई खास अलग जाति वा टोली न थी। जो भी कोई, चाहे वह गोरा आर्य हो वा काला दस्यु, 'दास' शब्द की उक्त सप्तविध लक्षणों के अन्दर आ जाता, वही शूद्र माना जाता था।

ऊपर कह आए हैं कि वैदिक आयों में परस्पर जाति-सम्बन्धिनी कोई भेद-भावना न थी; न उनमें तजजन्य कोई राग-समाज का द्वेष ही था। पर परिस्थिति सदा एक-सी नहीं रहती। कर्मानुसार चार भारतीय आयों को जनसंख्या तथा उनका इस देश दलों में विभाग में भौगोलिक प्रसार एवं जीवन की आवश्यकताएँ

और समस्याएँ, ज्यो-ज्यो बढ़ने लगीं त्यो-त्यो वे इस बात को महसूस करने लगे कि विविध वर्णोंचित कर्मों को सुचारू-रूप से सम्पादन करने के लिए अलग-अलग दल होने चाहिए जिनके सदस्य अपने-अपने निर्दीरित कर्मों में विशेष रुचि तथा प्रबोधिता रखते हों; अन्यथा समाज सदा अव्यवस्थित रहेगा और उसमें सुधृत्यला कभी आएगी ही नहीं; कारण कि ऐसा प्रबन्ध किए बिना कोई अपने कार्य के लिए उत्तरदायी न रहेगा और न तो सभी से सभी काम ठीक तरह से हो ही सकेगा। सच पूछिए, तो वेद मंत्रों के विशालाभार में प्रवेशकर उसके कोने-कोने छान डालिए; पर आपको वर्णभेद पोषक कोई भी मन्त्र, सिवा पुरुषसूक्त के एकाकी उदाहरण के, नहीं मिलेगा और पुरुषसूक्त के विषय में भी पाश्चात्य किम्बा प्राच्य सभी विद्वानों की यह सम्मति है कि उसकी रचना अन्य वेद मन्त्रों के अृक्, यजुः, साम और अथर्व के रूप में वर्गीकरण के कई शतान्बिदयों के पश्चात् हुई थी; अतः उसका वर्ण-विषयक मंत्र नितान्त नवीन है जैसा कि उसकी भाषा तथा भावना से मालूम होता है। इसका तात्पर्य यह है कि भारतीय आयों के मस्तिष्क में स्वजन समुदाय को विविध धन्वां के आधार पर चतुर्दल में विभक्त करने की भावना आरंभ में ही एकाएक प्रादुर्भूत न होकर उनके सामाजिक संगठन के हजारों वर्ष के बाद, जब उक्त परिस्थिति ने उन्हें वर्ण-विभाग करने को बाध्य किया, धीरे-धीरे अंकुरित हुई। इसका फल यह हुआ कि जो जिस काम में दक्ष निकला उससे वही

काम कराया जाने लगा और अन्य कामों से वह मुक्त कर दिया गया। और चूँकि समान धन्वे वालों के बीच स्वभावतः एक प्रकार का पारस्परिक अनुराग और सहानुभूति रहती ही है, इससे उनके दल बनने लगे और फल-स्वरूप सारी आर्य जनता धीरे-धीरे चार दलों में विभक्त हो गई। संसार में प्रायः यह देखा जाता है कि पिता अपना ही धनधा अपने पुत्रों को सिखलाता है; क्योंकि शैशव-काल से ही वे उसी धन्वे के सम्पर्क में रहते हैं जिससे उनकी उसमें स्वाभाविक रुचि उत्पन्न हो जाती है और इसी कारण वे उसे आसानी से सीख भी लेते हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि ब्राह्मणादि चारों वर्ण के कर्म वंशगत हो गए जो कालान्तर में जाकर जाति-भेद के कारण बने। पर अभी तक यह अवस्था नहीं आई थी कि गुण-कमों की अवहेलनाकर यर्ण-निर्णयार्थ कुल-विशेष में जन्म लेना ही पर्याप्त समझा जाय; क्योंकि हमें अपने धर्मग्रन्थों में जन्म की उपेक्षा कर कर्मानुसार वर्ण-परिवर्तन के अनेक उदाहरण मिलते हैं। वर्ण-चतुष्टय की चहार-दीवारी इतनी कठोर और दुर्भेद अभी तक न हो पाई थी कि योग्यतानुसार उन्नति किस्मा अवनति का द्वार बन रहे। अन्य जातियों में उत्पन्न वशिष्ठादि महर्षियों का ब्राह्मण बन जाना पहले ( प्रथम परिच्छेद में ) लिख आया हूँ। इसके अतिरिक्त वर्ण-परिवर्तन के और भी कितने उदाहरण ढूँढ़ने पर आपको मिलेंगे; जैसे—

( १ ) ऐतरेय ऋषि । ये दासी-पुत्र थे। किन्तु अपने गुण-कमों के कारण ये इतने बड़े विद्वान् हुए कि इन्होंने वर्ण-परिवर्तन ऐतरेय ब्राह्मण और ऐतरेय उपनिषद् आदि प्रसिद्ध के उदाहरण ग्रन्थों की रचना की।

( २ ) कवय ऐलूब । ये भी दासी पुत्र थे। ऐतरेय ब्राह्मण में लिखा है कि ऋषियों ने इन्हें दासी-पुत्र कहकर यज्ञ से निकाल

दिया। तत्पश्चात् इन्होंने संपूर्ण ऋग्वेद का अध्ययनकर उसके नए-नए विषयों को हृदयंगम किया। तब ऋषियों ने उन्हें सादर बुलाकर अपना आचार्य बनाया और यज्ञ किया। ऐतरेय ब्राह्मण २।१६।

(३) पुष्ट्र। वे मनु के पुत्र थे, जो गुरु की गाय मारने से शहू हो गए। भागवत ६।२४ पद्धिए।

(४) नाभाग। दिष्ट-पुत्र नाभाग ज्ञात्रिय से वैश्य हो गए। भागवत ६।२५ पद्धिए।

(५) धार्ढ्र ब्राह्मण। मनु के खृष्ट नाम पुत्र से धार्ढ्र ज्ञात्रिय हुए जो अपने कमों से ब्राह्मण बन गए। भागवत ६।२१।७ देखिए।—

(६) अग्निवेश्य। मनु के बंश में अग्निवेश्य हुए जिनके बंशधर ज्ञात्रिय से ब्राह्मण हो गए। भागवत ६।२।२२ देखिए। इन्हें अग्निवेश्यायन ब्राह्मण कहते हैं।

(७) रथीतर। ये दुर्वासा के मान-मर्दन करने वाले राजा अम्बरीष के प्रपोत्र थे। आंगिरा ऋषि ने इनकी छोटी में नियोग द्वारा जिन पुत्रों को उत्पन्न किया वे अपने कमों से ब्राह्मण बनकर ज्ञात्रिय जाति से पृथक् हो गए। इन्हें रथीतर गोत्रीय आंगिरस ब्राह्मण कहते हैं। भागवत ६।६।३ देखिए।

(८) हारीत ब्राह्मण। सूर्यवंशीय नरपतियों में मांधाता नामक एक प्रसिद्ध राजा हो गए है। मांधाता के पुत्र अंबरीष (दूसरे) हुए। इन अम्बरीष के पुत्र युवनाश्व और युवनाश्व के पुत्र हरीत हुए। इन हरीत के जो बंशधर हुए, वे हारीत गोत्रवाले आंगिरस ब्राह्मण कहलाए। लिङ्गपुराण में लिखा है—

‘हरितो युवनाश्वस्य, हारीता यत आत्मजाः।

एतेष्वज्जिरसः पचे ज्ञात्रोपेता द्विजातवः’॥

अर्थ—युवनाश्व के पुत्र हरीत हुए और हरित के बंशधर

आह्वान स पक्ष के लक्षणों पैत हारीत ब्राह्मण हुए। विश्वा पुराण ४।३।५ में भी यही वात लिखी है।

( ६ ) शौनक। चन्द्रवंशीय प्रसिद्ध राजा पुरुरवा के पौत्र लक्ष्मद हुए। लक्ष्मद के पौत्र गृत्समद तथा इनके पौत्र शौनक हुए जिनसे चारों वर्ण की उत्पत्ति हुई। वायु पुराण में लिखा है—

पुत्रो गृत्समदस्यादि शुनको यस्य शौनकः ।

ब्राह्मणाः लक्ष्मियाश्चैव वैश्याः शूद्रास्तथैव च ।

एतस्यवंशे संभूता विचित्राः कर्मभिर्द्वज ॥

अर्थ—गृत्समद के पुत्र शुनक और शुनक के पुत्र शौनक हुए जिन के वंश में अपने-अपने गुणकर्मानुसार ब्राह्मण, लक्ष्मिय, वैश्य और शूद्र उत्पन्न हुए। विश्वा पुराण ( ४।३।१ ) और हरिवंश पुराण ( २।१।८ ) में भी यह वाचां लिखी है।

( १० ) मेधातिथि। चन्द्रवंशीय राजा पुरु का वंश वर्णन करने के पूर्व शुकदेवीं परीक्षित् से कहते हैं—

‘पुरोर्वशं प्रवद्यामि यत्र जातोऽसि भारत ।

यत्र राजर्षयो वंश्याब्रह्म-वंश्याश्चजिरे’ ॥

॥भागवत ६।२०।१॥

अर्थ—हे भारत कुलोत्पन्न परीक्षित् ! अब पुरु के वंश का वर्णन करूँगा जिसमें तुम्हारा जन्म हुआ है तथा जिसमें अनेक राजर्षि तथा ब्राह्मण-वंश उत्पन्न हुए हैं। इससे साफ़ जाहिर है कि अनेक ब्राह्मण-वंशों के जन्मदाता पुरुवंशीय लक्ष्मिय हैं। इसके उदाहरण लीजिए—पुरु के वंश में अप्रतिरथ हुए। अप्रतिरथ के पुत्र कशव और कशव के पुत्र मेधातिथि हुए जिससे प्रस्करण आदि की ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। भागवत ६।२०।७॥ अन्य उदाहरण नीचे पढ़िए।

( ११ ) गार्य, त्रव्यारुणि, कवि और पुष्करारुणि । दुष्यन्त और शकुन्तला के पुत्र भरत ने जिन भरद्वाज वा वितथ को अपना पुत्र बनाया था उनका वृत्तान्त पूर्व में ( पंचम परिच्छेद में ) लिखा आया है । इन्हीं वितथ के पौत्र गर्ग हुए । गर्ग के पुत्र शिनि और शिनि के पुत्र गर्य हुए जो जन्मतः क्षत्रिय होते हुए भी अपने कमों से ब्राह्मण हो गए । वितथ के अन्य पौत्र महावीर्य ये जिनके दुरतिक्षय नामक पुत्र के त्रव्यारुणि, कवि और पुष्करारुणि ये तीन पुत्र हुए जो कमों के द्वारा ब्राह्मण बन गए । भागवत ६।२६।१६-२० ।

( १२ ) प्रियमेधादि और मौदगल्य ब्राह्मण । उक्त राजा वितथ के वंश में ही राजा अजमीट और राजा मुदगल हुए जिनसे क्रमशः प्रियमेधादि और मौदगल्य ब्राह्मणों का निकास हुआ । भागवत ६।२६।२१ तथा ३३ ।

( १३ ) रम्म । ये चन्द्रवंशीय राजा पुरुरवा के पौत्र ये जिनके प्रपोत्र आक्रिय हुए । इन्हीं आक्रिय के चेत्र ( लो ) में एक ब्राह्मण कुल की उत्पत्ति हुई । भागवत ६। १७।१० देखिए—

‘रम्भस्य रम्भसो पुत्रो गम्भीरश्चाक्रिय स्ततः ।  
तस्य चेत्रे ब्रह्म जगे शृणु वंशमनेनसः’ ॥

अर्थ—रम्म के पुत्र रम्भस हुए और उनके गम्भीर हुए । पुनः गम्भीर के पुत्र आक्रिय हुए जिनके चेत्र में ब्रह्म वंश ने जन्म लिया । अब अनेका का वंश सुनिए ।

( १४ ) भार्गभू । विष्णु पुराण में लिखा है—

‘भार्गस्य भार्गभूरतश्चातुर्वर्ण्य प्रवृत्तिः’ ।

अर्थ—भार्ग के पुत्र भार्गभू हुए जिनसे चारों वर्ण की प्रवृत्ति हुई ।

( १५ ) वत्स भूमि और भार्गभूमि । हरिवंश के ३२वें अध्याय में लिखा है—

वत्सस्य वत्सभूमिस्तु भार्गभूमिस्तु भार्गवात् ।

एते त्वाङ्ग्रसः पुत्रा जाता वंशेऽथ भार्गवे

ब्राह्मणाः ज्ञविया वैश्याः शूद्राश्च भरतपर्म ॥४०॥

अर्थ—वत्स के पुत्र वत्सभूमि और भार्गव के भार्गभूमि हुए । भगुन्वंश में उत्पन्न ये अंगिरा के पुत्र ब्राह्मण, ज्ञविय, वैश्य और शूद्र, चारों वर्ण के वंश-प्रवर्तक हुए ।

( १६ ) नाभागारिष्ट । हरिवंश के ११वें अध्याय में ही लिखा है—

नाभागारिष्ट-पुत्रौ द्वौ वश्वौ ब्राह्मणतां गतौ ॥६॥

अर्थ—नाभागारिष्ट के दो पुत्र वैश्य से ब्राह्मण हो गए ।

( १७ ) दिवोदास । ये एक चन्द्रवंशीय ज्ञविय राजा थे । इन्हीं की वहन अहल्या थी जो गौतम से व्याही गई थी । हरिवंश के ३२वें अध्याय में लिखा है—

दिवोदासस्य दायादो ब्रह्मर्थिर्मित्रयुनूपः ।

मैत्रायणस्ततः सोमो मैत्रेयास्तुसततः स्मृताः ॥

अर्थ—दिवोदास का पुत्र मित्रयु ब्रह्मर्थि हुआ । मित्रयु से मैत्रायण सोम हुए । उस वंश वाले इसी कारण मैत्रेय कहलाए ।

( १८ ) अरिष्टपेणः । महामारत, शल्यपर्व, ४३६-३७ में लिखा है—

अरिष्टपेणः कौरव्य ब्राह्मण्यं संशित व्रतः ।

तपसा महता राजन् प्राप्तवानुपिसत्तमः ॥३६॥

सिन्वुद्वीपश्च राजर्थिर्देवापिश्च महातपाः ।

ब्रह्मायं लभवान् यत्र विश्वामित्रस्तथामुनिः ॥३७॥

अर्थ—हे कुरुनन्दन ! अपने व्रत को पूरा करने वाले तथा ऋषि-

ओष्ठ अग्निपेण ने बड़ी तपस्या से ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया ॥३६॥  
राजर्षि सिन्धुदीप, महातपस्वी देवापि तथा मुनि विश्वामित्र ब्राह्मण  
हो गए ॥३७॥

नमूने की तरह वर्ण-परिवर्तन के ये कतिपय उदाहरण दिए गए। और भी दिए जा सकते थे; पर स्थानाभाव के कारण नहीं दिए गए। यहाँ ये इस अभिप्राय से दिए गए कि पाठकों को भली भाँति मालूम हो जाय कि प्राचीन काल में वर्ण-निर्णय का आधार कर्म या न कि कुलविशेष में जन्म। यहाँ पर मैं अपने पाठकों को सावधान कर देना चाहता हूँ कि मेरा विचाराधीन विषय यह कदापि नहीं है कि वर्ण का निर्णय कर्मानुसार होना चाहिए वा जन्मानुसार। बल्कि इस विषय में मेरी निजी सम्पत्ति तो यह है कि वर्ण जन्म तथा कर्म दोनों की ही वृष्टि से, जैसा कि मैं आगे चल कर दिखाऊँगा, असिद्ध, अनावश्यक तथा ढोग मात्र है, जिसने हिन्दू जाति को सदा के लिए पंगु तथा अनुब्रतिशील बना दिया है। मैं यहाँ केवल यही दिखा रहा हूँ कि प्राचीन काल में वर्ण एक ढोली तथा लचीली वस्तु थी, जो कर्मानुसार घट-बढ़ सकती थी।

वर्ण-व्यवस्था पर लिखते हुए मैं पाठकों की सेवा में जाति और वर्ण में क्या भेद है, इसे भी बतला देना अत्याजाति और वर्ण वश्यक समझता हूँ। यद्यपि सर्व-साधारण में इन दोनों में भेद शब्दों का प्रयोग बिना किसी भेद-भाव के होता हुआ देख पड़ता है; तथापि इनके वास्तविक अर्गों में आकाश-पाताल का अन्तर है। जाति प्राकृतिक; पर वर्ण कृतिम है। जाति जन्मप्राप्त आकृतिविशेष पर; पर वर्ण वैयक्तिक गुण-कर्म पर आधित रहता है। जाति-भेद का ज्ञान आकृति देख कर ही स्वतः अर्थात् बिना किसी के बताए हुए ही हो जाता है, पर वर्ण-भेद का ज्ञान बिना बताए हुए नहीं होता। जैसे मनुष्य, गाय, घोड़ा, गधा

आदि प्राणियों को देखते ही विना किसी के बताए हुए हो इम जान लेते हैं कि यह मनुष्य है, यह घोड़ा है इत्यादि । पर किसी मनुष्य को केवल देखने से ही विना उसके वा किसी के कहे उसके वर्ण का ज्ञान नहीं होता कि वह ब्राह्मण है या शूद्र । यदि कहो कि यज्ञोपवीतादि को देखकर ब्राह्मणत्व का ज्ञान हो जाता है, तो यज्ञोपवीतादिका धारणा एक कृत्रिम व्यापार है; अकृतिम नहीं । हाँ, जन्म से ही यदि ब्राह्मणादि चारों वर्ण के आकारों में कुछ भिन्नता देख पड़ती, तो कहा जाता कि वर्ण भी जाति की तरह प्राकृतिक है जो विना बताए जाना जाता है । दो भिन्न-जाति के प्राणियों में मैथुन-सम्बन्ध होने पर भी बच्चा उत्पन्न नहीं होता; पर दो भिन्न वर्णों के ल्ली-पुरुषों के बीच यौन-सम्बन्ध होने पर बच्चा उत्पन्न होता है । अतः ब्राह्मण और शूद्र दो भिन्न-वर्ण के होते हुए भी इसी कारण सजाति हैं; पर मनुष्य और गाय सजाति नहीं हैं । यदि कहो कि यौन-सम्बन्ध और सन्तति-प्रजनन के आधार पर तो घोड़े और गधे भी सजाति हो जाएंगे तो ठीक ही है । गधे भी घोड़ों की एक उपजाति-मात्र है जिससे वे घोड़ों के सजाति कहे जा सकते हैं । प्राणिविद्या विशारदों ने गधे को अश्व-परिवार के ही अन्तर्गत रखा है । अंग्रेजी डिक्षनरियों में Ass शब्द का अर्थ A well-known quadruped of the horse-family (अश्व-परिवार का एक प्रसिद्ध चौपाया) लिखा रहता है । व्याकरण शास्त्र में जाति का लक्षण इस प्रकार कहा गया है—

आकृति-भ्रह्म जातिलिङ्गानाऽन्न सर्वभाक् ।

सकृदा ख्यात निग्रांत्या गोत्रं च चरणैः सह ॥

अर्थ—आकृति के द्वारा जो पहचानी जाए, जो सम्पूर्ण लिङ्गों को न भ्रह्म करे और जो एक बार के उपदेश से ही

जाति का जान ली जाए वह जाति है। इसी प्रकार वेद के लक्षण किसी एक देश के कठादि शास्त्र अथवेत् आदि शब्द और अपल्यप्रत्ययान्त शब्द भी जाति वाचक हैं।

वेदों की शास्त्राणँ क्या हैं, इसका विवेचन मैं पूर्व ( द्वितीय-परिच्छेद ) में ही कर आया हूँ। प्रत्येक शास्त्र के अध्ययन करने वाले व्याकरण की हाई से एक एक जाति है; जैसे कठ, शाकल, आश्वलावन, वाघल, आपस्तम्ब, इत्यादि। चरण शब्द का अर्थ वेद-शास्त्र है। इसी प्रकार अपल्यप्रत्ययान्त गोव-वाचक शब्द भी जैसे गार्ग, गार्गी आदि व्याकरण की हाई से जाति-संज्ञाणँ हैं। पर विज्ञान की दृष्टि से जाति-भेद का मुख्य आधार केवल आकृति-भेद ही है; और शास्त्र और गोव तो वस्तुतः व्याकरण के प्रयोजन के लिए जाति करार दिए गए हैं; अन्यथा वे भी आकृति-साम्य के कारण मनुष्य जाति से युग्म नहीं हैं। व्याकरण के प्रयोजन ज्ञानार्थ अष्टाध्यायी के इन सूत्रों को देखिए। जातेरखीविषयाद्वयोप धात् ४।१।५३; नञ् २।२।६; जातिरप्तिणिनाम् २।४।६; जातिनाम्नः कन् ४।३।५८; वा वहूना जातिपरिप्रश्ने इतमच् ४।३।५८; ब्राह्मोऽजातौ ४।४।१७।८; इत्यादि।

महाभाष्य में जाति का लक्षण इस प्रकार कहा है—

प्रादुर्माविविनाशाभ्यो सत्त्वस्य युगपद् गुणैः ।

असर्वालङ्घां वङ्गर्थां तां जाति कवयो विदुः ॥

अर्थ—सत्त्व ( द्रव्य ) की उत्पत्ति और विनाश के साथ रहने वाले गुणों से जो एक साथ मिली है, जो सब लिंगों को नहीं भजती तथा जिसके अर्थ बहुत है, उसे पंडित-भाषण जाति कहते हैं।

जाति शब्द की इन परिभाषाओं के अनुसार मनुष्य मात्र एक जाति है। इसी प्रकार अश्व मात्र एक जाति है। और अश्व-जाति में जैसे अरबी, वेलर, काढूली, भूठिया, गंधा आदि प्राकृतिक अवान्तर भेद है वैसे ही मनुष्य-जाति में आर्य, द्राविड़, हवशी,

मंगोल आदि प्राकृतिक अवान्तर भेद है। जो लोग ब्राह्मणादि चार वर्णों को गाय, घोड़े, गधे आदि की तरह प्राकृतिक अवान्तर भेद मानते हैं वे या तो स्वयं भ्रम ग्रस्त हैं या स्वयं वस्तुस्थिति जानकर भी दूसरों को बहकाने वाले हैं; योकि, जैसा अभी कहा गया है, गाय, घोड़े, गधे आदि में परस्पर यौन-सम्बन्ध द्वारा प्रसव किया नहीं हो सकता; पर ब्राह्मण और शूद्र के बीच ऐसी किया होती है। यदि कहो कि ब्राह्मण आदि चारों वर्ण में गाय, घोड़ा गधे आदि की तरह भले ही भेद न हो; पर आर्य, द्रविड़, हवशी आदि की तरह तो है; पर वह भी नहीं, कारण कि ब्राह्मण आदि मनुष्य जाति के कुत्रिम भेद हैं और आर्य, द्रविड़ आदि प्राकृतिक भेद हैं।

मनुष्यमात्र एक जाति है, इसका समर्थन संख्याकारिका ५७ से मी होता है—

अष्ट विकल्पो दैवस्तैर्यं योन्यश्च पञ्चधा भवति ।

मनुष्यश्चैकविधः समासतः भौतिकः सर्गः ।

वाचस्पति मिश्र को व्याख्यानुसार इसका अर्थ यह है—

ब्राह्म, प्राजापत्य, ऐन्द्र, पैत्र, गान्धर्व, यात्र, राजस और पैशाच, ये आठ प्रकार की देव योनियाँ हैं। तिर्यक् योनि पाँच प्रकार की है—पशु, मूरा, पक्षी, सरीसृप (रेंगने वाले जन्तु जैसे साँप, केचुआ आदि) और स्थावर। मनुष्य योनि एक ही प्रकार ही है। ब्राह्मणादि चारों वर्ण में किसी प्रकार का पार्थक्य न होने से वे मनुष्य जाति के अवान्तर भेद नहीं माने गए।

नैयायिकों के मत से सोलह पदार्थों के अन्तर्गत जाति भी एक पदार्थ है। गौतम-न्याय-सूत्र में जाति का लक्षण इस प्रकार कहा है—

समान-प्रसवात्मिका जातिः ॥

न्याय० अ० २ आहि० २ सूत्र ७१॥

**अर्थ—**समानः तुल्यः प्रसवः जनन व्यापारः आत्मा स्वरूपो-यस्याः सा जातिः अर्थात् जिसका स्वरूप है एक ही तरह का जनन-व्यापार वह जाति है कहने का तात्पर्य यह है कि जिन प्राणियों की जनन-क्रिया एक सी होती है वे परस्पर सजाति हैं। जाति के इस लक्षण से मनुष्य मात्र सजाति है; क्योंकि वे एक ही तरह से बच्चे उत्पन्न करते हैं। योड़े शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि जिस पदार्थ से समानता का बोध हो वह जाति है।

तर्क प्रकाशिका में जाति का यह लक्षण कहा गया है—‘नित्याऽनेकसमवेतम्’, अर्थात् जो पदार्थ नित्य और समान्य सम्बन्ध से सब पदार्थों में वर्तमान है उसी का नाम जाति है; जैसे द्रव्यत्व, घटत्व आदि।

मनुष्य मात्र के एक जाति होने के कारण इनमें गाय, घोड़े आदि की तरह परस्पर जाति-भेद नहीं है, इसको पुष्टि भविष्य पुराण भी करता है; यथा—

‘तस्मान्न गोऽश्वत्कश्चिच्च-जातिमेदोऽस्ति देहिनाम् ।’

**अर्थ—**अतः मनुष्यों में गाय, घोड़े आदि की तरह कोई जाति भेद नहीं है।

जाति और वर्ण में इस प्रकार वास्तविक अन्तर दिखाकर अब यह दिखाया जाएगा कि वर्ण, जो प्रारंभ में कर्मगत था,

किस प्रकार अपना मौलिक महत्व खोकर जन्मगत जन्मानुसार वा वंशगत हो गया जिसका फल यह हुआ कि

वर्ण सन्तान अपने पूर्वपुरुषों के ही वर्ण की मात्री जाने लगी चाहे उसमें संबन्धित वर्ण को योग्यता वा अयोग्यता भले ही न पाई जाय। संसार का इतिहास इमें बताता है कि सभी देशों में धर्माचार्यों, पंडे-पुजारियों आदि का

आधिपत्य, दबदबा, प्रभाव आदि साधारण जनता पर सदा से चला आ रहा है और वे नाना प्रकार की सामाजिक सुविधाओं का उपभोग करते चले आ रहे हैं। सभी धर्म (मज़ाहब वा Religion) जनता के अन्धविश्वास पर अबलम्बित रहते हैं। वह नाना प्रकार के अलौकिक शक्ति-सम्पन्न मिथ्या देव-देवियों, फिरिश्तों, स्वर्ग, नरक, दोजख, वहिश्त आदि के अस्तित्व में विश्वास रखती है। उनके हृदय में चिरकाल से यह धारणा जड़ जमाए हुई है कि जिन धर्म गुरुओं की सहायता से उनके इष्ट देव प्रसन्न नहीं हो सकते; तथा उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति व नरक से नजात नहीं मिल सकती; क्योंकि वे ही, उनकी समझ में उक्त पारलौकिक कर्म-विषयक-विधि निषेध के विशेषज्ञ हैं। अतः उक्त पारलौकिक लाभों के लिए पुरोहितों को दान-मानादि से खुश रखना ज़रूरी हो जाता है, जिससे उनकी पाँचों ऊँगलियाँ, जनता के इस अन्धविश्वास से लाभ उठाते रहने से, सदा धी में ढूबी रहती है। स्वार्थ-परायणता मानव-प्रकृति का एक अंग सी मालूम पड़ती है शुद्ध से शुद्ध मानव-प्रकृति में भी इसका एक अंश अवश्य देखने में आता है। फल यह होता है कि जिन सुविधाओं का रसास्वादन हम एक बार कर लेते हैं, उन्हें हम छोड़ना नहीं चाहते। हमारी यही इच्छा होती है कि वे हमारी तथा हमारी भावी सन्तान की एकाधिकार बनकर रहें। हमारे यहाँ के बेचारे धर्माचार्य इस जगत व्यापी प्राकृतिक नियम के अपवाद कीसे हो सकते ये? ब्राह्मण-समुदाय ने समाज में जिस उच्चपद को कठोर परिश्रम के द्वारा अर्जित किया था, उसे अपने ही कुल में समित रखने को उन्हें स्वभावतः एक प्रबल इच्छा हो गई। उन्हें भय हुआ कि कहीं ऐसा न हो कि अन्य वर्ष के लोग भी गुण-कर्मों के द्वारा उन्नति करते-करते हमारे पद को छीन लें तथा हमारी भावी सन्तान अयोग्यता के कारण वर्णान्तर में ढकेल दी जाएँ; अतः वर्ष-

निर्गीयार्थ वे केवल जन्म को ही सब कुछ मानने तथा ऐसे-ऐसे श्लोकों की रचना करने लगे—

ब्राह्मणो जायमानोऽहि पृथिव्या मधिजायते ।

ईश्वरः सर्व भूतानां धर्म-कोशस्य गुप्तये ॥मनु० १४६॥

सर्व स्वं ब्राह्मणस्येदं यत्किंचिच्छ जगती गतम् ।

भैष्ट्येनाभिजनेनेदं सर्वं वैब्राह्मणोऽहति ॥मनु० १५००॥

स्वमेव ब्राह्मणो भुंक्ते स्वं वस्ते स्वं ददाति च ।

आनुशंस्याद् ब्राह्मणस्य भुंजते हीतरे जनाः ॥मनु० १५०१॥

अर्थ—ब्राह्मण जन्म लेते ही पृथ्वी के समस्त जीवों में अेष्ट होता है । वह सब प्राणियों का ईश्वर है और धर्म के ख़ज़ाने का रक्षक है ॥ इस जगत् में जो कुछ सम्पत्ति है, वह सब ब्राह्मण की ही निजि सम्पत्ति है । अपने उत्तम जन्म के कारण ब्राह्मण सकल सम्पत्तियों के पाने के योग्य है ॥ ब्राह्मण यदि पराया अंग भोजन करता है, श्रेष्ठता पराया वस्त्र पहनता है और पराये का धन लेकर दूसरों को देता है, तो वे सब उसके ही अन्नादि हैं; क्योंकि अन्य सब लोग ब्राह्मण की दया से ही मोजनादि पाते हैं ॥

जो लोग यह कहते हैं कि ब्राह्मणों ने अपने लिये धन-दौलत, भोग-विलास आदि कुछ भी नहीं रखा । उसे वे दूसरों को सौंप और स्वयं भिजा-बृत्ति अंगीकारकर संसार के सामने एक अलौकिक निः-स्वार्थता का आदर्श खड़ा कर दिया, वे पूरे ढुढ़ हैं । मनुस्मृति के पूर्वोक्त श्लोकों से प्रकट है कि दूसरे लोग धन को ब्राह्मणों के थाती-स्वरूप ही रखते थे, जिसे वे जब चाहें, ले सकते थे । इससे बढ़कर उत्सादी क्या होगी कि धनोपार्जन के लिये एड़ी-चोटी का पसीना एक करने वाला कठोर परिश्रम, और उसकी रक्षा में नीद को हराम

करने वाली चिन्ता तो करें दूसरे, और उसके द्वारा बैठें-बैठे मौज उड़ावें हम ! ब्राह्मणों की तथाकथित जन्मसिद्ध श्रेष्ठता के विषय में और पढ़िए—

ब्राह्मणं दशवर्षं तु शतवर्षं तु भूमिपम् ।

पितापुत्रौ विजानीयाद् ब्राह्मणस्तुतयोः पिता ॥

मनु० ३३५॥

अर्थ—दस वर्ष के ब्राह्मण और सौ वर्ष के लक्ष्मिय को कमशः पिता और पुत्र जाने; अर्थात् इन दोनों में बालक ब्राह्मण को पिता और बूढ़े लक्ष्मिय को पुत्र समझे ! इस श्लोक ने जन्म के तथाकथित महत्व का तो हइ ही कर दिया; यहाँ तक कि ब्राह्मण छोकरों को भी यड़-बूढ़े लक्ष्मियों का पिता बना दिया !! पुनश्च—

अविद्वांश्चैन विद्वांच ब्राह्मणो दैवतं महत् ।

प्रणीतश्चाप्रणीतश्च यथाग्निदैवतं महत् ॥३३६॥

अर्थ—जैसे अग्नि, चाहे संस्कार-युक्त हो वा संस्कारहीन, एक महान् देवता है, वैसे ही ब्राह्मण भी, चाहे विद्वान् हो वा मूर्ख, एक महान् देवता है ॥ पुनश्च उसी प्रसंग में—

शमशानेष्वपि तेजस्वी पावको नैव दुष्यति ।

हृयमानश्च यज्ञेषु भूयएवाभिवद्यते ॥

मनु० ३३७॥

एवं यद्यप्यनिष्टेषु वर्तन्ते सर्वकर्मसु ।

सर्वथा ब्राह्मणाः पूज्याः परमं दैवतं हि तत् ॥

मनु० ३३८॥

अर्थ—जैसे तेजस्वी अग्नि मरघट में मुदों को जलाने से भी अपवित्र नहाँ होता और यज्ञों में इवन किए जाने पर फिर भी वृद्धि को प्राप्त होता है । वैसे ही ब्राह्मण यदि निन्दित कर्म में भी प्रवृत्त हो

जाएँ तथापि वे सब के पूज्य हैं; क्योंकि ब्राह्मण परम देवता-स्वरूप हैं। इन श्लोकों ने तो गुण-कर्म के महत्व को पूरी तरह से ताक पर रख केवल जन्म को ही सब कुछ मान लिया। पुनश्च—

दशस्थानानि दण्डस्य मनुः स्वयंभुवोऽवर्वीत् ।

चिषु वर्णेषु यानिस्युरक्षतः ब्राह्मणो ब्रजेत् ॥

मनु० ८।२४

महापराध में स्वयंभुव मनु ने दंड के मूत्रेन्द्रिय आदि जो दस स्थान वर्गीन किए हैं, वे ज्ञात्रिय आदि केवल तीन वर्णों के ही लिये हैं; ब्राह्मण इन शारीरिक दंडों से मुक्त है। जब नीचे के श्लोक पर दृष्टिपात कीजिए जिसके द्वारा ब्राह्मण का पक्ष लेकर सभी को घमकी दी गई है—

यैः कृतः सर्वभद्रयोऽग्निरपेयश्च महोदधिः ।

ज्ञायीचाप्यायितः सोमः को न नश्येत् प्रकोप्यतान् ॥

मनु० ६।३।४॥५॥

अर्थ—जिन ब्राह्मणों ने कुद होकर अमि को सर्वमद्वी किया; समुद्र का जल स्वाराकर उसे पीने के योग्य न रहने दिया और चन्द्रमा को ज्यय रोग का रोगी बना पुनः उस पर दया करके उसे अच्छा किया, उन ब्राह्मणों को कृपित करके कौन ऐसा है जो नष्ट न हो जाएगा? जान पढ़ता है कि मनु (वा भगु) इस श्लोक की रचना करते समय गजा अम्बरीष का पक्ष लेकर सुदर्शन चक्र ने ब्रह्मपिं-पुंगव दुर्वासा की जो दुर्दशा की थी उसे भूल गए थे। भागवत ६।४-५ पढ़िए। कितने धूत्तं तथा उनके द्वारा बेवकूफ बनाए हुए कितने भोले-भाले हिन्दू भाई वह कहा करते हैं कि अरे भाई! पहले जमाने में ब्राह्मण देवता लोग ऐसे योग्य होते ही थे कि जिसके कारण उन्हें

श्लोक ३।३, ३।५ और ३।६ भी पढ़िए।

उक्त सब सामाजिक मुविधाएँ प्राप्त थीं तथा जनता भी उन्हें देवबुद्धि से देखा करती थी। इसके उत्तर में मुझे केवल इतना ही कहना है कि मनु ( वा भगु ) ने 'अविद्वान्श्चैव विद्वांश्च', 'एवंयचाप्यनिष्टेषु' आदि वचन ब्राह्मणों के पक्ष में लिखकर लायक और नालायक का प्रश्न ही उठा दिया। ब्राह्मण, चाहे लायक हो वा नालायक, समान रूप से पूजा के पात्र है। यही धर्मशास्त्र का आदेश है जो नितान्त स्वार्थपूर्ण है। इसके अतिरिक्त वह भी जान लेना चाहिए कि जिस ज़माने में योग्यता ही समाज में सम्मान पाने का आधार रहा होगा, उस ज़माने में ब्राह्मण अभिधा का कोई जाति या वंश न रहा होगा, फिर उक्त उद्धरण से यह बात भी स्वांडत हो जाती है कि उस काल में सभी ब्राह्मण लायक ही होते थे; उनमें नालायक कोई भी न था।

मनुस्मृति पर इस प्रकार ब्राह्मण जाति-विषयक स्वार्थपरायणता का दोष लगते हुए देखकर कुछ धूर्त्त उसकी सफाई मनुस्मृति में यह दलील पेश करते हैं कि मनु तो कुछ ब्राह्मण वस्तुतः भगु- नहीं थे जो उन्होंने स्वजाति के लिए जान-बूझकर स्मृति है पक्षपात किया। वे तो ज्ञात्रिय थे; अतः उन्होंने ब्राह्मणों के हक में जो कुछ लिखा है वह सर्वथा पक्षपातरहित और माननीय है। पर ऐसे धूर्त्तों तथा उनके बहकाए हुए अन्य सीधे-सादे भाइयों को मैं यता देना चाहता हूँ कि मनु का भाषण मनुस्मृति, अस्याय १, श्लोक ५६, तक जाते-जाते समाप्त हो गया है, जिसमें उन्होंने अपने भ्रोताओं को भगु से धर्मशास्त्र अवगत कर लेने का आदेश दिया है और उक्त श्लोक के बाद सारी मनु-स्मृति भगु की कही हुई है, जो स्वयं ब्राह्मण थे। अतः यदि मैं इस स्मृति को मनुस्मृति न कहकर भगुस्मृति कहूँ और भगु के स्वजाति ब्राह्मण-विषयक उक्त कथन को अन्यायपूर्ण कहूँ तो मेरा यह कथन

सोलहों आना सत्य है। मेरे इस कथन की पुष्टि मनुस्मृति के निम्न लिखित श्लोकों से होती है—

एतद्वोऽयं भूगुः शास्त्रं आवश्यव्यत्यशेषतः ।

एतद्वि मत्तोऽधिजगे सर्वमेषोऽस्विलं मुनिः ॥

मनु० १५६॥

इत्येतन्मानवं शास्त्रं भूगु प्रोक्तं पठन् द्विजः ।

भवत्याचारवाज्ञित्यं यथेष्टां प्राप्नुयाद् गतिम् ॥

मनु० १२१२६॥

**अर्थ—**भूगु जी इस शास्त्र को आदि से लेकर अन्त तक आप लोगों को सुनावेंगे; क्योंकि उन्होंने मुझसे सम्पूर्ण शास्त्र भली प्रकार पढ़ा है। इस प्रकार भूगु जी के कहे हुए इस मानव-शास्त्र को नित्य पढ़ने वाला द्विज आचारवान् हो जाता और स्वर्गमिवर्गरूप अभीष्ट गति को पा जाता है। यह श्लोक मनुस्मृति का अनितम श्लोक है जिस पर वह समाप्त हो जाती है। अतः वह भूगु स्वकथित इस मानव-शास्त्र में अपनी विरादरी के फ़ायदे के लिए अपनी और से नमक-मिर्च मिला दिए हों तो इसमें आश्चर्य ही क्या है? यथार्थ बात तो यह है कि ब्राह्मण और ज्ञात्रिय, दोनों एक ही धेली के चढ़े बढ़े हैं। वे एक ही रासन-शरीर की दो भुजाएँ हैं। उनमें से एक दूसरे के स्वार्थों की रक्षा करना स्वाभाविक है।

ब्राह्मण-स्वार्थ-पोषक पूर्वोदयत श्लोकों का तरह और भी कितने इलोक हमारे धर्मशास्त्रों, पुराणों तथा इतिहास-अन्थों में भरे पड़े हैं जो केवल इस जाति का हिन्दू समाज के ऊपर अखंड अधिकार तथा आतंक सदा के लिए कायम रखने के अभिप्राय से ही रखे गए हैं। इन श्लोकों से स्पष्ट है कि स्वार्थ, अहंकार, अकर्मण्यता, अनायास-लभ्य-सासारिक-मुख-लोकुपता ही ऐसी जघन्य मनोवृत्ति के कारण

ये। स्वार्थपरता अपनी चरम सोमा को तभी पहुँच गई जब महर्षि-पुंगव वशिष्ठ स्वयं वेश्या-पुत्र तथा वृषली (अक्षमाला) के न पीत होते हुए भा ब्राह्मण बन गए; पर उनको एक कुलीन ज्ञात्रिय-पुत्र विश्वामित्र की ब्राह्मणत्व-प्राप्ति असम्भव हो गई और उनसे जहाँ तक बन पड़ा, विश्वामित्र के अभ्युत्थान में रोडे अटकाने से वे बाज़ नहीं आए, और तिस पर तुरा यह कि उनको अपनी इस काली करतृत पर तनिक भी लज्जा न आई। महर्षिमन्य वशिष्ठ की यह स्वार्थ-पूर्ण द्वरकत हमें उन रेल-मुसाफिरों का व्यवहार याद दिलाती है जो स्वयं रेल के डब्बे में किसी तरह ज़ोर लगाकर सीट प्राप्त कर लेने के बाद दूसरों को अपने डब्बे में चढ़ने नहीं देते। ब्राह्मणों की इस स्वार्थ मनोवृत्ति का यह फल हुआ कि वर्ण-निर्णय में 'जन्म' ने 'कर्म' का स्थान छीन लिया और हिन्दुओं में जाति-प्रणाली की नीव पड़ गई, जिसने उन्हें सहस्रों दुकड़ियों में बिज्ज-भिज्जकर और उनमें परस्पर राग-द्रेष, असहिष्णुता, वृणा, असहानुभूति; लूआ-लूत आदि जैसा मलिन भावनाओं को फैलाकर उन्हें सदा के लिए कमज़ोर तथा अपाहिज बना दिया। यहाँ पर इसका विचार नहीं हो रहा है कि वर्ण-व्यवस्था अच्छी चीज़ है या बुरी; पर सच पूछिए तो यह व्यवस्था, चाहे भली हो या बुरी, वर्तमान काल में शास्त्रों द्वारा सहित समाज में एकदम लापता है। कहने का अभिप्राय यह कि इम किसी भी जाति को निष्पक्ष होकर सामूहिक रूप से धर्म शास्त्र-नुसार ठीक-ठीक किसी भी वर्ण के अन्तर्गत, यहाँ तक कि स्वयं ब्राह्मण जाति को भी उस रूप से ब्राह्मण वर्ण के अन्तर्गत नहीं रख सकते; कारण कि प्रत्येक व्यक्ति का वर्ण उसके गुण, कर्म और स्वभाव पर अवलम्बित रहता है और किसी भी जाति के सभी व्यक्तियों के गुण-कर्मादि एक से नहीं हो सकते। अतः हमें निश्चया-त्मक रूप से समझ लेना चाहिए कि अधुनातन हिन्दू-समाज चार

वर्णों में नहीं; बल्कि असंख्य संदिग्ध-वर्ण जातियों में विभक्त हो गया है जो बाहर से देखने पर नारंगी के फल की तरह एक मालूम होता हुआ भी भीतरी भाग में अनेक परस्पर निरपेक्ष फौंकों से भरा है। अथवा दूसरे शब्दों में यह समझिए कि हिन्दू नामधारी यह विशाल समाज परस्पर असंबद्ध तथा राष्ट्रीय चेतनाहीन हजारों जातियों तथा उपजातियों का ढेर मात्र है।

यह देखकर कि वर्ण-व्यवस्था किस प्रकार आरभ्म में कर्म-मूलक होकर भी बाद में जन्म-मूलक हो गई, अब वर्ण-व्यवस्था यह दिखाया जाएगा कि यह व्यवस्था, कर्म तथा कर्म तथा जन्म दोनों की ही दृष्टि से असिद्ध, अव्यावहारिक दोनों से तथा हानिकर है। कर्म-मूलक वर्ण-व्यवस्था जन्म-मूलक वर्ण-व्यवस्था से कुछ अच्छी होती हुई भी असिद्ध है। सदा चल नहीं सकती। वह अवश्य ही चलते-चलते कुछ काल के बाद स्वार्थवश जाति प्रथा में बदलकर उन्हीं बुराइयों को उत्पन्न कर देगी जिनके शिकार हम आज दिन हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त कर्म-मूलक वर्ण-व्यवस्था के विरुद्ध एक भारी आपत्ति तो यह है कि उसको व्यावहारिक रूप देना नितान्त मुश्किल है; कारण कि इसके अनुमार एक ही परिवार में ब्राह्मण और चांडाल दोनों का ही होना संभव होने से पातिवारिक सगठन का उच्छ्रेद होगा और एक ही व्यक्ति का अपने जीवन-काल में ही कर्म-परिवर्तन भी संभव होने से उसके वर्ण का निर्णय बार-बार करना पड़ेगा जो भारी झंकट है। और सबसे भारी झंकट तो यह है कि जन्म-मूलक वर्ण-व्यवस्था के बल पर जो जातियां नाना प्रकार की सामाजिक सुविधाओं का उपभोग कर रही हैं, उन्हीं के पास धन, पृथक् और अधिकार हैं और वे स्वार्थवश वर्ण-व्यवस्था को गुण-कर्म-नुसार चलने नहीं देंगी। जन्म-मूलक वर्ण-व्यवस्था तो एकदम मिथ्या, कपोल-कल्पित,

आदेशानिक तथा अन्याय और स्वार्थपरता से भरी है। हमारा कल्याण तो इसी में है कि हम चातुर्वर्षण के नाम तक को, चाहे वह कर्म से हो वा जन्म से, मिटियामेट कर दें जिसमें फिर कभी वह अंकुरित न होने पावे। यदि यूरेप तथा अमेरिका जैसे सभ्य भूमांगों के निवासी अपने यहाँ के विद्वानों तथा शूर-वीरों के चेहरे पर 'ब्राह्मण' और 'क्षत्रिय' के लेखुल विना चिपकाए हुए ही उनका यथोचित आदर-सत्कार किया करते हैं, तो कोई भी कारण नहीं दीखता कि हमारे यहाँ के विद्वानों तथा शूर-वीरों को सम्मान-पात्र बनाने के लिए उक्त लेखुलों की आवश्यकता हो। इन वर्णनामों को समूल नष्ट कर देने का एक और भी कारण है जो विशेष ध्यान देने योग्य है। यह अनुमत्व-सिद्ध है कि जो भावनाएँ जिस नाम के साथ एक बार लग जाती हैं वे हमारी एक ऐसी मनोवृत्ति का रूप धारणा कर लेती हैं जिससे छुटकारा पाना, मूर्खों को कौन कहे, विद्वानों के लिए भी कठिन हो जाता है। 'ब्राह्मण' शब्द के साथ उच्चता तथा 'शूद्र' शब्द के साथ नीचता का जो भाव एक बार लग जुका है उसके कुसंस्कारों से बड़े से बड़े हिन्दू-सुधारक भी अपना पीछा न छुड़ा सके। हिन्दू संस्कृति में सदा से यह वर्ण-विभाग ब्राह्मण को पूज्य तथा शूद्र को हीन मानता चला आया है; अतः फल यह हुआ है कि विद्वान् से भी विद्वान्, तथा चरित्रवान् से चरित्रवान् शूद्र उस सम्मान का पात्र नहीं हो सका है जो उसके ब्राह्मण होने पर मिलता। आश्चर्य है कि हम अपने देश को यूरेप तथा अमेरिका जैसा शक्तिशाली राष्ट्र बनाना चाहते हैं, पर हमें वहाँ की सामाजिक व्यवस्था मंजूर नहीं। हमारे ये विचार कैसे परस्पर विरोधी हैं।

कर्म-मूलक वर्ण-व्यवस्था के विरुद्ध जितनी बातें अभी लिख आया हूँ, उनके अतिरिक्त कुछ और भी बातें हैं जो इस प्रकार की

वर्ण-व्यवस्था के प्रचार में भाषक हो सकती है। जिस काल में पहले-पहल वर्ण-व्यवस्था विविध कर्मों के आधार पर चली थी उस काल में समाज की आवश्यकताएँ उतनी नहीं थी जितनी बाद में हुईं। उस काल की आवश्यकताओं के बश जितने धन्वे थे उनकी संख्या के अल्प होने के कारण उनके करने वाले चार श्रेणियों में ही खप गए। पर आगे चलकर नए-नए धन्वों का आदुर्भाव हुआ, जिनके करने वालों का वर्ण-निर्णय करना कठिन हो गया। उदाहरण के लिए लेखकों और गणकों की जाति को लीजिए। इसका कर्म चारुवर्ण्य के किसी भी वर्ग के समान नहीं है; अतः सका वर्ण आज तक विवाद-भ्रष्ट ही है। इसके अतिरिक्त वर्तमान काल में कितने और भी धन्वों का, जैसे मुख्तारकारी, वकालत, आदि का, प्रादुर्भाव हो गया है जिनका कर्मानुसार वर्गीकरण मुश्किल है। हम अपने धर्मशास्त्रों के अनुसार ठीक-ठीक कभी नहीं बता सकते कि कानून जीवी लोगों को किस वर्ण के अन्तर्गत रखा जाए।

पर यहाँ पर स्वभावतः एक प्रश्न उठ सकता है कि यदि प्राचीन हिन्दुओं में कर्म-मूलक वर्ण-व्यवस्था एक बार चल चुकी थी तथा कर्म-परिवर्तन के साथ-साथ वर्ग परिवर्तन भी हुआ करते थे जिनके करिपय उदाहरण अभी इसी परिच्छेद में दिए गए हैं, तो क्या कारण है कि आधुनिक हिन्दू समाज में पुनः उसी प्रकार की वर्ण-व्यवस्था तथा कर्म-परिवर्तन-बश वर्ग-परिवर्तन की भी प्रश्ना चल नहीं सकती। इस प्रश्न के उत्तर में कितनी ही बातों का विचार करना होगा। प्रथम तो यह कि किसी भी देश के निवासियों के आचार-विचार तथा रस्म-रेवाज़ सदा एक से नहीं रहते; काल पाकर पर्याप्ति के परिवर्तन के साथ-साथ उनमें सदा परिवर्तन हुए करते हैं। एक युग या जय कि हिन्दू जाति में द प्रकार के विवाह

तथा १२ प्रकार के पुत्र स्वीकृत थे। तत्कालीन कानून इतना ढीला था कि ज विवाह तथा पुत्र आधुनिक दृष्टि से कमशः घोर जुर्म तथा अवैध समझे जाएँगे, वे भी धर्मानुसार जाएँगे माने जाते थे। उस जमाने में हिन्दुओं के खान-पान में भी इतना परहेज़ न था जितना इम आज देखते हैं; यहाँ तक कि, जैसा मैं चतुर्थ परिच्छेद में सप्तमांश लिख आया हूँ, गोमांस, जो आधुनिक हिन्दू के लिए एक शपथ की वस्तु हो गई है, अन्य भद्र य पशुओं के मांस की ही तरह भोजन के लिए स्वीकृत था। पर जैसे आजकल इन विविध प्रकार के अपराध-मूलक विवाहों, पापजात पुत्रों तथा गोमांस-भक्षण की प्रथा को पुनरुज्जीवित करना असंभव है, वैसे ही वर्ण-व्यवस्था को पुनः कर्मानुसार चलाना भी असंभव है। दूसरी यह कि प्राचीन हिन्दुओं की जैसी मनोवृत्ति थी वैसी मनोवृत्ति आधुनिक हिन्दुओं की नहीं है। प्राचीन भारतीय आर्यों के मस्तिष्क में आर्य और अनार्य (दास, दस्यु, आदि) इन दो जातियों को छोड़कर किसी अन्य जाति का अस्तित्व न था और उन्हें यदि जाति के कारण किसी के साथ द्वेष या तो वह केवल अनार्य-समुदाय था; अन्यथा सभी आर्य-विरादरी एक थी और उनमें सभी वर्णों के कार्य होते रहने पर भी आपस में वर्ण के कारण बड़े और छोटे को भावना न थी। यही कारण था कि उनमें कर्म-मूलक वर्ण-व्यवस्था आसानी से चल पड़ी और वह तब तक फूलती-फूलती रही जब तक पुजारी-वर्ग के हृदय में स्वार्थपरता ने अपना डेरा नहीं जमाया, जिसका उल्लेख मैं इसी परिच्छेद में कर चुका हूँ। तीसरी बात यह है कि जन्म-मूलक वर्ण-व्यवस्था ने वर्तमान हिन्दुओं की आत्मा को अपने चंगुल में इतने ज़ोर के साथ पकड़ लिया है कि उनका उससे निकल मागना आत्मिक निर्वलता के कारण असंभव है इत्यादि।

वर्ण-व्यवस्था के जन्म-प्रभान हो जाने से हिन्दू समाज का जो

महान् अनिष्ट हुआ उसकी कथा परम दारणा है जिसे सुनकर रोप  
और शोक से हृदय उद्दिग हो जाता है। इस जन्म-  
जन्मगत वर्ण- मूलक वर्ण-व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का  
व्यवस्था के वर्ण तथा कर्म उसके वैयक्तिक योग्यता वा अयोग्यता  
कुपरिणाम पर नहीं; बल्कि कुलविशेष वा जातिविशेष में उसके  
जन्म लेने पर निर्भर हो गया। इस पर तुर्ग-स्वरूप  
भर्मशास्त्रों ने यह भी व्यवस्था कर दी कि कोई भी मनुष्य अपने से  
कँची जाति का कर्म नहीं कर सकता; अन्यथा वह राजा के द्वारा  
दंडित होगा। मनु १०।६६ पढ़िए—

यो लोभादधमो जात्या जीवेदुत्कृष्ट कर्मभिः ।

तं राजा निर्धनं कृत्वा च्छ्रिप्रमेव प्रवासयेत् ॥

अर्थ—यदि कोई नीच जाति का व्यक्ति लोभवश कँची जाति  
की जीविका करे तो राजा उसका सर्वत्व छोनकर उसे शीघ्र ही देश  
से निकाल दे। यह विधान जिस प्रकार ब्राह्मणों  
( १ ) ब्राह्मण- और चत्रियों के स्वार्थ का साधक हुआ, उसी प्रकार  
चत्रियों को वैश्यों और शूद्रों की उन्नति का बाधक हुआ। इसकी  
स्वार्थ पूरण छत्रचत्राया में ब्राह्मण और चत्रिय तो उन्नति के  
उन्नति शिखर पर जा पहुँचे; पर वैश्य और शूद्र अवन्नति  
के महागर्त्त में जा गिरे। ब्राह्मण के भरण-पोषण

का भार दूसरों पर रहने से उन्हें बौद्धिक विकास का अपूर्व अवसर  
मिला। सांसारिक भक्तों से निर्दन्द रहने के कारण वे सरस्वती  
सेवा में सदा तत्पर रहे जिसका यह फल हुआ कि उन्होंने दर्शन  
च्योतिष, गणित, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, छन्द, व्याकरण, निरुक्त,  
अलंकार, काव्य, नाटक आदि विद्या के विविध द्वेषों में अपनी  
अलौकिक कुशाग्र-बुद्धि के द्वारा प्रवेशकर इन सभी विषयों पर  
अनेक अन्धरत्नों की रचना की, जिससे उनकी कीर्ति संसार में

सदा के लिए अजर और अमर हो गई। और ज्ञात्रियों ने भी अपने लात्र धर्म के परिपालन द्वारा बुछ कम उन्नति अपने ज्ञेत्र में नहीं दिखाई। उन्होंने भारत में कुरु, पांचाल, मत्स्य, काशी, कोशल, विदेह (मिथिला) मगध, अंग वंग, कलिंग, विदर्भ, निषध आदि अनेक समृद्धिशाली स्वतंत्र राष्ट्रों की स्थापना की जहाँ पर वीर

ज्ञात्रियनरेण्ड्र गण श्रुतिस्मृत्युक्तब्राह्मणी विधानानुसार

(२) वैश्य-  
शूद्रों की  
अन्यायपूरण  
अधोगति

प्रजा-वर्ग पर शासन करते थे। पर खेद के साथ कहना पड़ता है कि ब्राह्मणों और ज्ञात्रियों की यह उन्नति स्वार्थदोष से सदा कलंकित रही; क्योंकि, जैसा आगे चलकर दिखाया जाएगा, वैश्य और शूद्र इससे कानून-द्वारा बंचित रखे गए, अन्यथा

उनमें भी बड़े-बड़े विद्वान् तथा शूर-वीर उत्पन्न होते; क्योंकि उन्नति किसी जाति-विशेष की वपौती नहीं है। पर वे स्वार्थपूर्ण शासन के कारण कभी भी उन्नत नहीं होने पाए और अपना जीवन मूक पशुओं की तरह बिताते रहे। इस स्वार्थपूर्ण शासन में ब्राह्मण कानून-निर्माता और राजमंत्री तथा ज्ञात्रिय राजा, सैनिक, न्यायाधीश तथा प्रबन्धकत्ता (Executive) हुआ करते थे; पर वैश्यों और शूद्रों का कोई स्थान न था। सारी हिन्दू जनता दो वर्गों में विभक्त थी—शासकवर्ग और शासितवर्ग। शासकवर्ग में थे ब्राह्मण और ज्ञात्रिय, और शासितवर्ग में थे वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों और ज्ञात्रियों ने मिलकर अपना एक गुद्ध बना लिया था जिसका एकमात्र उद्देश्य केवल वैश्यों और शूद्रों को अपनी शासन-चक्री में सदा पीसते रहना था, जिसमें ये कभी भी अपना सिर उठाने नहीं पावें। मनुस्मृति के निम्नालिखित श्लोकों पर ज्ञात्रि निष्पक्ष भाव से विचार कीजिए—

ना ब्रह्म ज्ञात्रमुध्नोति नाक्षत्रं ब्रह्म वर्द्धते।

ब्रह्म चत्रं च समृक्तं मिह चामुचं वद्धते ॥

मनु ६।३२२ ॥

**अर्थ—** ब्राह्मण-विहीन चत्रिय कभी भी वृद्धि नहीं पा सकता और ब्राह्मण भी चत्रिय के बिना वृद्धि नहीं पा सकता । ब्राह्मणत्व और चत्रियत्व एकत्र मिलने पर इस लोक और परलोक में परस्पर वृद्धि पाते हैं ।

यस यही श्लोक ब्राह्मणी शासन की आधार-शिला है, जिस पर खड़ा रहकर उसके दुर्घट दुर्गं ने स्मरणातीत काल से गौतम बुद्ध आदि जैसे अनेकों सुधारक शत्रुओं के प्रबल प्रहारों को भी पुष्ट-प्रहारवत् विफल कर दिया । यही श्लोक उक्त शासन की आत्मा है जिसके निकलते ही उसका सुसंगठित शरीर निष्पाशा होकर आग में मोम की मूर्ति की तरह ज्ञान में प्रघञ सकता है । यही श्लोक उक्त शासन-प्रणाली का मूल-मंत्र है जिसका जाप आज तक शासकवर्ग निरन्तर करता हुआ इस विशाल हिन्दू समाज को अपने संकेत पर न चाता चला आ रहा है । यथापि वैश्यों और शूद्रों में अपने स्वेच्छाचारी शासकों के विरुद्ध सिर उठाने की तनिक भी शक्ति न थी; तथापि मनु के हृदय में, चोर की दाढ़ी में तिनके की तरह, यह भय सदा बना रहा करता था कि ब्राह्मणों और चत्रियों में कहीं फूट होकर उनकी शक्ति ज्ञान न हो जाय जिससे शासितवर्ग को उनका शासन उलट देने का मौका मिले । अतः उन्होंने उक्त दोनों प्रबल जातियों को इस श्लोक के द्वारा सदा मिलकर काम करने सख्त ताकीद दी है । मनु की यह बदनीयत और भी स्पष्ट हो जाती है जब वे राजाओं को निम्नलिखित श्लोक के द्वारा वैश्य और शूद्रों को अपने-अपने कर्म में सदा जुटाए रखने का आदेश देते हैं—

वैश्यशूद्री प्रयत्नेन स्वानि कर्माणि कारयेत् ।

तीहिन्युतौ स्वकर्मेभ्यः क्षोभयेतामिदं जगत् ॥

मनु० ८४१॥

अर्थ—राजा को चाहिए कि वैश्यों और शूद्रों को अपने-अपने कर्मों में यत्नपूर्वक लगाए रहे; अर्थात् उनसे अपना-अपना कर्म करवाता रहे; क्योंकि यदि ये अपने-अपने कर्मों से भ्रष्ट होंगे; अर्थात् उन्हें छोड़ देंगे, तो ये जगत् को व्याकुल कर देंगे।

पाठकवृन्द ! देखी मनु की चालवाजी आपने ? ऐसी कुटिल नीति का एकमात्र अभिप्राय यही था कि कहीं वैश्य और शूद्र अपना-अपना कर्म छोड़कर ब्राह्मण और द्वितीय के कर्म न करने लग जाएँ जिससे इन उच्च वर्णों के स्वार्थ में धक्का लगे। मनु के इस आईनेन्स के साथ साथ ‘यो लोभादधमोजात्या’ वाला श्लोक पढ़िए,

(३) ब्राह्मण  
द्वितीयों का वैश्य-शूद्रों पर निरंकुश शासन तो आपको मालूम होगा कि हिन्दू समाज की निर्बंल जातियों के जन्म-सिद्ध अधिकार किस निर्देशता तथा

स्वार्थ-परता के साथ कुचले गए। इस पर मजा तो यह कि मनु वा किसी भी अन्य स्मृतिकार ने यह कहीं भी नहीं लिखा कि राजा ब्राह्मणों और द्वितीयों से भी अपना-अपना कर्म करवाता रहे। कारबा स्पष्ट है। ब्राह्मण तो ठहरे जगद्गुरु ! भला किसका भजाल था कि उन्हें अपने नियंत्रण में रख सके ! जिस ब्राह्मण जाति का प्रताप इतना प्रबल था कि उसकी महिमा गोस्वामी दुलसीदासजी के शब्द में ‘भारत हू पा परिय तुम्हारे’, ‘अभय होइ जो तुमहि ढराई’, आदि सरीखे वचन गा रहे हैं, भला उसकी ओर आँख उठाने का सामर्थ किसमें था ! और द्वितीय तो खुद राजा के ही भाई-बन्धु ठहरे ! उनके साथ लिहाज तथा मुरीवत का वर्ताव करना राजा को ज़रूरी था। इसके अतिरिक्त द्वितीय जाति वैश्यों और शूद्रों की तरह निःश नहीं थी। उसके हाथ में थी तलवार। अतः राजा के हृदय में यह

भय सदा बना रहता था कि कहीं ज्ञातियों पर जोर-जुलम किया गया तो लेने के बदले देने पड़ेगे; क्योंकि सैन्य-बल उन्हीं के हाथ में है। वे असन्तुष्ट होते ही राजा के लिए तुरत इथियार उठाकर विद्रोह कर बैठेंगे जिसका दमन करना कठिन होगा। बाकी रह गए विचारे वैश्य और शूद्र। इन पर मनमाना शासन करो, कोई बोलने वाला नहीं। मनु का दण्ड-विधान भी ब्राह्मणों और ज्ञातियों की अपेक्षा वैश्यों और शूद्रों के प्रति अधिक कठोर है।

वैश्यों और शूद्रों को नीचे गिराने के लिए और भी कितने नीच उपायों का आश्रय लिया गया, यहाँ तक कि वेदों में भी, जिन्हें

आस्तिक हिन्दू प्रमुख की बाणी मानते हैं, 'ब्राह्मणो-  
(४) वैश्य-शूद्रों उत्थमुखमासीत्' आदि जैसे पुरुष-सूक्त के जाली

का अध्यः—  
पतन मन्त्र धुसेङ्ग दिए गए, जिसका हवाला दे-देकर

सर्वत्र यह प्रचार किया गया कि ब्राह्मण परमात्मा के मुँह से, ज्ञातिय उसकी बाहो से, वैश्य उसकी जाँघों से तथा शूद्र उसके पैरों से उत्पन्न हुए हैं, जिससे जनता में यह भावना फैले कि ब्राह्मण और ज्ञातिय परमात्मा के उत्तम अंगों से उत्पन्न होने के कारण जन्म से ही श्रेष्ठ तथा वैश्य और शूद्र उसके निकृष्ट अंगों से उत्पन्न होने के कारण जन्म से ही निकृष्ट हैं। शूद्र तो पैर से उत्पन्न होने के कारण नीच और हेय माने ही गए, पर वैश्यों की भी दशा अच्छी न रही। इनकी उत्पत्ति परमात्मा के उरुदेश (जाँघ) से हुई बतलाई गई जो नाभी के नीचे रहने के कारण शास्त्र की दृष्टि में एक अपवित्र अंग है, अतः वैश्य भी उत्पत्ति से ही नीच है—

उर्ध्वं नामेयानि स्वानि तानि मेध्यानि सर्वशः ।

यान्य धस्तान्यमेध्यानि देहाच्चैव मलाश्चयुताः ॥

अर्थ—जो इन्द्रियाँ नाभि के ऊपर हैं वे सब पवित्र, और जो नीचे हैं वे तथा देह से निकले हुए मल आपवित्र हैं।

कहूँ वेद-मंत्रों में ‘वैश्य’ और ‘शूद्र’ शब्द एक साथ लिखे गए ताकि मालूम हो कि इन दोनों जातियों में परस्पर समानता तथा मेल-जोल है, यद्यपि वास्तव में ब्राह्मणों और ज्ञात्रियों की तरह उनमें कोई भी वैसा मेल-जोल वा गुड्डवन्दी न थी। वैश्यों का शूद्रों के साथ यह उल्लेख केवल उनकी निकृष्टता दिखाने के ही अभिप्राय से हुआ; यथा—‘शूद्रायांवासुज्येताम्’; ‘यच्छूद्रेयदयें’; ‘शूद्राय चार्यायच’; ‘उत शूद्र उतायें’ इत्यादि।

श्रीकृष्ण ने भगवद्गीता में वैश्य और शूद्र दोनों को ही ‘पाप योनि’ कहा है जिसका अर्थ है ‘जिसकी उत्पत्ति पाप से हुई है’—

मां हि पार्थ व्यापाश्रित्य येऽपिरस्युः पाप योनयः ।

स्त्रियो वैश्या स्तथा शूद्रास्तेऽपियान्ति परां गतिम् ॥

भगवद्गीता ६।३२॥

अर्थ—हे अर्जुन ! मेरी शरण में आकर स्त्री, वैश्य तथा शूद्र, जिनकी उत्पत्ति पाप से हुई है, परमगति को प्राप्त हो जाते हैं। इस श्लोक की सविस्तर व्याख्या द्वितीय परिच्छेद में ‘(ग) वैश्य’—शोषक के नाचे लिख आया हूँ। वहाँ देख लीजिए। पुनः इसी प्रसंग में श्रीकृष्ण ने ब्राह्मण और ज्ञात्रिय का कितना महत्त्व आगे के श्लोक में दिखाया है, उसे भी सुन लीजिए—

किं पुनर्ब्राह्मणाः पुरेया भक्ता राजर्षयस्तथा ।

अनित्यमसुखं लोक मिमं प्राप्य भजस्वमाम् ॥

भगवद्गीता ६।३३॥

फिर पुरेय ब्राह्मणों तथा भक्तों राजर्षियों का कहना ही क्या है ? अर्थात् इनके लिए तो परमगति की प्राप्ति रखी ही हुई है।

अतः अनित्य तथा सुख से रहित इस संसार में जन्म लेकर मेरा भजन करो ।

पाठकवृन्द ! यहाँ देख लीजिए कि किस स्पष्टता के साथ श्रीकृष्ण ने एक ही श्वास में ब्राह्मणों और लक्ष्मियों को पुश्य तथा अष्टि; पर वैश्यों और शूद्रों को पापयोनि कह दिया है ।

वैश्यों को नीचता के और भी प्रमाण लीजिए । विष्णु-ऋत्य में उन्हें जघन्य-कर्मा लिखा है जिसका अर्थ है 'नीच कर्म वाला'—

'जघन्यकर्मा वैश्यः स्यात् सेवा-कर्मांतु पादजः' ।

अर्थ—वैश्य नीच कर्म वाला तथा शूद्र सेवा कर्म वाला है ।

वाणिज्य वैश्यों का शास्त्र-विद्वित कर्म है । इसीसे वैश्यों का विशिक भी कहते हैं । विशिकों ( वैश्यों ) को महर्षि व्यास ने अपनी समृद्धि में किस रसातल में ढकेला है, जरा उसे भी सुन लीजिए—

वरिष्ठिकरात-कायस्थ-मालाकार-कुदुम्बिनः ।

वेरटो मेद-चारडाल-दासश्वपच-कोलकाः ॥

एतेऽन्त्यजाः समाख्याता ये चान्ये च गवाशनाः ।

एषां सम्भाषणात्मनान् दर्शनादर्क वीक्षणम् ॥१११११२॥

अर्थ—विशिक, किरात, कायस्थ, माली, वौसफोड़, स्यग्मार, कजर, चांडाल, बारी, भगी और कोल अथवा और जो दूसरे गो-भक्षक हैं, वे अन्त्यजों में शुमार किए गए हैं । इनसे योलने का दोष स्नान करने से तथा इनको देखने का दोष सूर्य की ओर ताकने से छूटता है ।

व्यासजी को यह व्यवस्था जो स्वयं अपने अवैष सन्तान थे, वैश्यों को कुचे पकाकर खाने वाले खानाबदोष कंजरों तथा गोमांस खाने वाले चमारों की भेणी में घसीट लाती है और साथ-

साथ कायस्थ जैसी पढ़ी-लिखी जाति पर भी, जो अपने को द्विज होने का ढिंडोरा पीटती चलती है, खूब कसकर चाबुक जमा देती है।

यहाँ पर मैं अपने पाठकों को यह कहकर सावधान कर देना चाहता हूँ कि वैश्य-शूद्रों के विरुद्ध उनकी निकृष्टता के प्रमाणों का जो यहाँ पर संग्रह किया गया है उसका यह मतलब कदापि नहीं है कि वे यथार्थ में हैय, निकृष्ट, जघन्य आदि हैं; उनके संग्रह-द्वारा केवल यही दिखलाया गया है कि उन विचारों के साथ कितना अन्याय तथा अत्याचार हिन्दू धर्मशास्त्रकारों के द्वारा किया गया है। इसी प्रसंग मैं अपने को जन्मतः ब्राह्मण तथा ज्ञात्रिय मानने वाले भाइयों से स्पष्ट शब्दों में यह भी पूछ लेना चाहता हूँ कि उनके मूल पुरुष कौन थे, जो ब्रज्ञा जी के क्रमशः मुँह और बाँह से उत्पन्न हुए थे तथा जिनके कुल में प्रारम्भ से लेकर आज तक अन्य जातियों के रक्त के साथ कभी भी सम्मिश्रण नहीं होने के कारण उनकी धर्मनियों में अपने-अपने पूर्वजों का विशुद्ध शोणित आज भी अपने मौलिक रूप में अच्छुरण रहकर प्रवाहित हो रहा है। यदि मुझे इसका सन्तोषप्रद उत्तर न मिला तो क्या मेरी यह धारणा निर्मूल होगी कि उनकी भी जाति जिसकी सविस्तर उत्पत्ति इस ग्रन्थ के द्वितीय तथा तृतीय परिच्छेदों में लिख आया हूँ, उसी प्रकार हैय है जिस प्रकार नीली राग-रंजित जन्मु विशेष की, अथवा सिंह की खाल ओड़े असिंह की, अथवा मयूर-पञ्च-धारी अमयूर की? जिन्हें अपनी जाति का घमंड हो वे कृपा-पूर्वक उक्त परिच्छेदों को ठंडे दिल से पढ़ें और अपने हृदय पर अपना हाथ रखकर अपनी आत्मा से पूछें कि सचमुच उनकी जाति कैसी है जिसके बल पर उन लोगों ने इस असार संसार में इतना कुराम मना रखा है!

वैश्य-शूद्रों को जाति की दृष्टि से यो नीचे गिराकर उनकी उत्पत्ति (५) वैश्य-शूद्रों के मार्ग में किस प्रकार कानून द्वारा रोड़े अटकाएं

की उन्नति में गए उसे पढ़कर किस सहृदय मनुष्य का हृदय नहीं बाधा दहल उठता ! मनु कर्माते हैं—

यो लोभादधमो जात्या जीवे दुत्कृष्ट कर्ममिः ।  
तं राजा निर्धनं कृत्वा निप्रसेव प्रवासयेत् ॥

मनु० १०६६॥

अर्थ—यदि कोई नीच जाति का व्यक्ति लोभ में पड़कर कँची जाति की जीविका करते तो राजा उसका सर्वस्व छीनकर उसे शीघ्र ही देश से निकाल दे ।

ये हैं धर्मगाढ़कार-शिरोमणि महाराज मनु के वचन जिनकी प्रधानता वेदार्थों को उपनिवद्ध करने के कारण सर्वत्र मानी जाती है । यदि सचमूच ही हिन्दुओं के वेद भगवान् की यही नियत है कि कोई भी नीचे से ऊपर को उन्नति करके नहीं उठ सकता तो ऐसे अन्यायी तथा अत्याचारी वेद भगवान् को गंगासागर के प्रवाह में बद्धा देना ही श्रेयस्कर है ।

शास्त्रकारों ने ऐसे-ऐसे कानून बनाकर वैश्यों और शूद्रों के लिये उन्नति का द्वार सदा के लिये बन्द कर दिया । यदि कहा जाय कि क्या उक्त व्यवस्था ने ज्ञात्रियों को भी ब्राह्मण की जीविका करने से नहीं रोका ? यह तो ज्ञात्रियों पर भी लागू है; केवल वैश्य-शूद्रों पर ही नहीं । यो तो साधारण रूप में यह दलील ठीक जचती है; पर वास्तव में वैसी नहीं है, क्योंकि उक्त श्लोक में अधम जाति का उल्लेख हुआ है और ज्ञात्रिय को अधम जाति किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा, पर वैश्यों और शूद्रों के अधम बताये जाने के कई प्रमाण पूर्व में दिये गये हैं । इसके अतिरिक्त ब्राह्मणों और ज्ञात्रियों में बहुत कुछ समानता भी देखने में आती है । पूर्व में मैं कह आया हूँ कि कितने ब्राह्मण-गोत्र, जैसे धार्म, अग्निवेश्य, रथीतर, हारीत, मेघांतिथि

गार्थं मौद्रगल्य, विश्वामित्र, कौशिक आदि, क्षत्रियों से ही उत्पन्न हुए हैं तथा कितने क्षत्रिय राजवंश निश्रोग द्वारा ब्राह्मणों के ही चलाए हुए हैं। मनु ने तो स्पष्ट शब्दों में लिख दिया है कि क्षत्रिय ब्राह्मणों से ही पैदा हुए हैं—

क्षत्रस्यातिप्रवृद्धस्य ब्राह्मणान् प्रति सर्वशः ।

ब्रह्मैव संनियंतृस्यात् क्षत्रं हि ब्रह्म संभवम् ॥

मनु० ६।३२०॥

अर्थ—यदि ब्राह्मणों के प्रति क्षत्रिय अत्याचार करने लगे तो ब्राह्मण ही उनका शाप, अभिचार आदि से दमन करें; क्योंकि क्षत्रिय ब्राह्मण से उत्पन्न हुए हैं।

अतः ब्राह्मण और क्षत्रिय, ये दोनों जातियाँ, यदि एक दूसरे से ही उत्पन्न हुई हैं, तो उनमें परस्पर सहानुभूति तथा गुड़-बन्दी का होना कोई आश्वर्यजनक नहीं है और कोई क्षत्रिय यदि ब्राह्मण की जीविका करने लगे तो उससे बोलने वाला ही कौन है? पर वैश्य-शूद्रों के विषय में यह कहीं भी लिखा नहीं पाया कि ये एक दूसरे से उत्पन्न हुए हैं; अतः इनमें कभी भी ब्राह्मण-क्षत्रियों के विरुद्ध कोई गुड़बन्दी नहीं हुई। पूर्णोदृत वेद-मंत्रों में जो इनका साहचर्य दिखलाया गया है वह यिल्कुल अकारण है जो मानने योग्य नहीं है। उसका अभिप्राय, जैवा कि पहले कहा गया है, केवल वैश्यों को मूठ बोलकर गिराना है। वैश्य तो द्विजन्मा हैं; पर व्यास ने भी उन्हें अन्यजौ में पुमारकर उनके साथ घोर अन्याय किया है यह वैश्य जाति की निर्वलता तथा सूधापन का फल है।

पहले तो वैश्य-शूद्रों को जन्मतः नीच ठहराया गया; तत्पश्चात् उनकी उन्नति का द्वार बंद किया गया और अन्त में उनका धन किसी न किसी बहाने छोनकर उन्हें दरिद्रता के दुर्भय जंजीरों में सदा के

लिए जकड़ देने का प्रबन्ध किया गया। मनु के निम्नोदृत श्लोकों  
को पढ़िए और मेरे कथन की सारता पर विचार कीजिए—

यो वैश्यः स्याद् बहु पशुहीन कनु रसोमपः ।

कुद्रम्भाचस्य तद्रव्यमाहरेद्यजसिद्ये ॥

मनु० १११२॥

अर्थ— जिस वैश्य के पास बहुत से पशु हो और वह यज्ञ से  
हीन तथा सोमरस का न पान करने वाला हो तो उसके घर से  
उसका धन ( द्वितीय और विशेषकर के ब्राह्मण के ) यह को पूरा  
करने के लिए छोन लेवे। सारांश यह कि पास में प्रचुर धन रखते  
हुए भी जो वैश्य अपनो कंजूसी के कारण यज्ञादि शुभ कर्म न करे  
तो उसका धन जबर्दस्ती छोनकर किसी ब्राह्मण वा ऋत्रिय के यज्ञ में  
खर्च कर देवे।

पाठकवृन्द ! समझा आपने मनु के इस आईनेन्ट का उद्देश्य ?  
नहीं समझा तो, आइए, समझाता हूँ। यज्ञ होने पर सबसे अधिक  
लाभ किसको होता है ? अथवा यो कहिए, लाभ का सिंह-भाग  
( Lion's share ) किसके घर पहुँचता है ? पूरा-कच्चीड़ी, मेवा-  
मोहनभोग, मालपूआ-मोतीचूर, मक्खन-मलाई, बर्फी-बालुशाही,  
पेड़ा-जलेबी आदि विविध तर गालों पर किनके हाथ फिरते हैं ?  
दुशाले आदि बहुमूल्य वस्त्र तथा दुधारी गायें किनको मुफ्त में  
मिलती हैं ? दान-दक्षिणा के बहाने मोटी-मोटी रकमों से किनके  
बेब फूल उठते हैं ? इन सभी प्रश्नों के उत्तर किनके पक्ष में जाते  
हैं ? जवाब मिलता है—‘महादेवों के’ जो अन्धविश्वासिनी हिन्दू  
जनता को स्वर्ग का सञ्जनाता देखाकर उसकी गाढ़ी कमाई पर  
मौज कर रहे हैं तथा जो पंडे-पुजारियों एवं गुरु-पुरोहितों के रूप में  
उसका जीवन-रक्त जोक की तरह चूत रहे हैं । जनवान् वैश्य यदि

स्वयं यज्ञादि किया करता है तो उसका धन ब्राह्मणों के हक में लगता रहता है; अतः उसके धन को लूटने की कोई जरूरत नहीं रहती। लूटना चाहिए उस वैश्य के धन को जो ब्राह्मण को दान मानादि द्वारा सुश नहीं रखता। यही इस श्लोक का आशय है।

वैश्यों का धन यह नहीं करने के बहाने लूटा गया। पर यह बहाना शूद्रों पर लागू नहीं हो सकता; कारण कि उसको यज्ञ करने का अधिकार ही नहीं; अतः उसका धन यो ही यज्ञपूर्यं छीन लेना चाहिए—

आहरेत् त्रीणि वा द्वे वा कामं शूद्रस्य वेश्मनः ।

नहि शूद्रश्य यज्ञेषु कश्चिदस्ति परिग्रहः ॥

मनु० १११३॥

अर्थ—यदि यज्ञ के तीन वा दो अंग अपूरण रह जाएं, तो (वैश्य के अभाव में) शूद्र के पर से धन का अपहरण कर उस यज्ञ को पूरा करे। अभिप्राय यह कि शूद्र के धन को छोड़ देना वा छीन लेना उसके किसी यज्ञ के करने वा न करने पर निर्भर नहीं है। उसका धन सर्वदा इरण्य-योग्य है। यज्ञ-सम्बन्धी नियम वैश्यों की तरह शूद्रों पर लागू नहीं है; क्योंकि वे यज्ञ के अधिकारी नहीं हैं। मनुस्मृति के टीकाकार कुल्लूक भट ने तो ब्राह्मण के लिए स्व यज्ञ-पूर्यं वैश्य-शूद्रों का धन चुरा लेना भी ठीक बताया है।

यहाँ तक तो वैश्य शूद्रों का धन यज्ञ-पूर्ति के बहाने छीन लेने का आदेश दिया गया; पर शूद्रों के साथ वैश्यों की अपेक्षा और भी सखती की गई। उनका धनोपार्जन निषिद्ध किया गया और ब्राह्मणों को इजाजत मिली कि वे शूद्रों का धन जब चाहें छीन लिया करें—

शक्तेनापि हि शूद्रेण न काव्यो धनसंचयः ।

शूद्रो हि धनमासाद्य ब्राह्मणानेव वाधते ।

मनु० १०।३२॥

विश्वव्यं ब्राह्मणः शूद्राद् द्रव्योपादान माचरेत् ।

नहि तस्यास्ति किञ्चित्स्वं भन्तु द्वार्य धनो हि सः ॥

मनु० १०।४१॥

**अर्थ—** समर्थ होकर भी शूद्र धन का संचय न करे; क्योंकि शूद्र धन पाकर ब्राह्मण को पीड़ा पहुँचाता है ॥ ब्राह्मण को उचित है कि वह शूद्र का धन चिना किसी भय वा संकोच के ले लेवे; क्योंकि शूद्र का अपना कुछ नहीं है । उसका धन उसके मालिक द्वारा हरण करने योग्य है ।

कारण स्पष्ट है । यदि शूद्र धनवान् हो जाएगा तो ब्राह्मणों की गुलामी कौन करेगा ? शूद्रों को दासता की चक्की में सदा पीसते रहने के ही लिए ऐसे-ऐसे अमानुषिक कानून बने ।

यह है हिन्दू जाति का धर्मशास्त्र जो उन्हें अपने ही सहधर्मी माझ्यों का धन किसी वहाने लूट लेने का आदेश देता है । संसार में और भी कितने धर्म हैं जैसे इस्लाम, ईसाई, बौद्ध आदि । पर इनके धर्मशास्त्र कभी भी अपने सहधर्मियों को किसी भी वहाने लूटने का आदेश नहीं देते । इनके यही धार्मिक दृष्टि से सभी सहधर्मी बराबर हैं । न कोई बड़ा है और न कोई छोटा है । सभी को उन्नति करने का तुल्य अधिकार है । उनके इस अधिकार को किसी भी धार्मिक आदेश के वहाने कोई छोटा नहीं सकता । यही कारण है कि उनमें परस्पर इतना प्रेम, सहानुभूति तथा दृढ़ि संगठन है । यदि उनमें से कोई अपने सहधर्मियों के साथ अत्याचार करता है तो वह अपने धर्मशास्त्र के नाम पर नहीं; बल्कि अपनी ही जवाबदेही पर करता है । पर हिन्दू तो गला काटते हैं अपने ही सहधर्मी माझ्यों

का और सो भी अपने धर्मशास्त्रों की दुहाई दे देकर। धन्य है यह हिन्दू जाति और धन्य हैं उनके धर्मशास्त्र ! यह कैसी निर्लंजता की बात है कि हम विदेशियों को तो अपने देश का सारा धन लूट लेने के अपराधी बना उन्हें पानी पी-यीकर कोसें; पर स्वयं अपने भाइ-बन्धुओं का धन लूट लेने के लिए मनमाने शास्त्र रचें ! यदि कहो कि हम तो स्वदेश का धन लूटकर स्वदेश में ही रखते थे जो आवश्यकता पड़ने पर दूसरे भाइयों के भी काम आता था, तो यह मानने लायक नहीं; क्योंकि यदि परस्पर इतनी सहानुभूति होती तो विदेशी यहाँ आने ही नहीं पाते। अथवा हम अपने भाइयों को लूटते ही क्यों ?

वैश्यों की अपेक्षा शूद्रों पर जो विशेष अत्याचार ब्राह्मणी-शासन

(७) काल में धर्म के नाम पर किए जाते थे उनका अब शूद्रों के तक तो केवल दिग्दर्शनमात्र किया गया है। पर प्रति विशेष यहाँ से उनका अब सविस्तर वर्णन किया जाएगा। अत्याचारों का हिन्दू धर्मशास्त्रों की दृष्टि में शूद्र, छी तथा पुत्र, वे सविस्तर वर्णन तीनों ही अधन हैं, अर्थात् ये धन के अधिकारी नहीं हैं—

मार्या पुत्रश्च दासश्च त्रय एवा धनाः स्मृताः ।

यत्तेसमधिगच्छन्ति यस्य ते तस्य तद्वनम् ॥

मनु० ८४१६ ॥

अर्थ—छी, पुत्र और दास, ये तीनों अधन कहे गए हैं; अर्थात् ये धन के अधिकारी नहीं हैं। अतः ये जो कुछ धन प्राप्त करते हैं वह उसीका होता है जिसके बे स्त्री आदि हैं। दास-कर्म शूद्रों का ही है; अतः दास शब्द से शूद्र ही अभिप्रेत हैं। पुनर्श्च—

शूद्रं तु कारये दास्यं कीतमकीतमेववा ।  
दास्यायैव हि सुष्टोऽसौ ब्राह्मणस्य स्वयंभुवा ॥

मनु० द४१३॥

अर्थ—शूद्र स्वरीदा हुआ हो वा न हो, उससे दास कर्म करावे; क्योंकि विधाता ने उसको ब्राह्मण का दास-कर्म करने के लिए ही बनाया है। यहाँ ‘कीतमकीतमेववा’ इस वचन से स्पष्ट है कि प्राचीन हिन्दुओं में दास-वाणिज्य \* प्रचलित था और इन विविध श्लोकों से प्रमाणित होता है कि उन पर मनमाना अत्याचार हुआ करते थे। पुनर्श्च—

न स्वामिना विसुष्टोऽपि शूद्रो दास्याद्विभुव्यते ।  
निसर्गजं हि तत्स्य कस्तस्मात्तदपोहति ॥

मनु० द४१४॥

अर्थ—शूद्र अपने स्वामी के द्वारा दास-कर्म से मुक्त कर देने पर भी उसका उस कर्म से छुटकारा नहीं होता; कारण कि उसका दासत्व स्वाभाविक है; कौन उसको उससे मुक्त कर सकता है? पुनर्श्च—

शूदाशां मासिकं कार्यं वपनं न्यायवर्त्तिनाम् ।  
वैश्यं वच्छ्रौचकलश्च दिजोन्द्रिष्ठं च भोजनम् ॥

मनु० ध४१४॥

अर्थ—ब्राह्मण-सेवा रूपी अपने कर्तव्य का पालन करता हुआ शूद्र महीने में एक बार अपना ज्ञौर कर्म करावे, जन्म और मरण में वैश्य के समान अशोच महण करे तथा ब्राह्मण का जूठा खाए। महीने में एक बार ज्ञौर कर्म कराने का अभिप्राय यह है कि शूद्र व्यतीनी ( शौकीन ) न होने पावे; क्योंकि उसको परिवार के पुत्रों

तथा खियों, दोनों के साथ रहकर, शुद्र मन से उनकी सेवा करना है और उसको जूठा अब इसलिए खिलाना चाहिए, कि जिसमें वैसा अब फेंकने से नुकसान नहीं होने पावे। शूद्र की दशा घर में पाले हुए किसी पशु से बढ़कर नहीं है; अतः उसे खाने के लिए वैसा ही अब देना ठीक है। पुनश्च—

उच्छ्रुष्टमन्त्रं दातव्यं जीर्णानिवसनानि च ।

पुलकाश्चैव धान्यानां जीर्णश्चैव परिच्छुदः ॥

मनु० १०।१२५॥

अर्थ—शूद्र को भोजन के लिए जूठा अब, पहनने के लिए पुराने वस्त्र तथा विछाने के लिए धान का पुआल एवं पुराने तोशक आदि देना चाहिये। पुनश्च—

न शूद्राय मति दद्यान् नोऽन्धाष्टं न इविष्कृतम् ।

न चास्योपदिशेद्दम्म न चास्य व्रतमादिशेत् ॥

मनु० ४।८०॥

योऽस्य धर्ममाच्छे यश्चैवादिशतिव्रतम् ॥

सोऽसंवृतं नाम तमः सहतेनैव मज्जति ॥

मनु० ४।८१॥

अर्थ—शूद्र को बुद्धि नहीं देनी चाहिए। अपने सेवक के अतिरिक्त किसी दूसरे शूद्र को जूठन तथा हव्य के हुतावशिष्ट भाग को न देवे। शूद्र को धर्म का उपदेश न करे अथवा उसे किसी व्रत का भी उपदेश न देवे। जो पुरुष शूद्र को धर्मोपदेश वा प्रायशिचत्तादि किसी व्रत का उपदेश देता है, वह उस शूद्र के साथ असंवृत नाम नरक में हृवता है। मनु तो यहाँ पर ( ४।८० में ) लिखते हैं कि शूद्र को जूठा अब नहीं देना चाहिए; परं आगे चलकर ( ४।४० तथा १०।१२५ में ) लिखते हैं कि शूद्र को जूठा अब खाने के लिए देना चाहिए। इन

दो परस्पर विरोधी आदेशों की संगति इस प्रकार लगाई जाती है कि जो शूद्र अपना सेवक है उसीको जूठन देना चाहिए; किसी अन्य शूद्र को नहीं जो जिसका हक्कदार है वह उसीको मिलना चाहिए; दूसरे को नहीं। यही न्याय है। और शूद्र को किसी अन्य धर्म का उपदेश भले ही न दिया जाए; पर उसे द्विजसेवा धर्म का उपदेश तो अवश्य देना होगा; अन्यथा वह द्विजों की सेवा यथाविधि कैसे कर सकेगा? यही स्मृतिकारों का मत है। उक्त दोनों श्लोक कुछ परिवर्तन के साथ वर्णिष्ठ स्मृति, अध्याय १८, में यमोक कहकर आए हैं।

यहाँ तक शूद्रों पर किए जाने वाले जिन अत्याचारों का वर्णन किया गया है वे तो साधारण हैं। इसके आगे जिन अत्याचारों का वर्णन होगा वे इस प्रकार पैशाचिक हैं कि जिनका विवरण पढ़कर मानव हृदय थर्ह उठता है। इन अत्याचारों का स्वरूप मन्वादि धर्मशास्त्रकारों के दण्ड-विधान में दृष्टिगोचर होता है—

शतं ब्राह्मणमाकुश्य ज्ञवियो दण्डमर्हति ।

वैश्योप्यर्द शतं द्वेवा शूद्रस्तु वघमर्हति ॥

मनु० ८२६७॥

अर्थ—यदि ज्ञविय किसी ब्राह्मण को दुर्बंधन कहे तो उस पर एक सौ परण ( मुद्राविशेष ) का दण्ड लगावे; इसी अपराध के लिए वैश्य पर ढेढ़ सौ वा दो सौ परण का दण्ड लगावे; पर शूद्र तो इस अपराध के लिए चाध्य ही है। ८० कौड़ियों का एक परण होता है यथा—‘अशीतिभिर्यराटकैः परण इत्यभिनीयते’। वर्तमान काल में एक पैसे में १६ गड़े कौड़ियाँ अर्थात् ६४ कौड़ियाँ मिलती हैं; अतः स्पष्ट है कि एक परण सवा पैसे के बराबर होता होगा। आश्चर्य है कि जिस अपराध के लिए ज्ञविय को केवल १० परण = १२५पैसे = १॥८७॥

(एक रुपया सबा पन्द्रह आने) और वैश्य को अधिक से अधिक इसका दुगना अर्थात् ३॥८॥)। (तीन रुपये साढ़े चौदह आने) चुमाँना होता था उसी अपराध के लिए शूद्र को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता था। कितना भयंकर अन्याय तथा अत्याचार है ! पुनर्श्च—

एक जातिद्विजातीस्तु वाचा दारुण्या लिपन् ।

जिह्वायाः प्राप्नुयाच्छ्रेदं जघन्य-प्रभवो हि सः ॥

मनु० दा२७०॥

अर्थ—यदि शूद्र जाति ब्राह्मणादि तीन वर्णों को कठोर वचन कहकर आन्द्रेप करे तो उस शूद्र की जीभ काट लेनी चाहिए; क्योंकि वह सबकी अपेक्षा नीच वर्ण में उत्पन्न हुआ है। पुनर्श्च—

नामजातिग्रहं त्वेषामभिद्रोहेण कुर्वतः ।

निद्रेष्योऽयोमयः शंकुञ्ज्वलशास्ये दशांगुलः ॥

मनु० दा२७१॥

अर्थ—शूद्र यदि किसी द्विज का नाम तथा जाति का उचारण करता हुआ, जैसे यज्ञदत्त ब्राह्मण अधम है, इस प्रकार बोलता हुआ निन्दा करे, तो उसके मुँह में दश अंगुल की आग में लाल की हुँड़ लोहे की कील बुसेड़ देवे। पुनर्श्च—

धर्मोपदेशं दर्पेण विप्रमाणामस्य कुर्वतः ।

तस्मासेचयेत्तेलं वक् श्रोत्रे च पार्थिवः ॥

मनु० दा२७२॥

यदि शूद्र गर्व से, “तुमको यह धर्म करना चाहिए,” ऐसा धर्मोपदेश ब्राह्मण को करे, तो उस शूद्र के मुँह और कान में राजा तस तेल डलवा दे। पुनर्श्च—

येन केन चिदङ्गेन हिंस्याच्चेच्छुष्टमन्त्यजः ।

छेत्तव्यं तत्तदेवास्य तन्मनोरनुशासनम् ॥

मनु० दा॒७६ ॥

अर्थ—शूद्र हाथ-पैर आदि जिस अंग से श्रेष्ठ जाति के ऊपर प्रहार करे तो राजा उसका वही अंग कटवा दे; यह मनु की आज्ञा है । पुनश्च—

पाणिमुद्रम्य दण्डं वा पाणिच्छेदनमर्हति ।

पादेन प्रहरन् कोपात् पादच्छेदनमर्हति ॥

मनु० दा॒८० ॥

अर्थ—शूद्र यदि श्रेष्ठ जाति को मारने के लिए हाथ वा हड्डा उठावे तो उसका हाथ कटवा लेना चाहिए और यदि कोध में आकर चरण से प्रहार करे तो उसका पैर कटवा लेना चाहिए । पुनश्च—

सहासनमभिप्रेप्तुरत्माष्टस्यापकृष्टजः ।

कटथा कृताङ्को निर्वास्यः स्फिचं वास्याव कर्त्तयेत् ॥

मनु० दा॒८१ ॥

अर्थ—शूद्र यदि ब्राह्मण के साथ एक आसन पर बैठे तो राजा उसकी कमर में तपाईं हुई लोहे की शलाका से दागकर उसे देश से निकाल देवे अथवा उसको चूतइ कटवा लेवे पुनश्च—

अवनिष्ठोवतो दर्पाद् द्वावोष्टी छेदयेन्त्यः ।

अवमूत्रयतो मेदू-मवशार्धवतो गुदम् ॥

मनु० दा॒८२ ॥

अर्थ—शूद्र यदि दर्प से किसी ब्राह्मण के शरीर पर थूक दे तो राजा उसका दोनों ओढ़ कटवा ले; यदि पेशाव करे तो मूत्रेन्द्रिय को और अधोवायु छोड़े तो गुदा को कटवा ले । पुनश्च—

केशेषु गङ्गतो हस्तौ छेदयेदविचारयन् ।  
पादयोर्दाढिकायां च ग्रीवायां वृषणेषु च ॥

मनु० द्वादश ।

अर्थ—शूद्र यदि आहंकार से किसी ब्राह्मण का केश, चरण, दाढ़ी, गरदन वा आँखेकोष को पकड़ ले तो राजा विना विचारे उस शूद्र का हाथ कटवा ले । पुनर्शब्द—

मार्जारनकुलौ हत्वा चाषं मंडूक मेव च ।  
श्वगोधोलूककाकांश्च शूद्रहत्याक्रतं चरेत् ॥

मनु० १११३२॥

अर्थ—बिल्ली, नेवला, नीलकंठ, पक्षी, मेड़क, कुचा, छिपकली, उल्लू, और काग की हत्या करने पर शूद्र-हत्या का प्रायशिंचत करे । अभिप्राय यह कि मनु के मत में शूद्र की जान कुचा-बिल्ली की जान से बढ़कर नहीं है ।

यहाँ तक तो शूद्रों के विषय में मनु के विचार दिखलाए गए । अब अन्य स्मृतिकारों के भी शूद्र-सम्बन्धी विचार दिखलाए जाते हैं । महर्षि अत्रि लिखते हैं—

वध्यो राजा सवै शूद्रो जपहोमपरश्च यः ।  
यतोराष्ट्रस्य हृताऽसौ यथा वह्ने श्चवै जलम् ॥

अत्रि । १६ ॥

अर्थ—राजा को उचित है कि वह जप-होमादि ब्राह्मणोंनित कर्म करने वाले शूद्र का वध कर दे; क्योंकि जिस प्रकार जल आग को नष्ट कर देता है उसी प्रकार जप होमादि करने वाला शूद्र सम्पूर्ण राज्य को नष्ट कर देता है । इसी शास्त्रीय विधान के अनुसार रामचन्द्र ने शम्भूक का गला काट दिया था । तिस पर भी आश्चर्य है कि कितने

शूद्र रामनाम का जर करते तथा रामचन्द्र के प्रति असीम भक्ति तथा अद्वा रखते हैं। जो इस प्रकार आत्म-सम्मानहीन हैं, वे सचमुच शूद्र हैं। विष्णु जी महाराज लिखते हैं—

प्राणानर्थं स्तथा दारान् ब्राह्मणार्थं निवेदयेत् ।

स शूद्रजाति भोज्यः स्याद् भोज्यः शोप उच्यते ॥

विष्णु ४।११॥

**अर्थ—**जो शूद्र अपने प्राण, धन, तथा स्त्री को ब्राह्मण की सेवा में अर्पण कर दे उस शूद्र का अब भोजन करने योग्य है और शेष शूद्रों का अब भोजन करने योग्य नहीं है। बात तो सोलहो आने ठीक कही। मला जिस शूद्र ने बाबा जी की सेवा में अपनी प्रिया तक को अर्पण कर दिया उस शूद्र का अब क्यों नहीं खाया जाए !! हारीत जी लिखते हैं—

धारणं जीर्णवस्त्रस्य विग्रस्योच्छ्रुष्टभोजनम् ।

स्वदारेषु रतिश्चैव परदारविवर्जनम् ॥

२।१३॥

इत्थं कुर्यात्सदाशूद्रो मनोवाक्कायकर्मभिः ।

स्थानमैन्द्रमवाप्नोति नष्टपापः सुपुण्यकृत् ॥

२।१४॥

**अर्थ—**शूद्र पुराने वस्त्र पहने; ब्राह्मण का जूठन खाए; अपनी ही स्त्री से प्रेम करे और पराइ स्त्री से परहेज करे। शूद्र सर्वदा मन-वच-कर्म से इस प्रकार आचरण करे तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह पुण्य के प्रभाव से इन्द्र की पदवी को प्राप्त होजा है। शावाश ! मैया शावाश ! इसीको कहते हैं उद्धुओं को सञ्ज वाम दिखाकर अपना उल्लू सीधा करना। जिस ऐन्द्र-पद को चकवर्ती चत्रिय नरेशगण बिना एक सौ अश्वमेष यज्ञ पूरा किए नहीं पा

सकते थे, तथा जिस पद को सुरक्षित रखने के लिए विचारा इन्द्र बारत्यार आश्वमेधिक घोड़े को चुराया करता था, उस पद को तुमने शूद्रों को योही प्राप्तकर लेने का सुप्रबन्ध कर दिया ! भला कौन ऐसा मूर्ख शूद्र होगा जो ऐसे सुलभ ऐन्द्र पद को प्राप्त करने की लालसा न रखता होगा ? पाठकवृन्द ! शूद्रों की बुद्धिने तथा हिन्दू धर्मशास्त्रकारों की धूर्त्ता पर शान्तचित्त होकर विचार कीजिए । शूद्रों को भोजन के लिए केवल जूठा अब्ज और पहनने के लिए केवल कटे-पुराने गुदड़े देकर; अर्थात् विना किसी विशेष सर्व के, उनसे जीवन-पर्यन्त गुलामी, यह मिथ्या प्रलोभन दे-देकर कराते रहिए कि ऐसा करने से तुम्हें इन्द्र का पद मिलेगा । भला इससे बढ़कर चालाकी क्या होगी ? इस जोड़ की ठग-विद्या संसार के किसी भी देश के इतिहास में नहीं मिलती । प्राचीन रोम, ग्रीस, कार्थेज, मिस्र, असीरिया, वैविलोन, अरब, फारस आदि सभी देशों में गुलामी-प्रथा प्रचलित थी; पर वहाँ के दांस तथा दासियों से, उन्हें यह भुजावा देकर कभी भी गुलामी नहीं कराई जाती थी, कि अपने मालिकों की मन-वच कर्म से सेवाशुश्रुता करने पर उन्हें स्वर्ग मिलेगा या वह वहाँ का कोई भारी फरिश्ता वा फरिश्तों का सरदार होगा ।

अब महर्षि गौतम का शूद्र विषयक दिग्दंड-विधान देखिये—

शूद्रो द्विजातीनभिसन्धायाभिहत्य च वाग्दंड  
पारुष्याभ्यामंगं मोऽयो येनोपहन्यात् ।

आर्यस्त्वयभिगमने लिंगोद्धारः :

स्वप्रहरणं च गोप्ता चेद्वोऽधिकः ।

आथाहास्य वेदमुपशृणवत्स्तुपु ।

जतुभ्यां श्रीत्रपरिपूरणम् ।

उदाहरणे जिह्वान्धेदः धारणे शरीरभेदः ।

आसन-शयन-वाक्यथितु समप्रेषुद्वयः शतम् ॥

अध्याय १२ ॥

**अर्थ—**शूद्र यदि किसी द्विज के प्रति तिरस्कान्युक्त बचन कहे और कठोर भाव से प्रहार करे तो राजा उसके उसी अंग को कटवा दे जिससे वह आघात करता है और अपने से बड़ों की स्त्री के साथ यदि वह गमन करे तो राजा उसका लिंग कटवा दे अथवा स्वयं वह अपनी जान दे दे और यदि वह किसी प्रकार अपनी रक्षा करे तो उसका अधिक दंड यह है कि राजा उसका वध करे। शूद्र यदि किसी वेद को सुन ले तो राजा शीशे और लाख से उसके कानों को मर दे। यदि वह वेद-मंत्र का उच्चारण करे तो राजा उसकी जीभ कटवा ले। यदि वह वेद मंत्रों को याद कर ले तो राजा उसका शरीर ही कटवा दे। यदि वह आसन, चिस्तर, बातचीत तथा राह में उच्च जातियों की बराबरी करे तो राजा उसके लिए उसे सौ पगा का दंड दे।

महर्षि वशिष्ठ ने अपनी स्मृति के १८वें अध्याय में मनु के ‘न शूद्राय मतिं दद्यात्’ ( ४८० ) तथा ‘योश्यस्य धर्ममाचष्टे’ ( ४८१ ) इन दोनों श्लोकों को कुछ शब्द-परिवर्तन के साथ उद्धृतकर उनके साथ अपना एक मत्य दिखाया है; अर्थात् वे भी मनु की ही तरह शूद्र को किसी प्रकार की शिक्षा देना नहीं चाहते।

शासक-वर्ग की वैश्यों और शूद्रों के प्रति यह कूटनीति यहीं तक खत्म न हुई। पहले तो शासकों ने वैश्यों और शूद्रों को कानून के शिकंजे में खूब कसकर जकड़ा, जिसमें वे उनके

( ८ ) वैश्य- विशद अपना हाथ पैर न हिला सकें। उनकी नाक

शूद्र की में उन्होंने कानून की एक ऐसी मज़बूत नकेल मानसिक दासता पहनाई कि वे चिचारे मूँक पशुओं की तरह उनके

इशारे मात्र पर विना इधर-उधर ताके वा कुछ भी चींचपड़ किए उनके निर्दारित मार्ग पर चलने लगे। पर कानून का कञ्जा केवल शरीर पर होता है; मन पर नहीं। अतः बाद में इन शासकों को भय हुआ कि कहीं भविध में कानून का शिकंजा ढीला पड़ा तो संभव है कि एक न एक दिन उनके काले कारनामों की पोल खुल जाएगी और उनके अत्याचारों के ये शिकार उनके विशद उठ खड़े होंगे। अतः वे उनकी अन्तरात्मा पर भी विजय प्राप्तकर उन्हें मानसिक दासता की भी बेड़ी में कसने के लिए उन्हें ऐसे-ऐसे धूर्तता-पूर्ण उपदेश देने लगे—

अेयान् स्वधम्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् ।

स्वधमें निधनं अेयः परधम्मो भयावहः ॥

गीता ३।३५॥

अर्थ—अपना धर्म गुणाहीन भी हो वही अच्छा; किन्तु दूसरे का धर्म सुचाह रूप से सम्पादित होने पर भी अच्छा नहीं। अपने धर्म के पालन में मर जाना अच्छा है; क्योंकि दूसरे का धर्म खतरे से भरा है।

इसका अभिप्राय यह है कि यदि चमार का लड़का दैवयोग से अच्छी शिक्षा प्राप्तकर अध्यापक का काम खुब ठिकाने के साथ कर सकता हो तो भी उसे वह न करे। ऐसा करने से उसका कल्याण नहीं हो सकता। शम्भूक का उदाहरण, जिसका गला रामचन्द्र ने इस कारण काट डाला कि वह शूद्र होकर तपस्या करता था, इस बात की चेतावनी दे रहा है। उस चमार-व्यालक का तो कल्याण इसीमें है कि वह जूता सीते-सीते मर जाए चाहे, भले ही जूता सीने का काम उसके योग्य न हो। ‘स्वधमें निधनं अेयः’ से यह श्वनि भी निकलती है कि अपने कर्म करते रहने से ही मरने पर सद्गति मिलती है; दूसरे का कर्म करने से तो सीधे नरक की ही यात्रा करनी पड़ती है,

चाहे भले ही कोई परधर्म कारक अपने जीवन-काल में किसी तरह राजा के दंड से बच भी जाए। आश्चर्य है कि श्रीकृष्ण स्वयं ज्ञानिय होते हुए भी ज्ञानोपदेश, जो ब्राह्मण का धर्म है, करके अपने ही कथन के प्रतिकूल जा रहे हैं। इस प्रकार वैश्य-शूद्र को राजदंडादि का लौकिक भय दिखाकर उनकी शारीरिक, तथा नरकादि का पारलौकिक भय तथा स्वर्गादिका पारलौकिक प्रलोभन दिखाकर उनकी मानसिक दासता स्थिर की गई। यह तो हुआ शासक-वर्ग का शासित-वर्ग की दासता प्राप्त करने का पहला हथकंडा जिसका अनुमोदन महर्षि अंगि भी करते हैं—

ये व्यपेताः स्वधर्माच्च परधर्मेऽस्ववस्थिताः ।

तेषां शास्ति करो राजा स्वर्गलोके महीयते ॥१७॥

आत्मीये संस्थिते धर्मे शूद्रोऽपि स्वर्गं मश्नुते ।

परधर्मो भवेत्याज्यः सुरुपपरदारवत् ॥१८॥

—अत्रिस्मृति ।

अर्थ—जो अपने धर्म से हटकर दूसरे के धर्म में स्थित होते हैं उन्हें दंड देने वाला राजा स्वर्ग में बढ़ाई पाता है। अपने धर्म का पालन करता हुआ शूद्र भी स्वर्ग को प्राप्त होता है। दूसरे का धर्म सुन्दर पराई लौ की तरह त्याज्य है।

अब दूसरे हथकंडे का हाल सुनिए। हमारे शासकों ने पहले तो वैश्य-शूद्र को यह समझाया कि भाई, परमात्मा ने तुम्हारे लिए जो कर्म निर्दारित कर दिए हैं उन्हीं को दत्तचित्त होकर करने से तुम्हारी सद्गति होगी; अन्यथा नहीं। कहीं तुमने दूसरों का कर्म करने के लिए साहस किया तो, अब श्य ही, तुम्हारे लिए नरक-मोग निश्चित है। पर इतना ही भुलावा उन्होंने काफ़ी नहीं समझा। उन्होंने इसकी चुटि पूरी करने तथा इन बुद्धु वैश्य-शूद्रों को अपने भाग्य पर संतुष्ट

रखने के लिए इन्हें जन्मान्तर-बाद नामक एक दूसरा ढंगोसला-पूर्ण कुपाठ पढ़ाया और इन्हें समझाया कि भाई, जो जैसा पूर्व जन्म में करता है वह वैसा ही परजन्म में पाता है। यदि पूर्व जन्म में तुम अच्छे कर्म किए होते तो अवश्य ही ब्राह्मण-क्षत्रिय के घर जन्म पाए होते। अतः तुम्हें अपने भाग्य पर संतुष्ट रहकर अपना कर्म करते रहना चाहिए। तुम्हारा इसीमें कल्याण है। तुम्हारी सद्गति इसी से होगी इत्यादि।

ब्राह्मण-विधान का यह जहरीला तीर अचूक सिद्ध हुआ और वैश्य तथा शूद्र दोनों ही अपने ब्राह्मण-क्षत्रिय महाप्रभुओं के मन-बच-कर्म अर्थात् सर्वभाव से गुलाम बन गए। इन कठुल्हों को इतना भी समझ में न आया कि उन्हें बिना पैसे खर्च किए ही अर्थात् मुफ्त में गुलाम बनाने वाला न कोई चातुर्वर्ष्य-व्यवस्थापक परमात्मा ही है जिसने जन्मतः उनका वर्ण और तत्सम्बन्धी कर्म निर्दिरित कर दिए हैं और न कोई पूर्व जन्मकृत कर्म ही है जिसका कुफल वे भोग रहे हैं; बल्कि उनको इस गति में ढकेलने वाले उनके अग्रसर पर स्वार्थ-पूर्ण देश भाई ही है जिन्होंने स्वार्थ-सिद्धि के लिए उन्हें वर्णव्यवस्था के महाजाल में फँसा रखा है। मानसिक दासता की इस कठोर चक्की में पुश्त-दर-पुश्त पिसते चले आने के कारण वैश्य-शूद्र की आत्मा इतनी पद-दलित हो गई है कि जहाँ ब्राह्मण-क्षत्रिय जन्म से ही निर्भीक, साहसी और उच्च मन्य होते हैं वहाँ वैश्य-शूद्र आज भी, इस त्रिटिश-शासन की छत्रचक्काया में रहते हुए भी स्वभावतः डरपोक, निःसाहस तथा नीच मन्य होते हैं। इनकी ऐसी पतित मनोवृत्ति इनको चिरकाल तक अवाध रूप से विविध कुसंस्कारों में रखकर जावदंती सड़ाए जाने का फल है। ये अपने मनुष्यत्व को इतना भूल गए हैं कि इन्हें अपने मानवोचित अधिकारों का ज्ञान तक नहीं है। ये ग्रायः यही कहकर सन्तोष कर लिया करदे

है कि भाई, हमारी यह हीनावस्था हमारे ही पूर्वजन्म के कर्मों का फल है। भगवान् ने हमें ऐसा ही बना दिया तो इसमें दूसरों का कसूर ही क्या है? इन बेचारों को क्या मालूम कि इन्हें इस रसातल में ढकेलने वाले वास्तविक भगवान् कौन हैं।

ब्राह्मणी-विधान के समर्थक हमारे कितने भाई यह कहा करते हैं कि वैश्य-शूद्रों के बिरुद्ध जो कठोर कानून बनाए गए वे सिर्फ़ अन्यों में ही लिखे हुए केवल मृताक्षरों (Dead Letters) की तरह रह गए। वे कभी अमल में नहीं लाए गए। क्या मैं अपने साथ-साथ दूसरों को भी छुलने वाले ऐसे महानुभावों से पूछ सकता हूँ कि तथाकथित आदर्श राजा रामचन्द्र के हाथ से शम्बूक का, तथा श्रीकृष्ण के बड़े भाई बलराम के हाथ से रोमहर्षण सूत का वध किया जाना एवं आचार्य द्रोण का छुल करके एकलव्य के दाहने हाथ का अङ्गूठा कटवा लेना नृशंस तथा स्वार्थपूर्ण उक्त कठोर नियमों का अमल में लाया जाना नहीं है? रामचन्द्र और बलराम दोनों ही हिन्दू विश्वासानुसार ईश्वरावतार हैं। जब ऐसे-ऐसे महापुरुषों ने ब्राह्मणी माया के फेर में पड़कर न्याय-अन्याय का कुछ भी विचार नहीं किया तो साधारण शासकगण क्या विचार करते होंगे! शोक और आश्चर्य तो इस बात पर है कि रामचन्द्र शम्बूक के गले पर तलवार का बार करते समय इस बात को भूल गए कि उनके कुल-सुख महर्षि वशिष्ठ, जिनके पवित्र चरण-रेणु वे सदा अपने सिर पर धारण किया करते थे, एक वैश्या के पुत्र वे जिन्होंने केवल तपस्या के ही बल पर ब्रह्म-पद को प्राप्त किया था; पर इस पर उन्होंने या उनके पूर्वजों ने कभी कुछ आपत्ति नहीं की थी; वशिष्ठ को किसी प्रकार का दराड देना तो दूर रहा। यदि शद्र को तप का अधिकार नहीं है तो वैश्या-पुत्र को कैसे हो सकता है!

यहाँ पर प्रश्न उठ सकता है कि वैश्यों और शूद्रों ने

अपने ऊपर चिरकाल से होते हुए इन धोर अत्याचारों को मूक पशुवत् चुपचाप सह क्यों लिया ? अपने उत्तीर्णकों के विरुद्ध वशावतकर अपनी दासता की कुलिश-क्रान्ति क्यों कठोर बेड़ियों को तोड़कर कैका क्यों नहीं ? पाठकों नहीं की ? ने क्रांति तथा रूस की क्रान्तियों का इतिहास पढ़ा होगा । वहाँ का भी शासक-वर्ग तथा तस्ताधारी समुदाय ठीक इसी प्रकार शासित-वर्ग का सब प्रकार से रक्त चूम-कर खूब मोटा हो रहा था । जीवन की जितनी ऐश या आराम की चीज़ें थीं वे मानो शासकों की वपौती तथा एकाधिकार बन गई थीं और शासितों को अपनी छुधा-ज्वाला शान्त करने के लिए मुझे भर अब तथा शरीर ढकने के लिए फटे-पुराने गुदड़े भी नसीब न थे । धोर दरिद्रता के सुदृढ़ चंगुल में फँसे हुए किसान अपनी एड़ी-चोटी का पसीना एक करके खेतों में जो कुछ पैदा करते वह सब का सब शहरों में रहकर अपना जीवन न.च-रंग तथा सिनेमा-थियेटर के आनन्द एवं नाना-प्रकार के आमोद-प्रमोद में बिताने वाले उनके मालिकों के पास चला जाता । और यहाँ किसानों के घर पर उनके बाल-बच्चे छुधा-ज्वाला से अहर्निश जला करते थे । पर प्रकृति का अटल नियम है कि प्रत्येक क्रिया की तुल्य तथा उल्टी प्रतिक्रिया अवश्य होती है । बिद्रोह की जो आग उत्पीड़ितों के हृदय में सदियों से धीरे-धीरे सुलग-सुलगकर जल रही थी वह आखिरकार समय पाकर एक प्रलयकारी ज्वालामुखी के रूप में प्रस्फुटित हुई जिसकी धधकती हुई लपटों में कृड़े-कर्कट सरीखे निःशेष अत्याचारी समुदाय जलकर स्वाक हो गया और देश में बन्धुता, समानता तथा स्वाधीनता के भाव स्थापित हुए । पर हिन्दू भारत में ऐसी क्रान्ति क्यों नहीं मची ? इसके कई कारण हैं । अपेक्षातः यहाँ के शासकगण अन्य देशों के शासकगण से, अधिक कूट नीति-कुशल थे । उन्होंने पहले से ही

ऐसा प्रबन्ध कर दिया था जिसमें क्रान्ति का विचार वैश्य शूद्रों के मस्तिष्क में खुसने ही नहीं पावे। उन्होंने 'यो लोभादधर्मोजत्या' वाली पहली व्यवस्था देकर वैश्य-शूद्रों को शर्ख ग्रहण-रूपी द्वियोचित कर्म से बंचित कर दिया। जिससे वे निहत्ये, निरख तथा निःशख हो गए। पर इस व्यवस्था से वैश्य-शूद्रों के केवल शरीर पर नियंत्रण हुआ, उनके मन पर नहीं। अतः उन्होंने 'अेयान् स्वधर्मो विगुणः' वाली दूसरी व्यवस्था दी और उनको यह समझाकर उनके मन पर कब्जा किया कि अपना ही कर्म, चाहे भले ही वह दूषित हो, करने से सद्गति प्राप्त होती है; दूसरे का कर्म करने से तो तुरी गति होती है। सबसे प्रबल तथा तीसरी व्यवस्था जन्मान्तरवाद हुआ जिसने वैश्य-शूद्रों को यह मिथ्या तथा कपोल-कल्पित शिक्षा दी कि अपने पूर्व जन्म के कर्मानुसार ही किसी मनुष्य का किसी वर्ण में जन्म होता है; अतः सभी के लिए यही उचित है कि परमात्मा, जिसकी चलाई हुई यह वर्ण-व्यवस्था है, जिसको जिस वर्ण में अपने पूर्व जन्म के कर्मानुसार जन्म दे, उसको उसी वर्ण का कर्त्तव्य पालन करना चाहिए। ऐसा करने से ही परमात्मा प्रसन्न होकर उसको सद्गति प्रदान करता है। अन्यथा करने वाला परमात्मा का कोप-भाजन बनकर अपने को घोर नरक यंत्रणा का अधिकारी बना लेता है इत्यादि। भला जिनको इस प्रकार का कुपाठ पढ़ाकर उनकी बुद्धि पर पानी फेर दिया गया हो, तथा जिन्हें स्वार्थपूर्ण तथा कठोर कानून बनाकर निहत्या कर दिया गया हो एवं जो उक्त भुलावे में पड़कर किसी अन्य पर दोष की शंका तक न करते हुए अपने ही भाग्य और कर्मविपाक को दीन, हीन और मलिन होकर अहर्निश कोस रहे हों, उनसे क्रान्ति की आशा करना बन्धा-गर्भ से पुत्र-प्राप्ति की, शशक-मस्तक से शृंग-प्ररोह की तथा शून्य आकाश से कुसुमोत्पत्ति की आशा करने के तुल्य है। पर क्रांति और रूस की प्रजा इस प्रकार निरीह, पंगु

तथा निहत्यी न थी और न वह किसी पूर्वजन्म के कर्मफल के भोगने के फेर में ही पड़ी थी कि वह उसे परमात्मा की व्यवस्था समझकर यिना कुछ चाँ-चपड़ किए हुए सब के साथ सह ले। वह यहाँ की प्रजा की तरह मूक पशु नहीं थी कि उसकी नाक में नकेल पहनाकर कोई जिधर चाहे उधर ही हाँक ले जाए। वह मनुष्य थी और अपने जन्म-सिद्ध अधिकारों को वह बखूबी जानती थी। वह अपने शत्रुओं को अच्छी तरह पहचानती थी और उनके हाथ में तलवार थी। उन्हें अपनी मुक्ति के मार्ग के काँटों को जड़-मूल से साफ़ कर देना मालूम था और अन्त में उसने वैसा ही करके छोड़ा।

जन्ममूलक वर्ण-व्यवस्था ने हिन्दुओं को केवल ब्राह्मणादि वर्ण नामक चार बड़े-बड़े खंडों में ही विभक्त करके दम नहीं लिया; अपितु

**जाति-पाँति** मूलक जातियों तथा उनकी उपजातियों में भी दुकड़े-  
**से हानियाँ** दुकड़ेकर उसको तितर-वितर कर दिया। ये जातियाँ

तथा उपजातियाँ इस प्रकार एक दूसरे से असम्बद्ध हैं कि एक जाति का अन्न जल दूसरे के लिए हराम है। उदाहरण के लिए केवल ब्राह्मणों को ही लीजिए। इनके कितने भेद तथा उपभेद हैं, जिन्हें यह जानना हो वे कृपा करके 'ब्राह्मणोत्पत्ति मात्चंशङ्क' तथा 'ब्राह्मण-निषय' नामक ग्रन्थों को पढ़ जाने का कष्ट उठावें। ये सभी भेद तथा उपभेद केवल वर्णमात्र का सम्बन्ध रखते हुए एक दूसरे से इतने दूर रहते हैं कि किन्हीं भी दो भेदों; वा एक ही भेद के किन्हीं भी दो उपभेदों के बीच भूलकर भी रोटी-बेटी का सम्बन्ध नहीं हो सकता। 'तीन कच्छौजिए तेरह चूलहे' वाली कहावत मेरे इस कथन को पुष्ट करती है। यह मामला यहाँ तक खत्म नहीं है; बल्कि इन विविध भेदों तथा उपभेदों ने एक दूसरे को नीचा दिखलाने के लिए कठिनियाँ भी गढ़ ली हैं। सभी अपने को उच्चम तथा दूसरों को नीच-

मानते हैं। यही हाल क्षत्रियादि अन्य वर्णों का भी समझना चाहिये इनमें भी प्रत्येक वर्ण के अन्तर्गत असंख्य भेदोपभेद हैं जो एक दूसरे से पूर्णतः पृथक् हैं। इसमें कुछ भी अत्युक्ति नहीं है यदि मैं यह कहूँ कि इस विशाल हिन्दू-समाज का शरीर ऐसे अंगो-प्रत्यंगों का केवल संग्रह मात्र है जिनमें जाति-भेद को भावना रखी विष के प्रवेश कर जाने के कारण वे सब के सब मृत प्राय हो रहे हैं और शारीरिक-क्रिया के संचालन में विलक्ष्ण असमर्थ हैं। हमारा यह जातीय शरीर सर्पदंष्ट की तरह चेतनाहीन होकर पड़ा है और जब तक हम उक्त विष को उचित दबा-दारु करके दूर नहीं कर देते तब तक न इसमें प्राणों का पुनः संचार होगा और न इससे कोई कार्य ही सिद्ध होगा। जन्म-मूलक वर्ण-व्यवस्था के जो कुपरिशाम अब तक देखाए गए हैं उनका सम्बन्ध केवल वैश्य-शूद्रों से होने के कारण उनका प्रभाव-क्षेत्र सीमित था। पर जाति-पाँति के कारण जो हानियाँ हुई हैं उनका कुफल सारा हिन्दू समाज भोग रहा है। ये हानियाँ मुख्यतः १० हैं—

( १ ) इस जाति-पाँति के कारण ही हिन्दुओं में परस्पर इतना द्वेष-माव फैला कि वे एक होकर विदेशियों का सफल सामना न कर सके, जिसका फल यह हुआ कि भारत पराधीन हो गया।

( २ ) इस जाति-पाँति के कारण ही हिन्दुओं की एक बड़ी संख्या ने सामाजिक अत्याचारों से बचने के लिए इस्लाम तथा इसाई धर्म को कबूल कर लिया। तथा कितने ऐसे लोग भी अपनी इच्छा के विरुद्ध विधर्मों हो गए जो भूल से किसी मुसलमान या इसाई का छूआ हुआ अच-जल ग्रहण करने के कारण अपनी विरादरी से खारिज कर दिए गए।

( ३ ) इस जाति-पाँति के कारण ही भारत-माता के लगभग १० करोड़ हिन्दू सन्तान अबूत तथा पद-दलित बनकर श्वान-शूकरन्सा

जीवन विता रही है जिसको रहने के घर, पहनने को कपड़े तथा पेट भरने का रुखा-सूखा अब तक नहीं है।

(५) इस जाति-पाँति के कारण ही विविध हिन्दू जातियों के बीच पारस्परिक प्रेम तथा सहानुभूति का इतना अभाव हो गया है कि इन असंख्य जातियों को एकता के सूत्र में बांधकर उनका संगठन करना नितान्त असंभव हो गया है।

इस जाति-पाँति के कारण ही आर्यसमाज वैदिक धर्म को सावंभौम धर्म न बना सका और न शुद्धि के कार्य में सफलता प्राप्त कर सका; क्योंकि जो भी विधर्मी वैदिक धर्म को क्वूल करता है वह विवाहादि सामाजिक आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए किसी भी जाति में शरण न मिलने के कारण पुनः अपने साविक धर्म में लौट जाता है। नहीं लौटने की दशा में वह पानी में तेल का तरह अलग रहता है।

(६) इस जाति-पाँति के कारण ही आर्य-समाज गुण-कर्म-हृत्वभावा नुसार कभी भी वरण-व्यवस्था स्थापित करने में सफल नहीं हो सकता; कारण कि गुण कर्म-स्वामावानुसार वरण-व्यवस्था चलाने के पूर्व जाति-भेद का समूलोच्छेद होना प्रमावश्यक है; परं जिन्हें जन्म-मूलक उच्चता की जागीरें मिली हैं वे उन्हें छोड़ नहीं सकते।

(७) इस जाति-पाँति के कारण हिन्दुओं में शिल्प-कला की यथेष्ट उन्नति अन्य अहिन्दू जातियों की तरह, न हो सकी; कारण कि जिन जातियों का पैत्रिक व्यवसाय शिल्प-कला है, जैसे लोहार, बढ़ाई, दर्जी, कुम्हार, तेली, नाई, जुलाहा आदि, वे सबके सब ओछी निगाह से देखी जाती हैं; अतः वे जी-जान से इसकी उन्नति के लिए परिश्रम करने में सदा शिथिल रहीं। रामायण तथा महाभारत में हम समुद्र में बाँधे हुए सेतु, पुष्पक विमान, लाक्षा-यह तथा विचित्र सभा-भवन के विषय में पढ़ते हैं; परं याद रहे, इनके निर्माता

भारतीय आर्य नहीं थे, जिनकी सन्तान होने का हिन्दू दावा करते हैं; बल्कि इनके निर्मातामय आदि दानव थे।

(५) इस जाति-पौत्रि के कारण ब्राह्मण और द्वित्रिय के अतिरिक्त किसी अन्य जाति का व्यक्ति लाख विद्वान्, सदाचारी तथा धनी होता हुआ भी सामाजिक दृष्टि से हेतु समझा जाता है। यही कारण है कि आजकल कायस्थ, सोनार, कोइरी, कुर्मी, अहीर, बढ़ई, लोहार, तेली, माली आदि शहद समझी जाने वाली जातियाँ अपने को ब्राह्मण-द्वित्रिय सिद्ध करने के लिए आकाश-पाताल के कुलाबे एक कर रही हैं।

(६) इस जाति-पौत्रि के कारण हिन्दुओं की सहानुभूति उसकी विरादरी तक ही सीमित रहती है। उसके विचार ऐसे संकुचित हो जाते हैं कि उसकी दृष्टि में किसी अन्य विरादरी के लिए स्थान ही नहीं; यहाँ तक कि सरकारी ओहदा पाकर भी वह इस दोष से अपने को मुक्त नहीं कर सकता और अपने पद तथा अधिकार के द्वारा अपनी ही विरादरी के लोगों को अधिक से अधिक लाभ पहुँचाने की कोशिश करता है तथा अन्य विरादरी वालों को उपेक्षा की दृष्टि से देखता है। ऐसा करने में वह न्याय-अन्याय का तथा औचित्य-अनौचित्य का कुछ भी विचार नहीं करता।

(१०) इस जाति-पौत्रि के कारण ही हिन्दू जाति विविध सामाजिक कुरीतियों का शिकार हो रही है तथा इसकी आर्थिक तथा राजनीतिक प्रगति खटाई में पड़ी है। हम गला फाड़कर 'हाय स्वराज्य ! हाय स्वराज्य !' चिन्हा रहे हैं; पर हमारा सुनता ही कौन है ?

जाति-पाँति की जिन १० हानियों को मैं ऊपर दिखला आया हूँ  
वे केवल मेरे ही विचार नहीं हैं अपितु हिन्दू जाति  
जाति-पाँति के के बड़े-बड़े नेता भी उन्हें कबूल करते हैं जिनकी  
विरुद्ध हिन्दू सम्मतियाँ पाठकों की जानकारी के लिए नीचे दी  
नेताओं की जाती हैं—

**सम्मतियाँ** (१) स्वर्गीय सर रवीन्द्रनाथ ठाकुर । यदि हिन्दू  
धर्मोन्मत्त विधर्मियों के घातक आक्रमणों से अपनी  
रक्षा करना चाहते हैं, तो उन्हें जाति-पाँति का सर्वथा त्यागकर के  
अपने को संगठित करना होगा ।

(२) स्वर्गीय पं० मोतीलाल नेहरू । जब तक जाति-पाँति  
का नामो-निशान मिटा नहीं दिया जाता, तब तक भारतवर्ष संसार के  
सम्य राष्ट्रों में अपना उचित स्थान नहीं ले सकता ।

(३) पं० जवाहर लाल नेहरू । भारतवर्ष में जाति-पाँति  
प्राचीन काल में चाहे कितनी उपयोगी क्यों न रही हो, पर इस  
समय सब प्रकार की उच्चति के मार्ग में यह बड़ी भारी वाधा और  
रुकावट बन रही है । ..... हमें इसको जड़ से उखाड़  
अपनी सामाजिक रचना एक दूसरे ढंग से करनी होगी ।

(४) श्री विनायक दामोदर सावरकर । शुद्धि, छूतछात-

dence Bill के द्वारा हमें स्वराज्य मिल गया है सही; पर हम इसे एक  
वास्तविक तथा स्थायी स्वराज्य तभी बना सकेंगे और संसार के समुद्र  
हम अपने को इसके लिए योग्य तभी सिद्ध कर सकेंगे जब हम आपस  
का भेद-भाव दूरकर और भूखी तथा नंगी प्रजा को अन्न-वस्त्रादिकों  
के द्वारा मुखी बनाकर सभी को एकता के सूत्र में बांध-सकेंगे;  
अन्यथा नहीं ।

निवारण और संगठन इत्यादि—इस प्रकार के उद्देश्य इस एक ही वाक्य के अन्दर पाए जाते हैं कि 'जाति-पाँति का झंझट तोड़ दो'।

(५) श्री राजा खलकमिह जूदेव बहादुर, खनिया धाना राज्य। मेरा यह पक्षा विचार है कि जन्म-मूलक जाति-पाँति और छुआ-छूत जैसी कुरोतियों के रहते हुए हिन्दू जाति कभी उन्नति नहीं कर सकती।

(६) श्री भगवानदास जी, एम० ए० (काशी)। वर्तमान काल में जाति-प्रथा जिस रूप में प्रचलित है, उसका एकान्त रूप से विनाश करना ही होगा। अगर भारत की जनता को नया जीवन प्राप्त करना है, तो उसे वर्णभेद के वर्तमान रूप को मिटा देना होगा, क्योंकि वह उन्नति के सभी भागों में भयंकर रूप से बाधा उपस्थित कर रहा है।

(७) स्वर्गीय श्री गणेशशंकर विद्यार्थी। मेरा पूर्ण विश्वास है कि जाति-पाँति के जंजाल के दूटे बिना हिन्दुओं का उद्धार न होगा।

(८) स्वर्गीय स्वामी श्रद्धानन्द। मैंने अपना यह नियम बना लिया है कि किसी ऐसे विवाह-संस्कार में सम्मिलित न होंगा और न उस जोड़े को आशिर्वाद देंगा, जिसमें जाति-पाँति का बन्धन न तोड़ा गया हो।

(९) स्वर्गीय लाला लाजपत राय। जाति-पाँति हिन्दू-धर्म का सबसे बड़ा कलंक है। ब्राह्मण और अब्राह्मण, जाट और गैर-जाट और नाममात्र ऊँच-नीच जातियों के बैमनस्य का यही मूल कारण है और इसोने अच्छूतपन को जन्म दिया है। जब तक हिन्दू जाति-पाँति की बेड़ियों से मुक्त नहीं होते, तब तक उनका एक जाति बनना असंभव है।

(१०) विश्ववन्द्य महात्मा गांधी। जाति-पाँति तोड़क

विवाह आपत्तिजनक नहीं है। शूद्र पुरुष ब्राह्मण स्त्री से विवाह कर सकता है।

(११) डाक्टर मुंजे। अन्तर्जातीय विवाह द्वारा ही हम जाति-पाँति को मिटा सकते हैं।

(१२) स्वामी सत्यदेव। जाति-पाँति की दीवारों को गिरा दो; फूट के कारण को मिटा दो, तभी वास्तविक संगठन हो सकेगा।

(१३) श्री सी० वाई० चिन्तामणि। वर्ण-व्यवस्था मनुष्य की बनाई हुई है। वह ईश्वर की ओर से कदापि नहीं हो सकती। जातीय भाव, जो इसकी कृपा से हमारे हृदय में जम गए हैं, लानंत के योग्य हैं। आज इस बात की आवश्यकता है कि इसका स्वत्र विरोध किया जाय, निःसन्देह इस घातक प्रथा ने हमारी उन्नति को बहुत दूर पीछे फेंक दिया है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि हिन्दुओं के इस भेदभाव के कारण हम पूरा-पूरा प्रयत्न करने पर भी पूर्ण और स्थायी स्वतंत्रता (स्वराज्य) प्राप्त नहीं कर सकते।

(१४) सर पी० सी० राय। जब तक जन्म-मूलक जाति-मेद का अन्त न होगा और वर्ण-व्यवस्था गुण-कर्मानुसार न मानी जाएगी, तब तक देश स्वतंत्र नहीं हो सकता। जाति-पाँति के क्षत्रिय भेद-भाव हमारे देश की उन्नति के मार्ग में वाधा सिद्ध हो रहे हैं। इसलिए इन्हें शीघ्र दूर कर देना चाहिए।

(१५) सर हरिसिंह गौड़। जाति-पाँति हिन्दुओं की एकता और उन्नति में रकावट है। इस हानिकारक जाति-पाँति के विरुद्ध नवयुवकों को आनंदोलन करना चाहिए।

(१६) स्वामी रामतीर्थ। देश और धर्म तुमसे आशा करता है कि जाति-पाँति के अत्यन्त कठोर नियमों को तुम ढीला कर डालोगे और भ्रातृ-भाव के प्रकाश के लिए तुम कड़े वर्ण-भेदों को नियन्त्रित कर दोगे।

( १७ ) पं० सन्तराम जी, वी० ए० । जाति-पाँति ने शुद्धि, संगठन और दलितोद्धार की सभी चेष्टाओं को विफल कर दिया है । जब तक जाति-पाँति है, ये तीनों बातें असम्भव हैं । हिन्दू-समाज के सभी सच्चे हित चिन्तक और नेता इस बात को मुक्तकंठ से स्वीकार करते हैं ।

( १८ ) महाशय देवराज, प्रधान कन्या-महाविद्यालय, जालंधर । जाति-पाँति के अयोग्य बन्धनों ने हमें ऐसा अभिमानी, आलसी और कर्महीन बना दिया है कि हम मनुष्य कहलाने के भी योग्य नहीं रहे । यह कुप्रथा तोड़ने योग्य ही है ।

( १९ ) श्री नारायण स्वामी । जाति-पाँति का बन्धन हिन्दू-जाति के लिए कलंक का टोका है, और इसने सारी जाति, को छिप्र-मिन्न कर रखा है । हिन्दू जाति में परस्पर घृणा और द्वेष का प्रचार इसकी कृपा का फल है । इसलिए आर्य जाति की उच्चति इस बन्धन के तोड़ने पर ही अवलंबित है ।

( २० ) श्री मालीराव जयकर । एक बात जो हमों स्वराज्य संग्राम में सीखी है, वह यह है कि हमें जाति-पाँति को सर्वथा मिटाकर जन्म की बड़ाई का त्याग कर देना चाहिए ।

( २१ ) श्री के० नटराजन । वर्तमान जाति-पाँति शास्त्र और तर्क दोनों के विरुद्ध है । हिन्दुओं की आपस की फूट का यही कारण है । यह राष्ट्रीय भावना के विरुद्ध है । नितना शीघ्र इसमें कान्तिकारी सुधार होगा, उतना ही इससे देश और विशेषकर के हिन्दुओं का कल्याण होगा ।

यहाँ भारत के केवल २१ प्रख्यात नेताओं की ही सम्मितियाँ दी गईं जिनसे पाठकों को भलीभांति मालूम हो गया होगा कि हमारे देश के करणधार इस जाति-पाँति की नारकीय कुप्रथा के कैसे

कद्रुर विशेषी है। इन सम्बन्ध में अन्यान्य नेताओं की भी सम्मतियाँ दी जातीं; पर ग्रन्थ का कलेवर व्यर्थ ही बढ़ जाने के भय से और अधिक नहीं दी गई। कितने उच्चमन्य पर यथार्थ में नीच बुद्धि के मनुष्य प्रायः यह कहा करते हैं कि भाई आजकल जितने नीच जाति के मनुष्य हैं वे जाति-पाँति को इसलिए उठा देना चाहते हैं कि वे समझते हैं कि ऐसा करने से ही वे उच्च जातियाँ के समकक्ष हो सकेंगे और नीच कहाने के कलंक से मुक्त हो सकेंगे। पर ऐसे बुद्धिम भाषापुरुषों को मैं बता देना चाहता हूँ कि जाति-पाँति को शृणा की दृष्टि से देखने तथा उस पर लानत देने वाले नेताओं की पूर्वोक्त तालिका में अधिकारी ब्राह्मण तथा अन्य द्विज वण्ठ के सदस्य हैं जो, यदि जाति भी कोई चीज़ है तो, उनसे जाति में कई गुणा अधिक अधिक, कुल में कई गुणा अधिक प्रतिष्ठित तथा शिक्षा में कई गुणा अधिक उच्च हैं।

अब यहाँ पर उन कतिपय लच्चर, निःसार तथा पासंडपूण्

युक्तियों एवं कठदलीलों का समूल खंडन किया जाति-मेद के जाता है जिन्हें जाति-पाँति एवं वण्ठ-व्यवस्था के समर्थकों की पक्षपाती इनके समर्थन में पेश करते हैं। इनकी दलीलों का खंडन दलीलों को एक-एक करके लेकर उनका कच्चा चिढ़ा खोला जाएगा—

( १ ) कितने तो यह कहते हैं कि भाई वण्ठ-व्यवस्था या जाति-मेद और कुछ नहीं; यह केवल अम-विभाग है। पर यह अम-विभाग तब कहा जाता जब प्रत्येक व्यक्ति को अपनी रुचि, योग्यता और शक्ति के अनुसार कोई व्यवसाय चुन लेने का अधिकार रहता सो बात यहाँ नहीं है। यहाँ सभी को जाति-विशेष में जन्म लेने के ही आधार पर अपना व्यवसाय चुनना पड़ता है, चाहे उनमें उस व्यवसाय के लिए योग्यता आदि हों या न हों। अथवा थोड़े शब्दों

में यह कहिए कि वर्ण-व्यवस्था श्रम-विभाग करने के साथ-साथ अमिकों का भी विभाग उनके जन्म के आधार पर कर देती है। उदाहरणातः तेली के घर जन्म लेने वाला व्यक्ति तमोली का काम नहीं कर सकता। इसी प्रकार तमोली के घर जन्म लेने वाला व्यक्ति तेली का काम नहीं कर सकता। ज्ञात्रिय मारे भूख के भले ही मर जाए; पर वह बनिए का काम करने में अपनी मान हानि मानता है। सच पूछिए तो हिन्दुओं के यहाँ कोई भी ऐसा सामाजिक कार्य नहीं जिसमें ब्राह्मण से लेकर भड़की तक सभी हिन्दू समान भाव से भाग ले सकें। इन्हें एकता के सूत्र में वाँधने वाली एक भी बात नहीं; सभी इन्हें अलग करने वाली है। सभी जातियों के जन्म से लेकर मरण पर्यन्त के सभी गृह्य-कृत्य रस्म तथा रिवाज अपने-अपने हैं। यही कारण है कि कोई भी हिन्दू अपने को किसी राष्ट्र के अंग के रूप में कभी अनुभव नहीं करता और 'तुम कौन हो?' ऐसा प्रश्न करने पर वह 'मैं हिन्दू हूँ' ऐसा न कहकर 'मैं ब्राह्मण हूँ, ज्ञात्रिय हूँ' ऐसा कह देता है, जबकि कोई मुसलमान इसी प्रश्न के उत्तर में 'मैं सैव्यद हूँ, शेख हूँ, पठान हूँ', ऐसा न कहकर 'मैं मुसलमान हूँ', ऐसा कहा करता है। हिन्दुओं और मुसलमानों में इतना फ़र्क है।

ऊपर कह आया हूँ कि वर्ण-व्यवस्था केवल श्रम-विभाग न होकर श्रमिक-विभाग भी है। पर यह बात यहाँ तक समाप्त नहीं होती, यह श्रमिक-विभाग एक ऐसा श्रेणीवद्व विभाग है जिसमें अमिकों के विभागों को एक-दूसरे के ऊपर क्रम से रखा गया है तथा ग्रत्येक श्रमिक का धन्धा उसकी स्वामाविक प्रवृत्तियों के अनुसार न नियतकर उसके जन्मरूपी आकस्मिक घटनानुसार नियत किया जाता है, जो किसी भी सम्य देश में नहीं पाया जाता।

(२) कितनों का कथन है कि वर्ण-मेद का उहेश्य रक्त की पवित्रता तथा वंश को विशुद्धता को सुरक्षित रखता है। पर मैं इसी

पुस्तक के द्वितीय तथा तृतीय परिच्छेदों में सविस्तर तथा सप्रमाण बता आया हूँ कि ब्राह्मण से लेकर चांडाल पर्यन्त किसी भी जाति का रक्त शुद्ध नहीं है। सभी जातियों में घोर रक्त-संमिश्रण हुआ है। यह केवल मेरा ही अनुसन्धान नहीं है। मानव-वंश-विज्ञान के अन्य पंडितगण भी गहरी स्खोज के बाद इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि विशुद्ध वंश के मनुष्य कहीं भी नहीं पाए जाते, संसार के सभी भागों में सभी वंशों की परस्पर मिलावट हो गई है। सुप्रसिद्ध महाराष्ट्रीय विद्वान् श्रीयुत डी० आर० भासडारकर ने अपने 'हिन्दू जनता में विदेशीय तत्त्व' ( Foreign Elements in the Hindu Population ) शीर्षक लेख में कहा है कि "भारत में शायद ही कोई श्रेणी या वर्ण ऐसा होगा, जिसमें विजातीय अंश न हो। विदेशी रक्त का मिश्रण न केवल लड़ाकू श्रेणियों—राजपूतों और मराठों—में ही है, वरन् ब्राह्मणों में भी है, जो इस धोखे में हैं कि हममें कोई विजातीय रक्त नहीं मिला"। सच पूछिये तो ब्राह्मणों और क्षत्रियों के मिश्रित रक्त होने के जितने प्रमाण मिलते हैं उतने वैश्यों और शूद्रों के नहीं मिलते। धर्मशास्त्रानुसार ब्राह्मणों में चार, क्षत्रियों में तीन तथा वैश्यों में दो वर्णों के रक्तों की मिलावट होनी चाहिए। केवल शूद्रों का ही रक्त शुद्ध मानना चाहिए।

वस्तुतः वर्ण-व्यवस्था की स्थापना वंश की शुद्धता के रक्षार्थ नहीं हुई, उसकी स्थापना तो आयों तथा अनायों के रक्त तथा संस्कृति के परस्पर मिश्रित हो जाने के बहुत काल बाद हुई। यह धारणा कि वर्णों का भेद वास्तव में वंशों का भेद है, अपने तथा दूसरों को धोखे में डालना है। मला पंजाब के ब्राह्मणों तथा मद्रास के ब्राह्मणों में कौनसा वंश-सम्बन्ध है? बंगाल के अबूतों तथा मद्रास के अबूतों में वंश का क्या रिश्ता है? पंजाब के ब्राह्मणों और पंजाब के चमारों में क्या वंश-भेद है? मद्रास के ब्राह्मणों और मद्रास के पारियों में

वंश की क्या भिन्नता है? मानव-वंश-विज्ञान (Ethnology) के पंडितों की दृष्टि में पजाब के ब्राह्मण तथा चमार एवं मद्रास के ब्राह्मण तथा पारिए आपने-आपने प्रान्तों के एक ही मानव-वंश की सन्तान हैं। इसी प्रकार दो भिन्न प्रान्तों के ब्राह्मण वा चमार दो भिन्न-वंशों के हैं। अतः वर्ण-भेद वंश-विभाग को नहीं दिखलाता।

(३) किसी का मत है कि वर्ण-व्यवस्था सुप्रजनन-शास्त्र (Eugenics) के आधार पर चलाई गई है जिसमें उत्तम सन्तान की उत्पत्ति हो। यदि सचमुच वात ऐसी है, तो वंश के सुधारने के निमित्त सविवेक जोड़े मिला-मिलाकर विवाह करने तथा कराने पर कभी किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। पर क्या वास्तव में किसी भी वर्ण में विवाह की यह विधि प्रचलित है? किसी एक वर्ण में से कौन दो आपस में विवाह करें, क्या इस चुनाव की कोई निश्चित रीति है? ऐसे प्रश्नों का उत्तर आपको नकार में ही मिलेगा। वृक्ष आपने फल-फूल से पहचाना जाता है। यदि वर्ण-व्यवस्था सुप्रजनन शास्त्र पर आधारित थी, तो इसने किस प्रकार की नस्ल उत्पन्न की है? शारीरिक संगठन की दृष्टि से हिन्दू ठिगानों तथा बौद्धों की जाति है, जो कद में छोटे और बल में हीन हैं। यह एक ऐसी जाति है जिसके प्रतिशत ६० व्यक्ति सैनिक कार्य के लिये सर्वथा अयोग्य ठहराएँगए हैं। इससे सिद्ध होता है कि वर्ण-व्यवस्था में आधुनिक वैज्ञानिकों के सुप्रजनन-शास्त्र का कुछ भी आधार नहीं। वर-कन्या के चुनाव में उत्तम शास्त्र का कोई नाम तक नहीं लेता; उसके मुताबिक जोड़ा मिलाना तो दूर रहा। यहाँ तो तिलक-दहेज की रकम ज्यों ही तै पाई गई और पुरोहित ने अपनी लग्न विचारकर वर-कन्या की जन्म-कुंडली ज्योंही मिला दी कि बस विवाह पक्का हो गया। उनके शारीरिक तथा बौद्धिक विकास की कोई भी परवाह नहीं करता, जिसका फल यह होता है कि हृष्ट-पुष्ट कन्याएँ दुबले-

पतले वरों के, इसी प्रकार मोटे-ताजे वर मरीज़ कन्याओं के गले  
मढ़ दिए जाते हैं। क्या हिन्दुओं के यहाँ सुप्रजनन-शास्त्र का यही  
सम्मान है !

( ४ ) कितने लोग ऐसे भी हैं जिन्हें हिन्दुओं के जाति-भेद  
में कोई विलक्षणता दीख नहीं पड़ती। ये लोग इसाईयों, मुसल-  
मानों तथा सिक्खों का उदाहरण देकर कि उन लोगों में भी जाति-  
भेद है अपने तथा दूसरों को सन्तोष देते हैं। अभिग्राय यह कि  
उनकी समझ-मुवारक में हिन्दुओं का जाति-भेद कोई ऐसी भयानक  
तथा धृशित वस्तु नहीं कि जैसा बहुत से लोग मान चैठे हैं। पर  
खेद है कि इन महाशयों ने हिन्दुओं और अहिन्दुओं के जाति-भेदों  
में जो तात्त्विक अन्तर है उसे समझने के लिए कभी कोशिश नहीं  
की है। अहिन्दू अपने यहाँ के जाति-भेद को वही सामाजिक महत्त्व  
नहीं देते जो हिन्दू अपने यहाँ के जाति-भेद को प्रदान करते हैं।  
किसी मुसलमान से पूछने पर कि तुम कौन हो ? उसके इतना ही  
कह देने से कि 'मैं मुसलमान हूँ', आप संतुष्ट हो जाते हैं। आपको  
यह जानने की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती कि वह शेख है, या  
सैध्यद है या मोमिन है। पर किसी हिन्दू से भेट हो जाने पर बिना  
उसकी जाति जाने आप उसका पिण्ड नहीं छोड़ सकते; क्योंकि  
हिन्दू की हालत में उसकी जाति को बिना जाने हुए आप  
यह निश्चय नहीं कर सकते कि वह किस प्रकार का मनुष्य है। यह  
पहली बात हुई ।

दूसरी बात यह है कि सिक्खों, इसाईयों तथा मुसलमानों में  
जाति-भेद होते हुए भी सब का खान पान एक है। उनमें छुआळूत  
का विचार नहीं। सैध्यद भी जुलाहे के हाथ के बनाए हुए सभी  
प्रकार के भोजन तथा उसका हुक्का भी अहसा कर लेने से पतित  
नहीं होता। केवल शादी अपनी ही विरादरी में हुआ करती है जो

केवल हिन्दुओं की देखा-देखी है; अन्यथा मुसलमानों की शरीरत किसी सैर्वयद को भी किसी मोमिन के साथ विवाह-सम्बन्ध स्थापित करने से मना नहीं करती।

तीसरी बात यह है कि सिक्ख, मुसलमान तथा इसाई जाति-पाँति तोड़ने वाले व्यक्ति को अपनी विरादरी से खारिज नहीं करते। वस्तुतः जाति-वहिष्कार की भावना ही अहिन्दुओं के लिए एक अपरिचित वस्तु है। पर हिन्दुओं की हालत उनसे बिल्कुल भिन्न है। जातीय नियम के उल्लंघन करने पर हिन्दू का वहिष्कृत होना अनिवार्य है। इससे साफ़ प्रकट है कि जाति-पाँति का जितना महत्व हिन्दुओं के यहाँ है उसकी तुलना में अहिन्दुओं के यहाँ नहीं के बराबर है।

चौथी बात यह है कि हिन्दुओं के यहाँ जाति-मेद उनके धर्म से सम्बद्ध है; पर अहिन्दुओं के यहाँ नहीं। हिन्दुओं की प्रत्येक जाति किसी न किसी वण<sup>१</sup> के अन्तर्गत है, अतः उसके अधिकार तथा कर्तव्य हिन्दू धर्म-शास्त्रानुसार निश्चित हैं तथा वे प्रत्येक वण<sup>१</sup> के लिए भिन्न-भिन्न हैं। उदाहरणातः जो अधिकार तथा कर्तव्य ब्राह्मण के हैं वे शूद्र के नहीं। पर सो बात अहिन्दुओं के यहाँ नहीं है। उनके यहाँ सभी जातियों के अधिकार तथा कर्तव्य उनके मज़हब के अनुसार समान हैं। जाति-मेद के अनुसार उनके अधिकारादि के मेद नहीं हैं। उदाहरणातः मुसलमानों के यहाँ सैर्वयद ही वा मोमिन; सिक्खों के यहाँ चाहे जाट हो वा अरोड़ा; इसाईयों के यहाँ चमार हो वा लोहार; अपने-अपने मज़हब की दृष्टि में सभी बराबर हैं। उनके अधिकारादि भी बराबर हैं, जो उन्हें एकता के सूत्र में बांधे हुए हैं और जिसका हिन्दुओं में निलान्त अभाव है।

(५) कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अब तक भी यह बात मालूम नहीं हुई कि वण<sup>१</sup>-मेद ने हिन्दुओं की कुछ हानि की है। उन्हें तो

इसी बात का अभिमान है कि हिन्दू जाति अनेक राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक क्रान्तियों के प्रचरण आधारों को भी विफल करती हुई अभी तक जीवित है। पर उसका अभी तक जीवित रहना उसके भविष्य में भी जीवित रहने की योग्यता का प्रमाण नहीं है और प्रश्न यह नहीं होना चाहिए कि कोई समाज जीता है या मर गया; बल्कि प्रश्न तो यह होना चाहिए कि वह समाज किस अवस्था में जीता है। जीता बना रहना कई प्रकार का होता है। रण-भूमि में शत्रु का मान-मर्दनकर कार्त्ति के साथ जीना और बात है तथा वहाँ से पीठ दिखाकर भागना और अन्त में बन्दी बनकर गुलाम की तरह जीना और बात है। दोनों में आकाश-पाताल का अन्तर है। किसी भी हिन्दू का इस बात पर अभिमान व्यर्थ है कि हिन्दू जाति अब तक जी रही है; बल्कि उसको तो अभिमान करने के बदले इस बात पर विचार करना चाहिए कि हिन्दू जाति किस दशा में जी रही है। यदि वह अपनी दशा पर विचार करेगा तो वह जीते रहने का गर्व छोड़ देगा। हिन्दुओं का जीवन, जब से उनके वास्तविक इतिहास का उदय हुआ, एक निरन्तर पराजय का जीवन रहा है। उनके जीते रहने की यह एक ऐसी रीति है जिसके लिए प्रत्येक विचार-शील हिन्दू लज्जा अनुभव करता है। हिन्दू जाति अब तक क्यों जीती है, इस पर यथेष्ट प्रकाश आगामी परिच्छेद में डाला गया है।

मैं पहले लिख चुका हूँ कि वैश्यों तथा शूद्रों को सदा दबाए रखने के लिए ब्राह्मणों तथा ज्ञात्रियों के बीच गुट-बन्दी हो गई थी। यह ब्राह्मण-ज्ञात्रिय-गुट अपने नगररूप में तब देख पड़ता है ब्राह्मण-ज्ञात्रिय- जब हम पुराणों तथा इतिहास-ग्रन्थों के पढ़ने, गुट का अन्योन्य जो इन दोनों जातियों के ही अन्योन्य-प्रशंसा गान से प्रशंसा-गान भरे हैं, जलटे हैं। यदि कहीं वैश्य-शूद्रों का

उल्लेख हुआ भी है तो केवल धूणा-व्यंजक शब्दों में ही। ये दोनों जातियाँ ऐसी हीनावस्था में रखी गईं कि ये किसी प्रशंसात्मक उल्लेख के योग्य हो ही न सके। एक और भी बात ध्यान देने योग्य है। विष्णु के जितने नरावतार हुए वे केवल ब्राह्मण-क्षत्रियों की ही जाति में हुए। वैश्य-शूद्रों की जाति में एक भी नहीं। वैश्य-शूद्रों के घर कोई अवतार होने ही क्यों लगे? वे तो इस प्रकार पद-दलित कर दिए गए थे तथा वे इस हीन परिस्थित में जबर्दस्ती रखे गए थे कि उनमें से किसी को भी शक्तिशाली बनने की सुविधा ही नहीं मिली। ब्राह्मणी धारणा के अनुसार, जैसा कि हम पुराणों में लिखा पाते हैं, वेदों तथा ब्राह्मणों की ही रक्षा के निमित्त विष्णु के अवतार हुआ करते हैं। पर यह देखकर आश्चर्य होता है कि वेदों की धर्मियाँ उड़ाने तथा ब्राह्मण जाति की जड़ खोदने वाले भी कपिलवस्तु के नक्षत्र राजकुमार सिद्धार्थ बौद्धावतार के नाम से विष्णु के प्रधान दशावतारों में परिगणित हो गए। यदि वे किसी ब्राह्मण-क्षत्रिय-भिन्न जाति के होते तो उन्हें ब्राह्मणों द्वारा राक्षसाधम की उपाधि अवश्य मिली होती। पर वे अपने गुट के आदमी ये: अतः ब्राह्मणों तथा वैदिक धर्म के कठूर शत्रु होने पर भी अवतार की उपाधि से सम्मानित किए गए। ब्राह्मणों ने उनके धर्म का वहिष्कार किया सही; पर उनके व्यक्तित्व का सम्मान किया। यह गुटबन्दी यहाँ तक प्रवल है।

गुट ब्राह्मणी शासनकाल में, जब शासन-कार्य स्मृतियों के अनुसार चल रहा था, वैश्यों और शूद्रों की जो दुर्गति थी उसकी कर्मांकी पाठकों ने कर ली। उस काल में वे एक बौद्धकाल तथा जैन-काल कठोर नियंत्रण में रखे जाने के कारण फूलने-फूलने को कौन कहे, पनपने तक भी न पाए। पर जब बौद्ध-काल तथा जैन-काल आए, तो इन देवारों

को साँस लेने का अवसर मिला। बौद्ध धर्म जाति-मेद का कट्टर विरोधी था तथा ब्राह्मणों एवं वैदिक धर्म को मानो जड़ से उखाड़ केकने के लिए पैदा हुआ था। इसने मनुष्य मात्र को अपनी इच्छा-नुसार सब प्रकार की उन्नति करने का समान अधिकार दे दिया। उन्नति के मार्ग में जाति-पर्याप्ति की काई कैद न रही। वैश्य-शूद्र को ब्राह्मण-क्षत्रिय के द्वारा यज्ञादि का बहाना करके लूटे जाने का डर जाता रहा। स्मार्त-शासन ताक पर रख दिया गया। बौद्ध-धर्म प्रबल धर्म हो गया। वैदिक-धर्म का धीरे-धीरे हास होता गया। हिन्दू जाति में फूट फैलाकर उनमें परस्पर आनुभाव का उच्छेद करने वाले “ब्राह्मणोऽस्यमुख मासीत्” आदि जैसे वेद-वाक्यों का प्रभाव जाता रहा। उस काल में ज्ञनियों का प्रायः अभाव-सा हो गया था, जिनके बल पर ब्राह्मण उछल-कूद किया करते थे तथा अपनी मान-मर्यादा को इस प्रकार नष्ट होते देख ये लोग बौद्ध-धर्म पर गद्द-हप्ति लगाए बैठे थे, पर इनका वश कुछ भी न चलता था। इस धार्मिक क्रान्ति का यह फल हुआ कि देश में कितने धन-कुवेर श्रेष्ठि कुलों का प्रादुर्भाव हुआ जिनकी प्रशंसा से बौद्धों तथा जैनियों के अन्य भरे पड़े हैं। इतना ही नहीं; बल्कि नन्द, मीर्य आदि शूद्र-वंशीय तथा गुप्त, वर्दन आदि वैश्यवंशीय समाज भी इसी बौद्ध धर्म के द्वारा काल (इ० पू० ५००—इसाब्द ५००) में वा उसके आस-पास ही उत्पन्न हुए। बौद्ध काल में राजा लोग भी बौद्ध हो गए थे अथवा नहीं तो वे कम से कम उस धर्म से प्रभावित तो अवश्य हो रहे थे, जो हमारे भूदेवों के दिल में अखतर रहा था। इसी कारण उस काल में बौद्धों और ब्राह्मणों के बीच घोर संघर्ष चल रहा था। बौद्ध-धर्म ने जाति-मेद को उठाकर सभी श्रेष्ठियों के लोगों के लिए उन्नति का द्वार खोल दिया था। इस कारण ब्राह्मणी शिक्षिजे तथा तकन्य सामाजिक अत्याचारों से ब्राह्मण पाने के लिए बौद्ध-धर्म में

दीक्षा लेने वालों का तीता बैध गया। हिन्दू जनता का विपुल भाग ब्राह्मणी फ़न्दे से भागकर बौद्ध-धर्म में जा मिला। ठीक वैसे ही अवस्था उत्पन्न हो गई थी जैसी कि मुस्लिम काल में असंख्य लोगों के मुस्लिम धर्म में चले जाने पर हुई थी और वर्तमान विटिश काल में बहुसंख्यक लोगों के इसाई धर्म में जा मिलने के कारण ही रही है। इसका परिणाम वह हुआ कि ब्राह्मण अत्यन्त भयभीत हुए। उन्हें इस आतंक ने धर दबाया कि कहीं उनके सभी चेले बौद्ध हो गए तो 'धोबी का कुच्छा न धर का, न धाट का', वे इस कहावत को चरितार्थ करते हुए कहीं के न रह जाएँगे। उनका सारा जातीय अभिमान और निःशेष जातीय गौरव मिट्टी में मिल जायगा। अतः इस बौद्ध-विभाषिका ने उन्हें अपने शासन की बागडोर आवश्यकता-नुसार ढोली करने, और उन विविध सामाजिक प्रतिवन्धों को, जिनके नीचे दबकर वैश्य और शूद्र कराह रहे थे, वापस लेने के लिए विवश किया। बौद्धों के साथ इस प्रतिद्वन्द्विता में विजय प्राप्त करने की अभिलाषा ब्राह्मणों के हृदय में इतनी उक्ट और प्रबल हो उठी कि उन्होंने कतिपय विदेशी बर्बर जातियों एवं इस देश के ब्रानेक आदिम अनार्य जातियों को भी, जैसा कि पहले लिखा गया है, राजपूत-संज्ञा धारी ज्ञात्रिय बना, उन्हें बौद्ध राजाओं के साथ एक धार्मिक युद्ध ( Crusade ) में भिड़ा दिया। इसका कारण यह था कि भारत की प्राचीन सूर्यवंशीय तथा चन्द्रवंशीय ज्ञाति का कुरुक्षेत्र और प्रभास की धरोलू लड़ाइयों में प्रायः सर्वनाश हो चुका था और जो कुछ ज्ञात्रिय भायवश वच गए थे उनका भी धीरे-धीरे हास हो रहा था और उनमें से अधिकांश बौद्ध-धर्म में जा मिले थे जिससे ब्राह्मणों को वैदिक-धर्म की रक्षा के लिए एक नवीन, धीर, उत्साही तथा अपनी भक्त ज्ञात्रिय जाति को उत्पन्न करने की ज़रूरत पड़ गई थी और इस नवीन ज्ञात्रिय जाति ने भी ब्राह्मणों के

प्रति अपने शृणु को, बौद्ध राजाओं का, जो बौद्ध-धर्म के प्रमुखोपक और संरक्षक थे, समूलोत्पाटन कर तथा नवीन (पौराणिक) हिन्दू-धर्म की स्थापना में सहायता पहुँचाकर, पूरी तरह से चुका दिया। यह छोना-झगटी का जमाना था। ब्राह्मणों ने भी अपने शासन की कठोरता इसी कारण कुछ दीली कर दी। बौद्धों की देखा-देखी उन्होंने भी विदेश-यात्रा तथा समुद्र-यात्रा-सम्बन्धी प्रतिबन्ध उठा लिया जिसका फल यह हुआ कि भारत के वैश्यगण पूर्व में जावा, बाली, सुमात्रा, जापान आदि द्वीपों में और पश्चिम में ईरान, फिनीशिया, मिस्र आदि विदेशों में बड़ी-बड़ी नावों के द्वारा, जिन्हें हम उस काल के जहाज कह सकते हैं, व्यापारकर मालोमाल हो गए। ब्राह्मणों ने वैश्यों के साथ इतनी उदारता दिखाई उन्होंने समुद्रगुप्त आदि वैश्य-सम्भाटों के हाथ भी अश्वमेघ यज्ञ तक, जिसके अधिकारी वे वैश्य-होने के कारण कदापि न थे, करवाया। इस भय से कि कहीं वैश्य शास्त्र बौद्धों में न जा मिले, ब्राह्मणों ने उन लोगों के प्रति उसी नीति को अप्रियत्वार किया जिसका अनुसरण वर्तमान काल में उच्च जाति के हिन्दू नेतागण स्वराज्य-संग्राम में अछूतों को अपने में मिलाने के लिए कर रहे हैं। अतः अछूत माईयों को सावधान रहना चाहिए कि जैसे ब्राह्मण लोग बौद्धों तथा बौद्ध-धर्म का समूलोच्छेद कर देने के बाद वैश्य-शूद्रों के प्रति फिर वही पुरानी चाल चलने लगे, ठीक उसी प्रकार कहीं ऐसा न हो कि स्वराज्य-प्राप्ति के बाद उच्च मन्यहिन्दू अछूतों को पुनः उसी गति में ढकेल दें; क्योंकि काम निकाल लेने के बाद कौन किसको पूछता है।

बौद्ध काल का और हाल मुनिए। उस काल में मारतीय व्यापारियों के अतिरिक्त बौद्ध भिन्नुओं ने भी तिब्बत, चीन, मंगोलिया, मंचूरिया, जापान, मलाया द्वीप-गुज़र, सिंहल आदि विदेशों और द्वीपों में जाकर बौद्ध-धर्म का प्रचार किया; जिससे भारत का सम्पर्क

विदेशों के साथ दिन-दिन बढ़ता गया और विदेशी आकर्षण-कारियों का ध्यान इस देश के अतुल वैभव के प्रति आकृष्ट हुआ। निदान इस ब्राह्मण-बौद्ध-संघर्ष का अन्तिम फल यह हुआ कि बौद्ध-धर्म अपनी पुराण जन्म-भूमि भारत से निकाल बाहर किया गया और हिन्दू जाति के पुराने कोड़ जाति-मेद के परिपोषक ब्राह्मणी धर्म, जिसका जह बौद्ध-धर्म की प्रचंड चोटों के कारण हिलकर उखड़ने-उखड़ने हो गई थी, अपने पूरी शक्ति के साथ एक मुट्ठड़ नींव पर पुनः स्थापित हो गई तथा ब्राह्मणों ने उन सभी लोगों को, जिन्होंने वर्ग-व्यवस्था का उल्लंघनकर बौद्ध-धर्म की दीक्षा कबूल कर ली थी, उनके घनबों के आधार पर विविध जातियों में विभक्तकर, पुराणों तथा स्मृतियों में उन्हें वर्गसंकर करार देते हुए एक भयंकर प्रतिशोध के द्वारा अपने जले दिल की आग ठंडी की।

मैं भारत के बड़े-बड़े हिन्दू लीडरों तथा धर्मोपदेशकों को सभा-सोसाइटियों के अधिवेशनों में भारत की प्राचीन स्वतंत्रता का राग

**भारत की तथाकथित स्वतंत्रता** अलापते तथा उसकी वर्तमान पराधीनता पर विलाप करते देखा करता हूँ और देखकर उनकी अज्ञता पर मुझे तरस आया कगता है। संभवतः किसी देश की

दो भिन्न वस्तु है, यह उन्हें मालूम नहीं। किसी देश की स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि वह किसी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं है; और वहाँ की प्रजा की स्वतंत्रता का यह अर्थ है कि वहाँ की सारी प्रजा विना किसी भेद-भाव के अपने देश के शासन-निर्माण में तुल्य अधिकार रखती है तथा उसके अन्य अधिकार भी जैसे धार्मिक, सामाजिक आदि तुल्य ही हैं। पर जिस देश में प्रजा का वर्ग-विशेष प्रबल होने के कारण अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए एक मनमाना शुद्धन किसी निर्बल वर्ग-विशेष पर लौटा करता है, वहाँ की प्रजा यथार्थ में

स्वतंत्र नहीं कही जा सकती। ठीक यही दशा भारत की भी जाननी चाहिए। यद्यपि प्राचीन काल में भारत विदेशियों के अधीन नहीं था; पर यहाँ की प्रजा स्वतंत्र न थी। यहाँ जैसा मैं पहले कह आया हूँ, ब्राह्मण-क्षत्रियों का गुड़ वैश्य-शूद्रों को अपने मनमाने शासन की चक्की में अहनिश पीस रहा था। अतः इस कथन में तनिक भी अत्युक्ति नहीं कि प्राचीन भारत की स्वतंत्रता केवल ब्राह्मण-क्षत्रियों की ही स्वतंत्रता थी; वैश्य-शूद्रों को नहीं। और उसकी स्वतंत्रता छिन जाना। इसके साथ मैं यह भी बतला देना चाहता हूँ कि हमने अपनी प्राचीन स्वतंत्रता का उपार्जन अपने बाहु-बल से नहीं किया था और न तो इसका रक्षा ही अपने बाहु-बल से कर रहे थे। प्रत्युत हमारे देश की यह स्वतंत्रता प्रकृति की देन थी और इसकी परिरक्षिका भी वही थी। उत्तर दिशा में शैलाधिराज हिमालय तनकर खड़े एक निर्भीक प्रहरी की तरह अपने सुविशाल स्कन्धस्थल पर संगीन-सजित बन्दूकों के समान घबलागिरि-कंचनजंघा, आदि गगन-नुंबी तुकीले शूंगों को रख, एवं देश की पश्चिमोत्तर तथा पूर्वोत्तर सीमाओं की ओर, अपने दहने और बाँए, अन्य गिरि-भेशियों के रूप में अपनी विशाल बाहों से हमारी रक्षा कर रहा था। शेष सभी और उत्ताल तरंग तथा अथाह महोदधि एक विपुल-विस्तार तथा अलंघनीय दुर्ग-परिस्था बनकर हमारे शत्रुओं का मार्ग रोके हिलोरे ले रहा था। इस प्राकृतिक प्राचीर के भीतर हम निरापद रहकर महाकूप-मण्डुकों की तरह टर्र-टर्र के आलाप से चैन की बंशी बजा-बजाकर उछल-कूद कर रहे थे और इस प्रकार आनंद-विभोर हो रहे थे कि हमें इस बात की तनिक भी झनक न थी कि हमारे विदेशी शत्रु काले नाग की तरह हम पर बार करने और हमें जीवित निगल जाने की फ़िराक में चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। हम इसी

मद से उन्मत्त हो रहे थे कि संसार में हमारी जैसी सभ्य, मुसंस्कृत, विक्रमशाली एवं विद्या-बुद्धि-सम्पन्न और समृद्ध कोई दूसरी जाति है ही नहीं, जिसका हमें डर हो। गूलर-कुमि के समान हम बाहरी दुनिया से इतने बेखबर थे कि हमें पता न था कि सभ्यता के कतिपय अशों में हमसे भी अधिक समुन्भत जातियाँ, जैसे मिस्री (Egyptians), चीनी (Chinese), अस्सुर (Assyrians), बाब्लूली (Babylonians) आदि जिनकी उत्कट सभ्यता की कीर्ति गाथा आज भी गा-गाकर स्फिंक्स (Sphinx) पिरैमिड (Pyramids), लटकते हुए बाज़ (Hanging Gardens), विशाल दीवार (The Great Wall) आदि 'सप्ताश्चयों' (Seven Wonders) के भग्नावशेष दिग-दिगन्तों को मुखरित कर रहे हैं, धरातल में मौजूद हैं। हमारी स्वार्थमयी संस्कृति तथा अन्तःसारशून्य सभ्यता का पर्दाफाश तब हुआ और हमारी जाति-भेदात्मक ज़हरीली सामाजिक संस्था के दारण-परिणाम तब अनुभूत हुए जब विदेशी आकर्मणकारियों के धरणी देवी के बच्चःस्थल को अपने तुमुल नाद से कॅंपा देने वाले नगाड़े खैबर और बोलन जैसे हमारे सिंहद्वार के काटकों पर गड़गड़ाने लगे और हमें अपने चिरसंचित पापों को परिणाम-स्वरूप शत्रुओं के सन्मुख मुँह की खानी पड़ी।

भारत की परतंत्रता का मुख्य कारण हिन्दुओं की वर्ण-व्यवस्था हुई, यह कपर कह आया हूँ। अब उसी की वहाँ पर व्याख्या करता हूँ। वर्ण-व्यवस्था ने एक जाति का काम दूसरी भारत की जाति को सीखने नहीं दिया। वैश्यों और शूद्रों पराधीनता का पर तो मनु ने पहले ही “यो लोभादधमोजात्या” मुख्य कारण वाला कानून पासकर उन्हें एक प्रकार से इथियार-वर्ण-व्यवस्था है कानून (Arms Act) के शिकंजे में जकड़ दिया जिससे वे युद्ध-शिक्षा से बिल्कुल बंचित रह गए।

शेष बचे ब्राह्मण और लक्ष्मिय। इनमें हमारे महीदेवों को क्या पड़ा था कि वे यजमानों के तथाकथित कल्याणार्थ सदा पूजा-प्याठ में निरत रहने का ढोग रचकर 'परमुडे फलाहार' वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए मोहनभोग का भोग लगाना छोड़ दें और शास्त्र-सम्मत तथा देश-रक्षार्थ आपदर्म-स्वरूप युद्ध-विद्या सीखकर अपनी मातृ-भूमि की स्वातंत्र्य-रक्षा में लक्ष्मियों के साथ हाथ बटावें और इस प्रकार अपनी जान जोखम में डालें? उनके अपने 'स्वराज्य' में तो किसी भी विघ्न-बाधा की आशंका न थी! फल यह हुआ कि देश-रक्षा के निमित्त ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, अथवा यों कहिए कि हिन्दू जनता के कम से कम तीन चतुर्थांश, पूरे निकम्मे सिद्ध हुए। केवल लक्ष्मियों से, जो हिन्दू धर्मशास्त्रानुसार ऐनिक शिक्षा के असली अधिकारी थे, देश की रक्षा न हो सकी; विशेषकर ऐसे लक्ष्मियों से जो परस्पर सदा लड़ा करते थे और जिन्होंने विदेशों में जाकर यहाँ की समुद्रत युद्ध-कला को सीखने का कष्ट कभी न उठाया और जो बरावर अपने यहाँ की युद्ध-विद्या-सम्बन्धी पुरानी लकीर के फ़कीर बने रहे। ऐतिहासिक काल में भारत पर सबसे पहली मार निनेवा की रानी सिमीरैमिस् के हाथों पड़ी। तत्पश्चात् उसे फारस के बादशाह दारा की, और दारा के बाद यूनान के बादशाह सिकन्दर की मार पुनः खानी पड़ी। इन जगद्विख्यात विजेताओं के अतिरिक्त न मालूम कितनी यूनानी, शक, हुण, कुशान आदि बर्बर जातियों ने यहाँ आकर अपने-अपने अड़डे जमाए और सबके अन्त में हिन्दू-शासन का अन्त करने वाले मुसलमानों के शुभ दर्शन हुए। इन सभी आक्रमणकारियों के आक्रमण-वृत्तान्तों से हम कौन-सी बातं सीखते हैं? यही कि उनके लिए केवल यहाँ के लक्ष्मियों पर ही विजय प्राप्त करना मानो देशमात्र पर अपना प्रभुत्व जमा लेना था। रण-भूमि में जहाँ विदेशी शत्रुओं ने बीर लक्ष्मियों

को पछाड़ा कि देश की स्वतंत्रता का किस्सा तमाम हुआ है। फिर प्रबल शत्रुओं के उमड़ते हुए ज्वार को रोकने वाला ही कौन था? अन्य सभी जातियाँ सैनिक-शिक्षा से बचना के कारण निहत्थी हो रही थीं। फलतः शत्रुओं के लिए शहर के शहर तथा गाँव के गाँव जलाकर भस्म करते और वहाँ की निरीह तथा निरख प्रजा को मूक पशुओं की तरह तलबार के घाट उतारते और उनका सर्वस्व अपहरण करते हुए तमाम देश को रौद डालना चाहें हाथ का खेल हो गया था। हमारा इतिहास हमें बतला रहा है कि जब-जब विदेशियों के साथ हमारी मुठ-भेड़ हुई, तब-तब हमें नीचा देखना पड़ा। यदि एकाध चार हमारे मुँह की लाली रह भी गई, तो वह पुआल के खलिहान में अब के दो-चार दानों के सिवा और कुछ नहीं, जो गग्ना योग्य समझी जाए। क्या हमारा भी सौभाग्य कभी ऐसा हुआ कि हमने भी अपने देश की चहारदिवारी नांधकर विदेश में अपना प्रभुत्व जमाया? इस प्रश्न के उत्तर में इतिहास के मुँह से बारबार नकार ही निकलता है। हमें से कितने महाशय यह कहकर सब कर लेते हैं; पर सच पूछिए तो वे इस बात से अपनी लज्जापूर्ण अयोग्यता छिपाने का प्रयत्न करते हैं कि भाई, हिन्दू एक धर्मपरायण जाति है जिसका एकमात्र लक्ष्य रही है आध्यात्मिक उन्नति, न कि भौतिक। अतः भौतिक उन्नति के पीछे पागल बने हुए विदेशी लुटेरों के सामने वह खड़ी न रह सकी। पर पाठकवृन्द! हमें यह कभी न भूलना चाहिए कि महासन्त की सी ये बातें उन मायालियों की हैं जिन्होंने अपने भाइयों का सर्वस्य लूटकर और उनकी भौतिक, आध्यात्मिक आदि सभी प्रकार की उन्नतियों का रास्ता रोककर उनके गले में गुलामी का तबक सदा के लिए डाल दिया है। उनकी ये बातें 'खड़े अंगूर' की सी लगती हैं।

भारत के नामी-गिरामी हिन्दू नेताओं की सम्मतियों का

उल्लेखकर मैंने यह बात दिखा दी है कि उन सभी लोगों ने भारत की पराधीनता का मुख्य कारण जाति-भेद तथा भारत की परा-वर्ण-न्यवस्था ही को माना है तथा मैंने अभी इस धीनता का कारण कारण की व्याख्या भी कर दी है। पर कितने वर्ण-बौद्ध-धर्म का अमधर्म के हिमायती उक्त धोर सत्य का सामना अहिंसावाद न था करने में अपनी असमर्थता छिपाते हुए यह कहा करते हैं कि भारत की परतंत्रता का मुख्य कारण बौद्धों का अहिंसावाद था। उनकी दलील है कि बौद्ध-धर्म के अहिंसावाद ने भारतवर्ष को हिंसा के भय से युद्ध-विमुख तथा सैनिक-शिक्षा-विहीन बना दिया जिससे उसकी लड़ाकू प्रवृत्ति का हास हुआ और वह विदेशी शत्रुओं का सामना न कर सका। इसीको कहते हैं, 'खेत खाए गदहा, मार खाए जोलाहा'; क्योंकि भारत का इतिहास उक्त दलील का समर्थन नहीं करता। बल्कि उसकी गवाही ठीक इस दलील के प्रतिकूल है। सच पूछिए तो भारतीय इतिहास का सबसे अधिक समुज्ज्वल अंश बौद्ध काल में ही पड़ता है। उसी काल में चन्द्रगुप्त मौर्य, अशोक, पुष्पमित्र, कनिष्ठ, समुद्रगुप्त, चन्द्रगुप्त, विक्रमादित्य, स्कन्दगुप्त, हर्षवर्द्धन, पुलिकेशिन आदि बड़े-बड़े सम्राट् हुए जिन्होंने भारतवर्ष के राजनैतिक रंगमंच पर अपने असाधारण अभिनय के द्वारा अपनी कीर्ति को अजर और अमर कर दिया। जिस गुप्त-काल को हम भारत का सुवर्ण-युग बतलाकर मारे आनन्द और अभिमान के फूले नहीं समाते वह बौद्ध-काल के ही अन्तर्गत है। बौद्ध-धर्म अहिंसा-वादी था जरूर; पर विदेशी शत्रुओं से अपने देश की रक्षा करने, दुष्टों को दण्ड देने तथा आतायियों को तलवार के घाट उतारने में वह कभी विमुख नहीं हुआ। ऐसे-ऐसे अवसरों पर हिंसा की हिंसा नहीं; बल्कि, परम धर्म समर्कता था। भारत में अशोक,

कनिष्ठ, हर्षवर्द्धन आदि बड़े-बड़े बौद्ध सम्प्राट् हो गए हैं, जिनके पास नानाविधि अख्ल-शास्त्रों से सुसज्जित अतः दुर्दर्श विशाल सेनाएँ थीं। आखिर अहिंसा ब्रतधारी इन बौद्ध सम्प्राटों का हिंसापरायण सेनाएँ रखना कौनसा अर्थ रखता था ? यही कि ये बौद्ध सम्प्राट् अपने धर्म तथा साम्राज्य की रक्षा के निमित्त स्वदेश पर आक्रमणकारी शत्रुओं का मूलोच्छद करना अपना कर्तव्य समझते थे जो बिना हिंसा का आभ्य लिए नहीं हो सकता था। इनकी सेनाएँ केवल परिच्छद मात्र न थीं। माना कि ये स्वयं आक्रमणकर किसी दूसरे को हानि पहुँचाना नहीं चाहते थे; पर इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि ये अपने धर्म तथा राज्य की रक्षा में खून की नदियाँ बहाने के लिए तैयार न थे। इमें बौद्ध धर्मग्रन्थों के अध्ययन से पता चलता है कि अहिंसा-धर्म पर इसी प्रकार की शंका वैशाली राज्य के सेनापति सिंह ने गौतम बुद्ध के पास आकर की थी और उन्होंने जिस खूबी के साथ सिंह की शंकाओं का समाधान किया था वह पढ़ने तथा मनन करने योग्य है।

सिंह ने पूछा कि क्या भगवान् तथागत, जो असीम दया का उपदेश देते हैं और सब दुखियों के प्रति करुणा का भाव सिखाते हैं, अपराधी को दंड देने की आशा देते हैं ? क्या भगवान् तथागत का यह उपदेश है कि हम अपने घर, खी, बच्चे और अपनी जायदाद की रक्षा हेतु युद्ध न करें ? क्या हमें अत्याचारियों के अत्याचारों को चुपचाप सहकर उसकी अधीनता दीनतापूर्वक मान लेना चाहिए ? क्या भी तथागत यह सिद्धान्त रखते हैं कि सब प्रकार के युद्ध, जिनमें सत्य और न्याय के लिए युद्ध करना भी शामिल हो, मना है ?

गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया कि जो दंड का पात्र है उसे दंड और जो पुरस्कार का पात्र है उसे पुरस्कार अवश्य मिलना चाहिए। अपराधी को जो दंड मिलता है उसका कारण अधिकारी की बदनीयता नहीं है; बल्कि उसका कारण युद्ध अपराधी का अपराध है। हाकिम

तो केवल कानून की आज्ञा का पालन करता है; अतः वह हिंसा का भागी नहीं होता। जो मनुष्य सत्य और न्याय की रक्षा में 'युद्ध' करता है वह दोषी कदापि नहीं है। यदि शान्ति रखने के सभी उपाय असफल हो गए हों तो युद्ध का दोषी वही होता है जो उसका कारण है। शैतानी ताकतों के सामने कभी भी आत्म-समर्पण नहीं करना चाहिए। संग्राम होना चाहिए ज़रूर पर किसी निजी स्वार्थ के लिए नहीं। वह जो स्वार्थ के लिए युद्ध करता है ताकि वह सबसे महान्, शक्तिशाली, धनवान् या प्रसिद्ध हो, जाए, पुरस्कार का पात्र नहीं होता। पुरस्कार का पात्र तो वह होता है जो सत्य और न्याय के लिए युद्ध करता है; क्योंकि उसकी पराजय भी विजय समझी जाएगी। रणनीति में जाने वाले वीर अपनी जान हथेली पर रखकर ही वहाँ जाते हैं। अतः यदि वे वहाँ पर वीर-गति को प्राप्त हो जाएँ तो उन्हें किसी प्रकार की शिकायत नहीं करनी चाहिए। शत्रु को रण-भूमि में पछाड़ने से ही स्थायी विजय नहीं प्राप्त होती। स्थायी विजय तो तब मिलती है जब गिरे हुए शत्रु को ग्रेमपूर्वक उठाकर उसके साथ आत्म स्थापित कर लिया जाए। जिसने अपने आपको जीत लिया है वह किसी विजयी सेनापति से भी महान् है।

न्या गौतम बौद्ध के उक्त समाधान से यह बात स्पष्ट नहीं हो जाती कि बौद्ध लोग अहिंसा-व्रत को परमधर्म मानते थे ज़रूर; पर देश की स्वातंत्र्य-रक्षा के निमित्त किए जाने वाले हिंसात्मक युद्ध से कभी उन्होंने अपना भूँह नहीं मोड़ा। वर्तमान काल में तिब्बत, चीन, जापान आदि बौद्ध राष्ट्र हैं जो आज भी स्वतंत्र हैं तथा जो अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए खून की नदियाँ वहा रहे हैं। यह देख विद्वानों की तो यह सम्मति है कि यदि भारत बौद्ध-धर्म को अपनाए रहता, तो वह विदेशियों द्वारा इस प्रकार पददलित नहीं होता। उसकी पराधीनता का मुख्य कारण बौद्ध-धर्म का

परित्याग तथा नवीन हिन्दू धर्म ( पौराणिक धर्म ) का अंगीकार करना था, जिसने वर्णाधिमधर्म के पहले से भी अधिक कठूर रूप में चलाकर हिन्दुओं में परस्पर फूट का वह बीज बो दिया जिससे वे विदेशी शत्रुओं का सम्मलित मुकाबला न कर सके । भारत में हिन्दू-शासन का सर्वप्रथम अन्त करने वाले मुसलमान हैं । मुस्लिम-विजय काल से ही भारत के पराधीनता-काल का प्रारम्भ माना जाता है । मुसलमानों ने भारतवर्ष को किससे छीना ? बौद्धों से या वर्णाधर्मी हिन्दुओं से ! क्या सिन्ध-नरेश दाहिर, जिसके हाथ से नुहम्मद बीन कासिम ने सिन्ध छीना था, कोई बौद्ध राजा था ? क्या शाहबुद्दीन मुहम्मद गोरी को तुलाने वाला कबीर-भत्ति जयचन्द बौद्ध धर्मावलम्बी था ? क्या दिल्लीश्वर पृथ्वीराज, जिसे गोरी के सामने परास्त होना पड़ा, अहिंसा ब्रत-धारी था ? क्या नदिया का राजा लक्ष्मणसेन, जो कुतुबुद्दीन के सेनापति बखित्यार खिलजी का नाम सुनते ही और बिना उससे लड़े ही अपने महल के पिछवाड़े के द्वार से चुपके से दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ, कोई कायर बौद्ध-भिन्नु था ? इस प्रकार के अनेक प्रश्न उठ सकते हैं जिनका उत्तर पाठकों को भली माँति बता देगा कि भारत को विदेशियों के हाथ बेचने वाले अहिंसावादी तथा समर-विमुख बौद्ध न थे; अपितु वडे ही रण-बाँकुरे तथा हथेली पर अपनी जान रखकर जूझ जाने वाले राजपूत जैसे कठूर वर्णाधर्मी हिन्दू थे, जो स्वयं ही बौद्धों का उच्छेद करने में ब्राह्मणों का दहना हाथ हुए थे । स्वर्गीय श्री रमेशचन्द्र दत्त अपनी पुस्तक Civilization in Ancient India, Vol. II, Book V, Chap. III, पृष्ठ १६५ में लिखते हैं—Like all new converts, they were fired with an excessive zeal to revive the religion they embraced. The Brahmins worked on the

zeal of the new race of Kshatryas, and the Chohan and the Rathore vindicated their claims to be regarded as Kshatryas by establishing the supremacy of the Brahmins.

अर्थ—सभी नये चेलों की तरह वे ( राजपूत ) स्वशहीत धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए मारे जोश के प्रज्वलित हो गए थे। ब्राह्मणों ने इन नए ज्ञात्रियों के जोश पर काम किया और चौहानों तथा राठौरों ने अपने ज्ञात्रिय समझे जाने के दावे को ब्राह्मणों की प्रधानता स्थापितकर सज्जा सिद्ध कर दिया ।

और भी सुनिये । हिन्दू अस प्रकार अपना दोष दूसरों के मत्ये मढ़ देने का प्रयत्न करते हैं उसी प्रकार वे दूसरों की कीर्ति को छीन-कर उससे स्वयं कीर्त्तमान बन जाना भी चाहते दूसरे की है । जैसे भारत की गुलामी का मूल कारण वे कान्ति छीनना अपनी ही गलती का होना न स्वीकारकर बौद्धों की गलती बताते हैं जिसका संडन मैं अभी पूर्व में कर आया हूँ । यह तो हुआ उनकी पहले प्रकार की मनोवृत्ति का उदाहरण । अब उनके दूसरे प्रकार की मनोवृत्ति के उदाहरण लोजिए—

किसी ने पेरू ( दक्षिण अमेरिका ) में सूर्योदेव के मन्दिर का अग्नावशेष अभी तक पाए जाने का एक संदिग्ध लेख 'हार्पस' में पढ़कर उक्त महादेश के पता लगाने का श्रेय इसके उदाहरण कोलम्बस से छीनकर उसे प्राचीन हिन्दुओं तथा बौद्धों को देना चाहा तो, किसी ने कोपरनिकस (Copernicus), गैलीलियो (Galileo), न्यूटन (Newton)

आदि यूरोपीय ज्योतिर्विदों के द्वारा आविष्कृत तथा प्रचारित सूर्य केन्द्रक ज्यौतिप (Helio-centric Astronomy) वेद मंत्रों से सिद्ध करने का बीड़ा उठाया, तथा अन्यों ने पौराणिक कथानुसार सूर्यदेव के रथ में जुते हुए धोड़ों की संख्या के बल पर सूर्य की रोशनी में सात प्रकार के रंगों का पता पहले-पहल हिन्दुओं के ही द्वारा लगाए जाने की ढाँग हाँकी। एक हिन्दी दैनिक में मैंने यह मीलिखा पाया कि परमाणु बम्ब (Atom Bomb) का उल्लेख वेदों में भी आया है। खोज करने पर कितने और भी उदाहरण मिलेंगे जहाँ हिन्दुओं ने दूसरों की कीर्ति हड्डप जाने का कृत्स्तत प्रयत्न किया है।

क्या मैं इस प्रकार अनर्गत प्रलाप करने वाले लाल बुमकड़ों से पूछ सकता हूँ कि पाश्चात्य विद्वानों ने जब तक उक्त वैज्ञानिक अनुसन्धानों को नहीं किया था तब तक आप लोग किस खरटी की नीद सो रहे थे कि आप लोगों के कानों पर उक्त आविष्कारों के सम्बन्ध में कूँतक नहीं रेंगी; पर ज्योही विदेशियों ने उक्त तथ्यों का पता लगाया त्यों ही आप लोगों की आखें खुली और आप लोग कट लोट-पोटकर उठे और कन्धे की धूलि फाइकर लगे विदेशियों के साथ उनकी कीर्ति छीनने के लिए छीना-फूटी करने। पर हम केवल बातें बनाकर दूसरों की कीर्ति नहीं छीन सकते। यदि हमें कार्ति कमानी है तो उसे अपने ही बूते कमानी होगी।

एक पुस्तक के मुद्राग्रंथ लेखक ने लिखा है कि प्राचीन हिन्दुओं का चरित्र बहुत ऊँचा होता था इसके सबूत में उन्होंने लिखित मुनि

का वृत्तान्त लिखा है, जिन्होंने अपने बड़े भाई संख मिथ्या आत्म-मुनि के बाग में से उनकी आशा के बिना फल तोड़कर शाघा का खंडन खा लेने के अपराध में स्वयं राजा के पास जाकर दण्ड-स्वरूप अपना हाथ कटवा लिया था। पर

विचारे लेखक जी लिखित का वृत्तान्त लिखते समय द्रोशणाचार्य की उस नीचता को भूल गए जिससे प्रेरित होकर उन्होंने एकलव्य का श्रङ्गृथा कटवा लिया था।

उक्त लेखक महाशय ने और भी कितनी ही ऊट-पटाँग बातें लिख मारी है। उन्होंने लिखा है कि ईसा अपने माँ-बाप से रुठकर घर से भागा और भारत में आकर बौद्ध धर्म को अहण कर लिया। पुनः वह अपने देश में वापस जाकर एक नए धर्म का प्रचार करने लगा जिससे उसकी फाँसी हो गई। पर यदि इसी एक नए धर्म का प्रचार करने लगा तो यह कहना सर्वथा फजूल है कि इसाई धर्म बौद्ध वा किसी अन्य भारतीय धर्म को सामग्रियों से तैयार हुआ है। ‘नए धर्म को ये शब्द ही लेखक महोदय की मिथ्या धारणा का खंडन कर देते हैं। यों तो दुनिया के सभी धर्मों में धर्म के मौलिक तत्त्व, जैसे सत्य बोलना, गुरुजनों की सेवा करना, परोपकार करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, परखी को माँ-बहन समझना आदि, एक से रहते हैं। पर इस समता के कारण उनमें से कोई भी किसी का अरुणी नहीं कहा जा सकता। मेद पड़ता है उनकी मौलिक कल्पनाओं में। जैसे बौद्ध धर्म अनीश्वरस्वादी है; पर इसाई धर्म में God the Supreme Soul (परमात्मा), God the Father (पिता ईश्वर) और God the son (पुत्र ईश्वर) वे तीन ईश्वर माने जाते हैं। अतः इसाई धर्म का निकास बौद्धधर्म से हुआ मानना केवल सत्य को गला घोटना है। इसी प्रकार जैन धर्म भी निरीश्वरवादी है और कीट-पतंग जैसे कुद्र जीवों के भी वध से विरत होने का उपदेश देता है। अतः वह इसाई धर्म का जन्मदाता नहीं माना जा सकता। दोनों में कुछ भी संबन्ध नहीं है। और हिन्दू (ब्राह्मणी धर्म तो और भी निराला है; क्योंकि वह वर्ण-व्यवस्था, जाति-मेद,

छुआ-छूत आदि अनेक विलक्षण ग्रथाओं का समर्थक है। वह और इसाई धर्म ठीक एक-दूसरे से दोनों भ्रुओं की तरह प्रतिकूल है। अतः उक्त विविध धर्मों में इन पारस्परिक भिन्नताओं को देखकर भी इसाई धर्म को किसी भी भारतीय धर्म की सामग्रियों से तैयार हुआ कहना मानो सत्य के पीछे लट्ट लेकर दौड़ना है।

उक्त लेखक महाशय ने, जब उन्हें अपने यहाँ कोई भी प्रमाण नहीं मिला तो ब्राउन, काउन्ट जेनी, डेलमार, मैक्समूलर, मानियर

विलियम्स, वेवर, कोलबुक, एल्बेर्नी, थारो आदि विदेशियों की विदेशी विद्वानों की दुहाई देते हुए हिन्दुओं को समस्त सम्मतियों संसार को धर्म, साहित्य, सभ्यता, चित्रकारी, का खंडन संग-तराशी, स्थापत्य, आदि विविध कला-कौशल युद्धविद्या, वैद्यक, ज्यौतिस, दर्शन, गणित आदि

विविध विद्याएँ सिखाने वाले आदि गुरु होने का ढंका पीटा है। भला इस श्वेत झूठ का कहीं ठिकाना है। यदि 'हिन्दू' शब्द से आप का तात्पर्य 'बौद्ध' हो तो यह कुछ अर्थ में ठीक हो सकता है जैसा कि आगे चलकर देखाया जाएगा। पर यदि 'हिन्दू' शब्द से आप का अभिप्राय 'ब्राह्मणी धर्म' के अनुयायी है तो आप का उक्त कथन सरासर जालत है। जिन हिन्दुओं की जाति समुद्रयात्रार्थ जहाज पर पैर रखते ही काफ़्र हो जाती थी; जिन हिन्दुओं ने शूद्र और अच्छूत संज्ञाधारी अपने करोड़ों देश-भाष्यों को अग्नान के महाअन्धकूप में स्मरणीत काल से सड़ाते हुए उन पर मनमाना अत्याचार करते आए, उन हिन्दुओं ने विदेशियों को, जिन्हें म्लेच्छ, बवर आदि बृहित नामों से पुकारते थे तथा जिनकी परछाई से भी छुला जाना वे पाप समझते थे, कभी भी कुछ सिखलाया होगा, यह बात मानने योग्य नहीं है। जान पड़ता है कि लेखक महराज

गोरों की सम्मतियों पर दिलोजान से क़िदा हो गए  
 मिस मेयो हैं। यदि ऐसी बात है तो वे एक गोरी (Miss  
 Mayo) की सम्मतियाँ (Mother India  
 और Slaves of the Gods) भी पढ़कर अपना जीवन क्यों  
 नहीं सफल कर लेते !!!

---

अथ सप्तम परिच्छेद

## विविध विषय ; उपसंहार

“रसी जल गई; पर ऐंठन न गई”, यह एक प्रसिद्ध हिन्दी कहावत है। ठीक यही हाल हम हिन्दुओं तथा हमारे परमपूज्य गुरु-ब्राह्मणों की है। हिन्दुओं की कोई दुर्गति व.की नहीं रही; तिस पर भी उनका अपना प्राचीन सम्यता तथा लंस्कृति का दींग हाँकना बन्द नहीं होता। हिन्दुओं की यह ढींग हाँकना कहाँ तक यथार्थ है, इस पर इस परिच्छेद में विचार किया जाएगा।

हम हिन्दुओं का दावा है कि उनकी सम्यता संसार की अन्य सभी जातियों की सम्यता की अपेक्षा प्राचीनतम् है। हम हिन्दुओं ने ही अपनी सम्यता के आलोक से अन्य देशों को हिन्दू जाति पहले-पहल आलोकित किया था। जिस समय का जगद् भू-मंडल की आधुनिक सम्यताभिमानी जातियों के गुरुत्व खंडन नम-प्राय पूर्वज अपना जीवन पशुवत् व्यतीत करते और गिरि-गङ्गरो तथा जंगलों में निवासकर वन्य पशुओं के कच्चे मांस से अपनी जुधा शान्त किया करते थे; जिस समय वर्तमान सम्यमन्य यूरोप के आदर्श भूत रोमन ( Roman ) और यूनानी ( Greek ) सम्यता का अभी अंकुर तक न उगने पाया था, उस समय हम हिन्दुओं ने विज्ञान और कला के विविध विभागों में अपनी सूक्ष्मदर्शिता दिखला दी थी। अथवा योड़े शब्दों में यो कहिए कि हमीं जगत् के आदि गुरु हैं। मनु-स्मृति कहती है—

एतदेशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः ।

स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेन् पृथिव्यो सर्वमानवः ॥

मनु० २२०॥

अर्थ—कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पाञ्चाल और शूरसेन, ये सब मिलकर ब्रह्मार्पि देश कहलाते हैं। इस ब्रह्मार्पि देश में उत्तम हुए ब्राह्मणों से पृथ्वी के सभी मनुष्य अपन-अपना आचार-व्यवहार सीखते।

इस श्लोक में “पृथिव्यो सर्वमानवाः” (पृथ्वी के सभी मनुष्यों) का उल्लेख होने से ब्राह्मणादि वर्ण-चतुष्टय के अतिरिक्त संसार की म्लेच्छ, वर्वर आदि जातियाँ भी उक्त ब्राह्मणों से अपना-अपना आचार-व्यवहार सीखने की अधिकारिणी बन गईं। पर क्या सच मुच हमारे ब्राह्मण देवता कभी भी वर्वरों और म्लेच्छों को, यदि वे उनसे सीखने आते तो कुछ सिखलाते ? या कभी भी ये जातियाँ ब्राह्मणों से कुछ सीखने आइं और ब्राह्मणों ने उन्हें कुछ सिखलाया ? इन सभी प्रश्नों का उत्तर मिलता है—“नहीं”; क्योंकि जिस मनुसृति ने ब्राह्मणों को जगदगुरु के पद पर नियुक्त किया था, जब उसीने ‘न शूद्राय मतिंदद्यात्’ (मनु ४।८०), ‘योहस्य धर्मं माचष्टे’ (मनु ४।८१) आदि आदिनें स जारीकर, जैसा कि पहले कहा गया है, उन्हें अपने ही देश-भाइ शूद्रों को धर्मादि का उपदेश देने से मना कर दिया, तो यह कब मानने की बात है कि वे अभारतीय आदि विदेशियों को, जिन्हें वे महाअपवित्र मानते तथा म्लेच्छ, वर्वर आदि पृथिव्यात संज्ञाओं से याद किया करते थे, कभी कुछ सिखाते या कभी कुछ सिखाया ? जहाँ के भारतमाता की ही सन्तान शूद्रों की यह दशा है, वहाँ विदेशी म्लेच्छों को पूछता ही कौन है ? क्या मनु का ब्राह्मणों को जगदगुरु के पद पर स्थापित करना उनके महत्व की मिथ्या प्रशंसा करना नहीं है ? क्या पृथ्वीमात्र के मनुष्यों के प्रति मनु की उक्त उदारता केवल बनावटी नहीं है ? यथार्थ बात तो यह है कि न

ब्राह्मणों ने विदेशियों को कुछ सिखलाया और न विदेशियों ने यहाँ के ब्राह्मणों से कुछ सीखा और ये दोनों बातें विदेशियों के पक्ष में अच्छी ही हुईं। यदि अन्य देश वाले यहाँ के ब्राह्मणों के चेले हो जाते, तो वे भी आज हिन्दुओं की ही तरह जाति-मेद, लुआचूत, "तीन कज्जीजिए तेरह चूल्हे" आदि जैसी कुप्रथाओं के दलदल में फँस-कर सड़ते रहते। आखिर यह भी तो मालूम होना चाहिए कि ब्राह्मणों ने विदेशियों को सचमुच क्या सिखाया। हम हिन्दुओं और अन्य देश के निवासियों के बीच आचार-विचार-सम्बन्धी आकाश-पाताल का अन्तर प्रत्यक्ष देख पड़ता है। हम अपने मृतकों को जलाते हैं, तो वे गाइते हैं। हम शिखा-सूत्र धारण करते हैं, तो वे इनसे अलग रहते हैं। हम वेदों को अपने धर्मग्रन्थ मानते हैं, तो वे उनसे विमुख हैं। हम जाति-मेद, वर्ण-च्यवस्था तथा लुआचूत मानते हैं, तो वे इन्हें नहीं मानते। हम अपने गोत्र-मात्र में विवाह नहीं करते; पर वे स्वगोत्र में क्या, स्वपरिवार में ही विवाह कर लेते हैं। हिन्दू पुनर्जन्म मानते हैं, तो वे उससे इनकार करते हैं। हिन्दू के लिए गो-वध तथा गोमांस निषिद्ध हैं; पर उनके यहाँ दोनों जाएज़ हैं। हिन्दू विदेश-यात्रा करने से जातिच्युत तथा धर्मच्युत हो जाता है जिसके लिए उसको प्रायश्चित्त करना पड़ता है; पर अन्य देशवाले भूमंडल में तमाम धूम आने पर भी स्वधर्मच्युत अथवा स्वसमाज से वहिष्कृत नहीं होते। क्या ये भिन्नताएँ इस बात के पक्षके प्रमाण नहीं हैं कि विदेशियों की सभ्यता और संस्कृति स्वतंत्र तथा मौलिक हैं। उनके लिए वे हिन्दुओं के ऋणी कदापि नहीं हैं। और ब्राह्मणों ने जो उन्हें कुछ सिखलाया नहीं सो उनके लिए अच्छा ही हुआ।

कितने हमारे हिन्दू भाई उक्त आत्मश्लाघा की बात को कुछ भुमा-फिराकर यों कहा करते हैं कि भले ही ब्राह्मण जाति का जगद्-गुरु होने का दावा निमूल हो; पर कम से कम यह तो मानना ही

वडेगा कि भारत के बौद्ध भिन्नुओं ने ही संसार के एक तिहाई भाग को धर्म और ज्ञान के आलोक से आलोकित किया है; अतः बुद्धदेव की पुण्य जन्म-भूमि भारत संसार के उक्त तिहाई भाग का गुरु अवश्य है। पर प्रश्न यह है कि बौद्ध धर्म यदि एक उत्तम धर्म था, तो भारत ने उसे बुरा समझकर उसका बहिष्कार क्यों किया ? और यदि वह सचमुच एक बुरा धर्म था, तो उसने दूसरों को उसमें क्यों फँसाया ? दोनों ही हालतों में भारत का आचरण नितान्त गर्हित है। पहली हालत में वह अच्छी वस्तुओं से घृणा करने वाला अतः दुष्ट और दूसरी हालत में दूसरों को गुमराह करने वाला, अतः वज्रक सिद्ध होता है। चाहे किसी भी दृष्टिकोण से विचार कीजिए, भारत का जगदगुरु होने का दावा करना केवल उसकी निर्लज्जता है। जिस वस्तु को अवांछनीय समझकर उसने स्वयं ठुकरा दिया, उस वस्तु का दूसरों में प्रचार करने के कारण उसको ब्रेय के बदले ज्ञानत मिलनी चाहिए !! बौद्ध भिन्नुओं को कीर्ति पर, जो यद्यपि हमारे ही भाई थे, पर जिन्हें हम सदा धर्म-दोषी मानते रहे, अभिमान करने का हमारा कुछ भी अधिकार नहीं।

अब हिन्दुओं के इस दावे पर विचार कीजिए कि उनकी सम्यता संसार में प्राचीनतम है। मिथ के स्फिंक्स और पिरेमिड, बाबुल के लटकते हुए बाजा, चीन की विशाल दीवार, रोड्स टापू के बन्दरगाह पर बनी हुई सूर्यदेव (Apollo) विशाल धातुमयी मूर्ति आदि जो प्राचीन जगत् के सप्ताश्चयों (Seven wonders of the world) में से हैं कम से कम ३००० से लेकर

हिन्दू सम्यता ६००० वर्षों तक के बने हुए हैं, जिनके द्वारा उनसे की प्राचीनतमता सम्बन्धित जातियों की सम्यता की प्राचीनता भली खंडन भाँति सिद्ध होती है। क्या हिन्दू भी अपनी तथा-कथित प्राचीनतम सम्यता के स्मारक स्वरूप कोई

ऐसी ही आश्चर्यजनक प्राचीन वस्तु वा कम से कम उसका खंसाव-शेष अपने यहाँ दिखा सकते हैं ? हाँ, हिन्दुओं के यहाँ एक ऐसी अनोखी वस्तु है जो अपनी अद्वितीयता के कारण संसार के नवीन किम्बा प्राचीन सभी आश्चर्यों पर पानी फेर देती है। वह है उनके पतन की आदि जननी तथा उनके पुनरुत्थान की प्रबल शत्रु जाति-प्रथा।

कितने नासमझ हिन्दू अपने यहाँ की शिल्प-कला तथा विज्ञान की भी, आत्मक्षाधा की प्रबल-प्रेरणा के वशीभूत होकर, सर्वध्रेष्ठ, स्वतंत्र तथा प्राचीनतम मानते हैं। उनका कथन है कि यूरोपवासियों ने जिन वायुयानों का आविष्कारकर आज समस्त जगत् को चमत्कृत कर दिया है वे हमारे पूर्वजों को कई सहजाबिद्याँ पहले ही मालूम थे और उनके द्वारा वे भली भाँति वियद-व्यावा तथा आकाश-युद्ध किया करते थे। हमारे इन भोले-भाले भाइयों को अभी तक यह भी मालूम नहीं है कि उनके पूर्वज कौन थे तथा कवियों की विलक्षण एवं भ्रमोत्पादिनी कल्पना और वास्तविकता में क्या अन्तर है। कविगण अपनी प्रबल कल्पना-शक्ति के बल पर धुएँ का धौरहर खड़ा कर सकते हैं; पानी में भी आग लगा सकते हैं, तिल का ताङ तथा ताङ का तिल एक दृश्य में बना सकते हैं; वे क्या-क्या नहीं कर सकते ! इसी कारण कहा गया है—‘कविरन्यः प्रजापतिः’ अर्थात् कवि दूसरा प्रजापति (जगत्-खष्टा) है। यह मैं भी मानता हूँ कि भागवत आदि पुराणों में वर्णित देवासुर-संग्राम के अवसर पर उभय पक्ष ने युद्धार्थ विमानों का उपयोग किया था। पर युद्ध-वर्णन में विमानों को भी ला छुसेड़ना केवल कवि-कल्पना है, जिसका आश्रय कवि ने कथा में रोचकता लाने के ही लिए लिया है। यदि उक्त संग्राम में विमानों को उपयोग होना एक वास्तविक घटना है, तो इसका अभ्य इमारे पूर्वजों को नहीं; बल्कि देवताओं तथा असुरों को था, जो हमारे पूर्वजों से भिन्न जातियाँ थे। यो तो रामचन्द्र भी लंका से पुष्टक विमान पर आपने

दल-बल के साथ सवार होकर अयोध्या लौटे थे। पर वह विमान कुवेर का था, जो यज्ञ (देवयोनि) जाति के थे और जिनसे लंकेश्वर रावण ने उक्त विमान को जबर्दस्ती छीन लिया था। अतः जब तक अखंडनीय प्रमाणों के द्वारा यह न सिद्ध हो जाए कि प्राचीन भारतीय आर्य, जो हिन्दू सभ्यता तथा हिन्दू संस्कृति के जन्मदाता थे, वायुयान बनाने तथा उसका उपयोग करना जानते थे, तब तक हिन्दुओं का वायुयान विषयक दावा निराधार जानना चाहिए। ऋग्वेद के भा३॥१, १४७॥२, १११॥२, १११॥४, १२०॥३ आदि कतिपय स्थानों पर ऐसे रथों का वर्णन पाया जाता है जिनकी गति चुलोक, पृथ्वी और अन्तरिक्ष, इन तीनों लोकों में अप्रतिहत थी। पर इसके साथ यह भी याद रखना चाहिए कि ऐसे रथों के बनाने वाले रैमव, अस्त्रिन आदि देवगण थे, जो हिन्दुओं के पूर्वजों से भिन्न जाति के थे। पुराण आदि प्राचीन ग्रन्थों में विविध अखंडों का भी वर्णन मिलता है जिनका प्रयोग रण-भूमि में शत्रुओं पर किया जाता था। शत्रुसेना पर धुअ्राधिर अग्नि-वर्षा करने वाले आग्नेयाख्य, जल-वर्षा करने वाले वारुणाख्य, कंका पैदा करने वाले वायव्याख्य आदि विविध अखंडों का उल्लेख उदाहरण स्वरूप उक्त ग्रन्थों में मिलता है। पर सूक्ष्म अध्ययन से पता चलता है कि इनके निर्माण और प्रयोग करने वाले तथा प्रयोग की शिक्षा देने वाले भारतीय आर्यों से कोई भिन्न लोग थे। अर्जुन को पाशुपताख्य की शिक्षा देने वाले महादेव थे। इसी प्रकार राजकुमार अर्जुन को सम्मोहनाख्य बताने वाला प्रियम्बद नामक एक गन्धर्व था। जिस धनुष, बाण, अक्षय तुण्डीर और तलवार को महर्षि अगस्त्य ने रामचन्द्र को दिया था, वे सब के सब देवनिर्मित थे और उक्त महर्षि को इन्द्र से मिले थे। जिस बला और अर्तिबला नामक विद्या-द्रव्य का उपदेश महर्षि विश्वामित्र ने रामचन्द्र को दिया था उसे उन्होंने ब्रह्मा जी से प्राप्त किया था और इसके अतिरिक्त उक्त

महर्षि ने जिन विविध प्रकार के विष्णु-चक्र, ऐन्द्र-चक्र, शैव शूलवत, ब्रह्मशिरोऽख, ब्रह्मास्त्र, धर्म-पाश, काल-पाश, वरुण-पाश, पैनाकाख, नारायणाख, आग्नेयाख, वायव्याख आदि अखों की शिक्षा उन्हें दी थी, वे सब के सब देवनिर्मित थे जैसा कि इनके नामों से ही स्पष्ट है। और तो और; राजा युधिष्ठिर के सभा-भवन का बनाने वाला मय नामक एक दानव था जिसके रचना-कौशल ने दुर्योधन को बारबार धोखे में डाला था। सारांश यह कि उस सदूर भूतकाल में विज्ञान का इतना उन्नत होना यदि संभव माना जाय, तो इस उन्नति को करने वाले विदेशी लोग ये जिन्हें भारतीय आर्य देव, दानव, असुर आदि विविध नामों से पुकारते थे और जिनके ब्रंशधर आज भी विज्ञान में हमसे बहुत आगे हैं। हम दूसरे के धन से धनवान् तथा दूसरे के पुत्र से पुत्रवान् नहीं कहला सकते। हमारे कितने भाईं हरण्या और मोहेनजोदारों की खुदाई की दुहाई देकर हिन्दू सभ्यता को ईसा से ३००० वर्ष पूर्व की बतलाते हुये उसे संसार की प्राचीनतम सभ्यता मानते हैं। पर इसका कौन-सा प्रमाण है कि हरण्या और मोहेनजोदारों के निवासी वर्तमान हिन्दुओं के पूर्वज वैदिक आर्य थे। संभव हो सकता है कि वे कोई अनार्य तथा द्रविड़ जाति के होंगे। आगरा के विश्व-निरुद्यात ताजमहल का बनाने वाला बादशाह शाहजहाँ मुसल्मान था; अतः इसका गर्व किसी हिन्दू को नहीं हो सकता; क्योंकि वह हिन्दुओं का पूर्वज नहीं था। इसके अर्तिरक्त उक्त स्थानों की खुदाई में मिश्र के पिरेमिड और स्लिफ्स् जैसी कोई भा अलौकिक बस्तु नहीं मिली। और प्राचीनता के विषय में भी हरण्या और मोहेनजोदारों की सभ्यता मिश्र की सभ्यता की बराबरी नहीं कर सकती; क्योंकि वही के कोई-कोई पिरेमिड ईसा से ५००० वर्ष पूर्व के बने हैं।

हरण्या और मोहेनजोदारों की सभ्यता के विषय में एक और

बात भी विचारने योग्य है। वहाँ की खुदाई से जो सम्यता के कतिपय चिन्ह मिले हैं उनमें बहुत से शिवलिंग भी हैं। कितने ही शिवलिंग तो वैसे ही हैं जैसे कि आज-कल भारत के बहुत से मनिरों में पाए जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि शिव की पूजा जिस प्रकार आज-कल होती है उसी प्रकार उस सुदूर पूर्व काल में भी उक्त दोनों स्थानों में होती थी। अब यहाँ पर यह प्रश्न उठता है शिव के ये पूजा करने वाले कौन थे। वेदों के अध्ययन से पता चलता है कि वैदिक काल में शिव का महत्व कुछ भी नहीं था। और न शिवलिंग की पूजा प्रचलित थी। उस काल में सर्वश्रेष्ठ देवता इन्द्र, वरुण, अग्नि आदि ही माने जाते थे। त्रिदेवों का महत्व, जिनमें एक शिव भी है, उस समय चमका जब पुराण-काल आया। यह हम लोगों को भली भाँति मालूम है कि त्रिदेव-प्रधान पौराणिक धर्म की सूष्टि, जिसे हम नवीन हिन्दू धर्म भी कहते हैं, यौद्ध धर्म के अनुकरण में हुई और हिन्दू पौराणिकों ने स्वयं गौतम बुद्ध को विष्णु का दशम अवतार मान लिया। इस नूतन धर्म की उत्पत्ति गुप्तवंशीय समाटों के शासन-काल में, चौथी और पाँचवीं शताब्दियों के बीच में हुई मानी जाती है। अतः हरप्पा और मोहेनजोदारों के निवासी यदि भारतीय आर्यों की सन्तान हिन्दू थे, तो उनको हुए आज से १५०० वर्षों से अधिक नहीं हुआ।

यह हुआ उक्त प्रश्न का एक उत्तर। इसका दूसरा उत्तर भी हो सकता है। शिव असुरों के एकमात्र आराध्य देवता थे। असुरों को विष्णु से भारी घुणा थी जैसा कि पुराणों से पता चलता है। रावण, वाणि, वृक आदि असुरराण शिव को ही अपनी उम्र तपस्या के अभाव से प्रसन्नकर मनोवाञ्छित वर पा सके थे। अतः हरप्पा और मोहेनजोदारों की खुदाई में पाए गए शिवलिंगों के आधार पर यह भी अनुमान किया जा सकता है कि उक्त नगरों के निवासी किसी

असुर वा अनार्य जाति के वे जो शिव की पूजा किया करते थे तथा जिनकी सम्मता से, चाहे वह प्राचीन से भी प्राचीन क्यों न हो, हिन्दुओं का कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। इसीलिए तो किन्हीं-किन्हीं विद्वानों की सम्मति है। कि उक्त नगरों की सम्मता सुमेरियन् वा नहीं तो द्राविड़ लोगों की थी। उक्त दोनों उत्तरों में से कोई भी उत्तर हिन्दू सम्मता की प्राचीनतमता सिद्ध करने के लिए बेकार है; क्योंकि यदि वह हिन्दू सम्मता थी तो वह १५०० वर्षों से अधिक की नहीं हो सकती; और यदि वह असुर सम्मता थी तो इसका गर्व हिन्दुओं को नहीं हो सकता।

मैं पहले लिख आया हूँ कि हिन्दुओं का यह दावा कि उन्होंने ही अन्य देश वालों को सम्मता सिखलाई सरासर गलत और भूठ है। इस भूठ का प्रबल तथा अकाल्य प्रमाण भारत के वे कई लाख आदिम निवासी हैं जिनके लिए हिन्दुओं ने कुछ भी नहीं किया और जो आज तक भी जंगलों और पर्वत-गहरों में रहकर अपना जीवन पशुवत् विता रहे हैं। ये आदिम निवासी वैदिक युग के धृणित अनायों के अवशिष्टांश हैं, जिन्हें वैदिक आर्य दस्तु कहा करते थे। हिन्दुओं के लिए यह कैसी शर्म की बात है कि ये आदिम निवासी एक ऐसे देश में जो सहस्रों वर्षों की प्राचीन सम्मता तथा संस्कृति की ढाँग हैकता है, अपनों पहली असम्भव दशा में ही अभी तक पड़े हैं। न केवल इतना ही कि वे असम्भव हैं; बरन् उनमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी अवैव जीविका के कारण जरायम-पेशा भी कहलाने लगे हैं। शोक है कि इतने मनुष्य, जो भारत-माता की ही सन्तान हैं, सम्य संसार के बीच रहते हुए अभी तक भी जंगली अवस्था में हैं और परम्परागत अपराधियों का जीवन विता रहे हैं और हम हिन्दुओं ने कभी इसके लिए लड़ा का अनुभव नहीं किया! यदि सचमुच हम विश्व भर में ज्ञान तथा सम्यता वितरण करने के ठेकेदार थे तो

इन बेचारे आपने सहोदर निर्विशेष भारतीय भाइयों को सभ्य बनाने तथा किसी अधिक प्रतिष्ठित रीति से जीविकोपार्जन करना सिखाने का प्रयत्न हमने क्यों नहीं किया ? हम इस बात को स्वीकार करें अथवा न करें; पर यह निश्चय जानिए कि हमारे जैसे भूठे, घमड़ी तथा आपने मुँह मिछू बनने वाले जीव संसार में आपको कहीं न मिलेंगे ।

हिन्दू जाति का तथाकथित सभ्यता पर लिखते समय उस सभ्यता के कलंक हरिजन-समुदाय की उपेक्षा भारी भूल होगी; अतः

उनके विषय में भी अपना विचार प्रकट कर देना

हरिजन समुदाय अपना कर्तव्य समझता हूँ । 'हरिजन' शब्द से शूद्र

और समुदाय के अन्तर्गत वे जातियाँ अभिप्रेत हैं जिन्हें

हिन्दू धर्म अस्वृश्य वा अछूत कहते हैं; जिनके हाथ का अच्छ-जल हम उच्च जात्यमिमानी हिन्दू ग्रहण नहीं

करते तथा जिनका स्पर्श-मात्र भी हम पाप समझते हैं । अछूतों की यह 'हरिजन' संज्ञा नवीन है जिसे हमारे हिन्दू समाज के नेताओं ने दी है और जिसका अर्थ होता है 'भगवान् का भक्त' । हिन्दुओं के 'भगवान्' हैं राम और कृष्ण; पर इन तथा-कथित 'भगवानों' की मर्क्ति करते करते तथा उनके नाम की सुमिरिनी जपते-जपते हमारे हरिजन भाइयों की कई सहस्राब्दियाँ बीत गईं; किन्तु दोनों में से किन्हीं भी 'भगवान्' ने अपने हरिजन भक्तों के प्रति अपनी कुछ भी दया न दिखलाई जिससे इनकी हीन दशा में थोड़ा सा भी अन्तर देख पड़े ।

वल्कि उल्टे रामचन्द्र ने तो शम्बूक का वधकर शूद्रों के प्रति अपनी असली मनोवृत्ति का नंगा परिचय दिया । तिस पर भी इन अभागे हरिजनों की आँखें न खुलीं । और ये राम-कृष्ण के अनन्य भक्त होकर भी नानाविध सामाजिक अत्याचारों के दुर्वद बोक के नीचे दबे रहकर निरन्तर कराहने तथा अपने पूर्व जन्मों के कर्म को कोस-कोस-

कर अपने भाग्य पर सब्र करते रहे। पर इसमें कम्पर किसका है? कम्पर है इन विवेक-हीन हरिजनों का ही; क्योंकि क्या उन्हें अभी तक यह बात मालूम न थी कि राम और कृष्ण ये दोनों ही 'भगवान्' उसी वर्णांश्रम-प्रथा कलंकित ब्राह्मणी धर्म की रक्षा के लिए अवतीर्ण हुए थे जिसने उन्हें 'स्वधर्मे मरणं श्रेयः परधर्मो भयावहः' आदि जैसी कलिपय उल्टी-सीधी बातें सिखाकर रसातल में ढकेल दिया है; जिसने उनके शरीर पर से वस्त्र, उनके आगे से अच तथा उनके घर-द्वार आदि सब कुछ छोनकर उन्हें दर-दर का भिखारी और दूसरों के जूठन से पेट पालने वाला बना रखा है? यदि उन्हें यह नहीं मालूम था तो अब मालूम करें और होश सँभालें। यह वे निश्चय जान लें कि जब तक वे ऐसे धर्म और ऐसे धर्म की रक्षा करने वाले उक्त 'भगवानों' से अमना पिंड नहीं छुड़ाते हैं, तब तक उनका कल्याण होने का नहीं। केवल हरिजन ही नहीं; चलिक अन्य शूद्र जातियों एवं वैश्यों को भी जान लेना चाहिए कि विष्णु के जितने तथा-कथित अवतार हुए हैं वे सब के सब, केवल गौतम बुद्ध को छोड़कर, उसी ब्राह्मणी धर्म की रक्षा के लिए हैं जिसने ब्राह्मणों और ज्ञात्रियों के अतिरिक्त शेष सभी जातियों को गुलाम बना रखा है। सच पूछिए तो इन अवतारों से वैश्यों और शूद्रों को कुछ भी लाभ नहीं हुआ; क्योंकि शासन की चक्की इनको सदा एक-सी पीसती रही। पर आश्चर्य तो इस बात पर है इन अवतारों के मन्दिर बनवाने तथा उनके राग-भोग के प्रबन्ध करने में वैश्य जाति अपने रूपयों को पानी की तरह बहाया करती है तथा इन अवतारों की रथयात्रा में रथ को खींचने वाले प्रायः शूद्र ही होते हैं जो अपने 'भगवान्' का रथ खींचकर, जिस पर सीताराम वा राधाकृष्ण की मूर्तियों के बगल में तोंद फुलाए हुए पंडे-पुजारी मौज से बैठकर गुलबरे उड़ाया करते हैं, अपना जीवन धन्य मानते हैं। काल्पित

स्वर्ग तथा मोक्ष का प्रलोभन देकर पुजारी-न्यर्ग ने इन शूद्रों को किस प्रकार ठग लिया है, यह देखकर इन विचारों के अधःपतन पर तरस आता है। थोड़े दिन हुए 'भगवान्' के मन्दिरों में अलूतों के प्रवेश के लिए जो धोर आन्दोलन छिड़ा था वह पूर्णतः बेकार था; कारण कि जो 'भगवान्' ऐसे धर्म के संरक्षक तथा समर्थक हैं जो भाई-भाई में फूट का बीज बोकर एक-दूसरे को घुणा की हथिं से देखने का उपदेश देता है, उस 'भगवान्' से अलूतों का अलग रहना ही अच्छा है। कृष्ण ने वैश्यों और शूद्रों को 'पापयोनि' कहा और राम ने शंखक का गला काटा, केवल इसीसे इन भगवानों की। मनोवृत्ति वैश्यों और शूद्रों के प्रति जान लेनी चाहिए। अतः अब इन जातियों का कल्याण तो इसी में देख पढ़ता है कि वे उक्त 'भगवानों' से अपना पीछा जहाँ तक शीघ्र हो लुड़ा लें और किसी ऐसे भगवान् की शरण लें जो उन्हें विश्व-वन्धुता, समता और स्वतन्त्रता का दिव्य सन्देश सुनावे। भारत में यदि कोई ऐसा पवित्र सन्देश सुनाने वाला अवतीर्ण हुआ है तो वह गौतम बुद्ध के अतिरिक्त और कोई नहीं।

हिन्दुओं ने भारत के आसम्य आदिम जातियों को सम्बन्ध बनाने के कार्य के प्रति जो अपनी उदासीनता दिखाई है उसका उल्लेख मैं कर आया हूँ। वैसी ही उदासीनता उन्होंने हरिजनों का हरिजनों की दशा सुधारने के प्रति दिखलाई है। अदूर धर्मान्तर ग्रहण दर्शिता के कारण उन्होंने इस बात को कभी नहीं महसूस किया कि ये आदिम निवासी एवं अलूत समाज हमारे लिए प्रसुप भय के लोत हैं। यदि हमारी स्वार्थपरायणता तथा ठग-विद्या के कारण ये मूर्ख ही बने रहें तो हो सकता है कि ये हमारी कोई हानि न करें। पर ठग-विद्या का दिवाला एक न एक दिन अवश्य निकल जाता है; धोखे की टट्टी हमेशा के लिए कारगर नहीं होती। अतः हमको पहले से ही चेत जाना चाहता था

कि यदि कहीं अहिन्दुओं ने उनको सुधारकर अपने धर्म में मिला लिया, तो वे हमारे शत्रुओं की सेना को बढ़ाने के कारण बन जाएंगे और तब हमको लेने के देने पड़ेंगे। ठीक यही हाल हुआ। हम अपने जिन हरिजन भाइयों की आईंसों में धूल भोक्कर अपना उल्लू सीधा करते चले आ रहे थे, आखिर उनको भी आईंसें खुली और उनके दिन पलटे। मुसलमान और इसाई जैसे अहिन्दुओं ने इस देश में आकर हरिजनों और आदिम जातियों के संमुख राम-कृष्ण की भक्ति की प्रत्यक्ष व्यर्थता दिखलाई और हमारी ठग-विद्या की पोल खालकर उन्हें, कलमा और वापतिस्मा को ढोरियों के द्वारा अशान तथा अधोगति के अर्थाह अन्ध-कूप से निकाल बाहर किया। इसका कल यह हुआ कि आज ये लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की संख्या में हमारे दायाद तथा प्रतिद्वन्द्वी बनकर हमसे पग-पग पर लोहा लेने को तैयार हैं और हमारी दाल गलने नहीं देते। यही है हमारे पूज्य त्रिकालदर्शी ऋषियों की त्रिकालज्ञता, तथा हमारे धर्म-शास्त्रों की कल्याण-कारिणी सामाजिक व्यवस्था का सुपरिणाम, और सबसे बढ़कर यही है हमारे जगद्गुरुओं का जगद्गुरुत्व ! जिस करामात को अनेक सहस्राङ्कियों तक अनन्यभाव से की हुई राम-कृष्ण की भक्ति आज तक न दिखा सकी वही करामात कलमा और वपतिस्मा ने बात की बात में छूमंतर की तरह करके दिखला दिया। मैंगल चमार और नधून दुसाघ जब तक राम-कृष्ण के भक्त बने रहे तब तक ये बेचारे भूक पशुओं की तरह हमारे फटकार निरन्तर सुनते रहे। पर ज्यों ही ये मौलवी अबदुलगनी और मिस्टर जौजेफ के आकार में परिणत हुए, त्यों ही ये हमारे सम्मान और प्रेम के भाजन बन गए। हमारा यह गर्व सदा रहा है और अब भी है कि जहाँ भूमंडल की मिस्त्री, रोमी, यूनानी, चाबुली आदि प्राचीन सभ्य जातियाँ रुदा के लिए इस प्रकार नेस्त-नावूद हो गईं कि अब उनके

बंश में उनका कोई नाम-लेवा तक नहीं है, वहाँ हमारी यह हिन्दू-जाति, हमारी यह हिन्दू-सम्बन्धता एवं हमारी यह हिन्दू-संस्कृति विदेशियों तथा विधर्मियों के असंख्य निष्ठुर प्रदारों को हजारों वर्ष से विफल करती हुई अब भी जीवित और जागृत है। पर हिन्दुओं के इस निर्लंज अभिमान का मुँहतोड़ उत्तर में पहले ही दे चुका हूँ और कह चुका हूँ कि जिस परितावस्था में हिन्दू जाति जी रही है, उसके लिए प्रत्येक विचारशील हिन्दू को लज्जा अनुभव करना चाहिए तथा प्रश्न यह न होना चाहिए कि हम ज़िन्दा हैं वा मर गए; बल्कि प्रश्न यह होना चाहिए कि हम किस अवस्था में ज़िन्दा हैं इत्यादि। अब वहाँ पर हिन्दू जाति के जीते रहने के कारण पर विचार किया जाता है। इस जाति के अब तक जीते रहने का यह कारण नहीं है कि हिन्दू धर्म किसी सुदृढ़ नीव पर अवस्थित है जैसा कि कितने लोगों को चिरबद्ध धारणा है; क्योंकि यह धर्म तो इतना निर्बल है कि वह पानी के बुलबुले की तरह हवा की एक हल्की झोक लगने पर; अथवा कच्चे धारे की तरह एक हल्के झटके से भी नष्ट-भ्रष्ट हो सकता है। जहाँ किसी हिन्दू ने किसी आहिन्दू का छुआ हुआ भोजन ग़ालती से भी कर लिया या अथवा उसका छुआ हुआ जल भी पी लिया कि वस, उसका धर्म काफ़्र हुआ। इसके अतिरिक्त इस धर्म में वह साहस नहीं कि वह स्वधर्मच्युत अपने चिल्होंहुए हिन्दू भक्तों तथा आहिन्दुओं को आत्मसात कर सके। आज भारत में जो कई करोड़ मुसलमान दृष्टि-गोचर हो रहे हैं, वे हमारे ही आत्मीय होते हुए भी इस धर्म की संकीर्णता तथा कमज़ोरी का नगाड़ा पीट रहे हैं। अतः हिन्दू जाति का अब तक जीते रहने का कारण हिन्दू धर्म का किसी सुदृढ़ नीव पर खड़ा रहना नहीं है; बल्कि इसका कारण इसकी विपुल जनसंख्या है। इस जाति की जन-संख्या इतनी बड़ी है कि इसे छोड़कर न मालूम कितने दूसरे-दूसरे धर्म में

जा मिले और अब भी जाकर मिल रहे हैं; पर तो भी यह मरी-पुरी दीखती है। मृत्यु तथा धर्मान्तर-ग्रहण इस जाति का बाल बाँका न कर सके; कारण कि उनके कारण जो स्थान रिक्त हुए उनकी आवश्यकता से भी अधिक पूर्ण जन्म ने कर दी। यही हाल विपुल-संख्यक चीनियों का भी समझना चाहिए, जो हिन्दुओं की तरह प्राचीन होते हुए तथा विविध राजनीतिक तथा धार्मिक संकटों को पार करते हुए अब तक इस संसार में मौजूद हैं। पर मिस्त्री, यूनानी आदि अन्य प्राचीन जातियाँ अति ही अल्प-संख्यक होने के कारण इस्लाम और इसाई धर्मों के प्रबल आक्रमणों के सामने अपनी मौलिक सूरत में ठहर न सकीं। फल यह हुआ कि उनके बंशधर आज तक विद्यमान तो हैं; पर उनकी रूप-रेखा बदल गई। यह समझना भारी भूल है कि हम हिन्दू अपनी संस्कृति तथा धर्म की दृढ़ता ही के कारण अब तक संसार में जीवित हैं तथा मिश्री आदि प्राचीन सभ्य जातियों के बंशधर अब संसार में हैं ही नहीं। इसके अतिरिक्त मनुष्य वा तिर्यक, किसी भी प्राणी के बंश का क्रायम रहना ही प्राकृतिक नियम है। उसका उच्छेद तो अपचाद है; अन्यथा कोल-भील आदि जंगलियों की सभ्यता (!) में कौन-सी खूबी है जिससे वे हिन्दुओं से भी अधिक प्राचीन काल से आज तक जीवित हैं? जितना अत्याचार विदेशियों ने हिन्दुओं पर किया है, उससे अधिक अत्याचार आयों ने इन आनायों पर किया है। पर फिर भी ये जीवित हैं। इस प्रसंग में इससे और अधिक क्या कहा जाए कि घटमलों का संहार हम लोग बराबर कर रहे हैं; किन्तु संसार सदैव उनसे भरा-पुरा है?

हिन्दू जाति की तथा-कथित सभ्यता पर विचार करते हुए मैं अपने पाठकों का ध्यान इस जाति में १६वीं शताब्दी के मध्य तक धर्म के नाम से प्रचलित उन विविध कूर तथा

हिन्दुओं में असम्य कुप्रथाओं की ओर आकृष्ट करना चाहता प्रचलित करिपय हूँ जो इस जाति के सम्य होने में ही सन्देह निष्ठुर प्रथाएँ उत्पन्न कर देती हैं, तथा जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने कानून द्वारा बन्दकर इस जाति का महोपकार किया है।

(१) रथ-यात्रा—जगन्नाथ धाम में रथ-यात्रा के समय कितने भक्तजन रथ के पहियों के नीचे मोक्ष-प्राप्ति की आशा में जान-बूझ कर दबकर मर जाते थे। मानव सम्मता को कलंकित करने वाला यह नृशंस कार्य हर तीसरे वर्ष होता था। ब्रिटिश सरकार ने इस प्रथा को कानून के द्वारा बन्द किया।

(२) काशी-करवट। काशी धाम में आदि विश्वेश्वर के मन्दिर के पास एक कुआँ है जिसमें मोक्ष-प्राप्ति की अभिलाषा से कदकर भक्तजन अपनी जान दे दिया करते थे। इस प्रथा को ब्रिटिश सरकार ने दूर किया।

(३) गंगा-प्रवाह। अधिक अवस्था बीत जाने पर भी यदि कोई सन्तान न हुई, तो कितने माता-पिता यह मनौती करते थे कि यदि इमें सन्तान हुई, तो हम अपने पहले बच्चे को गंगा-सागर को मेट चढ़ावेंगे। इस निष्ठुर मनौती को पूरी करने के लिए वे अपनी पहली सन्तान को गंगा-सागर में छोड़ देते थे। इस क्रूर प्रथा को ब्रिटिश सरकार ने १९० स० १८३५ में कानून के द्वारा बन्द कर दिया।

(४) चरक-पूजा। काली के मोक्षाभिलाषी उपासक के मेढ़-दंड में दो लोहे के हुक धौंसाकर उसे रस्सी के द्वारा चर्खी के एक छोर से लटका देते थे। और चर्खी के दूसरे छोर में बँधी हुई दूसरी रस्सी को पकड़कर उस चर्खी की त्वचा ज्ञार से तब तक नचाते थे जब तक उस उपासक के प्राण पखेड़ उड़ न जाएँ। इस प्रथा को ब्रिटिश सरकार ने १९० स० १८६३ में कानून के द्वारा बन्द किया।

(५) सर्वीदाह। विधवा लड़ी को उसके मृत पति के शव के साथ उसों की चिता में जला दिया जाता था। इस अमानुषिक प्रथा का अन्त ब्रिटिश सरकार ने ई० स० १८४१ में किया। यह प्रथा भारत में सर्वत्र प्रचलित थी।

(६) कन्यान्वध। उड़ीसा और राजपूताना में कुलीन चत्रिय कन्या के जन्म होने पर तत्काल ही उसकी नड़ी टीपकर उसे इस भय से मार डालते थे कि उसको जिनदा रखने पर उनको किसी न किसी का ससुर और साला बनना पड़ेगा। इस जघन्य प्रथा को ब्रिटिश सरकार ने ई० स० १८७० में कानून से बन्द किया।

(७) नर-मेघ। यह पैशाचिक प्रथा ऋग्वेदीय शुनःशोक सूक्त आधार मानकर, जिसका उल्लेख मैं चतुर्थ परिच्छेद में कर आया हूँ, उत्तर और दक्षिण भाग में प्रचलित थी। इसमें किसी अनाथ वा निर्धन मनुष्य को दीक्षित करके यज्ञ में उसकी बलि चढ़ाई जाती थी। इस निष्ठुर प्रथा को ब्रिटिश सरकार ने ई० स० १८५५ में एकट २१ बनाकर दूर किया।

(८) महाप्रस्थान। इसका आधार मनु-स्मृति द्वाढ़ै माना जाता था; पर वहाँ इसकी विधि दूसरी ही बतलाई गई है जैसा कि मैं चतुर्थ परिच्छेद में कह आया हूँ। यह एक प्रकार का आत्मघात है। इस ब्रत को करने वाले मोक्षलाभार्थ जल में डूबकर अरथवा आग में जलकर अपनी जान दे देते थे। मृच्छकटिक नाटक में लिखा है कि राजा शूद्रक ने भी महाप्रस्थान किया था। इस प्रथा को भी मिटाने वाली ब्रिटिश सरकार ही है।

(९) तुपानल। कोई कोई अपने किसी पार के प्रार्थीश्वर-स्वरूप अपने को भूसा या धास की आग में जलाकर भूम कर देते थे। कुमारिल मह ने बौद्धों से विद्या प्रहणकर फिर उन्होंके धर्म को

बंदन करने के पाप से मुक्त होने के लिए इस व्रत को किया था। सरकारी कानून ने ही इस राज्यसी प्रथा का अन्त किया।

(१०) हरिबोल। यह प्रथा बंगाल में प्रचलित थी; असाध्य किम्बा मरणासन्धि रोगी को गंगा में ले जाकर उसे गोते दे देकर स्नान करते तथा उसे कहते थे कि 'हरि बोल, बोल हरि'। यदि वह इस प्रकार गोते खाते-न्वाते मर गया, तो वह बड़ा भाग्यवान् समझा जाता था और यदि नहीं मरा, तो वहीं पर अकेले तड़प-तड़पकर मर जाने के जिए छोड़ दिया जाता था। वह घर वापस नहीं लाया जाता था। इस जघन्य प्रथा को ब्रिटिश सरकार ने ई० स० १८३१ में कानून द्वारा बन्द किया।

(११) भृगूत्पन्न। यह प्रथा गिरनार और सतपुड़ा पहाड़ों की धाटियों में प्रचलित थी। वहाँ के नन्युवक अपनी माताओं के द्वारा महादेवजी से की हुई इस मनोती को पूरी करने के लिये कि, यदि इसे सन्तान होगी तो हम अपनी पहली सन्तान से भृगूत्पन्न करावेंगी, पहाड़ की चोटी से गिरकर अपने ग्राण दे डालते थे। इस प्रथा को ब्रिटिश सरकार ने ही बन्द किया।

(१२) धरना। याचक लोग विष या शख्ब हाथ में लेकर गृहस्थों के द्वार पर बैठ जाते थे और उनसे यह कहते थे कि हमारी अमुक कामना को पूरी करो; नहीं तो इम जान दे देंगे। विचारे गृहस्थों को उनकी अनुचित इच्छाएँ भी पूरी करनी पड़ती थीं। इस प्रथा को ब्रिटिश सरकार ने ई० स० १८२० में कानून से बन्द किया।

हमारे कितने धर्माचार्य यह कहा करते हैं कि भाई, जब से हमने आपने धर्म-पालन में शिथिलता दिखलाई तभी से हमारी यह अधोगति हो गई है। क्या मैं धर्म के इन ठेकेदारों

हिन्दुओं के पतन से पूछ सकता हूँ कि हिन्दुओं ने कौनसी धार्मिक का कारण शिखिलता दिखलाई जिसके कुफल वे आज भोग उनका धर्म है रहे हैं ? क्या उन्होंने जाति-प्रथा को एक धोर सामाजिक कलंक समझकर उसका परित्याग कर दिया है ? क्या उन्होंने लू-आ-कूत को तिलाजलि देकर हिन्दू मात्र का खान-पान एक कर दिया है ? क्या उन्होंने बाल-विधवाओं का पुनर्विवाह अवाध-रूप से प्रचलितकर हिन्दू समाज को भ्रूण-हत्या तथा गर्भपात तटश पैशाचिक पापों से मुक्त कर दिया है ? क्या उन्होंने अपने आत्मीय जनों के मरने पर उनके आद्व में भोजन भट्टों को जिमाना बन्द कर दिया है ? क्या उन्होंने देवताओं के मन्दिर बनवाने तथा उनके राग-भोग में अपनी गाढ़ी कमाई को पानी की तरह वहा देने से अपना हाथ लीच लिया है ? क्या उन्होंने प्रतिदिन प्रातःकाल में भगवती जाह्नवी अथवा कोई अन्य पूतसलिला नदी में अपने करोड़ो जन्म के पापों को प्रक्षालितकर देवमूर्तियों के मस्तक पर जल उड़ा-लना केवल मूर्खता समझकर उसे छोड़ दिया है ? क्या उन्होंने बृद्धिकाश्रम, द्वारका-धाम, रामेश्वर, वैद्यनाथ-धाम, जगद्गाथपुरी आदि तीर्थ-स्थानों की यात्राकर वहाँ के अर्थग्रन्थ तथा जीविकार्थी पंडे-पुजारियों की पूजा करना बन्द कर दिया है ? क्या उन्होंने राम-नवमी, चन्माष्टमी, एकादशी, अनन्त, शिवगात्रि आदि व्रतों के दिन तचत्तम्बन्धित धार्मिक कृत्यों से अपना मुँह फेर लिया है ? यदि नहीं तो फिर हिन्दुओं में कौन-सी धार्मिक त्रुटि आ गई जो उनके अधःपतन का कारण हुई ? सच पूछिये तो धर्म के इन विविध निर्थक आडम्बरों में फँसा रहना ही हमारी वर्तमान अधोगति का एकमात्र कारण है । इसका साक्षी भूमंडल का वर्तमान इतिहास है । जब तक जापान बौद्ध धर्म के चित्रित अनावश्यक आडम्बरों में फँसा रहा तब तक वह किसी गणना के बोग्य न था । पर ज्योही

उतने उक्त आडम्बरों तथा उन्हीं की सदृशा अन्यान्य लुटियों पर लात मारी त्योही वह एक पराक्रमी राष्ट्र के रूप में परिणत होकर अन्यान्य शक्तिशाली राष्ट्रों के भी सम्मान तथा मित्रता का पात्र बन गया। जब तक टक्कों रोक्कान-माझ आदि इस्लामी फन्दे में जकड़ी रही, तब तक वह यूरोपीय राष्ट्रों की हाथि में एक असाध्य रोगिणी बनी रही। पर ज्योही कमालपाशा ने इस्लामीय लुटियों तथा आडम्बरों की कमर तोड़कर मौलवी-मुल्लाओं की जड़ उखाड़ फेंकी त्योही टक्कों का सारा रोग जाता रहा और वह हृष्ट-पुष्ट तथा समुच्चत राष्ट्र के रूप में देख पड़ने लगी। यही इल रूस का भी जानिए? जब तक वह धार्मिक आडम्बरों तथा धर्म के ठेकेदार पादलियों के फेर में पड़ा रहा तब तक वह जारशाही तथा उसके पिट्ठू धर्मगुरुओं के मनमाना अत्याचार के नीचे दबकर सिसकता रहा। पर ज्योही उसने तथाकथित धर्म तथा उसके ठेकेदारों से अपना पीछा छुड़ा लिया त्योही उसके दिन पलट गए।

वर्तमान काल में भारत स्वराज्य-सम्बन्धी एक धोर आनंदोलन से डावाँडोल हो रहा है जिसमें भाग लेने वाले अधिकांशतः अग्रसर जातियों के ही हिन्दू नेता हैं। अतः इस पुस्तक स्वराज्य-चर्चा को बिना तत्सम्बन्धी कुछ चर्चा किए यो ही छोड़ देना अनुचित जान पड़ता है। मैं प्रायः हिन्दू नेताओं को ब्रिटिश सरकार को यह कह-कहकर कोसते हुए सुनता हूँ कि यदि हम स्वराज्य के योग्य नहीं हैं, तो इसका क्रसर ब्रिटिशों का ही है, उन लोगों ने हमारे ऊपर लगभग दो सौ वर्षों तक शासन करके भी हमें स्वराज्य के योग्य क्यों नहीं बनाया? उन्होंने हथियार-कानून (Arms Act) पासकर हमें निरख, निःसहाय तथा नामदं बना डाला; उन्होंने हमारे देश का धन लूट-खसोटकर हमें दरिद्र बना दिया; उन्होंने अपने लिए जो कानूनी वा राजनीतिक

सुविधाएँ रखीं वे हमारे लिए नहीं इत्यादि। क्या मैं स्वार्थ के नशे में चूर होकर इस प्रकार प्रलाप करते हुए अपने देश के पूज्य नेताओं के सम्मुख करवद्ध खड़ा होकर उनसे यह विनीत निवेदन कर सकता हूँ कि वे दूसरों को कोसने के पहले, देवधिं नारद की तरह आइना न मिले तो जल में ही सही, एक बार मुखागविन्द को अवश्य देखें और अपने हृदय पर हाथ रखकर अपनी पाप-कल्पित आत्मा से पूछें कि क्या हमने स्वयं वही, या यों कहिए कि उनसे भी बढ़कर, पाप नहीं किए हैं जिनके कसरवार आज हम ब्रिटिशों को बना रहे हैं? क्या हमने मनमाना रचे धर्मशास्त्रों की दुहाई दे-देकर, जैसा कि इस पुस्तक में पहले दिखलाया गया है, अपने सीधे-साढे सहोदर भाइयों का सर्वस्व अपहरण नहीं किया है? क्या हमने उन्हीं शास्त्रों के बल पर अपने भाइयों को निरब्र, निःसहाय, मनुष्यत्व-हीन तथा चिना पैसे के गुलाम नहीं बना दिया? क्या हमने स्वयं विविध सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक सुविधाओं का उपभोग करते हुए अपने सभे बन्धुओं को उनसे सदा के लिए बंचित नहीं कर दिया है? क्या हमारी स्वार्थ-परायणता, हमारी ठग-विद्या जो ब्रिटिशों के द्वारा समन्भूलित 'ठग' नामक सम्प्रदाय-विशेष की भी विद्या पर पानी फेर देती है, एवं हमारी कुटिल नीति की पराकाष्ठा तभी न पहुँच गई जब हमने भारत-माता के लगभग दस करोड़ लालों को श्वान-शूकर की तरह अछूत करार दे उन्हें इस गिरी दशा में ढकेल दिया कि न मालूम कितनी सहस्राब्दियों से न उनके रहने के घर, न पहनने के कपड़े और न उनके खाने के अज्ञ हैं और इस पर तुरा भी यह कि वे जहाँ जाते वहाँ ही दुत्कारे जाते हैं। इनकी दर्दनाक अवस्था तब देखने में आती है जब वे किसी सर्वांहिन्दू के घर भोज के अवसरों पर बाहर फौंके हुए जूठे पतलों के लिए गिर्दों और चीलों की तरह छोना-झपटो करते हैं। इनके लिए सदा महँगी है; इनके लिए सदा

अकाल है; इनके लिए सदा दुर्भिज्ञ है; इनके लिए सदा गिरानी है। और क्या कहूँ ? निखिलैश्वर्य-परिपूर्णा तथा मधुदुर्घ-प्रसविशी अतः कामवेनूपमा यह भारत-भूमि इन अभागों के लिए सदा दरिद्रा और शुष्का रही। हमने अपने इन गिरे हुए भाइयों पर कई सहस्राबिदयों तक एक सभ्यमन्य शासन खुदकर इन्हें किस योग्य बनाया ? इनके उद्धार के लिए हमने स्वयं कौन-सा प्रयत्न किया, जो आज हम इस विदेशी सरकार को अपनी अयोग्यता का जिम्मेवार ठहरा रहे हैं ? भारत की इस पृथ्य-भूमि को कितने महायुरुषों ने अपने शुभ जन्म से अलंकृत किया है जो ईश्वर के अवतार तक कहे गए और जिनकी सुति में दीनबन्धु, कृपासिन्धु, पतित-पावन आदि जैसे महिमा ध्योतक शब्दों का प्रयोग हुआ करता है। यहाँ कितने ऐसे दार्शनिकों का भो प्रादुर्भाव हुआ है जिन्होंने 'शुनि चैव श्वपाके च परिदत्ताः समदर्शना' : आदि जैसे उच्च सिद्धान्तों का प्रचार किया है; तथा कितने ऐसे वीर और रण-वीर्कुरे देशभक्तों का भी जन्म हुआ है जिन्होंने अपनी मातृ-भूमि के उद्धारार्थ अपने प्राणों तक को भी न्यौछावर कर दिया है। पर शोक के साथ कहना पड़ता है कि राम और कृष्ण की दीनबन्धुता, कपिल और व्यास के दर्शन तथा अर्जुन और भीम, एवं राणा प्रताप और शिवाजी की बहादुरी हमारे देश के गिरे भाइयों के लिए किस काम की सिद्ध हुई ? उनके कारण इन विचारों की हीनावस्था में कौन-सा सुधार हुआ ? अतः उन नर-रत्नों के प्रति ये ममता-शून्य हो; उन्हें ये अपने नहीं बल्कि विराने समझते हीं तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ? ब्राह्मण-विद्वानों का प्रखर पारिदृत्य तथा क्षत्रिय बहादुरों की रण-दुर्दर्शिता भले ही उनके जाति वालों के हृदय में गर्व की गंगा बहाकर उनका मस्तक कँचा कर दे; पर अन्य जाति वालों को इससे क्या सम्बन्ध ? वे क्योंकर दूसरी जाति की कीर्ति से अपने को गौरवान्वित समझें ?

वे क्योंकर उन लोगों की कीर्ति को अपनी कीर्ति समझें, जिन लोगों ने उन्हें लाभ के बदले असीम हानि पहुँचाई है? अभी कुछ दिन हुए कि महात्मा गान्धी की प्रेरणा से जो कांग्रेसी जीवों ने हरिजनों की गन्दी से भी गंदी कांपड़ियों तक को खुद अपने हाथों में काढ़ लेकर साफ़-सुथरी की थी, वह केवल एक राजनीतिक चाल थी,—एक दोग था। देशकालज्ञ तथा अनुभवी हरिजन नेता बखूबी जानते थे कि उनकी यह जो आज खुशामद हो रही है; उन्हें 'भाई-भाई' कहकर यह जो आज गले लगाया जा रहा है, जैसा कि पूर्व काल में कभी नहीं हुआ था, वह केवल बनावटी होती हुई विदेशी शासन का ही फल है, जिसके भारत से विदा होते ही उनके साथ 'पुनरपि मूर्खिको भव' के न्यायानुसार पहले का सा ही व्यवहार बरता जाएगा। महात्मा गान्धी एक वास्तविक महात्मा है। वे अपनी ही तरह दूसरों को भी शुद्ध हृदय समझते हैं। उनकी कल्पना में यह बात कभी भी नहीं आती कि उनके तथाकथित अधिकारी भक्त ऊपर से मेमने की खाल आँढ़े हुए भीतर से भयंकर भेड़िए हैं जो अनुकूल अवसर पाते ही अपना बनावटी वेष उतार फेंकेंगे और अपना वास्तविक हिंसा-रूप धारणकर निर्वलों का चिराभ्यस्त मनमाना शिकार शुरू कर देंगे। अतः स्वराज्य-प्राप्त्यर्थ देश में धूम मचाने वाले महाशयों को मैं स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूँ कि इस ध्येय की पूर्ति में किए हुए उनकी सारी उछल-कूद तब तक विफल होती रहेगी जब तक हमारे यहाँ उन धर्मशास्त्रों का मान होता रहेगा, जिन्होंने हमें अपने बन्धु-वान्धवों के जन्म-सिद्ध अधिकारों को दबाकर बैठ जाने की कुशिक्षा दी है। उन्हें जान लेना चाहिए कि हमारी स्वाधीनता के नाश का कारण कोई बाहरी वस्तु न होकर हमारे वे ही धर्मशास्त्र हैं जिनकी कलई इस पुस्तक में खोली गई हैं। अतः देश की मंगल-कामना करने वाले प्रत्येक हिन्दू का कर्तव्य है कि वह फौरन से

पेश्तर इन धर्मशास्त्रों की पोथियों को ले जाकर किसी अजायब-घर के ताक पर अपने पूर्वजों की अदूरदर्शिता के स्मारक-स्वरूप सदा के लिए रख छोड़े। स्वराज्य और हिन्दू-धर्म, ये दोनों एक दूसरे के आग और पानी के समान, घोर शत्रु हैं। जहाँ एक है वहाँ दूसरा नहीं। अतः जो स्वराज्य के भूखे हों वे इस धर्म से अपना पिश्च छुड़ा लें। अथवा जो इस धर्म के भक्त हों वे स्वराज्य की और भूलकर भी न ताकें; क्योंकि इस धर्म के रहते उन्हें स्वराज्य कभी भी नसीब नहीं हो सकता और यदि काकतालीय न्यायवत् उन्हें भाग्यवश कहीं स्वराज्य मिल भी गया, तो वह स्थायी न हो सकेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपकी स्वतंत्रता को कोई अपहरण न करे, तो आप दूसरों की भी स्वतंत्रता पर अनुचित आक्रमण करना छोड़ दें। और यदि आप चाहते हैं कि आपके साथ कोई अनुचित बर्ताव न करे जिसे आप नहीं चाहते, तो आप भी दूसरों के साथ उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई अनुचित बर्ताव करना छोड़ दें। यदि आप लोग अपने तथाकथित धर्मशास्त्रों के कृटनीति परिपूर्ण तथा स्वार्थ कलंकित आदेशों पर लात मारकर खुशी से अपने गिरे भाइयों को समानता तथा इनके मनुष्योचित अधिकारों को शीघ्र नहीं प्रदान करेंगे, तो ये लोग स्वयं ही उनको बिना प्राप्त किए नहीं छोड़ेंगे। अब आप लोगों का लबड़घोंघो अधिक दिन तक नहीं चल सकती।

पुस्तक के उपसंहार-स्वरूप में जाति-प्रथा के भविष्य पर कुछ कहकर अब इसे समाप्त करना चाहता हूँ। हिन्दू जाति की जीवन-रक्त-शोषिणी इस घोर पिशाची का मूलोच्छेदन जाति-भेद मिटाने करने के लिए गौतम बुद्ध से लेकर आज तक न के उपाय मालूम कितने बार सुधारकों ने इस पर प्रचंड प्रहार किये; पर वे इसका तनिक भी बाल बाँका न कर सके। यह आज भी पूर्ववत् फली-फूली देखी जा रही है। इसका एक

कारण यह है, जैसा कि मैं पहले कह आया हूँ, कि इस प्रथा के बल पर जो जातियाँ नाना प्रकार की सामाजिक सुविधाओं का उपभोग अनायास ही कर रही हैं उन्हीं के हाथ में घन, पृथ्वी, अधिकार आदि सब कुछ हैं और वे उन सुविधाओं को अपने हाथ से निकल जाने की आशंका से इसे उठाना नहीं चाहतीं और जो निर्वल जातियाँ हैं वे इस प्रथा को उखाड़ फेंकने में पूर्णतः असमर्थ हैं। दूसरा कारण है हमारी स्थिति-विवशता। हम जिस स्थिति में एक बार पड़ जाते हैं उसके हम दास बन जाते हैं। वह इस प्रकार हमें घर कर लेती है तथा समारी प्रकृति का एक अंग बन जाती है कि उसके बुराइयों के जानते तथा उनके कुफल-स्वरूप नाना दुखों को भेलते हुए भी उससे पिंड छुड़ाना हमारे लिए कठिन हो जाता है। इस प्रथा ने, हमारे चिरकाल तक इसको मानते रहने के कारण, हमें इस प्रकार अपने चंगुल में फँसा रखा है और हमारी अन्तरालमा पर अपने कुसित प्रभाव का जाल इस प्रकार बिछा दिया है कि इससे होती हुई हानियों को देखते हुए भी हमसे इसे उठाकर फेंक देना पार नहीं लगता। हमारी दशा उन शरावियों तथा अफीमचियों की-सी है जो शराव और अफीम के दुर्गुणों को जानते तथा उनके दारण परिणामों को भोगते हुए भी उनका अपनी कुटेव से पहला छुड़ाना एक दुष्कर कार्य हो जाता है। स्थिति-विवशता की इस दुर्भेद्य बेड़ी को तोड़-फेंकना एक असीम साहस तथा अतुल आत्मिक बल का काम है जो सर्वसाधारण में नहीं पाया जा सकता। अतः इस पिशाची को एकाएक मार भगाना मानव-शक्ति के बाहर-सा प्रतीत होता है। पर हाँ, यदि प्रत्येक हिन्दू यह प्रतिज्ञा कर ले कि वह ब्राह्मण से लेकर भंगी पर्यन्त किसी को भी केवल उसकी जाति के कारण उच्च वा नीच, पूज्य वा अपूज्य, अथवा किसी भी विशेषाधिकार के योग्य वा अयोग्य नहीं मान सकता, तो इस पिशाची की कराल तथा तीक्ष्ण

डाढ़े बहुत कुछ कुट्टित हो जायेंगी और जाति प्रथा-पोषणी हमारी मनोवृत्ति के इस परिवर्तन के साथ-साथ उसको आहार मिलना बन्द हो जाएगा जिसके फल-स्वरूप वह भोजनाभाव से चिना मारे आप ही मर मिटेंगी ।

जाति-भेद को मिटाने के लिए कुछ लोग यह सुझाव पेश करते हैं कि पहले उपजातियों को मिटाना चाहिए । जिन लोगों का यह विचार है कि वह समझे हुए हैं कि उपजातियों के रहन-सहन में मूलजातियों की अपेक्षा अधिक सादृश्य है । पर उनकी यह कल्पना ग़लत है । मद्रास और बंबई के निरामिष भोजी ब्राह्मणी और बंगाल के आमिष भोजी ब्राह्मणों में कौन-सा सादृश्य है ? इसके विपरीत, भोजन के विषय में जैन, मारवाड़ी आदि वैश्य जातियाँ मद्रास और बंबई के निरामिष भोजी ब्राह्मणों के साथ अधिक सादृश्य रखती हैं । बौद्धिक-विकास में भी यही उलटी बात देखी जाती है । उत्तर भारत के वैश्य और कायस्थ अपने बौद्धिक-विकास के कारण मद्रास और बंबई के ब्राह्मणों के बराबर हैं । अब कहिए, किनका संमिश्रण किया जाए ? एक जाति की उपजातियों का वा भिन्न जातियों की उपजातियों का ? यदि उपजातियों का संमिश्रण संभव भी हो, तो इस बात की कौन-सी गारंटी है कि उपजातियों को तोड़ देने से जातियाँ भी ज़रूर टूट जाएँगी । संभव है कि उपजातियों के टूटने के साथ ही काम बन्द हो जाए और मुख्य जातियाँ अधिक संगठित तथा प्रबल होकर अधिक अनिष्ट करने लगें । अतः यह उपाय न साध्य है और न सिद्धि है ।

कुछ लोगों की यह सम्मात है कि जाति-भेद को नष्ट करने के लिए पहले अन्तर्बर्णीय सहभोज प्रारम्भ किए जाएँ । पर यह उपाय भा.इष्ट-सिद्धि के लिए यथेष्ट प्रबल नहीं है । अनेक जातियाँ ऐसी हैं जिनमें सहभोज होता है; पर यह सब किसी के अनुभव

की धार है कि सहभोज जाति-मेद के भाव और चेतना को नष्ट करने में सफल नहीं हुआ। कुछ लोगों का स्वाल है कि जाति-मेद को भिटाने का वास्तविक उपाय अन्तर्बर्णीय विवाह है। केवल रक्त का मिश्रण ही स्वजन और मित्र होने का भाव पैदा कर सकता है। जब तक मित्र तथा भाई-बन्धु होने का भाव प्रधान नहीं होता, जाति-मेद द्वारा उत्पन्न किया हुआ वियोजक भाव कभी दूर न होगा। अन्तर्जातीय विवाह के सिवा अन्य कोई भी उपाय जाति-मेद को भिटाने में कारगर नहीं हो सकता।

यह उपाय तो सिद्धान्त-रूप से सोलहो आने ठोक ज़ंचता है; पर इसको व्यवहार-रूप में लाना उतना सरल नहीं है जितना इसको कह देना; क्योंकि कहावत है—‘विष्णु के गले में घंटी कौन बांधेगा’। जिस हिन्दू समाज में केवल जाति के ही विचार से एक दूसरे का अन्ध-जल तक का ग्रहण करना अधर्म समझा जाता है उस हिन्दू समाज से यह आशा करना कि वह अन्तर्जातीय विवाह को शुद्ध अन्तःकरण से स्वीकार करेगा वन्ध्यानर्थ से पुत्र-प्राप्ति की आशा करने के तुल्य है; कारण कि हिन्दू के लिए उसकी जाति ही धर्म है; उसकी जाति ही कर्म है; उसकी जाति ही स्वर्ग है; उसकी जाति ही ईश्वर है; उसकी जाति ही सब कुछ है। वह अपनी जातिनक्षा के लिए सब कुछ खोने को सदा तैयार है। यो तो हर युग में कुछ इने-गिने अन्तर्जातीय विवाह सामान्य प्रथा के अपवाद-स्वरूप हो ही जाया करते हैं; पर क्या कारण है कि हिन्दुओं की एक बड़ी संख्या जात-पाँत तोड़कर रोटी-बेटी का सम्बन्ध नहीं करती? क्या कारण है कि जात-पाँत-तोड़क आन्दोलन सफल नहीं होता? इस प्रश्न का केवल एक ही उत्तर है कि जात-पाँत तोड़कर रोटी-बेटी का सम्बन्ध करना उन विश्वासी तथा सिद्धान्तों के विषद है जिन्हें हिन्दू पवित्र मानते हैं।

पर जाति-भेद को मानने में बेचारे हिन्दुओं का कुछ कसूर नहीं। वे जाति-भेद को इसलिए नहीं मानते कि वस्तुतः वे कूर तथा हृदय-हान हैं; बल्कि वे इसे इसलिए मानते हैं कि उनका धर्म, जो उनको अपने प्राणी से भी प्यारा है, उन्हें जाति-भेद को मानने के लिए विवश करता है। अतः कसूर है उन धर्म-अन्यों का जिन्होंने उनकी ऐसी मनोवृत्ति कर दी है। जाति-भेद का समूलोत्पाटन करते समय हमें जिन शत्रुओं का सामना करना है वे इसके मानने वाले लोग नहीं हैं; बल्कि वे धर्म-शास्त्र हैं जो उन्हें इस वर्ण-भेद का धर्मोपदेश देते हैं। अतः जाति-भेद रूपी इस सामाजिक कोड़ की सच्ची दबा तो यह है कि उन धर्मशास्त्रों की पवित्रता में ही लोगों का विश्वास नष्ट कर दिया जाए। लोगों के आचरण उन विश्वासों के परिणाम-मात्र हैं जो शास्त्रों ने उनके मन में बैठा दिए हैं। लोग तब तक अपने उस आचरण को नहीं बदल सकते जब तक कि उनका विश्वास उन शास्त्रों से हट नहीं जाता जो उनके आचरण के आधार हैं। अन्तर्जातीय सहभोजी तथा विवाहों के लिए आनंदोलन करना केवल कृतिम उपायों से ज़बर्दस्ती मुँह में भोजन ठूँसने के समान है। अतः हिन्दू जाति के सुधाराकांक्षी प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह हिन्दू धर्मशास्त्रों की धर्मियाँ उड़ाना शुरू कर दे, जैसा कि इस पुस्तक में किया गया है और तब तक दम न ले जब तक हिन्दुओं के मस्तिष्क में विषेले काटागुओं की तरह मुसे हुए उनके कलुषित उपदेशों का प्रभाव नष्ट न हो जाए।

अब वाक् छुल से काम लेने में कुछ कायदा नहीं। लोगों को यह कहने से कुछ भी लाभ नहीं कि शास्त्र वह चात नहीं कहते जिसमें तुम विश्वास किए बैठे हो। महत्त्व की बात यह नहीं कि व्याकरण की दृष्टि से पढ़ने अथवा तर्क की दृष्टि से व्याख्या करने पर, शास्त्र क्या कहते हैं। वरन् महत्त्व की बात तो यह है कि लोग शास्त्रों

का क्या अर्थ लेते हैं। अतः हमें शास्त्रों के प्रति वही रुख धारण करना चाहिए जिसे महात्मा बुद्ध तथा गुरु नानक ने धारण किया था। हमें उन्हीं महात्माओं की तरह शास्त्रों को प्रामाणिक या धर्म-ग्रन्थ मानने से सांकेतिक इन्कार कर देना चाहिए। हमें साहस के साथ हिन्दुओं से यह कह देना चाहिए कि तुम्हारी सारी खराबियों की जड़ वे ही धर्म-ग्रन्थ हैं जिन्होंने तुम्हें जाति-भेद की पवित्रता की भूठी भावना उत्पन्न कर रखी है। यदि इतना कह देने पर भी कोई हठबश्य उन ग्रन्थों को प्रामाणिक ही मानता रहे तो उससे उन्हीं ग्रन्थों के आधार पर उसकी ही जाति की उत्पत्ति की पोल खोल देना चाहिए जैसा कि इस पुस्तक में किया गया है। ऐसा करने से उसकी जाति-विषयक भावना धीरे-धीरे बदल जाएगी और वह जाति के कारण किसी को उच्च या नीच मानना छोड़ देगा। जाति-विषयक विवाद में जाति-भेद वा जाति के कारण किसी को व्यर्थ ही उच्च वा नीच मानने वाले प्रतिपक्षी पर प्रहार करने के लिए उसकी जाति ही एक ऐसा मर्म-त्थल है जिस पर प्रहार होते ही वह चित्त हो जाएगा।

मैं पूर्व में कह आया हूँ कि सारा हिन्दू समाज दो बगों में विभक्त है—(१) शासक-वर्ग और (२) शासित-वर्ग। ब्राह्मण और द्वितीय शासक-वर्ग के तथा वैश्य और शूद्र शासित-वर्ग के सदस्य हैं। जो शासक-वर्ग है वही देश का सज्जाधारों वर्ग है। उसी के हाथ में धन, पृथ्वी, अधिकार आदि सब कुछ है। और जो शासित-वर्ग है वह उन वस्तुओं से वंचित है। आप कह सकते हैं कि वैश्य जाति तो अच्छी हालत में है। इस जाति में अनेक करोड़पति सेठ-साहू कार हैं जो अपने धन-बल से समाज पर काफ़ी प्रभाव रखते हैं। उसके अतिरिक्त कितने ऐसे भी शूद्र समझों जाने वाली जातियों के सदस्य हैं जो देश में हुक्मस्त करने वाले सरदार हैं। अतः हिन्दू-

समाज का उक्त विभाजन ठीक नहीं ज़चता । पर इसे बतलाने के पूर्व कि वैश्यों और शूद्रों के दिन कब पलटें, उक्त शंका के समाधान में मैं यहीं केवल यहीं कह देना चाहता हूँ कि ब्राह्मण-क्षत्रिय चाहे कितनी ही गिरी और वैश्य-शूद्र चाहे कितनी ही उच्चत दशा में हों, पर उनके जाति-नामों के साथ जो कर्मशः उच्चता तथा नीचता की भावना एक बार सम्बद्ध हो चुकी है उसको उखाड़ फेंकना, जैसा कि पहले कहा गया है, असम्भव-सा हो गया है । यहीं कारण है कि दरिद्र से दरिद्र तथा मूर्ख से मूर्ख ब्राह्मण-क्षत्रिय भी धनविद्या से समृद्ध वैश्य-शूद्र को भी छोपने वरावर महीं मानते । उच्चता की भावना जो एक बार ब्राह्मण-क्षत्रिय के दिमाग में अपना घर कर चुकी है उसे वहाँ से हटा देना सुकर नहीं है । अतः जाति-भेद के व्यंसन-कार्य में ब्राह्मण-क्षत्रिय का सहयोग प्राप्त करने की आशा करना व्यर्थ है । अनुभव बताता है कि गौतम बुद्ध के समय से लेकर वर्तमान काल तक जितने ऐसे सम्प्रदायों की सृष्टि हुई जिन्होंने जात-पाँत के भेद भाव को मिटाकर अपने सदस्यों के बीच समता का भाव स्थापित करना चाहा उन सबमें ब्राह्मण-क्षत्रिय की अपेक्षा वैश्य-शूद्र ही अधिक संख्या में सम्मिलित हुए । चौद्द काल में सामाजिक समता के आकांक्षी होकर वैश्य-शूद्र ने ही विपुल संख्या में चौद्द मत को ग्रहण किया था । वर्तमान काल में ब्राह्मणसमाज, आर्यसमाज, राधास्वामीसम्प्रदाय आदि विविध सम्प्रदायों के सदस्यों की नामावली उनके दफ्तरों से लेकर यदि आप पढ़ें, तो आप देखेंगे कि उनमें सम्मिलित होने वाले वैश्य-शूद्र ही अधिक हैं । ब्राह्मण-क्षत्रिय की संख्या अति ही अल्प है जो उंगलियों पर गिनी जा सकती है । ब्राह्मण-क्षत्रिय साजनेतिक तथा आर्थिक सुधार में भले ही भाग ले लें; पर जाति-भेद तोड़क अन्दोलन में उनका उदासीन रहना स्वामार्थिक है । इतना ही नहीं; यदि उनका चले तो ऐसे

आनंदोलन को हर सूरत से दबाना भी उनका स्वाभाविक कर्म होगा। जाति-मेद-तोड़क आनंदोलन को तो अभी एक और रहने दीजिए और अपनी निगाह आजकल के उन आनंदोलनों की ओर दौड़ाइए, जिनके द्वारा कतिपय शूद्र समझी जाने वाली जातियाँ ब्राह्मण-क्षत्रिय बनने की घोषणा कर रही हैं। क्या ये आनंदोलन स्वाननदानी ब्राह्मण-क्षत्रियों को कभी सह्य हो सकते हैं? कभी नहीं। हम लोग समाचार-पत्रों में प्रायः पढ़ा करते तथा ऐसे भी सुना करते हैं कि अमुक माँव के कुछ कहारों ने अपने को क्षत्रिय घोषित कर जनेके धारण कर लिया था, जिस पर वहाँ के क्षत्रिय जमान्दारों ने उन बेचारों को खूब पीटा और उनके जनेक भी तोड़ डाले। मुकहमा हुआ; पर दर के मारे किसी ने गवाही न दी; अतः वह खारिज हो गया। दिलातों में जाने पर आप देखेंगे कि वहाँ ब्राह्मण-क्षत्रियों के आतंक के मारे वैश्य-शूद्र उनके सामने चारपाईं पर बैठने, अच्छी पोशाक पहनने तथा घोड़े आदि सवारी पर चढ़कर चलने नहीं पाते। आप पूछ सकते हैं कि क्या ब्राह्मण-क्षत्रिय जाति-मेद के विषये परिणाम को नहीं जानते जो वे इसके मिटाने पर सहमत नहीं होते? मेरा उत्तर है कि वे जानते हैं कि जाति-मेद के कारण ही उनकी राजनैतिक स्वतंत्रता मिट्टी में मिल गई और उनका देश सदियों से पराधीनता की दुर्भेद्य बेड़ियों में जकड़ा रहकर कराह रहा है; पर मानव-जाति का स्वाभाव ही कुछ ऐसा होता है कि वह जिस अधिकार का रस एक बार चख लेता है उसे वह स्वोना नहीं चाहता। ब्राह्मण-क्षत्रिय इस बात को अच्छी तरह महसूस कर गये हैं कि जाति-मेद मिटाने का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है उनके सारे जातीय महसूस पर एक बारगी पानी केर देना जो उनके लिए असह्य है। उन्हें गुलामी कबूल है पर सामाजिक समता नहीं।

जाति-मेद को तोड़ने में जो एक और अड़चन है उसकी ओर

मी मैं पाठकों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। वह है हिन्दू समाज के अन्तर्गत विविध जातियों का एक दूसरे के ऊपर क्रमबद्ध विन्यास; जैसे ज्ञात्रिय यदि ब्राह्मण से नीचे हैं तो वह वैश्यादिकों से ऊपर है; वैश्य यदि ब्राह्मण-ज्ञात्रियों से नीचे है तो वह शूद्रों से ऊपर है इत्यादि। यह उच्च-नीच का भाव हार्दिकतम् तक भी आपस में पूरा फैल गया है; जैसे भंगी अपने को धोती में उच्चम समझता है। इतना ही नहीं। जातियों के इस क्रम-विन्यास के साथ-साथ उनके सामाजिक और धार्मिक अधिकारों का भी क्रम-विन्यास हो गया है; अथात् विविध जातियों की इस क्रम-बद्ध शृंखला में जिस जाति का पद जितना ऊँचा या नीचा है, उसके अधिकारों की संख्या भी उतनी ही अधिक या कम है। फल यह होता है कि प्रत्येक जाति अपने को किसी न किसी दूसरी जाति से उच्चम होने का अभिमान करती है और वह अपने से ऊपर वाली जाति के साथ रोटी-बेटी का संबन्ध स्थापित करना तो चाहती है पर वह अपने से नीचे वाली जाति के साथ नहीं रहना चाहती। यह जाति शृंखला सब लोगों को मिलकर जाति-मेद के विशद संगठित नहीं होने देती। इस शृंखला ने जिस चालाकी के साथ विभिन्न जातियों में अधिकारों का बढ़वारा किया है जिससे किसी को अधिक तो किसी को कम मिले हैं, उसको देखते हुए आप सभी हिन्दुओं को जाति-मेद के किले पर दृढ़ पड़ने के लिए अपनी सेना में नहीं भरती कर सकते। अतः जाति-मेद को मिटाना एक सरल कार्य नहीं है। ही इसकी कठोरता को, जैसा कि मैं पहले कह आया हूँ, इम इस प्रकार क्रम कर सकते हैं कि सभी जातियों की पोल खोलकर उनकी धर्जियाँ उड़ा दी जाएँ और केवल जाति के कारण किसी को भी उच्च या नीच, पूज्य या अपूज्य मानने की बात को छोड़ देने की प्रतिशा कर ली जाय। तब संभव है कि यह जाति-प्रथा आप से आप कुछ काल

में धीरे-धीरे मर मिटे। अथवा नहीं तो जाति का पूछना और जाति का बतलाना अर्थात् जाति-नाम के द्वारा परिचय देना और लेना दोनों को ही कानून से दंडनीय करार कर दिया जाए। इसके सिवा कोई अन्य उपाय नहीं दीखता। इस प्रकार जाति-नामों के लुप्त हो जाने पर अन्तर्जातीय विवाह या भोजन के प्रश्न उठेंगे ही नहीं; क्योंकि इस दशा में सभी सजाति हो जाएंगे।

इस विषय में पष्ठ परिच्छेद में कुछ कह चुका हूँ जिससे पाठकों को मालूम हो गया होगा कि ये दोनों जातियाँ शुद्ध ब्राह्मणी

**वैश्य-शूद्रों** के अच्छे दिन वहाने से चौनकर इन्हें कभी पनपने नहीं दिया गया।  
कब आये इनकी भेंड-मूड़न बरावर जारी रही। इनके पीठ पर

कभी रोएं जमने नहीं पाए। पर जब बौद्ध काल का शुभागमन हुआ तभी इन्हें अच्छे दिन देखने को मिले। बौद्ध साहित्य के अध्ययन से पता चलता है कि उस काल में यह देश अनेक धन-कुपेर तेठों और साहूकारों से मरा था। वैश्यों और शूद्रों ने सामाज्य तक स्थापित कर लिए थे। बौद्ध काल से ही भारत का विदेशियों के साथ सम्पर्क शुरू हुआ। तभी से विदेशी लोग भारत में आकर अपना राज्य स्थापित करने लगे। इनमें से कुछ विदेशी तो, जैसे शक, हूण, गुजर आदि जो बौद्ध काल में आये, हिन्दू धर्म तथा हिन्दू-संस्कृति को अपना कर हिन्दू जाति में मिल गये। पर कुछ ऐसे विदेशी भी आये, जैसे मुसलमान और ब्रिटिश, जो भारत पर अपना एकछत्र सामाज्य स्थापित कर चिरकाल तक शासन करते रहने पर भी हिन्दू-संस्कृति को अपनाने के बदले अपनी संस्कृति की बहुत कुछ छाप हिन्दू-संस्कृति पर ढाल दी और यहाँ की शासन-पद्धति में पर्याप्त परिवर्तन कर डाला। इसका फल यह हुआ कि ब्राह्मणी-

शासन को कानूनी कूरता बौद्ध काल की तरह मुस्लिम तथा ब्रिटिश काल से भी कुठित होकर पुनः अपने मौलिक रूप को न प्राप्त कर सकी और वैश्य-शूद्रों के जान-माल की रक्षा हुई अर्थात् धर्म के नाम पर ब्राह्मणी-द्विषयों के द्वारा उनका लूटा जाना बन्द हुआ। इस कथन में आसत्य की मात्रा तनिक भी नहीं है कि वैश्य-शूद्रों के लिए, ब्राह्मणी-शासन की अपेक्षा अ-ब्राह्मणी-शासन ही, चाहे वह स्वदेशी हो जैसे बौद्ध कालीन शासन अथवा विदेशी हो जैसे मुस्लिम और ब्रिटिश शासन, अधिक अेयस्कर सिद्ध हुआ है; क्योंकि अब्राह्मणी-शासन-काल में ही उनका उन्नति-मार्ग निष्कंटक रहा।

अन्त में मैं अपने विज्ञ पाठकों की सेवा में यह नम्र निवेदन कर देना चाहता हूँ कि इस पुस्तक में मैंने जो कुछ लिखा या तर्क किया है, वह प्रभाग ग्रन्थों के आधार पर ही किया है, जिनका हवाला मैं आदृश्यकतानुसार प्रत्येक स्थान पर देता आया हूँ। जिन्हें किसी

प्रकार की शंका हो, वे उसके समाधान के लिए

**अन्तिम निवेदन** उक्त ग्रन्थों को लेकर स्वयं देख लें। इस पुस्तक के लिखने में मैं केवल इसी सद्भावना से प्रेरित हुआ हूँ

कि सभी हिन्दू परस्पर का भेदभाव एक और रखकर अपनी इस जीर्ण-शीर्ण भारत-माता के उदार में कठि-वद्ध हो जाएँ तथा कोई भी किसी को धोखे में डालकर स्वार्थ-साधन की कुप्रवृत्ति में रत न रहे। कारण कि यह ज्ञान और तर्क का युग है, धौधली का नहीं। वर्तमान हिन्दू-सन्तान केवल सिंह की खाल ओढ़ लेने वालों को सिंह, केवल मयूर-पक्ष धारणा कर लेने वालों को मयूर अथवा केवल नील के रंग में अपना शरीर रंग लेने वालों को जंगल का राजा मान लेने को तैयार नहीं है। इसके अतिरिक्त मैं इस हिन्दू जाति को यह भी चेतावनी स्पष्ट शब्दों में दे देना चाहता हूँ कि जब तक वह धर्म के नाम पर स्वार्थियों के द्वारा प्रचारित जिन

विविध अन्धविश्वासों में फँसकर वैदिक काल से लेकर आज तक सहिती आई, उनसे शीघ्रातिशीघ्र अपना पिंड छुड़ाकर निःशेष धर्मों के मूल-भूत प्राणिभाव के प्रति अहिंसा, विश्व-बन्धुता, सच्ची नागरिकता एवं शुद्ध राष्ट्रीयता की भावना को ही वास्तविक धर्म समृक्षकर उसे नहीं अपनाएगी तब तक उसका उद्धार होना केवल कठिन ही नहीं, असंभव है।

---

## आधार-ग्रन्थावली (BIBLIOGRAPHY)

- |                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| ( १ ) कृष्णवेद            | ( २३ ) पद्मपुराण              |
| ( २ ) वज्रवेद             | ( २४ ) वह्निपुराण             |
| ( ३ ) अथववेद              | ( २५ ) ब्रह्मचैवतंपुराण       |
| ( ४ ) तैत्तिरीय ब्राह्मण  | ( २६ ) माकंशडेयपुराण          |
| ( ५ ) गोपय ब्राह्मण       | ( २७ ) लिङ्गपुराण             |
| ( ६ ) वृहदारण्यक          | ( २८ ) वायुपुराण              |
| ( ७ ) पारस्कर-यज्ञसूत्र   | ( २९ ) विष्णुपुराण            |
| ( ८ ) आपस्तम्ब-यज्ञसूत्र  | ( ३० ) भविष्यपुराण            |
| ( ९ ) इंशोपनिषद्          | ( ३१ ) श्रीमद्भागवत           |
| ( १० ) कठोपनिषद्          | ( ३२ ) आध्यात्म रामायण        |
| ( ११ ) वज्रसूच्ययुपनिषद्  | ( ३३ ) आचार निर्णय तंत्र      |
| ( १२ ) श्वेताश्वतरोपनिषद् | ( ३४ ) शक्तिसंगम तंत्र        |
| ( १३ ) भगवद्गीता          | ( ३५ ) विष्णु रहस्य           |
| ( १४ ) निकक               | ( ३६ ) वृद्धज्ञारदीय          |
| ( १५ ) मनुस्मृति          | ( ३७ ) रुद्रसंहिता            |
| ( १६ ) याज्ञवल्क्य-स्मृति | ( ३८ ) नीति शतकम् (मनुवृहिरि) |
| ( १७ ) अष्टदशा-स्मृति     | ( ३९ ) सारुल्य-कारिका         |
| ( १८ ) दशकर्म-पद्धति      | ( ४० ) न्याय-दर्शन            |
| ( १९ ) चाल्मीकीय रामायण   | ( ४१ ) तकङ्गकाशिका            |
| ( २० ) महाभारत            | ( ४२ ) मद्विकाव्य             |
| ( २१ ) हरिवंश             | ( ४३ ) स्खवंश                 |
| ( २२ ) स्कन्दपुराण        | ( ४४ ) मेघदूत                 |

- (४५) शिशुपाल-बम  
(४६) मुद्रारात्रि  
(४७) कुमार सभव  
(४८) सुन्दरकिंक  
(४९) उत्तर रामचरित  
(५०) अग्मर-कोण  
(५१) संस्कृत-श्रीगणेशो कोष ( आप्टे )  
(५२) शब्द कल्पद्रुम ( यंज्ञाकुर संस्करण )  
(५३) हिन्दी विश्वकोष  
(५४) अष्टाभ्यासो ( पास्थिनि )  
(५५) महाभाष्य ( पाठञ्जलि )  
(५६) जाति-मास्कर ( पं० ज्वाला- प्रसाद मिश्र; संवत् १६७४ )  
(५७) जाति-विवेक  
(५८) जाति-विवेकाध्याय  
(५९) वर्णविवेक चन्द्रिका  
(६०) कायस्थ मार्मासा  
(६१) ग्राम्य-निर्णय ( पं० छोटे- लाल शर्मा; संवत् १६७३ )  
(६२) ब्रह्मणोत्पत्ति मार्त्यर्ग ( पं० हरिकृष्ण शास्त्री; संवत् १६७१ )  
(६३) जाति-मेद का उच्छ्रेद ( श्री आम्बेडकर; ई० स० १६३७ )  
(६४) मूल भारतवासी और आर्य ( स्वामी बोधानंद; ई० स० १६३० )  
(६५) जाति-अन्वेषण, प्रथम भाग ( पं० छोटे लाल शर्मा; संवत् १६७१ )  
(६६) सप्तर्वडी जाति-निर्णय ( पं० छोटे लाल शर्मा ई० स० १६२३ )  
(६७) ग्राम्य समाज की हितत ( श्री सहजानन्द जी; संवत् १६८१ )  
(६८) कायस्थ कुलमास्कर ( पं० लक्ष्मीनारायण दिं०; ई० स० १६०४ )  
(६९) कायस्थ धर्म-दर्पण ( पं० सुखदेव प्रसाद वाजपेयी; ई० स० १६१४ )  
(७०) ब्रह्मणि वंश विस्तर ( श्री सहजानन्दजी; संवत् १६८१ )  
(७१) भूठा भय और मिथ्या- भिमान ( श्री सहजानन्द जी; संवत् १६८५ )

- (७२) रामचरित मानस (८६) History of Tirthut  
 S. N. Singh, 1922)
- (७३) पृथ्वीराज रासी (८७) Indian Law Re-  
 ports, Patna
- (७४) भूपण कवि की कविता Series, Vol. VI,
- (७५) सुजानसिंह की कविता 1927.
- (७६) समर्थदास की कविता (८८) A book on Eleven  
 Land Grants of
- (७७) वेन कवि की कविता the Chalukyas
- (७८) शातीर (G. Buhler).
- (७९) गयासुल्लोग्रात इतिहास (गुप्तेश्वरनाथ; (८९) A Treatise on  
 Revised Edition)
- (८०) हिन्दी महाभारत मीमांसा Hindu Law (G. C.  
 Sarkar, 6th Edi-  
 tion).
- (८१) सीनियर हिन्दुस्तान का (८१) The Brahmans (S. P. Upadhyaya) (८०) Todd's Rajasthan.  
 Ancient India (८१) J. N. Bhattacharya's Hindu  
 (R. C. Dutt) Castes and Sects.
- (८२) Early History of India including (८२) Risley's Castes  
 Alexander's cam- and Tribes of  
 paigns (V. Smith, Bengal.
- Second Edition) (८३) Elliot's Supple-  
 (८४) The Oxford Stu- mentary Glossary  
 dent's History of India (V. Smith,  
 Eighth Edition)

( ४४ )

- (४४) Foreign Elements (४५) The Indian Penal  
in Hindu Popula- Code.  
tion (Dr. Bhandar- (४६) Deserted Village  
kar.) (Goldsmith.)
- (४७) The Asiatic  
Society Journal  
(M. M. U. Hara  
Prasad Shastri.)



## शुद्धि-पत्र

नोट—पुस्तक पढ़ने के पहले अशुद्धियों को शुद्ध कर लें।

पुष्ट	पंकि	अशुद्ध	शुद्ध
६	२६	सम	हम
१८	१६	श्वेद	श्वेत
२६	१	दन्त	दत्त
२८	११	अच्छिर्चया	अच्छिर्चता
३१	२५	क्षत्रिय	क्षत्रियों
३४	१७	किसी जाति	किस जाति
३७	१०	आलोचना	आलोचनाधीन
३७	१५	पूर्वज	पूर्वज के
४०	२	पंचयो	पंचमो
४३	२३	ब्रह्मसंज्ञकः	ब्रह्मसंज्ञकः
४४	२	शुद्धति	शुद्ध्यति
४६	३	शान	शासन
४८	५	किरणियों	किरणियों
५५	६	वनाए	वताए
५६	२१	एशिया	एशिया
५८	१८	प्रवृत्ति	प्रवृत्त
६८	१७	व्यासकृति	व्यासकृत
७८	२२	सहोर्पितो	सहोपितो
८४	७	आह	आप
८८	१५	पुत्री	पुत्री
९४	२४	रोग का	इस रोग का

पुष्ट	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१३८	२५	सरे	दूसरे
१४०	१	सूर्य-प्रजा	सूर्य-पूजा
१४२	२४	११८-११	११८-१२१
१४६	५	(मत्स्य-भेद)	मत्स्य-भेद
१५८	३	गोमांश	गोमांस
१८०	१६	नीतिशीतोष्ण	नातिशीतोष्ण
१८२	१७	बनाया	बताया
१८४	२०	राष्ट्रो	राज्ञो
२२२	१४	दाशराज्ञ	दाशराज्ञ
२२३	२५	संस्कार	संत्रकार
२२४	६	राजमहर्षियों	राज-महिषियों
२२५	२५	कुन, पै	कूच पै,
२३४	७	लिखा—	लिखा है—
२३४	१६	तदेवं	तवेदं
२७०	२०	तत्रः	तत्रः
२८१	१	नारक की	नारद की
२८८	२०	सुन ध्यया	सुमध्यया
२९६	२४	यम्मेवाचरोत्तमेम्	धर्म्मेवाचरोत्तमम्
३१३	१६	राजत्यः	राजन्यः
३२३	२३	की ब्राह्मणों की	ब्राह्मणों की
३४७	२८	भक्तो	भक्त
३८५	२४	पढ़ने	पन्ने
३८५	२६	उलटे हैं	उलटते हैं
४०१	८	इसी	इसा
४१८	६	समारी	हमारी



Oct 3. 9. 21.

CENTRAL ARCHAEOLOGICAL LIBRARY,  
NEW DELHI

BORROWER'S RECORD

Catalogue No. 177.50954/Raj - 9920.

Author— Shastri, Rajani Kanta.

Title— Hindu Jati Ka Utthana Aur  
Patana, 2nd Ed. 1949.

Borrower No.

Date of Issue

Date of Return

*"A book that is shut is but a block"*

CENTRAL ARCHAEOLOGICAL LIBRARY  
GOVT. OF INDIA  
Department of Archaeology  
NEW DELHI.

Please help us to keep the book  
clean and moving.